


कौनसा विषय ज्ञानदिव आग्नेय वर्ष

(दो भागों में)
भाग २



प्रगति प्रकाशन
मास्को

अनुवादक : योगेन्द्र नागपाल

К. ФЕДИН,
„НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЛЕТО“,
Книга 2
На языке хинди

Konstantin Fedin
NO ORDINARY SUMMER
Part 2

© हिन्दी अनुवाद ० प्रगति प्रकाशन ० १६८१

Φ $\frac{70302-081}{014(01)-81}$ 672-81

4702010200

मेरकूरी अव्देयेविच मेश्कोव को रागोजिन के सामने हाजिर हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ था और उसका मन अभी इस विचार का थोड़ा सा भी आदी नहीं होने पाया था कि उसके सिर पर नंगी तलवार लटक रही है, इतने में फिर से वित्त-विभाग से बुलावा आ गया। मेरकूरी अव्देयेविच मानो सलीब पर चढ़ने चल दिया।

किन्तु बुरी-बुरी आशंकाओं के विपरीत रागोजिन उससे अच्छी तरह मिला। उसकी वातों में प्रोत्साहन का पुट था, हाँ, वातचीत लंबी खींचने की इच्छा उसमें न थी। पता चला कि वैकं में की गई जांच-पड़ताल से मेश्कोव के अपनी पूँजी के बारे में बयान की पूरी तरह से पुष्टि हो गयी है। वह सचमुच ही सब कुछ खो वैठा था। अपने स्वभाव के विपरीत जिस भोलेपन से उसने 'स्वतंत्रता कृष्ण' के वायदों पर भरोसा कर लिया था (और जिसका पहले उसे वेहद अफसोस था), वही अब उसके लिए वरदान सिद्ध हो रहा था। वह कंगाल था और इसलिए निश्चिंत हो सकता था। मेश्कोव जब यह समझ गया कि खतरा टल गया है, तो उसके दिमाग में ख्याल आया: "पहले

कभी भी पैसे ने इन्सान को इस तरह नहीं बचाया है, जैसे कि अब खाली जेव बचा रही है।” ऐसी मुँहफट बात कहने की तो उसकी हिम्मत नहीं हुई, सो उसने इसी विचार को अलंकृत करके पेश किया:

“पहले ज़माने में आदमी बुरे दिनों के लिए भला बचत कैसे न करता? मैंने तो, योत्र पेत्रोविच, आप से कुछ छिपाया नहीं है और छिपाना चाहता, तो भी न छिपा सकता: आपको तो याद है मैं कैसे रहता था। खैर जो बीत गया, सो बीत गया। हां, बुरा मैंने किसी का नहीं किया। जो कुछ भी था मेरे पास मैंने दिन-रात मेहनत करके रत्ती-रत्ती जोड़ा था, और वह भी बस यही सोचते हुए कि बुढ़ापा आयेगा, तो क्या करूँगा। अब हालांकि मेरी एक टांग कन्ध में लटक रही है, तो भी मन निश्चिंत है: सिर छिपाने को जगह मेरे पास रहने दी है, काम मुझे दे दिया है, और अगर हाथ-पांव जवाब देने लगे, तब भी सोवियत सत्ता सभी मेहनतकश नागरिकों की भाँति मेरी देखरेख का इंतज़ाम कर देगी। और भला क्या चाहिए?..”

“अच्छा तो बात यहीं खत्म करते हैं, मेहनतकश नागरिक मेश्कोव,” रागोजिन ने कहा। वह मानो मेश्कोव को समझने की कोशिश करते हुए अपनी पैनी नज़रों से उसकी ओर देख रहा था, माथ ही वह अपना कौतूहल दिखाना भी नहीं चाहता था। शीघ्र ही उसने पूछा: “सोना आपके पास नहीं है, यह बात पक्की है?”

“विल्कुल नहीं है।”

“अच्छा, आपका मामला साफ़ हो गया है। आप चैन से सहकारी दुकान में काम कर सकते हैं। सहकारी दुकान में ही हैं न आप?”

हां, मेश्कोव सहकारी दुकान में ही काम करता था, और उसका व्यान था कि वह रागोजिन को सौ बार यह बता चुका है। उसने आभार प्रकट करते हुए सिर झुकाया। वह खुश था कि सलीब पर चढ़ना नहीं पड़ा और सारा मामला इतनी अच्छी तरह रफ़ा-दफ़ा हो गया, मगर जब वह बाहर निकला, तो उसके मन में विरोध की भावना उठ रही थी। इस आश्वासन से कि वह चैन से नौकरी करता रहे, यह नौकरी उसे और भी बुरी लगने लगी थी। रागोजिन ने मानो उस पर रहम करते हुए उसे यह नौकरी दान में डी थी। और यह रहम उसके लिए बोझ बन रहा था, क्योंकि हर

नुकङ्ग के पीछे उसके लिए जो दस खतरे मुंह वाये खड़े थे, उनमें नौकरी ग्यारहवां खतरा बनकर जुड़ रही थी और यह खतरा भी सबसे भयानक था।

अभी थोड़े दिन हुए कुछ लोग दुकान में आये थे। उन्होंने मेश्कोव को रुक्का दिखाकर ट्रेड यूनियनों के लिए कागज मांगा और पूरी गाड़ी लादकर आराम से चले गये। खाते में आर्डर दर्ज करते हुए मेश्कोव के मन में सहसा ऐसा संशय उठा कि उसके हाथ-पांव ठंडे हो गये और वह टेलीफोन की ओर लपका। तब उसे पता चला कि किसी ट्रेड यूनियन ने माल नहीं मंगाया था और रुक्का फ़र्ज़ी था। बदहवास सा वह भागा-भागा मिलीशिया गया। वहां जब तक रपट लिखी जाती रही, उसे यही लगता रहा कि अब वह यहां से नहीं निकल पायेगा, उसे सीधे जेल भेज दिया जायेगा। दुकान पर लौटकर उसने पाया कि खुफिया विभाग के एजेंट उसका इंतजार कर रहे हैं। इस नये डर से तो वह बेहोश ही हो चला था। पर तभी पता चला कि एक सुखद संयोग ने उसे बचा लिया है। हुआ यह था कि शहर के वाहरी इलाके में इन एजेंटों ने माल से लदे छकड़े को एक घर के अहाते में धुस्ते देखा। इन्हें कुछ शक हुआ और उन्होंने छकड़े को रोक लिया। अब ये एजेंट मामले की गांठ खोलने यहां दुकान में आये थे। मेश्कोव की निर्दोषता सहज ही सिद्ध हो गयी।

इस खतरे से छुटकारा पाने पर उसने गिरजे में प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए पूजा की। परन्तु इससे उसे मन में व्याप्त भय से छुटकारा नहीं मिला। उसका तो यह विश्वास दृढ़ हो गया कि यह नौकरी ही उसे ले डूबेगी। अगर वह सुखद संयोग न हुआ होता, तो भला कौन इस बात पर विश्वास करता कि भूतपूर्व व्यापारी मेश्कोव माल की हेराफेरी में शामिल नहीं है? आखिर आजकल लोग जैसे सोचते थे, उसके हिसाब से तो भूतपूर्व स्वामी के नाते मेश्कोव के लिए धोखाधड़ी करना स्वाभाविक ही था।

नहीं, वह चैन से नौकरी नहीं कर सकता था। अब उसके सिर पर जो नया खतरा मंडराता रहा था और जो रागोज़िन की दया से टल भी गया था, उससे छुटकारा पा लेने के बाबजूद, उसके मन में गहरी व्यथा थी, जो उसे अंदर ही अंदर खाये जा रही थी। उसके

पांव उसे जिधर जाना था, उधर नहीं, वल्कि धूसरी ही दिशा में लिये जा रहे थे। हाँ, वह इस बात का भी फ़ायदा उठा सकता था कि दुकान पर कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा था, क्योंकि वह ऊपर से बुलावा आने पर गया था।

मेझकोव को सारी उम्र गई-गुजरी सड़कें-गलियां ही पसंद रही थीं। उसकी स्वर्गीय पत्नी बालेरिया इवानोन्ना कई बार यह सहती-सहती भुँझला उठती थी: “हे भगवान्, क्या तुम हमेशा नावदान सूंघते चलते हो ?” पर उसने अपनी आदत नहीं बदली थी—धूमने निकलता, तो भी पिछवाड़े-पिछवाड़े ही चलता, उजाड़ जगहों में ही जाता। वह दिखावापसंद नहीं, वल्कि स्वभाव से घुन्ना ही था और उसे मानो यह डर रहता था कि बेबजह भीड़भाड़ वाली जगह में जाकर लोगों को यह याद न दिलाये कि वह धनी है।

चहल-पहल भरी सड़क से मुड़कर उसने कुछ गलियां और निर्जन बुल्बार पार किया, जहाँ रोज़-बिलो जैसी धूसर झाड़ियां उग रही थीं। फिर वह दूर तक चले गये खड़ के किनारे-किनारे चला, जो कूड़े और राख से आधा भरा हुआ था, आखिर उसे पार करके टीलों की पगड़ियों पर कब्रगाह की ओर बढ़ चला। खूब गर्मी पड़ गही थी और हवा में फैली धूल में से छनकर आती रोशनी कंपकं-पाती सी लग रही थी, जमीन सूखे से पथरा रही थी।

मेझकोव ने बालेरिया इवानोन्ना की कब्र पर प्रार्थना पढ़ी और पुछते पर बैठ गया। वह यहाँ मन की शांति के लिए आया करता था—वसंत में बेलचा लेकर कब्र का ढूह ठीक-ठाक करने, सलीब को मज़बूती से टिकाने और त्योहारों के दिन फाटक के पास लड़ती-भगड़ती भिन्नारिनों को भीख बांटने। सलीबों के बीच शोक-प्रार्थना का एकल स्वर गूंज रहा था: “तब संत्रस्त हुआ आकाश और स्तव्य धरती ...” और वह मन ही मन दोहरा रहा था: सचमुच ही आकाश संत्रस्त हो उठा है! सचमुच ही सारी धरती स्तव्य है! क्या-क्या घट रहा है! क्या कुछ नहीं हो रहा! परमात्मा का शुक्र मनाओ, बालेरिया इवानोन्ना, कि उसने तुम्हारी आंखें मूंद दी हैं, और तुम्हें अब परमात्मा के भय के अलावा और कोई भय नहीं देखना होगा। उसने कब्र के सामने बूढ़े होकर सिर झुकाया, उसका मन अब शांत

हो गया था और चित्त में व्याप्त विनम्रता मानो उसे मनोवल प्रदान कर रही थी। कब्रगाह से निकलकर वह आश्रम की ओर चल दिया।

पुरुषों के मठ के ऐन पीछे टीले पर एक छोटा सा जंगल चला गया था। थोड़ी दूर पर उसमें बलूत वृक्षों से घिरा आश्रम था। चारदी-वारी के पीछे से पीले रंग में पुती नीची-नीची इमारतें और एक गिरजे का गुम्बद दीख पड़ते थे। इधर कुछ समय पहले इन इमारतों में एक अनाथालय खोल दिया गया था। यहां लड़के रहते थे, जिन्हें पहले विगड़े हुए कहा जाता था और अब पिछड़े हुए या विकारग्रस्त। अतीत में जिस जंगल में शांति का राज था, वहां अब दिन चढ़े से सांभ ढले तक लड़कों का हो-हल्ला होता रहता था। क्रांति के बाद आश्रम के द्वार एक बार जो खुले, तो फिर बंद नहीं हुए। हां, बलूत कुंज यहां धने थे और आश्रम काफ़ी बड़ा था, सो जीवन में पूर्ण परिवर्तन आ जाने पर भी यहां अब तक कुछ ऐसे स्थान थे, जहां एकान्त मिल सकता था।

ऐसे ही एक छायादार कुंज में विल्कुल अलग-थलग वनी छोटी सी इमारत में विशप का निवास था। यह विशप सामान्य पादरीगण से अलग ही प्रकृति के थे। यह तो नहीं कहा जा सकता कि वह अपने से वरिष्ठ पादरियों की अवहेलना करते हों, धार्मिक नियमों और रीति-रिवाजों की तो बात ही दूर रही। सभी नियमों का वह बड़ी श्रद्धा से पालन करते थे। अपने जैसे अन्य पादरियों से जिस बात में वह, भिन्न थे, वह था उनका रहन-सहन। वैसे अगर वह साधारण मठवासी होते तो ऐसे रहन-सहन पर सब केवल गहरा संतोष ही प्रकट करते। परन्तु उनके पद के लिए ऐसा रहन-सहन अमान्य था, जो एक साधारण मठवासी को तो आदर का पात्र बना सकता था, परन्तु जो विशप के उच्च पद की गरिमा के लिए अशोभनीय था।

इस विरोधाभास के कारण ही विशप की स्थिति विशिष्ट थी। वह विल्कुल सादा जीवन व्यतीत करते थे, प्रायः भिखारी की ही भाँति, मानो एक साधारणतम मठवासी से अधिक उनकी कोई आवश्यकताएं ही न हों। उनके भक्त उनके लिए बहुत कुछ लाते थे, लेकिन वह बड़ी वेफिकी से और निस्स्वार्थ भाव से सब कुछ बांट देते थे। उनकी इस कमज़ोरी का लाभ उठाने तरह-तरह के लोग वहां

आते रहते थे, यहां तक कि पास के लड़के भी मौका-वेमौका मजा लेने चले आते थे। माया के प्रति उनकी इस उदासीनता से ही लोगों के मन में उनके लिए आदर भाव उठता था और उनके भक्तों की संख्या धीरे-धीरे, किन्तु निरन्तर बढ़ रही थी। एक सच्चे धर्मात्मा के रूप में उनकी ख्याति फैल रही थी। लोग अपने मन का बोझ हल्का करने, पश्चाताप करने उनके पास आते थे। विशप की ख्याति की तुलना पुराने जमाने के उन संतों की ख्याति से तो नहीं की जा सकती, जिनके दर्शन करने भुंड के भुंड भक्त आया करते थे। पर इस वात से कोई इन्कार नहीं कर सकता था कि उनका खूब नाम है और न ही इस वात से कि उनकी कीर्ति उनके सदाचार और धार्मिकता पर लोगों के विश्वास पर आधारित है। लेकिन ठीक इसी वजह से चर्चे के सत्ताधारी उनसे नाखुश थे और यहां तक कि उन्हें तरह-तरह से तंग करते थे। आर्कविशप और उनके साथ-साथ धार्मिक परिषद के दूसरे सदस्य विशप की सादगी को धूर्ता तथा उनकी निःस्वार्थ भावना को पादरीगण की धन-लोलुपता पर चोट करने का प्रयास समझते थे, विशप की लोकप्रियता में वे अहं की तुष्टि और शालीनता के पीछे संत वनने का प्रलोभन देखते थे। संक्षेप में, विशप के भक्तों की दृष्टि में उनके जो सद्गुण थे, वही शत्रुओं की नज़रों में पाप थे।

मेश्कोव ने जीवन में पहली बार चर्च की राय की अवहेलना करने की हिम्मत की। विशप की संगत में आते ही उसे उन पर ऐसी श्रद्धा हो गई कि जिन लोगों को विशप के पूर्णतः निष्पाप होने में कोई संदेह था, उनको वह बुरा-भला कहने लगा और विशप के शत्रुओं से तो उसे मरते दम तक के लिए नफरत हो गई।

विनीत मन से मेश्कोव ने आश्रम में प्रवेश किया। वड़े अरसे से उसके मन में एक विचार उठ रहा था और अब अंततः उसने एक अडिग संकल्प का रूप धारण कर लिया था। आश्रम की बाड़ के साथ-साथ चलते हुए मेश्कोव सोच रहा था कि अभी घंटा भर पहले वह कुमार्ग पर चलता हुआ शैतान के चाकर रागोज्जिन के भट्ट में जा रहा था और उसे नग रहा था कि मौत उसके सामने मुंह बाये खड़ी है, किन्तु अब वह मन्मार्ग पर चलता हुआ प्रभु के सेवक के आश्रम में जा रहा

है, उसका हृदय निश्चंक है, उसके होंठ प्रभु का गुणगान कर रहे हैं और कानों में वह मधुर नाद है, जो पवित्र आत्मा में गुंजायमान होता है।

भद्रा सा चोगा पहने, घुंघराले वालों वाले बूढ़े सेवादार ने उसका स्वागत किया, वाहर की कोठरी लांघता हुआ वह उसे अंदर की कोठरी तक ले गया, वहाँ “परम पिता परमेश्वर, दयावान हों...” कहते हुए उसने द्वार खटखटाया, खोलकर अंदर गया, धण भर में ही लौट आया और मेश्कोव से कहा कि धर्मचार्य ने अंदर बुलाया है।

कोठरी के एक कोने में शीशे में जड़े देवचिन्त रखे हुए थे और उनके आगे दीपक जल रहा था। उनके सामने खड़े होकर मेश्कोव ने माथा, छाती और फिर कंधों को छूकर सलीब का निशान बनाया, कमर भुकाकर हाथ की विचली उंगली से दरी का स्पर्श किया और फिर विशप का आशीर्वाद लेने आगे बढ़ा। गोलाईदार कुर्सी में बैठे विशप थोड़ा आगे को भुके और अस्वस्थता के कारण उठ न सकने के लिए क्षमा मांगी। उनका चेहरा फूला-फूला सा था, जैसा हृदय रोगियों का होता है। उनकी दाढ़ी इतनी भीनी थी कि उसमें भारी अण्डाकार चेहरा उतना ही स्पष्ट दिखता था, जितना दाढ़ी साफ़ मुँडी होने पर दिखता। दाढ़ी के लंबे, सफेद बाल हल्के गाजरी से रंग की त्वचा पर अलग-अलग चिपका दिये गये लगते थे। जहाँ तक उनकी छोटी-छोटी आंखों में गति का प्रश्न है, उनमें जरा भी चंचलता न थी, किंतु उनकी प्रायः रंगहीन, जलीय पारदर्शिता से दृष्टि में एक स्थायी वैचैनी का आभास होता था। कोठरी की खिड़की छोटी सी ही थी, लेकिन कुंज में चिलचिलाती धूप थी, सो अंदर काफ़ी उजाला था।

अपने स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न का विशप ने कोई उत्तर नहीं दिया, वस जोड़ों पर फूले हाथ धीरे से दोनों ओर को फैलाये और माला के फीरोज़ी दाने जल्दी-जल्दी फेरने लगे। मेश्कोव पर लगी उनकी दृष्टि मानो कह रही थी कि वह सीधे अपनी बात बताये, किस काम से आया है।

“एक निश्चय किया है, महाराज, वस आपका आशीर्वाद चाहिए। वर्षों से मन में कामना थी कि गृहस्थी छोड़कर किसी मठ में चला जाऊं। अब निश्चय करने का समय आ गया है। आशीर्वाद दें, महाराज !”

मेश्कोव एक बार फिर नतमस्तक हुआ।

“अच्छी तरह सोच लिया है न? जल्दबाजी तो नहीं कर रहे?”
विशप ने हौले से पूछा।

“नहीं, महाराज। साठ वरस का हो गया हूँ।”

“सो तो देख रहा हूँ। कोई-कोई पंद्रह वर्ष की आयु में ही संन्यास लेकर ऐसे लगता है कि जन्म से ही संन्यासी रहा हो, और कोई बुद्धापे में भी मठ में आता है, तो पराये घर में लगता है।”

“मेरी तो मन से इच्छा है, महाराज।”

“वैठ जाओ, न। शांत हो जाओ। अगर निश्चय पक्का है, तो घबराने की क्या बात है।”

“निश्चय तो पक्का ही है, महाराज। दिन-रात वस एक ही चिंता है: कैसे आत्मा का उद्धार हो।”

“परमात्मा तुम्हारी मदद करे! पर आत्मा का उद्धार तो कहीं भी हो सकता है। संसार से नाता तोड़कर मठ में रहने के बजाय संसार में रहकर आत्मा की चिंता करना अधिक श्रेयस्कर वताया गया है।”

“सांसारिकता का बोझ नहीं सहा जाता...”

“समझता हूँ। घृणा को दबा पाना आसान नहीं,” विशप ने सहानुभूति के साथ सिर हिलाया और फिर से थोड़ा आगे को भुक्कर अपनी दृष्टि मेश्कोव के चेहरे के पास ले गये और सहसा बड़े हौले से अपनी बात पूरी की: “जो है, उसे स्वीकार कर लो, वस इसी में उद्धार है।”

मेश्कोव ने गहरी सांस ली और धूप में विजली के तपे तार जैसी डस दृष्टि से बचने की कोशिश करते हुए विनम्रतापूर्वक कहा:

“इतना आत्म-वल नहीं है, महाराज!”

“तो अपनी दुर्वलता से विवश होकर यह निश्चय किया है?”

“पापी हूँ, महाराज!”

“परमपिता को दुर्वलता नहीं, मन की दृढ़ता प्रिय है।”

विशप ने मानो निढाल होकर पीठ कुसरी पर टेक ली, माला फेरनी बंद कर दी। उनकी उंगली सलीब बाले बड़े दाने पर टिकी हुई थी। सहसा उन्होंने सम्मति से पूछा:

“संसार से मन कड़वा हो गया, सो मठ में शरण लेना चाहते हो?”

“नहीं”, मेश्कोव ने दृढ़तापूर्वक कहा। “मन की कड़वाहट वस जल्दी करा रही है, महाराज। इच्छा तो जवानी से ही है। उन दिनों मैं दूसरे कारिंदों के साथ मालिक के यहां रहता था। वे सब पुरातनपंथी थे, मुझे भी अपने पंथ की शिक्षा देने लगे। मैं तो उनके बहलावे में आ ही चला था, पर तभी एक भले आदमी ने सलाह दी कि मैं ऐसं पर्वत के संत जेरोम से परामर्श मांगूँ। उसका कहना मानकर मैंने चिट्ठी लिख दी, जवाब में उन्होंने मुझे हमारे आर्योंडोक्स पंथ का पालन करने का उपदेश दिया और साथ ही एक पुस्तक भी भेजी। तब से धार्मिक पुस्तकों पढ़ने लगा और मठवासी हो जाने की अभिलापा जागी। पर उन्होंने संत से परामर्श मिला कि मां के जीते ऐसा न करूँ, हां बाद में अगर प्रभु को मंजूर हुआ तो अपनी मनोकामना पूरी कर लूँ। पर मां के जीते मेरा विवाह हो गया। वैसे, गृहस्थ जीवन में भी प्रभु से सदा यही प्रार्थना करता रहा कि अगर मैं विघुर हो जाऊँ, तो प्रभु मुझे जीवन के अंतिम दिन मठ में काटने का अवसर दें। अब मैं विघुर हूँ, नाती की मेरे सिर पर जिम्मेवारी थी, सो जल्दी ही उसका सौतेला पिता आ रहा है। वस अब इस संसार में मेरा कोई वंधन नहीं।”

उसकी बात सुनकर विश्वाप थोड़ी देर चुप बैठे रहे, फिर बोले: “हुं! फिर क्या है? दान कर दो अपना सब कुछ और चलो मेरे साथ!”

“दान करने को तो कुछ बचा ही नहीं, महाराज,” मेश्कोव के सारे बदन में मानो उत्साह की झुरझुरी दौड़ गई। “मेरे लिए जो एकमात्र मूल्यवान वस्तु बची थी—‘संतों की जीवनियां’—वह मैं आपको सौंप चुका हूँ और जो कुछ मेरे पास बचा है, उसे तो चाहे उठाकर धूरे पर फेंक दो।”

उसने कोठरी की दीवारों पर नज़र दौड़ाई। विश्वाप मुस्करा दिये।

“क्या देख रहे हो? अपनी भेंट नहीं नज़र आती? मैंने उसे आगे भेंट कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले एक देहात का पादरी आया था, जीवन की कठिनाइयों का रोना रो रहा था, कोई पूजा-वूजा करने ही नहीं आता, जनता की उदारता का स्रोत सूख गया है। परमात्मा को भुला बैठे हैं। मुझे उस पर तरस आ गया, बोला: “ले ये जीवनियां,

ले जा , शायद जिले का कोई शौकीन खरीद ले। ” खुद तो पादरी ने जाने कव से संतों की जीवनियां नहीं पढ़ी होंगी । विल्कुल विगड़ गया है , नाक बैंजनी हो रही है । जीवनियां भी बेचकर पी डालेगा । खैर , भगवान मालिक है उसका ! ”

मेझकोव ने धीरे से सिर हिलाया ।

“ क्यों , अफ़सोस हो रहा है ? ” चुभते से लहजे में विशप ने पूछा ।

“ यह सोचकर मुझे खुशी होती थी , महाराज , कि पुस्तकें आपके पास हैं । ”

“ देखा , ” विशप ने अभी भी मुस्कराते हुए उलाहना दिया ।

“ अपनी ही नहीं , दूसरों की चीजों का भी दुख है । अरे भई , जब भेट कर दी , तो फिर क्या उसका स्थाल करना ? ”

“ पापी हूं , महाराज । ”

“ यह बात है ! अच्छा तो कहां जाना चाहते हो , कौन से मठ में ? आजकल तो मठों का हाल भी कोई अच्छा नहीं है : हमारे संन्यासी भाई भी देखो मोर्चे के सिपाहियों जैसे एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे ... ”

“ स्वालीन्स्क के पास एक मठ है , वहीं जाने की सोच रहा हूं , महाराज । आप सलाह दें ... ”

“ हां , जानता हूं यह मठ । सुंदर जगह है , शांत । पर वहां पुरातन-पंथी भी पास ही हैं । और वहां वाले तो हमारे संन्यासियों से तेज़ हैं । कहीं तुम्हें अपने पंथ में मिला लिया तो ? ” विशप ने चुटकी ली ।

“ महाराज , अपने आर्थेडोक्स पंथ की रक्षा करना जानता हूं : इसी आथ्रम में कभी इन पुरातनियों का मुंह काला करना सीखा था । ”

“ अच्छा , यहीं सही , ” विशप ने चैन की सांस लेते हुए कहा । “ प्रभु का वरदान , पा सके सो पाये ! जाओ , परमात्मा तुम्हारा साथ दे । ”

मेझकोव ने देवचित्र के सामने छड़े होकर प्रार्थना पढ़ी , फिर विशप के सामने घुटने टेके । उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेझकोव को चूमने दिया और उसे आशीर्वाद दिया । मेझकोव चलने को हुआ , पर फिर थम गया , विशप के रुग्ण , लटक से गये चेहरे पर प्रश्न भरी दृष्टि डाली और यह प्रतीक्षा करने लगा कि कव वह उसे बोलने का इशारा करें ।

“ अब क्या परेशानी है ? ” उसके मन की बात समझते हुए विशप ने पूछा ।

“एक सवाल है, महाराज,” मेश्कोव ने दबे स्वर में कहा,
“१३३५—इस संख्या का क्या अर्थ है?”

विशेष की पारदर्शी आंखें देर तक एकदम निश्चल रहीं, उनमें किसी तरह का ज़रा सा भी जो रंग था वह भी मानो धीरे-धीरे विलुप्त हो गया, फिर पलकें सिकुड़ते-सिकुड़ते मिच गई, और फिर जब आंखें खुलीं, तो उनकी अंगारों सी दहकती पुतलियों ने मानो मेश्कोव को भुलस डाला।

“कहां से आये ये विचार?”

मेश्कोव ने विश्वासपूर्वक पर साथ ही अत्यंत संकोच के साथ जवाब दिया:

“एक पुस्तक पढ़ी थी, महाराज, जिसमें लोगों और साम्राज्यों के इतिहास को बाइबिल से मिलाया गया है। इस ग्रंथ के अंत में भविष्यवाणी के शब्द दिये गये हैं: ‘धन्य है वह, जो सब करता है और एक हजार तीन सौ पैंतीस दिन पूरे करता है।’”

“किसने लिखा है यह ग्रंथ?”

“कोई विद्वान लगता है—वान वीनिंगेन नाम है।”

“जर्मन-वर्मन है क्या?”

“ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। वस यही लिखा है कि पुस्तक सेंसर द्वारा स्वीकृत है।”

“हां, कोई आश्चर्य की बात नहीं है,” विशेष तरसभरी आवाज में बोला। “सेंसर वाले तो अंधे थे, अज्ञानवश समाजवाद की किताबें भी छापने देते थे।”

“पर, महाराज, इस पुस्तक में तो समाजवाद की बुराई की गई है।”

“तो क्या हुआ, रोम के कैथोलिक पोप भी समाजवाद की खूब बुराई करते हैं।”

“लेकिन, महाराज, पुस्तक में तो पोपों को भी आड़े हाथों लिया गया है।”

“इससे भी कोई बात नहीं बनती, क्योंकि समाजवादी भी पोपों को खूब जली-कटी सुनाते हैं।”

मेश्कोव ने यों हतप्रभ होकर सिर झुका लिया कि अब विशेष पर ही यह निर्भर था कि वह या तो पथभ्रष्ट को दण्ड दें या क्षमा कर

दें। वह थोड़ी देर तक चुप रहे, जितना कि अपनी पूर्ण विजय की अनुभूति के लिए आवश्यक था, और फिर वडे हौले से हंसकर दो-तीन बार अपने घुटनों पर माला से चोट की, मानो पीट रहे हों।

“अरे, विदेसी शैतान की हमें क्या ज़रूरत जबकि हमारा अपना ही कम नहीं,” वडे खुश अंदाज में उन्होंने पूछा।

फिर उनके चेहरे पर क्रोध का भाव आ गया। उन्होंने दाढ़ी का एक बाल चुटकी से पकड़ा और धीरे-धीरे उस पर उंगलियां फेरी।

“धर जाकर आग जलाना और अपने उस बान... क्या नाम है उसका?.. उस जर्मन विद्वान को फूंक डालना,” कठोर स्वर में वह बोले। “और वहुत अकलमंद मत बनो; अपनी बुद्धि से सब कुछ समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि बुद्धि तो तुम्हारी छोटी सी ही है। भविष्यवाणियां कोई अंकगणित नहीं हैं, परमात्मा का शब्द हैं। ज़रा सोचो तो: मनुष्य कुछ समझ सकता, इसके लिए प्रभु के मेमने को मनुष्य की भाषा में बोलना पड़ा। और हमारी यह भाषा क्या है? हमारी बुद्धि की निर्वलता—यह है हमारी भाषा। परमात्मा कहता है ‘एक दिन’ और हम समझते हैं चौबीस घंटे। सम्भव है परमात्मा के एक दिन में हमारे सभी पूर्वजों और सभी वंशजों का जीवन ऐसे समाता हो, जैसे वादाम के छिलके में गिरी? अब समझ लो वाइविल की संख्याएं! समझने की नहीं, आस्था रखने की आवश्यकता है। निष्कपट मन से आस्था रखो। और यह याद रखो कि स्वयं हमारे शिक्षक ने अपने द्वितीय अवतरण के बारे में क्या कहा है: ‘उस दिन और उस घड़ी का जान प्रभु के पुत्र को भी नहीं है, केवल परमपिता परमेश्वर ही जानता है।’”

उन्होंने रुककर सांस ली, एक बाल पर उंगलियां फेरीं और फिर नम्र स्वर में बात पूरी की:

“अच्छा, जाओ अब। थक गया मैं। संन्यास लोगे तो अपने गुरु को इस सेंसर द्वारा स्वीकृत विधर्मी के अपने पाप के बारे में बताना। हो सकता है, वह तुम्हें कुछ प्रायशिच्चत करने को कहे। मैं तुम्हें धमा करता हूं, जाओ। तुम्हें अभी कठोर परीक्षा से गुज़रना है। जाओ अब...”

मेड्कोव को घर लौटते हुए ऐसा लग रहा था मानो वह अपने शरीर का बोझ कहीं बहुत पीछे छोड़ आया हो। अतीत एक गहरी

खाई से अलग हो गया था, और बुढ़ापे में, जवानी की भाँति आनंदमय भविष्य सहज ही सम्भव प्रतीत हो रहा था। वेशक, अतीत से कव का कुछ न वचा था, सिवाय धिसे हुए जूतों के, परन्तु अगर वह अतीत किसी चमत्कारवश फिर से जी उठता, तो मेश्कोव उसे अपना न सकता। उसने भविष्य के लिए जिस आशीर्वाद की याचना की थी और जिसे अब पा लिया था, उसका तकाज़ा यह था कि वह वीते दिनों को याद तक न करे। उसे एक नया व्यक्ति बनना ही नहीं था, उसे प्रतीत हो रहा था कि वह वैसा नया व्यक्ति बन गया है – उसने यह निर्णायक कदम इतनी श्रद्धा के साथ उठाया था कि स्वयं ही भाव-विभोर हो उठा था।

धर पहुंचते ही मेश्कोव को एक नया समाचार मिला। वैसे तो यह समाचार उसके लिए अप्रत्याशित नहीं था। साथ ही इससे उसकी मुक्ति का क्षण और निकट आता था, जो अब उसके जीवन का एकमात्र ध्येय थी। इस समाचार से वह अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि इससे उसके सब बंधन कट रहे थे, पर साथ ही इससे उसके मन में हल्की सी उदासी भी छा गई थी, क्योंकि इसका अर्थ था कि वह अभी अपने निकट सम्बन्धियों को छोड़ भी न पाया था, उनसे यह कह तक न पाया था कि वह उन्हें छोड़कर जा रहा है और उन्हें न उसकी सलाह की, न उसकी हमदर्दी की जरा भी ज़रूरत रही थी।

मेज पर इस्तरी किया मेजपोश विछा हुआ था, जिसे खास तौर पर इस मौके के लिए संदूक से निकाला गया था। चारों ओर सब कुछ इसी मेजपोश की भाँति सजल था और उमंग से वैसे ही फूला-फूला था, जैसे कलफ़ लगे मेजपोश की उठ-उठ रही तहें।

लीज़ा श्वेत वस्त्र पहने थी। उसका सिर मानो ऊंचा उठ गया था। उसका केश-परिधान फिर से हल्का-फुल्का हो गया था। पतली सी उंगली पर एक बार फिर अंगूठी रही थी – नई-नई पतली सी, ठीक वैसी ही जैसी अनातोली मिखाइलोविच की उंगली पर थी। लीज़ा सारी तैयारी कर चुकी थी – मेज के चारों ओर चार कुर्सियां उनकी प्रतीक्षा में रखी हुई थीं। वीत्या नारंगी रंग की नई रेशमी कमीज़ पहने था, कमीज़ इस्तरी की हुई थी और उस पर अभी कोई दाग नहीं लगा था। अनातोली मिखाइलोविच ओज्जोविशिन ने गर्मियों का हल्का कोट पहन

रखा था, जिसके पीतल के बटनों पर शाही उकाव बने हुए थे – उन पर कपड़ा चढ़ा दिया गया था।

मेश्कोव दरवाजे पर प्रकट हुआ, तो तीनों चुप हो गये, जहां खड़े थे, वहीं खड़े रह गये। मेश्कोव ने भौंहें तानकर बेटी से पूछा:

“रजिस्टरी करा ली?”

“जी हां, करा ली।”

वह अपने कमरे में चला गया और क्षण भर बाद हथेली जितना बड़ा देवचित्र लेकर बाहर आया, जिसका तांबे का चौखटा हरा पड़ चुका था, देवचित्र लेकर उसने पहले लीजा को आशीर्वाद दिया, फिर ओज्जोविशिन को, और ऐसा करते हुए उसके मन में यह विचार उठा कि अब उसे एक ही बेटी से दूसरा दामाद मिल गया, और फिर उसने वीत्या के सिर पर हाथ फेरा।

“देखो, इन्हें अपना पिता समझना,” मेश्कोव ने कहा। “इनका कहना मानना, आदर करना। अब यही घर में सबसे बढ़कर होंगे, तुम्हारी मां से भी बढ़कर। समझे? और मैं...”

“चलिये, बैठ जायें,” लीजा बोली।

“बैठने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी बात सुन लें,” शनै: शनै: पर आग्रहपूर्वक मेश्कोव ने कहा। “तुमने अपनी जिंदगी बदल ली है, और मैंने भी बदलने का फ़ैसला किया है। बहुत पहले मैंने एक संकल्प किया था, उसे पूरा करते हुए अब मैं अपने शेष दिन मठ में विताने जा रहा हूं। ईसा के बास्ते भूल-चूक माफ़ कर देना।”

उसने बेटी और ओज्जोविशिन के सामने सिर झुकाया। लीजा उसकी ओर जरा बढ़ी और असमंजस में अपने ऊंचे माथे पर हाथ फेरा।

“पिता जी, आपने पहले तो कभी इसका ज़िक्र नहीं किया...”

“सोचते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं। और मुंह से बात निकालकर, बात बदलते नहीं। तुम्हारी ओर से मैं निश्चिंत हूं, तुमने भले आदमी से शादी की है। वीत्या के सिर पर भी हाथ है। अब मुझे अपनी आत्मा की भी चिंता करनी चाहिए। सोते-जागते बस यही एक सोच है।”

तीनों उसकी ओर देखते रहे थे और कुछ सकुचाते हुए, मानो किसी बात पर लज्जित से चुप खड़े थे। वीत्या ने पूछा:

“नाना, अब तुम चोला पहन लोगे?”

“बीत्या !” लीज़ा बोली।

मेश्कोव ने उसांस रोकी।

“मेरा कमरा आपको मिल जायेगा,” उसने ओज्जोविशिन से कहा।

ओज्जोविशिन ने अपनी स्त्रियों जैसी छोटी-छोटी हथेलियां रगड़ी और भिखरते हुए कहा:

“आप, वो ... यह सब भत सोचिए। लीज़ा और मुझे कुछ खास नहीं चाहिए।”

“खास तो मैं कुछ दे ही नहीं सकता,” मेश्कोव ने कहा। “इसीलिए निश्चिंत होकर जा रहा हूँ। अच्छा चलो, अब वाकी बातें बैठकर कर लेंगे।”

उसने मेज पर नज़र डाली। यहां पुरानी पोर्ट वाइन की स्पाह-हरी बोतल रखी थी और बोद्का की मीना फिलमिला रही थी। ऐसी सजी हुई मेज उन्होंने जाने कब से नहीं देखी थी, खाने की भीनी-भीनी महक उन्हें दावत दे रही थी।

“वाह, भई, वाह !” वह फुसफुसाया। “सो मैंने सोवियत व्याह भी देख लिया।”

उसने बाहर का दरवाज़ा कसकर बंद किया और सब बैठ गये। वह नाती और बेटी के बीच बैठा।

“यह तो एक तरह से सगाई हुई,” उसने कहा। “अब गिरजे में विवाह संस्कार कब होगा? संस्कार के बिना दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं हो सकता। जब तक मैं यहां हूँ, यह काम भी कर लो।”

“पर, पिता जी, ऐसे अचानक क्यों आप?” लीज़ा ने पूछा। वह अभी भी अपने आपको दोषी अनुभव कर रही थी, हालांकि खुद भी नहीं जानती थी कि क्यों।

मेश्कोव ने उसका कंधा छुआ, यह एहसास दिलाते हुए कि जो अवश्यम्भावी है उसे स्वीकार ले।

“अचानक नहीं, विटिया। आज ही मुझे अपने धर्मगुरु की अनुमति मिली है। सो बस ...” उसने फिर से मेज पर नज़र डाली, मुस्कराया और नीचों आवाज में बोला: “लाओ, थोड़ी डालो तो। बस, आखिरी बार यह पाप सही। फिर सदा के लिए खत्म।”

सबने आंखों के इशारे से एक दूसरे को प्रोत्साहन दिया और चुपचाप पी ली। वे यह भूल ही चुके थे कि कब ऐसी दावत हुई थी, सो पूर्णतः

इसके रसास्वादन में लीन हो गये। वीत्या ने चटखारा भरा, उसने पहली बार पोर्ट बाड़न चखी थी।

“कहां से ले आये यह सब?” मेश्कोव ने विस्मय के स्वर में पूछा और ओज्जनोविशिन को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। “वाह, जान आ गई। विल्कुल पहले जैसा स्वाद है, है नहीं?.. अच्छा, आप तो बकील हैं, एक बात बताइये। आजकल तो सबके लिए काम करना जरूरी है, तो फिर मैं कैसे नौकरी छोड़ूँ कि कोई परेशानी न हो?”

“बीमार पड़ना होगा।”

“हां, वो तो मैंने सोचा था। पर कौन सी बीमारी पकड़ूँ?”

“इसका जबाब तो डाक्टर दे सकता है, बकील नहीं।”

“पर अगर मैं अपनी ढलती उम्र में भी विल्कुल स्वस्थ हूँ, तो?”

“आप ऐसे डाक्टर के पास जाइये, जो यह मानता है कि विल्कुल स्वस्थ व्यक्ति होते ही नहीं।”

“जो सबको जन्म से ही रोगी समझता है?”

“जो यह मानता है कि आवश्यकता होने पर किसी को भी रोगी माना जा सकता है।”

“जो यह मानता है?” मेश्कोव ने आंख मारी और अंगूठे को तर्जनी से यों रगड़ा मानो नोट गिन रहा हो।

“विल्कुल,” ओज्जनोविशिन ने भी उसी लहजे में हामी भरी और मीना की ओर हाथ बढ़ाया।

मेश्कोव को अचानक ही सहर आ जाता था। वह कभी भी यह तथ्य नहीं कर पाता था कि किस क्षण अपने पर नियंत्रण खो बैठता है। एक छलांग में वह रोजमर्रा की जिंदगी से एक विशिष्ट संसार में जा पहुँचता, जहां सभी रंग पारभासी होते, रंगीन कांच की भाँति। और यह संसार उसे कुछ करने की अल्हड़ चुनौती देता।

लीज़ा बचपन से ही परिचित लक्षणों से यह क्षण निर्धारित कर लेती थी: मेश्कोव के नथुने फड़कने लगते थे, और वह उंगलियों के झटकों से अपनी दाढ़ी को इधर-उधर यों छिटकाने लगता था, मानो वह आहत हो और साथ ही रोप में भी। लीज़ा ने मीना परे हृटा दी। मेश्कोव ने चुपचाप तिरछी नज़रों से बेटी की ओर देखा। फिर मानो अपनी सफाई देने हुए बोला:

“अभी तो मैंने संन्यास नहीं लिया है, अभी लोभ, मोह का दास हूं। मठ में जाकर संसार के बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा, तब सच्ची मुक्ति का आनंद पाऊंगा।”

“आपका कहना सही है,” ओज्जोविशिन ने हामी भरी। “सच्ची मुक्ति इसी में है कि इन्सान अपने आप से मुक्त होता है।”

“पर क्या यह सही है कि अपने आप से मुक्त होता है?” मेश्कोव ने संशय प्रकट किया।

“मेरे स्वाल में सही है। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति अपने आपको पूरी तरह प्रभु की इच्छा पर छोड़ देता है।”

“विल्कुल। इन्सान अपनी इच्छा अपने गुरु की इच्छा के सुपुर्द कर देता है, और गुरु के रूप में परमात्मा की इच्छा को स्वीकार करता है। अतः यही कहना सही होगा कि इन्सान अपनी इच्छा से मुक्त होता है, न कि अपने आप से। अपने आप से तो हम मृत्यु के साथ मुक्त होंगे। अपने नश्वर शरीर से मुक्त होंगे।”

मेश्कोव स्वयं अपने तर्ककौशल पर विमुग्ध हो रहा था, उसने बोद्धा की ओर हाथ बढ़ाया। पर लीजा ने पहल करके उसका जाम अधूरा भर दिया। उसने अपनी घनी भौंहें फैलाई और फिर सिकोड़ीं।

“तुम क्या पिता पर हुक्म चलाना चाहती हो,” उसने अपने आक्रोश को दबाते हुए कहा।

पर तभी किसी ने दीवार पर दस्तक दी और दरवाजे के बाहर कोई खांसा। यह दीवार बड़े कमरे को उस गलियारे से अलग करती थी, जो मकान के नये निवासियों के रास्ते के लिए बनाया गया था। दीवार विल्कुल पतली सी थी, सो दस्तक की आवाज उनके बार्तालाप में धमाके की तरह गूंजी। लीजा ने दरवाजा थोड़ा सा खोला।

बाहर गलियारे में बूढ़ा कारीगर मत्वेई खड़ा था, जो अब इसी घर के एक कमरे में रहता था। उसकी काम करने की छोटी सी ऐनक नाक पर खिसक आई थी और उसके ऊपर से नज़र ताक-झांक करने के लिए नहीं, वस यों ही कमरे में पड़ रही थी। वह धीमी आवाज में लीजा से कुछ कह रहा था।

“पिता जी, कोई फहरिस्त-वहरिस्त बनाने आये हैं,” पिता की ओर सिर घुमाकर लीजा ने कहा।

“फहरिस्त? कैसी फहरिस्त?” मेश्कोव ने पूछा। गुस्से से भरकर उठते उठते उसने बोद्धका का अधूरा जाम पूरा भरा और गटाक से पी लिया।

वेटी को दरवाजे से हटाते हुए उसने एक झटके से ठोड़ी के ऐन बीच से दाढ़ी को दो हिस्सों में छिटक दिया।

“कैसी फहरिस्त?” एक बार फिर वह बोला। “फहरिस्त बनाने को कुछ बचा भी है?”

“मकानों की फहरिस्त बना रहे हैं,” अलसाई आवाज में मत्वेई ने जवाब दिया। “जानना चाहते हैं कि रिहायशी क्षेत्रफल कितना है। मैंने कहा आपको कमरों की लम्बाई-चौड़ाई पता होगी।”

“आपसे कहने को किसने कहा था?”

“कहने की बात ही क्या है? बजाय इसके कि लोग फ्रीता लेकर नापते फिरें, आप बता दीजिये और बात खत्म।”

“क्यों न नापते फिरें? इस काम की ही तो उन्हें तनख्वाह मिलती है? नापने दो उन्हें।”

“ऐसे काम जल्दी हो जाता, नहीं तो उन्हें एक-एक कमरे का चक्कर लगाना पड़ेगा।”

“तो मैं क्या करूँ? घर तो मेरा नहीं है।”

“ठीक है, ठीक है, मेरकूरी अब्देयेविच,” बूढ़ा हँस दिया, “पर आपकी ही दावत में विघ्न पड़ेगा।”

“दा-वत?” मेश्कोव धीरे से बोला। कमरे में पड़ती बूढ़े की नज़र के सामने वह दीवार बन जाना चाहता था, जहां तक बन पड़ता था, पंजों के बल ऊपर उठ गया था। “दा-वत?” एक-एक अक्षर पर जोर देते हुए उसने फिर कहा। “अच्छा! यह दिखा है तुम्हें यहां! दावत! इसीलिए दूसरों के दरवाजे में ताक-झांक हो रही है!”

“ताकना क्या है, सारे घर में तो ठर्रे की बूँफैल रही है,” मत्वेई ने घिन के साथ सिर झटकाया।

“ठर्रे की?” मेश्कोव की ऊंची उठती आवाज में धमकी थी। “जी नहीं, श्रीमान, माफ़ करना!”

“पिता जी!” लीजा ने उसे टोका।

पर उसे मानो यही चाहिए था कि कोई उसे टोके। वह गला फाड़कर चिन्नाया:

“ठर्हा नहीं, साफ़ बोद्का है! जार के जमाने की बोद्का! सुन लिया? जा, अब दौड़के, कर दे रपट कि मेश्कोव तेरे ठर्हे की जगह जार की बोद्का पीता है। जा, जा, दौड़के जा, कर दे रपट, वेहया बुझा!”

“धत् तेरे की, खुद तू वेहया बुझा है!” बूढ़ा धूम गया, उसने झटके से नाक से ऐनक उतारी और गलियारे में चल दिया।

“जा, जा, दौड़के जा,” मेश्कोव चिल्लाये जा रहा था। उसने दरवाजे को धम से बंद कर दिया था और अब पंजों पर उचक-उचककर गुस्से में कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक का चक्कर काट रहा था। “जा, जा बता दे सबको कि मेश्कोव ने जार की मोहर वाली बोद्का छिपा रखी है! मेश्कोव दावतें उड़ाता है! शादी के जशन मनाता है! और अपने फटीचर पड़ोसियों को, इन कंगालों को दो बूंद भी नहीं देता! जा, जा, दौड़के जा, दौड़के!”

बूढ़े ने ज़ोर से दीवार पर ठोकर मारी और गलियारे में गरज़ा:

“अरे क्यों आसमान सिर पर उठाता है! सबको पता है तेरी असलियत क्या है!”

मेश्कोव दीवार पर मुक्के मारने लगा:

“तेरी यह मजाल! तू अपनी असलियत देख! तू पराये घर में घुस आया है! तू दूसरों के यहां ताक-भाँक करता फिरता है! किसने मेरा सब कुछ लूटा है? किसने मुझे भूखे-नंगों के बराबर कर दिया है? सब तेरे हथकंडे हैं, तुम सब चोर-उचक्कों के। सब कुछ छीन लिया, आखिरी रही बांड तक! खुद ही अपनी ‘स्वतंत्रता ऋण’ छापे ठगों ने, खुद ही बेचे और खुद ही वापस ले लिये! अभी भी कमबख्तों का जी नहीं भरा। धूमते-फिरते हैं, ताक-भाँक करते हैं, और क्या फ़ीते से नापने को रह गया है, और क्या हथिया लें, क्या छीन लें! ठीक है, नोच लो मेश्कोव को, बोटी-बोटी नोच लो! कलेजा चीर डालो मेश्कोव का! तुम्हारा कोई भला नहीं होने का! पराया धन किसी को नहीं फलता! बन पाये तुम अमीर! मालिक बनने चले हैं!”

वह दौड़के मेज़ तक गया, बोद्का का पूरा जाम भरा, गले में उंडेल लिया, मुँह खोले हवा खींचता खड़ा रहा और सहसा कुर्सी पर ढह गया।

लीजा इस सारे वक्त खिड़की की ओर मुंह किये खड़ी थी। एक जमाना था जब पिता के यों चीखने-चिल्लाने पर वह भयभीत हो जाती थी। उसे लगता था कि क्रोध में आकर उसका बाप थप्पड़ मार सकता है, पीट सकता है, जान तक से मार डाल सकता है। अब उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। पिता पर रहम से उसका दिल दुख रहा था। पिता की बेवसी भी उसे तुच्छ लग रही थी और उस पर शर्म आ रही थी। उसे याद आया कि सपने में उसने पिता को किस रूप में देखा था – मरियल और दब्बू सा। उसे मदद करनी चाहिए थी, परन्तु पिता के प्रति पुरानी विरक्ति उसे ऐसा करने से रोक रही थी। वह इतना दुर्बल और दयनीय था और लीजा की अपनी श्रेष्ठता उसके लिए बोझिल पड़ रही थी, और वह पिता के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। इस वक्त पिता पर तरस के साथ-साथ उसे भुंझलाहट भी हो रही थी, क्योंकि वह ओज्जोविशिन के सामने शर्मिदा थी। बाप ने जो बवेला खड़ा किया था, उससे उसके मन में टीस उठ रही थी, पर वह यह नहीं सोच रही थी कि वह क्यों चीख-चिल्ला रहा है। वह केवल अपने पति के बारे में सोच रही थी, जो इस दिन से उसके पारिवारिक जीवन का एक अंग बननेवाला था और जो अब इस छ्वामघाह के शोर से, ऐसे भोंडे तौर पर इस घर का सदस्य बन रहा था। मुड़कर देखे विना ही, मानो अपनी पीठ से ही वह महसूस कर रही थी कि ओज्जोविशिन किंकर्तव्यविमूढ़ सा खड़ा है।

अचानक सन्नाटा छा जाने पर उसकी यह जड़ता खत्म हुई और सिर घुमाने पर उसने देखा कि उसका बाप कोहनियां मेज पर टिकाने की कोशिश कर रहा है और बुद्धुदा रहा है:

“मैंने इनका क्या विगाड़ा है? क्यों इन्होंने मुझे अपराधी बना दिया है? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? क्यों मुझे यों नीचा दिखा रहे हैं? क्या मेरा काम इनसे बुरा था? हर काम आदमी पेट भरने के लिए करता है। क्यों मेरे दाने पर इनकी भूखी नज़रें हैं?”

“धीरज रम्बिये,” ओज्जोविशिन ने वर्तनों को चुपके से बूढ़े की लड़खड़ाती कोहनियों से दूर करते हुए कहा।

सहानुभूति पाकर मेझकोव तुरंत ही पसीज गया, उसकी आंखें डबडबा आईं और जुदान पर उसका बस और भी कम हो गया:

“पाप हो गया, मुझसे ... पाप हो गया ... प्रायश्चित्त करूँगा ... दिन-रात प्रभु की प्रार्थना करूँगा ... माफ कर दो मुझ किस्मत के मारे को ... मैं चला जाऊँगा ... तुम चैन से रहना ! पुराने ज़माने में जैसे बूढ़े उत्तर के जंगलों में चले जाते थे ... वैसे ही मैं भी ... बनवासी हो जाऊँगा ... हाय, वीत्यां, तुझे कैसे छोड़ जाऊँगा ! मुझे माफ कर दो ... मरते दम तक प्रभु से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा ... हे, प्रभु, धमा करो ...”

उसका सिर मेज़ के सिरे से जा टकराया।

लीज़ा ने वीत्या की ओर देखा। उन्होंने मेश्कोब को उठाया और उसके कमरे में ले चले। वह ज़रा भी भारी नहीं था, ढुलमुल सा और अजीब ही छोटा सा। उन्होंने उसे विस्तर पर लिटा दिया। वह बार-बार वीत्या को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, आखिर उसने नाती का गाल चूम लिया। वीत्या ने उसके जूते उतारे, हाथ झाड़े और गाल पोंछा। उसने नाना को कभी भी ऐसा नहीं देखा था और अब उसे पहली बार अपनी श्रेष्ठता की अजीब सी, बोफिल अनुभूति हुई। उसने अपनी नारंगी आतलसी कमीज़ झटकी और उस पर नजर दौड़ाई। कमीज़ पर सिलवटें पड़ गई थीं, पर वह साफ़ थी। लीज़ा ने पिता को कम्बल ओढ़ा दिया और वे उसे अकेला छोड़कर बाहर आ गये।

ओज्जोविश्वन हिचकिचाते हुए पत्नी के पास आया और उसके कंधों पर अपनी बांह रखी। वह उसकी ओर देखने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। आखिर बोली:

“पिता जी पर नाराज़ मत होना ... वैसे तो वह अच्छे आदमी हैं। वस ... अपना हुक्म चलाने की आदत है ...”

“मैं कर्तई नाराज़ नहीं,” ओज्जोविश्वन ने कहा। वह जल्दी से जल्दी पत्नी को दिलासा देना चाहता था। “जिस आदमी में अहं हो, उसी के लिए भुकना मुश्किल होता है, उसके लिए नहीं, जिसका कोई अहं ही नहीं। समझने की बात है।”

सहसा वह उससे दूर हो गई, गुस्से से एक गहरी उसांस भरी। अपनी इस खोज पर शर्मिदगी से उसका चेहरा लाल हो गया:

“ओह, कैसा अहं ! वह तो वस अपने अलावा और किसी को सह ही नहीं सकते !”

वह मेज के पास बैठ गई और देर तक वीत्या पर नज़रें टिकाये बैठी रही और फिर चैन की सांस ली :
“ शुक्र है , हमें छोड़कर जा रहे हैं । ”

१६

आंसुओं से भीगा चेहरा लिये अल्योशा लिलक की झाड़ियों में धास पर लेटा हुआ था । दोरोगोमीलोव के झाड़-झंखाड़ भरे वाग के हर कोने को वह अच्छी तरह जानता था , फिर भी हर बार वह यहां एक नयापन पाता था , जिससे उसका मन खुश हो उठता था । यहां वह बड़ों से बैसी बातचीत करता था , जिसके लिए और कहीं साहस नहीं जुटा पाता था ।

पान की शक्ल की सख्त पत्तियों के नुकीले सिरे उसके गालों को छू रहे थे । उसे लग रहा था कि पत्तियां इस तरह चूमकर उससे सहानुभूति दिखा रही हैं । यहां हर चीज़ में अपनापन था – जड़ों से फूटकर निकले नये अंकुर नन्हे वृक्षों से लगते थे , पतंगों के लाल परों पर काली-काली आंखों वाले बूढ़ों के से चेहरे बने लगते थे , मैलों की कच्ची , दूधिया फलियां उसे रात को पहनने की कमीज के कपड़े के बटनों जैसी लगती थीं ।

पत्तियों की छाया में इस एकांत जगत से कहा जा सकता था – देखो , तुम अल्योशा का दर्द समझते हो , तुम्हें उससे सच्चा प्यार है , वैसे ही जैसे वह तुम्हें जी-जान से चाहता है । पर क्या पापा को अल्योशा से प्यार है ? जरा भी नहीं !

दूसरी बार आर्मेनी रोमानोविच ने उसे बोल्गा पर ले चलने को कहा है । और दूसरी बार पापा ने मना कर दिया है । उसने सारी वंसियां देख-दाखकर तैयार कर रखी थीं । सारी जालियां ठीक-ठाक कर ली थीं । वीत्या नये काटे भी ले आया था – बिल्कुल छोटे-छोटे भी और ओल्गा अदामोन्का की बालों की मूड़ियों जितने बड़े भी । सारी तैयारी हो चुकी थी । और फिर से पापा ने मना कर दिया ।

आर्मेनी रोमानोविच ने उसे कितना अच्छा तिरेंदा दिया था ! माही का इतना लम्बा धारीदार कांटा ! एक धारी काली , एक सफेद , एक काली , एक सफेद । माही बोल्गा पर किसी के पास ऐसा तिरेंदा न

मिले। हां, काटे के एक सिरे पर छेद हो गया था। और अगर छेद में से काटे में पानी भर गया, तो तिरेंदा डूब जायेगा। पर आर्सेनी रोमानोविच ने अटारी पर मधुमक्खियों के छत्ते का चौखटा ढूँढ़ लिया था और वह छेद में मोम भर देना चाहते थे। वैसे तो मोम पड़ा-पड़ा चकमक सा सख्त हो गया था। पर आर्सेनी रोमानोविच के पास स्पिरिट लैम्प है, उस पर मोम पिघलाया जा सकता है। हां, स्पिरिट अभी नहीं है, सो लैम्प जलता नहीं। पर मिट्टी के तेल से भी काम चलाया जा सकता है। अभी थोड़े दिन पहले ओला अदामोन्ना कहीं से मिट्टी का तेल खरीद लाई थीं और अल्योशा को पता था कि उन्होंने उसे कहां छिपा रखा है।

अल्योशा की सारी मुसीबतों की जड़ ओला अदामोन्ना ही हैं। वही हर बक्त आर्सेनी रोमानोविच की चुगली करती रहती थीं: बुद्धा बेचारे अल्योशा को विगाड़ डालेगा! ज़रूर उन्हें आर्सेनी रोमानोविच से जलन होती होगी, तभी ऐसे कहती फिरती हैं! आखिर वह आर्सेनी रोमानोविच का मुकावला थोड़े ही कर सकती हैं! उनका मुकावला कौन कर सकता है! मां को छोड़कर दुनिया में अगर सबसे प्यारा कोई है तो आर्सेनी रोमानोविच ही। यदि अल्योशा से कोई पूछे कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो वह जवाब देगा: आर्सेनी रोमानोविच।

वह सारे जीवन भर आर्सेनी रोमानोविच जैसा ही होना चाहता है, पर मन ही मन समझता भी है कि वह कभी ऐसा नहीं बन पायेगा। भला वह कभी हर चीज़ के बारे में इतना कुछ जान पायेगा, जितना आर्सेनी रोमानोविच जानते हैं? कहां से उसके पास ऐसा घर, ऐसा बाग और वे ढेर सारी चीजें आयेंगी, जिनसे गलियारा भरा हुआ है? और वह ठीहा? वह डूबतों को बचाने का चक्का? भला अल्योशा के पीछे लड़के ऐसे झुंड बनाकर चला करेंगे? और क्या कभी उसे ऐसी नौकरी मिलेगी, जैसी आर्सेनी रोमानोविच की है? पापा को देखो न, उनकी तो कोई नौकरी है ही नहीं। मन तो उनका भी करता होगा। और आर्सेनी रोमानोविच की टोपी? उनकी दाढ़ी? अल्योशा भला कहां ऐसी दाढ़ी बढ़ा पायेगा!

नहीं, अल्योशा भली भाँति समझता है कि वह कभी आर्सेनी रोमानोविच नहीं बन पायेगा। वह तो वस दूसरे लड़कों की तरह उनके

साथ रहना चाहता है। टीलों पर, नदी किनारे धूमना चाहता है। आज्ञाद, निडर होकर और सदा, सदा !

अल्योशा के आंसू सूख गये थे। उसने चेहरा पोछा और मैलो की बटनों जैसी फलियां तोड़कर वहीं बाग में खा लेने का फँसला किया, ताकि कोई उसे देख न ले। नहीं तो सबको अल्योशा के पेट की चिंता होने लगेगी। अभी उस दिन ओला अदामोन्ना बाजार से मीठी, काली वेरियों का कसोरा खरीद लाई थीं। अल्योशा खाने वैठा ही था कि पापा ने कसोरा उठाकर कूड़े की बाल्टी में फेंक दिया। “देवी जी, अगली बार आप खट्टी वेरियों ले आना, उनसे जल्दी हैजा हो जायेगा !” गुस्से में उन्होंने कहा था।

पापा यों भी हर बात से डरने लगे थे। कभी वह कहने लगते कि वे सब भूखों मर जायेंगे। या उदास होकर ठंडी सांस भरते: “आस्या, यहां किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है।” या कभी ऐसी बात कहते, जो अल्योशा विल्कुल ही न समझ पाता: “अल्योशा तो शायद बुढ़ापे में कुछ देख ले, पर आस्या, हम तुम कुछ नहीं देख सकेंगे।”

. “पापा, अगर तुम्हें ठीक दिखाई नहीं देगा, तो ओला अदामोन्ना जैसी ऐनक खरीद लेना,” तब अल्योशा ने कहा था।

“वाह रे, मेरे बुद्धू,” पापा ने जबाब में कहा था।

ये सब बातें याद करते हुए अल्योशा ने आखिरी फलियां खा लीं और भुरमुट में से निकलकर पगड़ंडी पर आया। यहां उसने सिर उठाया और सहसा ऊपर गलियारे की खुली खिड़की में फौजी को देखा, जो बाग की ओर पीठ किये खड़ा था। उसकी छोटे-छोटे बालों वाली गुद्दी और एकदम सपाट पीठ देखकर वह तुरंत ही उसे पहचान गया और तुरंत ही सहम गया।

हाथ झाड़कर वह घर की ओर भागा। उसका जूता उतर गया, दौड़ते-दौड़ते ही वह जूते के पिछले को मलते हुए पंजा घुसाने की कोशिश कर रहा था। वह वेहद जल्दी में था। दिल की धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी।

गलियारे में पापा और मां ज़ूविन्स्की से बात कर रहे थे।

“जी, मैंने कहा न, मामला तय हो चुका है,” ज़ूविन्स्की विनम्रता-पूर्वक कह रहा था।

“पर यह तो हमारी सारी ज़िंदगी का सवाल है,” मां ने हौले से जवाब दिया और अपनी असाधारणतया बड़ी आंखों से ज़विन्स्की की ओर देखा।

“मुझे अफ़सोस है। मैं समझता हूँ, यह घीर असभ्यता है। किन्तु मैं क्या कर सकता हूँ? मोर्चों पर स्थिति ऐसी है कि क्षमा कीजिये, शैतान जाने क्या से क्या हो जाये! मैं तो आजा का पालन कर रहा हूँ। परसों मकान खाली हो जाना चाहिए। इसे फौजी महकमे के नाम कर दिया गया है। आप कृपया नागरिक दोरोगोमीलोव से कह दीजिये कि यह निर्णय अंतिम है।”

ज़विन्स्की ने एड़ियां बजाई, टोपी पहनी और सल्यूट मारा।

अब फिर से, दूसरी बार अल्योशा ने सीढ़ियों पर उसके भारी बूटों की पटापट सुनी।

पापा चुपचाप गलियारे में से कमरे में चले गये। अल्योशा चुपके से दरवाजे के पास सरक गया और सांस रोके खड़ा हो गया। दौड़कर आने से अभी तक उसका दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। अभी तक उसका डर दूर नहीं हुआ था। ज़विन्स्की के शब्द - अंतिम निर्णय - घंटे की घनघनाहट की तरह धीरे-धीरे हवा में विलय नहीं हुए थे, बल्कि उनकी गूंज बढ़ती जा रही थी, मानो कोई इंजन चला आ रहा हो। इंजन अब सड़क पर बढ़ रहा है। अब वह बाग में घुस आया है और पेड़ों को कुचल रहा है। वह घर में घुस आया है और गलियारे में आर्सेनी रोमानोविच की इतनी अच्छी, प्यारी-प्यारी चीजें रौंद रहा है। अभी उसके भार से अल्योशा के पैरों तले फर्श ढह जायेगा।

“यह बात है!” खामोशी को चीरती पापा की तीखी आवाज आई। उन्होंने मुड़कर मां की ओर देखा और क्षण भर बाद चिल्लाये:

“ऐसे मत देखो अपनी इन कासनी आंखों से!”

अल्योशा ने पहले कभी पापा को यों चिल्लाते नहीं सुना था।

पापा ने तम्बाकू की डिविया उठाई, धम से पलंग पर बैठ गये और कांपती उंगलियों से सिगरेट बनाने लगे। मां उनके पास गई, उनके सिर पर हौले से हाथ फेरा, जैसा अल्योशा को फुसलाने के लिए किया करती थीं।

“निराश मत होओ,” वह बोलीं। “मेरी बात मानो। अभी उस जल्लाद इज्वेकोव के पास जाओ। उससे बात करो, हमारी हालत की तस्वीर खींचो।”

“तस्वीर खींचो !” पापा ने मां की नक्ल उतारी। “अब तस्वीर खींचने का नहीं, हथौडे मारने का वक्त है। फिर भी कोई नहीं सुनेगा ... मैं उस छोकरे के सामने जलील होऊँ ? हमारी हालत ! यह हालत नहीं है, यह अनर्थ है ! समझों ?! हमारे लिए यह प्रलय है ! कफ़न है ! कन्न है ! सूली है ! मौत है !”

“जलील होने का क्या मतलब ?” मां बोलीं। “जब वारिश हो रही हो, तो तुम छाता खोलते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम वारिश के सामने जलील हो रहे हो।”

पापा उछलकर खड़े हो गये, फिर क्षण भर खड़े रहकर शांत स्वर में बुद्धुदाये :

“मेरी टोपी कहां है ?”

उन्होंने बाल्टी में से चुल्लू भर पानी लेकर छिड़क दिया और गीला हाथ वालों पर फेरा, कंधी की, टाई ठीक की। फिर मां का हाथ पकड़कर देर तक अपने होंठ उस पर रखे रहे।

“अच्छा, नाराज़ मत होना,” अस्फुट स्वर में उन्होंने कहा।

गलियारे में बेटे पर उनकी नज़र पड़ी। अल्योशा दरवाजे में से सरककर मां के पास जाना चाहता था। पर पापा ने उसे पकड़ लिया, छोटे बच्चे की तरह कोहनियों से उसे सिर के ऊपर उठा लिया, फिर थोड़ा नीचा करके माथा चूमा। अल्योशा का कलेजा बल्लियों उछलने लगा, उसने पूछा :

“पापा, पापा, आप सचमुच आसेंनी रोमानोविच को वह अंतिम निर्णय की वात नहीं बतायेंगे न ? है, न ?”

पापा ने उसे फ़र्श पर खड़ा कर दिया।

“जा, मां तुझे सब कुछ समझा देंगी ...”

वाहर सड़क पर अलेक्सान्द्र ब्लादीमिरोविच पास्तुखोव को अजीब सा लग रहा था। लोगों की ओर उसका ध्यान आंकर्षित नहीं हो रहा था, गर्मी भी उसे महसूस नहीं हो रही थी, यहां तक कि उसकी व्राण-शक्ति भी मंद पड़ गई लगती थी। उसके लिए सब कुछ एक विचार में सीमित होकर रह गया था और यह विचार एक शूल की भाँति मन में चुभ रहा था। उसने इसे “मृत्यु दण्ड सुननेवाले व्यक्ति की अंतिम घड़ी” की संज्ञा दी। एक ओर एक यथार्थ था, जिसका

महत्व सबसे बढ़कर था, दूसरी ओर, इस यथार्थ का कोई अर्थ ढूँढ़ पाने की उत्कट इच्छा थी—यही दो बातें एक साथ उसके दिमाग पर हावी थीं। यथार्थ यह था कि उसे मृत्यु दण्ड सुना दिया गया था। इस यथार्थ में कुछ अर्थ ढूँढ़ पाने के प्रयासों से उसके मस्तिष्क में अंतर्विरोध की लहरें रह-रहकर उठ रही थीं: कभी वह इस दण्ड को स्वीकार कर लेता और कभी उस पर भड़क उठता।

गृहयुद्ध भी एक यथार्थ था। इस युद्ध के अलग-अलग व्योरों पर विचार किये विना पास्तुखोव उन्हें अभिन्न समग्रता में देखता था, ठीक वैसे ही जैसे “मृत्यु” शब्द में ही दण्डप्राप्त व्यक्ति जीवन से विछुड़ने के दसियों व्योरे देखता है।

वह नगर की शांत सड़कों पर चला जा रहा था, पर पास ही कहीं, गलियों-सड़कों के पार उसे निरंतर बढ़ते कोलाहल का आभास हो रहा था। लगता था मानो जुलाई का ज्वालामुखीय विस्फोट नगर की वेखवर शांति भंग करने बढ़ता चला आ रहा है।

जुलाई में ब्रांगेल की काकेशियाई सेना बोल्मा के तट पर धीरे-धीरे कमीशिन नगर की ओर बढ़ती चली आ रही थी। एक महीने से भी कुछ पहले ही येकातेरीनोदार में दक्षिणी रूस की सेना के नाम जारी किये गये आदेश में देनीकिन ने कोल्नाक को रूस का सर्वोच्च शासक स्वीकार कर लिया था, और इसके उत्तर में सर्वोच्च शासक ने जनरल को “गहरे आभार” का तांर भेजा था। पूर्वी और दक्षिणी रूस की प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों के इस प्रकार मिल जाने के शीघ्र ही वाद देनीकिन अधिकृत नगर त्सरीत्सिन पहुंचा। वहां अपनी फौजों की परेड के वाद उसने एक नये आदेश पर हस्ताक्षर किये, जो आत्मविश्वास भरे इन आडम्बरपूर्ण शब्दों के साथ आरम्भ होता था: “रूस के हृदय—मास्को—पर अधिकार करने के अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम आदेश देते हैं...”

इस आदेश में प्रत्येक श्वेत जनरल के अलग-अलग कार्यभार विस्तार-पूर्वक निर्धारित किये गये थे। यह आदेश पढ़कर बेबस ही तोलस्तोय के ‘युद्ध और शांति’ के जनरल प्लूल की याद आती थी, रूसी जनरल की बेढ़व सिली बर्दी पहने उस जर्मन विद्वान की, जो रणक्षेत्र के मानचित्र का अध्ययन करते हुए सैद्धांतिक योजनाएं बनाने में ही निपुण था। इस आदेश के अनुसार ब्रांगेल को सरातोव—र्तीश्चेवो—बलाशोव के

मोर्चे पर निकलना था तथा पेंजा और नीजनी नोवगोरोद से होते हुए मास्को की ओर बढ़ना था। सिदोरिन को वोरोनेज - कोज्ज्लोव - र्याज्ञान की दिशा में तथा येलेत्स - कशीरा की दिशा में हमला करना था। माइ-मायेव्स्की को कूर्स्क - ओर्योल - तूला होते हुए मास्को पर धावा बोलना था। दक्षिण में कीयेव और खेसोंन, निकोलायेव और ओदेस्सा पर कब्जा करने का लक्ष्य रखा गया था।

परन्तु उधर फूंजे ने वसीली चपायेव को उराल्स्क पर कब्जा करने का आदेश दिया था, और देनीकिन का 'मास्को आदेश' जारी किये जाने के एक दिन पहले ही चपायेव की फौजें उराल्स्क की ओर बढ़ने लगी थी। कज्जाकों की हार हुई और पांच दिन बाद वे दक्षिण की ओर भाग चले। इसके और पांच दिन बाद फूंजे के आदेश के अनुसार निर्धारित तिथि को चपायेव ने उराल्स्क पर पड़े सफ्रेद गार्डों के घेरे को तोड़कर अपने रिसाले के साथ नगर में प्रवेश किया। इसके चौबीस घंटे बाद ही पूर्वी मोर्चे पर लाल सेना को एक और विजय प्राप्त हुई: ज्लातोज्स्त नगर पर अधिकार कर लिया गया, जबकि उराल पर्वतों के पार खदेड़ दिये गये कोल्चाक के सफ्रेद गार्ड साइवेरिया में पीछे हटने लगे।

रात्रि के अंधकार में जंगल में भटकता व्यक्ति यह जानता है कि कहीं प्रकाश है, खुला रास्ता है। परन्तु इस ज्ञान से उसकी यह अनुभूति दूर नहीं होती कि वह अंधकार में है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पास्तुखोव को उराल्स्क की खबर मालूम थी, ज्लातोज्स्त के बारे में भी उसने सुना था। उसे यह भी पता चल गया था कि लाल गार्ड त्सरीत्सिन पर जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। किन्तु अपनी सभी इंद्रियों से उसे सरातोव के पास ही पास आते जा रहे मोर्चे की घटन की ही अनुभूति हो रही थी। युद्ध ज्वार की भाँति नगर पर चढ़ता चला आ रहा था, नगर के सिंहद्वार पर युद्ध की तृतीय रुक्मि थी, युद्ध पास्तुखोव पर टूट रहा था, पास्तुखोव पर, उसकी आस्था और अल्योशा पर, गिलास में सजाये उसके फूलों पर, उसकी हस्तलिपियों, उसके विचारों पर, भविष्य की उसकी आगामों पर, उसके सारे जीवन पर। इतिहास ने, समय ने, कैलंडर ने, घड़ी की मूढ़ियों ने पास्तुखोव को युद्ध की सजा सुना दी थी। मृत्यु दण्ड सुना दिया था। यह एक यथार्थ था।

इस यथार्थ में भला कोई अर्थ कैसे ढूँढ़ा जा सकता था? क्योंकि अलेक्सान्द्र पास्तुखोव उस युद्ध में जान गंवाये, जिसका उसने आह्वान नहीं किया था, जिसे वह नहीं चाहता था, जिससे वह दूर-दूर ही रहने की कोशिश करता आया था? आखिर दण्ड तो अपराध के लिए, दोष के लिए, उल्लंघन के लिए दिया जाता है। उसने जीवन की किस सीमा का उल्लंघन किया है? उसका दोष क्या है? वह कांतिकारी लाल पक्ष का नहीं है, इसलिए उसे प्रतिक्रांतिकारी सफेद पक्ष का माना जायेगा। वह सफेद पक्ष का नहीं है, इसलिए उसे लाल पक्ष का माना जायेगा। उसे इसीलिए सजा सुनाई गई है कि वह न लाल है, न सफेद। पर क्या सारी दुनिया या लाल है, या सफेद? अगर पास्तुखोव पीला है तो? मार डालो उसे! नीला है तो? तो भी मार डालो! पर पीले या नीले क्यों नहीं मारते, लाल और सफेद ही क्यों मारते हैं? वैसे तो हरे भी हैं, और वे भी मारते हैं। मज़े की बात यह है कि ये हरे भाई-बंधु कहलाते हैं – भाई-बंधु जो मारते हैं, हरे भाई, जंगल में छिपते-फिरते भगोड़े। उसी जंगल में जहां पास्तुखोव अंधकार में भटक गया है। वह भटक गया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। यह एक यथार्थ है। और इस यथार्थ का कोई अर्थ नहीं समझा जा सकता। क्योंकि मृत्यु दण्ड पानेवाला दूसरों के लिए अपनी मृत्यु का महत्व तो समझ सकता है, लेकिन अपने लिए अपनी मृत्यु का महत्व नहीं समझ सकता: किसी कारण से इतिहास को, समय को, कैलंडर को, घड़ी की सूझियों को उसकी मृत्यु की आवश्यकता है, पर स्वयं उसे इस मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए, पास्तुखोव के लिए, जो मर जायेगा, मृत्यु में कोई अर्थ नहीं है। और उसका मस्तिष्क मृत्यु के इस विचार का विरोध करता है।

परन्तु उसका मस्तिष्क सहसा मृत्यु को स्वीकार कर लेना चाहता है, हालांकि वह स्वयं यह नहीं चाहता। वह यह सोचता है: मनुष्य के लिए ऐतिहासिक परिस्थितियां ऐसा ही यथार्थ हैं, जैसा कि स्वयं उसकी प्रकृति। उसे अपना जीवन-काल बढ़ाने के लिए प्रकृति की शक्तियों से संघर्ष करने का अवसर प्राप्त है। परन्तु विजय अंततः प्रकृति की शक्तियों की ही होती है और उसकी मृत्यु। उसे यह अवसर प्राप्त है कि वह परिस्थितियों को देखते हुए अधिक सशक्त रुख अपनाये और अपना जीवन-काल बढ़ाने के लिए संघर्ष करे। परन्तु अगर वह यह पूर्वानुमान

लगाने में असमर्थ है कि कौन सा रुख उसके जीवन की रक्षा करेगा, और वह असामियक मृत्यु का शिकार हो जाता है, तो उसके लिए वस यही शेष रह जाता है कि वह इस बलि में कोई अर्थ ढूँढ़े। बलि की निरर्थकता में अर्थ ढूँढ़े। और वह यह अर्थ ढूँढ़ रहा है। अगर एक युवा, स्वस्थ, प्रतिभाशाली व्यक्ति, जैसा कि पास्तुखोब अपने आप को समझता है, अर्थ की ही बलि चढ़ जाता है, तो लोग उसकी मृत्यु की निरर्थकता समझ जायेंगे। लोग एक, दो, दस पास्तुखोबों को मार डालेंगे और सहसा यह पायेंगे कि उन्हें बेकार ही मारा। वे यह देखेंगे कि यह क्षति केवल निष्कल ही नहीं है, बल्कि इससे कोई लाभ नहीं, यह हानिकारक है। वे यह समझ जायेंगे, होश में आ जायेंगे और तब निरर्थक बलि सार्थक हो जायेगी।

परन्तु यहां फिर से पास्तुखोब के विचारों का क्रम अपने प्रस्थान-विंदु पर आ पहुंचता है। यह सच है कि बलि सार्थक हो सकती है। किन्तु बलि का अर्थ उन लोगों के लिए ही है, जिनके लिए बलि दी गई है, उनके लिए नहीं जिन्होंने बलि दी है। जिसने “अपने भाई-बंधुओं के लिए” अपनी बलि दी, उसने कुछ नहीं पाया। पानेवाले भाई-बंधु हैं। कौन हैं ये भाई-बंधु? किनकी खातिर पास्तुखोब का अंत होना चाहिए?

वह अपने मित्रों, अपने बंधुओं के बारे में सोचता है। कहां हैं वे? आस्या? अल्योशा? अगर वह मर गया, तो उन्हें दुख भेलने पड़ेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग के उसके मित्र? वे धरती पर जाने कहां-कहां तितर-वितर हो गये हैं और उन्हें उससे कोई वास्ता नहीं है। थियेटरों के डायरेक्टर, अभिनेता मण्डलियां? वे उसकी मृत्यु से कुछ सीखेंगे तो क्या, उन्हें वस उसके मरने का अफसोस ही होगा। पास्तुखोब के मर-मिट जाने पर किसको लाभ होगा? दो-तीन कलमधिस्मुओं को, जिनके मार्ग में पास्तुखोब की सफलता बाधक थी। वे मिलकर अखबार में उसकी मृत्यु मूचना छपवा देंगे और फिर तलबों से घड़ियालू आंसू पोंछते हुए डस खुशी से नाचेंगे कि अब पास्तुखोब का कोई भी नया नाटक नहीं छपेगा। तो क्या उन्हें नाचने-कूदने का अवसर देने के लिए ही उसे मरना चाहिए?

नहीं, पास्तुखोब के कोई मित्र नहीं हैं। शायद सारी विपदा यही है

कि उसका कोई मित्र नहीं है ? सम्भव है अगर उसके मित्र होते , तो वे यह निश्चय करने में उसकी मदद करते कि वह किधर जाये ? अगर इतिहास , समय , कैलंडर , घड़ी की सूझायां – सबने उसे मृत्यु दण्ड सुना दिया है , तो वह किस खातिर अपनी बलि दे ? पास्तुखोव को अपना मार्ग चुनना था , हां , हां , अपना मार्ग चुनना था ! उसके सारे जीवन का , सारे अस्तित्व का सार एक ही बात में है और वह यह है कि पास्तुखोव अपना मार्ग चुन ले !

इस तरह मृत्यु दण्ड पानेवाले व्यक्ति की अनुभूति लिये पास्तुखोव इज्वेकोव के यहां पहुंचा । उसे स्वागतकथ में रुकने को कहा गया । वह समझता था कि यहां उसका अनादर किया जा सकता है और वह इस अनादर के लिए तैयार था । उसके ठबन तक में यह भाव था कि वह सब कुछ सह लेगा । लेकिन यह उसकी गलतफ़हमी थी : उसका अनादर करने का इरादा किसी का नहीं था । आधेक घंटे में इज्वेकोव वेहद जल्दबाजी में बाहर निकला :

“माफ़ करना , टेलीफोन पर कुछ ज़रूरी बातें थीं । चलिये , अंदर चलिये । आपको एतराज़ न हो तो मैं खाना खा लूँ ? ”

आफ़िस के बगल में छोटे से कमरे में पहुंचकर इज्वेकोव ने दो प्लेटों पर पड़ा हुआ कपड़ा उठाया । एक प्लेट में बाजरे का दलिया था और दूसरी पर एक सेव , जो अभी पूरी तरह पका नहीं था , और सबसे सस्ती डब्लरोटी का एक टुकड़ा ।

“लीजिये , सेव खाइये ,” इज्वेकोव ने कहा ।

“जी नहीं , धन्यवाद । मुझे डर है मैं आपके काम में बाधा डालूँगा । वैसे मेरा काम छोटा सा ही है । ”

“नहीं , नहीं , विल्कुल नहीं ,” चम्मच से दलिया मुंह में डालते हुए इज्वेकोव ने उसकी बात काटी । “खा लीजिये सेव । हमारे सोवियत बागों का है , रोकोतोब्का का । गये हैं कभी वहां ? ”

“हां । बड़ी प्यारी जगह थी । ”

“अब भी है । ”

“आपने देखी है ? ”

“नहीं । मैं कल्पना कर सकता हूँ । ”

पास्तुखोव के मन में इस नौजवान के प्रति कौतूहल जागा , जो

ठंडा दलिया ऐसे मज्जे से खा रहा था , जैसे किसी बहुत ही नफीस खाने से उसकी भूख जागी हो । वैसे उसकी यह भूख पास्तुखोव का कौतूहल नहीं जगा रही थी (इन दिनों शायद ही कोई ऐसा आदमी था , जो विना भूख के खाना खाता हो) । उसे तो इस बात से कौतूहल हो रहा था कि खाना खाते हुए भी उसके चेहरे पर किसी चिंताजनक विचार की छाप बनी हुई थी , पर यह विचार प्रत्यक्षतः उसके खाने में ज़रा भी विच्छ नहीं डाल रहा था ।

“ आजकल तो क्या बाग , क्या खलिहान सभी एक जैसे हैं । ”

“ एक जैसे अच्छे , या एक जैसे बुरे ? ”

“ यही बहुत है कि सब एक जैसे हैं । मेरे विचार में मानवजाति का सारा दुर्भाग्य इन समानता की शिक्षाओं के कारण ही है । जीवन का कोई सामान्य , सबके लिए एक जैसा रूप नहीं बनाया जा सकता , न ही मनुष्य के सुख का कोई एक जैसा रूप हो सकता है । ”

इज्वेकोव ने होठों पर जीभ फेरी और मानो पास्तुखोव को आंख मारी ।

“ बहुत जी हो रहा फ्लसफ़ा भाड़ने का , है न ? चेखोव के नायकों की तरह । ठीक है , हो जाये । तो पहले एक भ्रम दूर करना चाहिए । सामान्य का अर्थ एक जैसा नहीं है । सामान्य का अर्थ है , जो सबका है , एक जैसा नहीं । यह जो सामान्य है वह विविधतापूर्ण होगा , लेकिन सबके लिए समान रूप से उपलब्ध होगा । हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार काम चुनेगा , कोई बागवानी करेगा , कोई सर्जन बनेगा , कोई हल चलायेगा , कोई इंजन । परन्तु हर किसी के लिए सुख समान रूप से उपलब्ध होगा । ”

“ अगर वह इस सुख से इन्कार नहीं कर देगा , तभी न , ” पास्तुखोव बोला ।

“ इन्कार करने में कोई फ़ायदा नहीं होगा । ”

“ किसी को फ़ायदा नहीं होगा , किसी को होगा । यह जो युद्ध चल रहा है , यह इसी बात का प्रमाण है । ”

“ हाँ , जब तक कि बंटवारा चल रहा है । जिन लोगों से अतिरिक्त मम्पदा छीनी जा रही है , उनका फ़ायदा उन लोगों के सुख से इन्कार करने में ही है , जिन्हें यह अतिरिक्त मम्पदा दी जा रही है , ” इज्वेकोव मुस्करा दिया ।

पास्तुखोब को उसके चेहरे पर एक नये संतोष की झलक दिखाई दी – अपनी श्रेष्ठता का चंचलताभरा संतोष। इज्जेकोब वड़े मजे से बात कहता और ऊपर से दलिया खा लेता, मानो सहज ही ढूँढ़ लिये गये तर्कों के लिए अपने आपको मजाक में इनाम दे रहा हो।

“यह सब विचारों का खेल है,” पास्तुखोब ने कुछ रुखाई से कहा। “जीवन की प्रेरक शक्ति तो भावनाएं हैं।”

“और विचार भी!” इज्जेकोब ने चट से जवाब दिया। “बल्कि विचार ही सर्वोपरि हैं, क्योंकि वे भावनाओं को संचालित करने का प्रयास करते हैं।”

“नहीं, यह ठीक नहीं है,” पास्तुखोब ने कुछ झुंझलाते हुए विरोध किया। “पहले तो पीड़ा हुई, इशारा हुआ, चीख निकली, फिर ही शब्द उच्चारित हुआ। विचारों का जन्म भावनाओं से होता है, इसका उलट नहीं होता। जी हां, उलट नहीं होता। कटुता, धृणा, प्रेम सदा चेतना से अधिक सशक्त होते हैं। हम युद्ध नहीं चाहते, किन्तु उसके बिना काम नहीं चलता।”

“हम निरर्थक युद्ध नहीं चाहते, अर्थात् वह युद्ध, जो बुरे इरादों के लिए लड़ा जाये।”

“आप ऐसा युद्ध चाहते हैं, जो प्रेम से प्रेरित हो? ऐसा युद्ध, जो अपने इरादों से, अपने उद्देश्य से भला युद्ध हो, क्यों? परन्तु इसका अर्थ यह है कि आप चेतना से आगे जो भावना है उसे उदात्त बनाना चाहते हैं, धृणा की भावना को सार से समृद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध धृणा से ही उत्पन्न होता है। और यह भावना उस विचार से अधिक प्रवल है, जिसे आप इससे आगे रखना चाहते हैं। युद्ध की बुराई उसके उद्देश्यों की भलाई से अधिक प्रवल है।”

इज्जेकोब ने खाली प्लेट एक ओर को सरका दी और सख्ती से पास्तुखोब की आंखों में आंखें गड़ाकर देखा।

“‘आप’ का यहां क्या मतलब है? कौन हैं ये?” उसने नीचे स्वर में पूछा।

पास्तुखोब क्षण भर को चुप रहा, फिर कंधे विचकाकर जवाब दिया:

“मेरा मतलब व्यक्तिगत तौर पर आप से नहीं है। परन्तु चूंकि आपने ‘हम’ कहा है ... मैं आम तौर पर बात कर रहा हूँ ...”

“अपने आप को अलग रखने के लिए?”

“क्या इसकी मनाही है?”

“यह आपका हक है। मैं तो सिफ्फ़ यह जानना चाहता था कि ‘हम’ बात कर रहे हैं, या ‘हम’ और ‘आप’। प्रत्यक्षतः यहां दूसरा वाला मामला है। तब मैं केवल ‘हम’ लोगों की बात करूँगा। जी हां, इस युद्ध में हम घृणा से प्रेरित हैं। परन्तु हमारी घृणा अंधी नहीं है। इसकी नज़र तेज़ है। यह है न्याय की नज़र। हम गरीबों की, अभागों की न्यायोचित लड़ाई लड़ रहे हैं, मानवोचित जीवन के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम युद्ध नहीं चाहते, हम सबके लिए शांति चाहते हैं। पर हमारे खिलाफ़ हिंसा बरती गई है, हम पर युद्ध थोपा गया है। हमने इस चुनौती को स्वीकार किया है। हम युद्ध के विरुद्ध लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा युद्ध वुरे इरादों के लिए नहीं है, निरर्थक नहीं है। यह युद्ध, जैसा कि आपने कहा है, भला युद्ध है। इसका महान अर्थ है और उदात्त ध्येय। अगर हम हथियार डाल देंगे, तो हम अपराधी होंगे, क्योंकि हमें क्षमा नहीं किया जायेगा, हमें कुचल डाला जायेगा और अभागे और भी अधिक अभागे हो जायेंगे।”

पास्तुखोव ने इज्वेकोव को रोकने के लिए हाथ उठाया। रास्ते में उसके मन में जो व्यथा उठी थी, वही फिर सहसा लौट आई थी, उसे दबाते हुए, हैले-हैले वह बोला:

“आप जिन ध्येयों की चर्चा कर रहे हैं, उनकी महानता में मुझे कभी भी संदेह नहीं रहा है। मैं इतना भोला-भाला नहीं हूँ और आखिर इतना हीन व्यक्ति भी नहीं हूँ कि सार्थक संघर्ष से डरूँ। परन्तु सच मानिये, मैं यह देखकर आतंकित हो उठता हूँ कि भलाई के लिए संघर्ष में इन्सान को इतनी बुराई करनी पड़ती है!”

इज्वेकोव ने चुपचाप सेव उठाया, सहज ही उसके दो टुकड़े कर दिये और मुस्कराते हुए आधा सेव पास्तुखोव की ओर बढ़ाया:

“चब्ब देखिये ...”

पास्तुखोव देर तक हिला-डुला नहीं, मन में गहरी दबी आशंका लिये वह हरे-सफेद आधे सेव को देखता रहा, जिसको गूदे पर चू आई रस की बूँदें चमचमा रही थीं।

“अच्छा, मैं बुद ही ब्बा देखता हूँ,” इज्वेकोव ने फिर से मुस्कराते

हुए कहा और आधे सेव को दांतों से कच से दो टुकड़ों में काट लिया।

बचपन से ही सुने हुए आदम-हव्वा के किस्से की ओर संकेत इतना प्रत्यक्ष था कि पास्तुखोव ने उस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं समझी। वह टकटकी लगाये यह देख रहा था कि कैसे इज़्वेकोव सेव के साथ रोटी चबा रहा है। किरील के उभरे-उभरे जबड़े जोर से चल रहे थे। लगता था वह खाने का आनंद लेने में पूरी तरह मग्न है। पर उसकी नज़रों में किसी चिंताजनक और साथ ही स्वप्निल विचार की भलक बनी हुई थी। सेव चबाते हुए वह बोला :

“आप कहते हैं कि युद्ध से आतंकित हैं, लेकिन युद्ध से आपका अभिप्राय क्रांति है। कम से कम मुझे तो यही समझ में आता है।”

“मेरा अभिप्राय मनुष्य द्वारा मनुष्य का विनाश किये जाने से है। और इस विनाश को क्या संज्ञा दी जाती है, इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या ?”

“आप युद्ध में नहीं लड़े हैं न ?.. फौज में एक अवधारणा है : ‘व्यययोग्य सामग्री’। हमारी नैतिकता की यह अपेक्षा है कि हम क्रांति के हाथों में भी ऐसी व्यययोग्य सामग्री दें। क्यों नहीं ? अगर सेनाओं को सदा से यह अधिकार प्राप्त रहा है कि वे विजय के नाम पर, शत्रु से रक्षा के नाम पर विनाश करने के उद्देश्य से सम्पत्ति का, मानव जीवन का उपयोग कर सकती हैं, तो हम क्रांतिकारी को कैसे हर तरह की सम्पत्ति से, मानव जीवन के अधिकार से वंचित कर सकते हैं, जबकि उसका ध्येय नये संसार का निर्माण करना है ? सैनिक से खर्च किये गये गोला-वारूद के लिए, नष्ट किये गये घरों, सम्पत्ति और जीवनों के लिए कोई जवाबदेही नहीं की जाती, बशर्ते यह सब उसने विजय की खातिर किया हो। तो फिर क्रांतिकारी से यह क्यों पूछा जाता है कि कोई प्लेट क्यों टूटी, किसी का हाथ-पैर क्यों टूटा, भले ही यह क्षति प्रत्यक्षतः शत्रु की हो ?”

“वात तो तर्कसंगत है, पर निर्मम”, पास्तुखोव ने कहा।

“और युद्ध ? वह विश्वयुद्ध, जिस पर आपने शायद तब तक कोई आपत्ति नहीं की होगी, जब तक कि वह क्रांति में नहीं बदल गया। वह निर्मम था, और तर्कहीन भी। ठीक है न ?”

किरील विजेता की भाँति पास्तुखोव की ओर देख रहा था।

भगवान जाने इस अप्रत्याशित शास्त्रार्थ में वे कहां से कहां पहुंच जायें ! – पास्तुखोव के मन में यह विचार आया , और उसने , जहां तक हो सका , अलसाये स्वर में यह दिखाते हुए कि विवाद करते थक गया है , कहा :

“मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है कि वह हर बात की व्याख्या करना चाहता है। वह जो कुछ देखता है या उसके चारों ओर जो कुछ घटता है , जब तक वह उसकी व्याख्या नहीं कर लेता , तब तक उसे चैन नहीं पड़ता । और एक बार व्याख्या पा लेने पर वह कुछ भी स्वीकार करने को तत्पर हो जाता है ।”

“स्वीकार करने को नहीं वल्कि उसने जो सही व्याख्या पा ली है , उसकी रक्षा करने को तत्पर रहता है ।”

बाप रे ! इस बातूनी को तो बहस का चस्का लगता है ! आखिर पास्तुखोव ऐसी कठिन घड़ी में यहां शास्त्रार्थ लड़ाने तो नहीं आया । उदास स्वर में वह बोला :

“पर क्या ... क्या आप इसीलिए जान खतरे में डालकर ट्राम के पायदान पर लटकते जायेंगे कि किसी व्याख्या तक पहुंच जायें ? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि चैन से पैदल चला जाये ?”

“गधे पर चढ़के भी जा सकते हैं ,” इज्वेकोव ने उसे छेड़ते हुए कहा ।

पास्तुखोव ने फिर से कंधे विचकाये :

“मुझे लगता है आप व्याख्याओं के पीछे भागना चाहते हैं , रूस को समझना नहीं चाहते ।”

“जी नहीं , मैं उन लोगों में से हूं , जो रूस को समझना चाहते हैं , ताकि नया रूम बना सकें । उन लोगों में से नहीं , जो उसे समझना चाहते हैं ताकि पुराना रूस बनाये रख सकें ।”

“पर एकवार्गी ही सब कुछ पुराना ढुकरा देने में भी मुझे कोई खास समझदारी नहीं दिखती । और भी बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं । मैं अकेला नहीं हूं ।”

“मुझे पता है , आप अकेले नहीं हैं ,” इज्वेकोव की हँसी फूटी । “पिछले महीने के आंकड़ों के अनुसार दो लाख लोग ऐसे हैं । अब आयद ज्यादा ही होंगे ।”

“कैमे आंकड़े ?”

“भगोड़ों को पकड़ने के केंद्रीय आयोग के।” (इज्वेकोव ने चेहरे पर फैल आई मुस्कान को हाथ से छिपा लिया।) “वैसे हो सकता है, इससे कहीं कम ही हों। कौन जाने आयोग आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता हो यह दिखाने के लिए कि खाली नहीं वैठे हैं, खूब जोर-शोर से पकड़ रहे हैं भगोड़ों को।”

थोड़ी देर तक पास्तुखोव कुछ नहीं बोला, मानो यह दिखाते हुए कि इज्वेकोव हृद से बाहर जा रहा है, और फिर सहसा गम्भीर लहजे में, मानो मज़ाक दरकिनार करते हुए, ऐसा विचार व्यक्त किया, जिस पर इज्वेकोव को और भी ज्यादा हँसी आई:

“आप बोल्शेविक हैं न? तो फिर आपकी पार्टी के अंतिम निर्णय के अनुसार आपको... कामरेड भगोड़ों के साथ काम करना चाहिए।”

“आपकी टिप्पणी में, जैसा कि कहते हैं...” इज्वेकोव कोई उपयुक्त शब्द ढूँढ़ रहा था, पर पा न सका और खिलखिलाकर हँस पड़ा।

उसकी हँसी में मज़ा लेने का अंदाज इतना नहीं था, जितना चुनौती का, सो पास्तुखोव ने फैसला किया कि हर तरह का मज़ाक नहीं चल सकता। बड़े रोब से खड़े होकर उसने अपना कोट झटका।

“भगोड़ा वह होता है, जो शपथ भंग करे। मैंने कोई शपथ नहीं ली है।”

इज्वेकोव भी खड़ा हो गया। अपनी सीधी भौंहें सिकोड़कर मिंची-मिंची आंखों से उसने पास्तुखोव को सिर से पैर तक नापा।

“जब शहर में बाढ़ का खतरा हो, तो सभी नगरवासी बांध बनाने आते हैं, बिना कोई शपथ लिये। और जो न आये, दुबककर बैठा रहे, वह भगोड़ा होता है।”

पास्तुखोव ने रूमाल निकालकर होंठ पोंछे और बहुत ही अद्व से पूछा:

“आपने खाना खा लिया?”

“हां, चलिये आफ़िस में चलें,” इज्वेकोव ने जवाब दिया।

आफ़िस में वह अपनी मेज़ के पास खड़ा हो गया यह दिखाते हुए कि वह जल्दी से जल्दी काम निपटा देना चाहता है।

“पता नहीं, हमारी इस दार्शनिक वहस के बाद आप मेरी मदद करना चाहेंगे कि नहीं,” पास्तुखोव खिंचे-खिंचे लहजे में बोला। “हम

बैधू हो गये हैं। जिस घर में हम रहे थे, उसे सेना विभाग अपने किसी आफिस के लिए ले रहा है। यह दोरोगोमीलोव का घर है। दोरोगोमीलोव का नाम सुना है आपने? हाँ, उसे भी हमारे साथ निकाला जा रहा है।”

“दोरोगोमीलोव को?”

“जी हाँ। हमें कल ही घर खाली करना है। कहाँ जायें? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मेहरबानी करके या तो उन लोगों को घर खाली करवाने से रोकिये, या फिर हमें रहने की कोई जगह दिलाइये।”

तब जो वातचीत हुई, उसके लिए वाकई किसी फ्लसफ़े की कोई ज़रूरत नहीं थी। चूंकि घर सैनिक अधिकारी ले रहे थे, इसलिए इज्वेकोव उन्हें रोक नहीं सकता था। और जहाँ तक नई रिहायश का सवाल था, तो नगर में स्थिति बहुत तंग थी, और पास्तुखोव को खुद ही कोई जगह ढूँढ़नी होगी। चौबीस घंटे में जगह ढूँढ़ पाना प्रत्यक्षतः असम्भव था, लेकिन इज्वेकोव को और कोई रास्ता नज़र नहीं आता था।

“माफ़ कीजिये ...” पास्तुखोव ने बुरा मानते हुए कहा, “पर अगर कल को लोग मेरे परिवार को जिप्सियों की तरह खुले आकाश तले अपने संदूकों, गटुरों पर बैठे देखेंगे, तो नगर सोवियत के बारे में क्या सोचेंगे?”

“यह नहीं हो सकता। आवास विभाग को आपको कोई न कोई रिहायश देनी होगी, भले ही अस्थाई तौर पर।”

“कहीं बैरक-बैरक में?” पास्तुखोव ने पूछा और ज़रा सा आगे भुका, मानो जो सकारात्मक उत्तर पाने का उसे विश्वास था, उसके लिए आभार प्रदर्शित कर रहा हो।

“हो सकता है,” इज्वेकोव ने भावहीन स्वर में उत्तर दिया। “आपको फ्लैट दिलाने के लिए आवास विभाग नये घरों की ज़र्ती तो कर नहीं सकता।”

पास्तुखोव मानो स्वयं अपना ही स्मारक बना खड़ा था, बांहें लटकी हुई, मूर्तिवत्, सारी आकृति ही मानो फूलकर बढ़ गई हो! महमा ठंडी सांस भरकर लड़खड़ाती आवाज में बह बोला:

“भगवान जाने आप मुझे किधर धकेल रहे हैं!”

“इमर्में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं आपको किधर धकेल

रहा हूं,” इज्वेकोव ने तुरंत ही उत्तर दिया। “आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, अपने दिमाग से काम ले सकते हैं... क्या बात है?” आफिस में दाखिल हुई कटे वालों वाली युवती से उसने पूछा।

“वहां मीटिंग में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं।”

“हां, मेरा काम खत्म हो गया। अभी आता हूं।”

“अच्छा, नमस्ते,” पास्तुखोव ने दबे स्वर में कहा और इज्वेकोव से हाथ मिलाये बिना ही छोटे-छोटे कदम भरता कमरे से बाहर चला गया।

जैसे ही उसके पीछे दरवाजा बंद हुआ, इज्वेकोव ने फौजी कमिसार से फ़ोन मिलाने को कहा। उधर सेक्रेटरी फ़ोन का हैंडिल धुमा रही थी, हुक ठकठका रही थी, टेलीफ़ोन आपरेटर को फ़िड़की सुना रही थी, इधर इज्वेकोव तेज-तेज चलता हुआ आफिस के चक्कर लगा रहा था। आखिर वह खुद टेलीफ़ोन आपरेटर से जूझने लगा, फ़ोन मिलने पर उसने फौजी कमिसार से कहा:

“सुनो, तुम्हारी शिकायत आई है मेरे पास कि तुम एक भले आदमी को घर से निकाल रहे हो... हां, हां, है एक भला आदमी... आर्सेनी रोमानोविच दोरोगोमीलोव। चाहो तो रागोजिन से पूछ लो उसके बारे में... क्या, पहली बार सुन रहे हो? लोगों को बेघर किया जा रहा है और तुम्हें पता तक नहीं? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझे तुमसे पूछना चाहिए – कौन आया था। तुम्हारे नाम से कोई घर खाली कराने आया था... क्या, तुम्हें कोई जगह नहीं चाहिए? अजीव बात है। भई, जरा पता लगा लो, क्या मामला है... हां, हां, जानता हूं, और भी ज्यादा ज़रूरी काम हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरे पास काम नहीं है? भई, जरा ठीक से जांच कर लो। आखिर यह अच्छी बात नहीं होगी। और हां, मुझे फ़ोन कर देना।”

किरील ने ज़ोर से अपनी जांधों पर हाथ मारे और खिड़की के पास चला गया। आखिर पास्तुखोव अपने मन से तो यह किस्सा घड़ नहीं सकता था! वह देखो, चला जा रहा है फ़ुटपाथ पर वैसे ही जैसे आफिस में से निकला था – भुंभलाया हुआ और अपनी भुंभलाहट दबाता हुआ। बस, लटकन में थोड़ा और रोब आ गया था, सिर थोड़ा और ऊपर उठ गया था, और दायां हाथ कदमों की ताल पर बड़ी शान से

और साथ ही सहज, स्वाभाविक रूप से भूल रहा था। नहीं, ऐसा आदमी कोई बेकार की वात नहीं कर सकता! ऐसे आदमी को पूरा विश्वास होता है कि वह संसार में व्यर्थ ही प्रकट नहीं हुआ है। ऐसे आदमी के लिए लोग रास्ता छोड़ते हैं, क्योंकि कद्र जाननेवालों का आदर करते हैं। हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ है ...

हाँ, यहाँ कुछ गड़बड़ थी। पास्तुखोव गरिमामयी चाल से चला जा रहा था। परन्तु यह उसकी जन्मजात लटकन थी, अपनी विलक्षण प्रकृति में विश्वास के अनुरूप गोभनीय ढंग से पृथ्वी पर डग भरने की आदत थी। जबकि पास्तुखोव के अंतर्रतम में पहले के आत्म-विश्वास का नामोनिशान तक न रहा था। इस संसार ने उसका तिरस्कार किया था, उसे दुतकारा था। उसका आहत मन वार-वार एक ही वात कहता जा रहा था: चले जा रहे हो तुम रोवदार डग भरते, अपनी सुडौल, मुंदर देह लिये, तुम जो कभी आज्ञाद थे। जान लो, हाँ अच्छी तरह जान लो—ये तुम्हारे अंतिम डग हैं! देख लो चाव से अपने आपको—कैसी सुडौल, हृष्ट-पृष्ट, गानदार काया है! लिये जाओ इसे अजात में! यह तुम्हारा अंतिम चाव है, तुम्हारी अंतिम घड़ी है! विदा ले लो, हर चीज से विदा ले लो जिसे तुम देख रहे हो! अपने आप से विदा ने लो, गीव्र ही तुम्हारा अस्तित्व मिट जायेगा।

पास्तुखोव मनहूस शक्ल लिये घर लौटा, और आस्या समझ गई कि उनकी हार हुई है। उसने टोपी उतार फेंकी, झटके से कोट उतार डाला, धम से कुर्सी पर बैठ गया। वह पहले कभी भी इतना बोभिल नहीं दिखा था।

“मो?” क्षमायाचक मुस्कान के साथ आस्या ने पूछा।

“सांप मुझे जान का फल चखने का प्रलोभन दे रहा था,” उसने कहा।

आस्या अधिक बेचैनी से, पर साथ ही चंचलता से मुस्कराई।

“तो क्या पाप हो गया?”

“जाओ, चाय बना लाओ।”

उसने इतनी तेज़ चाय गिलास में उंडेली कि आस्या को डर लगा कहीं उसके दिल को कुछ हो न जाये। वह लेट गया और साझे घिरने तक छत की ओर ताकता लेटा रहा।

फिर वह आस्या को बाहर बाग में ले गया। वे एक पहिये के औंधे पड़े थेले पर बैठ गये, जिसे अल्योशा बड़े शौक से चलाता था। वे धीरे-धीरे बातें करने लगे—दोनों के लिए ही ये बातें एकसमान स्पष्ट और महत्वपूर्ण थीं। मनों में निश्चय हो चुका था, पर दोनों बड़े धीरज से एक दूसरे को इस निश्चय की ओर ले जा रहे थे, उनके साथ जो कुछ घटा था—उस सब को एक बार फिर से याद करते, जांचते हुए।

उनका बस चलता तो वे इस भाड़-भँखाड़ भरे बाग की नीरवता में ही बसे रहते, जहां पैरों तले बेलों से उलझी धास का कालीन विछा हुआ था, मैलों के पौधे बाड़ से सटे हुए थे और सिर के ऊपर पाप्लर के घने वृक्षों का सायवान बना हुआ था। बेशक, यह स्वर्ग की बाटिका नहीं थी, किंतु चूंकि उन्हें यहां से भगाया जा रहा था, इसलिए उन्हें इसे छोड़ते हुए दुख हो रहा था। कल तक जो फ़रारी थे, आज उन्हें भगाया जा रहा था। अब उनके लिए एक ही रास्ता था कि वे दूसरी ऐसी जगह हूँड़ें, जहां उनके चैन में कोई विघ्न न पड़ सके। वह बलाशोव जिला, जो इतना अभिलाषित था और पहुंच से बाहर, जिसकी खातिर उन्होंने पीटर्सवर्ग छोड़ा था, वही फिर से उनका एकमात्र ध्येय बन गया। बेशक, वहां अभी भी वह कोठी है, जहां अनास्तासिया गेर्मानोव्ना—आस्या—के मां-वाप अपने अंतिम दिन काट रहे थे, वहां उन्हें दो जून की रोटी भी मिल जायेगी और रहने को घर भी, वहां कोई उनके निजी जीवन में दखल नहीं दे सकेगा। उन्होंने तुरंत ही वहां चल देने का निश्चय किया।

शाम को पास्तुखोव ने दोरोगोमीलोव को अपना निश्चय बताया।

दोरोगोमीलोव पिछले हफ्ते भर से निरंतर उत्तेजित था। घटनाएं उसके अहं को मानो उकसा रही थीं। वह अपनी निष्क्रियता के लिए अपने आप को लानतें दे रहा था। नगर में बेचैनी बढ़ रही थी। हर कोई अपने-अपने ढंग से बढ़ते आ रहे खतरे का सामना करने की तैयारी कर रहा था। और वह अपने दफ़्तर में बैठा बही-खाते देखा करता था, जैसा कि सारी उम्र करता आया था। वह इस बात पर भुँझला रहा था कि जिंदगी के ढर्दें को बदलने में अक्षम था। बरसों से जिस घर में वह बसा हुआ था उसमें से निकाले जाने की सूचना पर सहसा उसके मन में कोई विरोध नहीं जागा, उल्टे एक दबी-दबी आशा ही थी कि शायद

इससे ही उसे कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने का साहस मिलेगा - हो सकता है, वह सेना में भरती हो जाये, या शायद मोर्चे पर ही जाये। हाँ बिलकुल, वह अपने पुराने कोट की जगह फौजी बर्दी पहन लेगा, पेटी कस लेगा, टाई उतार फेंकेगा, दाढ़ी मुंडवा लेगा और लम्बे-लम्बे बाल भी! मार्च तो वह अच्छी तरह से कर सकेगा, क्योंकि उसे पैदल चलने की खूब आदत थी। वैसे उसकी ज़िंदगी तो बीत ही गई है, पर अभी भी उसके शरीर में जो थोड़ी बहुत शक्ति बची है, उसे वह उदात्त ध्येय में लगायेगा।

पास्तुखोब के यह बताने पर कि वह कल ही अपने परिवार को बलाशोब ले जा रहा है, दोरोगोमीलोब ने हैरान होकर पूछा:

“यह आप क्या कह रहे हैं? वहाँ तो बिल्कुल पास ही लड़ाई चल रही है! वच्चे को लेकर ऐसी जगह कैसे जाया जा सकता है? वहाँ चारों ओर सफेद गार्ड हैं!”

“हमारे जो हालात हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन है - सफेद या लाल। मुझे ऐसे हालात में डाल जो दिया गया है। हमें रहने को घर तो चाहिए,” पास्तुखोब ने मानो हेकड़ी दिखाते हुए जवाब दिया।

दोरोगोमीलोब ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। वस एक झटका सा खाकर पीछे हट गये और फिर शिष्टता दिखाने का कोई प्रयास तक न करते हुए अंधियारे गलियारे में से होकर अपने कमरे में चले गये।

अल्योशा ने यह छोटी सी वातचीत सुनी थी। वह यह देखकर स्तव्ध रह गया कि कैसे आर्सनी रोमानोविच उसके पापा से मुंह मोड़कर चले गये थे। दोरोगोमीलोब के चेहरे पर उसने पहले कभी भी ऐसी भर्त्सना नहीं देखी थी। बड़ी मुश्किल से वह सोया और सारी रात उसे डरावने सपने आते रहे - कभी वह घंटाघर से, कभी पहाड़ से, कभी जहाज के मस्तूल से उफनते समुद्र में गिरता रहा। पसीने से तरवतर वह जाग जाता। उसे मुनाई देता कि मां और ओला अदामोन्ना फ़र्द पर अखवार में चीनी के वर्तन लपेट रही हैं, पापा भारी सांस लेते हुए अटैचियों की चरमराती पेटियां कस रहे हैं।

जिस दिन पहली बार अल्योशा ने बीत्या और पाव्लिक को सचमुच लड़ते देखा था, तभी से वह उनका आदर करने लगा था। उसे लगता

था कि वे दोनों उससे कहीं बढ़कर हैं और इसलिए उनके प्रति उसके मन में श्रद्धामिश्रित भय का भाव था। और उनसे वह सदा सच बोलता था। सो, अगले दिन दोपहर को जब वे दोनों आर्सेनी रोमानोविच से मिलने आये, तो अल्योशा उन्हें सब कुछ बताने को तैयार हो गया। पर जब वह उनके साथ बाहर बगीचे में पहुंचा, तो उसे यह भास हुआ कि उन्हें पहले ही सब कुछ पता चल गया है। उसे लगा वह शर्म से गड़ा जा रहा है।

अल्योशा को आर्सेनी रोमानोविच के कमरे में वीत्या और पाब्लिक से हुई पहली मुलाकात खूब अच्छी तरह याद थी, लेकिन आज उनकी नज़रों में उस दिन से भी अधिक बेगानापन था। पाब्लिक ने तो निचला होंठ यों आगे को निकाल रखा था, मानो थूकने जा रहा हो। वीत्या सीटी बजा रहा था, अल्योशा यह धून नहीं जानता था और इसलिए उसे लग रहा था कि वीत्या उसे चिढ़ाने के लिए ही ऐसा कर रहा है। आखिर वीत्या को मानो अल्योशा पर तरस आ गया, उसने तिर-स्कारपूर्वक पूछा:

“क्यों, भाग लिये?”

“हम मां के घर जा रहे हैं। वहां फ़ार्म में नाना-नानी रहते हैं,” अल्योशा ने जतन से समझाया।

“हां, हां, कहे जाओ। पहले क्यों नहीं गये थे? अब जब यहां गुत्थमगुत्था होनेवाला है...”

“कैसा गुत्थमगुत्था?” अल्योशा ने पूछा।

“वही...”

“ये लोग सफेद गाड़िये हैं,” पाब्लिक ने हिकारत से कहा।

“नहीं, हम सफेद गाड़ों के साथ नहीं हैं,” अल्योशा ने हौले से कहा।

“तो फिर तुम लाल गाड़ों के खिलाफ़ क्यों हो?” वीत्या ने पूछा।

“हम लाल गाड़ों के खिलाफ़ नहीं हैं,” अल्योशा ने विरोध किया, और उसकी एक आंख आंसू से चमकने लगी।

तीनों चुपचाप खड़े थे, एक दूसरे की ओर नहीं देख रहे थे।

“तुम नाराज हो?” अल्योशा ने सकुचाते हुए पूछा और वीत्या के थोड़ा पास खिसक गया।

“हमें क्या जरूरत पड़ी है !” पाल्विक ने जवाब दिया।

“नाराज क्या होना ?” वीत्या ने हामी भरी। “तू तो छोटा है, जहां कहेंगे, जाना पड़ेगा।”

“यह सब पापा कर रहे हैं,” अल्योशा सहसा चिल्लाया। वह वीत्या का आभारी था कि उसने उसकी स्थिति समझ ली है। “मुझे तो आसेंनी रोमानोविच को छोड़कर जाते दुख हो रहा है... और तुम्हें छोड़ते भी,” उसने जोड़ा और उसका चेहरा गुलाबी हो गया।

“गरीब ज्यादा अच्छे होते हैं,” पाल्विक ने कहा। “मेरा वाप तेरे से गरीब है, पर ज्यादा अच्छा है। वस धृती है।”

“धृती का क्या मतलब ?” अल्योशा ने पूछा।

“वस जब हृत्ये से उखड़ जाता है, तो चढ़ जाता है।”

“पीटता है ?”

“पीटता नहीं, पीता है ! वाह रे भोंदू...”

वे थोड़ी देर और खड़े रहे, फिर पाल्विक ने वीत्या को बुलाया :

“चल चलें, यहां क्या करना है ?!”

अल्योशा से विदा लिये विना ही वे चले गये और वह पिछली सीढ़ी के पास अकेला खड़ा रह गया। खुले दरवाजे में से ऊपर से शोर आ रहा था। वहां भारी सामान गलियारे में निकाला जा रहा था।

अल्योशा को विह्वल कर रहे इस शोर के बीच कदमों की आहट सुनाई दी और आसेंनी रोमानोविच दरवाजे में प्रकट हुए – विना टोपी के, कोट के बटन खुले हुए, लंबे बाल उलझे हुए। वह तेज़-तेज़ चलते हुए अल्योशा के पास से गुज़र गये, वाहर का फाटक खोलने ही लगे थे, पर फिर लौट आये।

अल्योशा का सिर पकड़कर उन्होंने कसकर उसे अपने पेट से तीन बार लगाया और फिर अपनी दाढ़ी के उलझे हुए ठंडे-ठंडे बालों से उसका चेहरा ढांप दिया। आलिंगनों और चुम्बनों का यह अवोव्य और प्रचण्ड उद्गार क्षण भर तक ही जारी रहा और फिर अल्योशा से अलग होकर आसेंनी रोमानोविच फाटक की ओर दौड़ गये।

जब अल्योशा के कानों में फाटक के बंद होने की आवाज़ आई और उसने देखा कि वह अकेला रह गया है, एकदम अकेला ! – उसने मुट्ठियों से आंखें भींच लीं और सिसकियां भरते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा।

उसके साथ क्या घटा है – यह बात वह इतनी स्पष्टतया समझ रहा था कि आप से आप ही वह ऐसे नये, अभी हाल ही तक अनजाने शब्द पा रहा था, जो उसके मन की पीड़ा को व्यक्त कर रहे थे। उसे लग रहा था कि सिसकियां भरते हुए वह ये विचित्र, निराशा भरे शब्द उच्चारित कर रहा है। पर वह केवल रो ही रहा था। माँ और पापा के साथ, ओल्गा अदामोन्ना के साथ वह भी अभागा था, सबने उनसे मुंह मोड़ लिया था और वे न जाने कहां भाग रहे थे! सब उसे हीन दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उसके पापा गरीबों से बुरे थे, क्योंकि वह स्वयं पालिक और वीत्या के मुकाबले तुच्छ था, दब्बू था! बस एक आर्सेनी रोमानोविच ही थे, जिन्हें उस पर तरस आता था, उसमें प्यार था, पर वह भी उसे बचा नहीं सकते थे, और सदा के लिए छोड़कर चले गये।

अल्योशा ऊपर, गर्मियों के रसोईघर में गया और अंगीठी के पास खड़ा हो गया। उसने आंखों से मुट्ठियां हटाई और ठीक वैसे ही जैसे पहली बार इस घर में आने पर हुआ था, अपनी आंखों के सामने उसे डूबतों को बचाने का चक्का दिखा।

वहीं, पुरानी जगह पर यह शानदार चीज़ रखी हुई थी। इस चक्के के साथ अल्योशा के मन में क्या-क्या उम्मीदें बंधी हुई थीं! क्या-क्या सपने थे, जो पूरे नहीं हुए – कैसे वह दोस्तों के साथ मछली पकड़ने जायेगा, दूर बोल्या के बड़े पाट के तट पर, रेत पर धूमेगा, डांड़ चलायेगा, या फिर पालों वाली नाव पर पाल तानेगा, नदी पर गुज़रते स्टीमरों से उठनेवाली लहरों में वे सब तैरेंगे, और हाँ अलाव जलायेंगे – ढेर सारे अलाव! आर्सेनी रोमानोविच बच्चों को लेकर जब नाव पर जाते थे, तो इस चक्के को अपने सच्चे साथी की भाँति ज़रूर साथ रखते थे। और अब अल्योशा आर्सेनी रोमानोविच के इस सच्चे साथी से विदा ले रहा था, मानो ये उसकी खोई हुई आशाएं ही थीं। उसे लग रहा था कि वह स्वयं भी खो गया है, और संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं, जो उसे बचा सके।

उसने कार्क के चक्के की रंगीन देह को सहलाया, इस देह से लिपटी रस्सियों को पकड़ा और फिर अपना आंसुओं से भीगा गाल उससे सटा लिया।

गलियारे में मां की आवाज़ गूंजी :

“ अल्योशा कहां है ? हमारा अल्योशा कहां है ? ”

उसने आंखें और गाल पोंछकर सुखा लिये और स्खाई से जवाब दिया :

“ यहां हूं ... चिल्लाइये मत ! ”

सूरज डूबने से पहले ही पास्तुखोब परिवार सामान से लदे ठेलों के पीछे-पीछे स्टेशन पर पहुंच गया। दोरोगोमीलोब उन्हें छोड़ने नहीं आया था। अल्योशा ने सुना ओल्ला अदामोब्ना मां से कह रही थी : “ छोड़ने न आता , पर चलने से पहले नमस्ते तो कह सकता था ... इतनी भी सम्यता नहीं ! ” मां के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई , मानो वह विचारमग्न हों और वह बोली : “ वह सख्ती से फ़ैसला करता है । ”

पास्तुखोब वातचीत में हिस्सा नहीं ले रहा था। वह स्टेशन के चौक के दृश्य से अभिभूत था – यहां जीवन के साक्षात् दर्शन हो रहे थे , असंख्य रूपों में उफनता जीवन। वैसे ही जैसे वसंत में हुआ था , एक बार फिर उसका परिवार असहाय सा स्टेशन के सामने खड़ा था , फ़जूल के सामान के ढेर से बंधा हुआ , जिसे मानव-वाड़ से बचाने की ज़रूरत थी। पर इन कुछ महीनों में कैसे आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गये थे !

मवसे पहले तो लोगों की संख्या कहीं अधिक थी। उनका एक अनंत समूह यहां जमा था तथा लोगों के छोटे-बड़े भुंड इस समूह को भंवरों और धाराओं की भाँति चीरते आ-जा रहे थे। कई धाराएं स्टेशन के दरवाजों में अंदर को बहती जा रही थीं , दूसरी धाराएं सामने से टकरातीं और लोग गुच्छों में , किशमिश की तरह दबे हुए , प्रायः कुचले हुए शरीर लिये वाहर निकलते।

दूसरी जिस बात की ओर पास्तुखोब का ध्यान गया – वह थी सगस्त्र लाल सैनिकों की संख्या। वे भी इस जनसमूह में निरंतर गतिमान थे , कहीं दलों में और कहीं अलग-अलग। जहां-तहां लोगों के सिरों के ऊपर स्याह-रूपहली संगीने चमचमा रही थीं। सैनिक अपनी पसीने से भीगी , काली पीठों से ओवरकोट उतारकर उन्हें बांहों पर डाले लिये जा रहे थे , मानो घोड़ों पर चढ़ाने के लिए साज उठाये लिये जा रहे हों , और उनके ये भारी ओवरकोट पसीने में तरवनर भीड़ में अजीब , बेतुके से लग रहे थे , साथ ही एक विचित्र सी याद दिलाते थे कि कभी कड़ाके की सर्दी भी होती है।

सारा चौक बोरिये-विस्तरों पर बैठे शरणार्थियों की बाड़ से घिरा हुआ था। ऊंची-नीची आवाजों की गूंज छाई हुई थी, और कोई भी अलग आवाज चाहे वह कितनी भी तेज क्यों न होती, इस गूंज पर हावी नहीं हो सकती, उसे दबा नहीं सकती थी—न ही पास कहीं टीन की केतली की खड़खड़, न किसी बच्चे की चीख, न ही स्टेशन की छत के ऊपर से लहरों की तरह बढ़ती आती इंजन की सीटी। यह शोर अभेद्य था, ठोस था, और लगता था कि यहां असंख्य स्वरों, असंख्य सिरों की इस विविधता की एकता से अलग, इससे स्वतंत्र कोई विचार भी उत्पन्न नहीं हो सकता।

सहसा ख्यालों में डूबे पास्तुखोब के सामने एकदम नई वर्दी पहने फौजी प्रकट हुआ। उसका चेहरा धूप में शोड़ा संबलाया हुआ था, वह दुबला-पतला था और मानो अभी-अभी नहाकर आया था। ठोड़ी का गुल मुस्कान से फैल रहा था। जवानी की उत्सुकताभरी नज़रों से वह पास्तुखोब की ओर देखे जा रहा था, यह प्रतीक्षा करते हुए कि उसका जवाब क्या होगा।

वह ज्यादा लंबी चुप्पी सह नहीं सका और भोले अंदाज में बोला :
“आप मुझे कभी नहीं पहचान पायेंगे ! मैंने तब दाढ़ी बढ़ा रखी थी ।”

“दाढ़ी,” पास्तुखोब ने दोहराया।

“आपने हमें तब रिबन दिखाया था,” सहसा अल्पोशा कह उठा।

“हां, हां,” फौजी खुश हो गया। “दीविच हूं मैं, दीविच ।”

“हे भगवान, आप ही तो हैं !” आस्था बोली। “आप तो एकदम खिल उठे हैं !”

“कहां ! बस ठीक हो गया हूं। कितने बरसों में पहली बार महसूस कर रहा हूं कि स्वस्थ हूं। और आप ?.. कहां चल दिये फिर से ? अभी तक पहुंचे नहीं अपने ठिकाने पर ?”

“देखता हूं आप अपने ठिकाने पर पहुंच गये,” धीरे-धीरे सरकती अपनी नज़र को दीविच की टोपी के लाल सितारे पर टिकाकर पास्तुखोब बोला।

“हां,” दीविच पहले की ही भाँति मुस्कराये जा रहा था, “फिर से फौज में आ गया। नई टुकड़ियां बना रहा हूं।”

“कल्की का काम है?” पास्तुखोव ने जानना चाहा। “कमांडरी तो वे तुम्हें सौंपेंगे नहीं?”

दीविच पर इन चुटकियों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह बड़े उत्साह से बातें कर रहा था, यह छिपाने का जरा भी प्रयत्न नहीं कर रहा था कि इन लोगों से मिलकर वह कितना खुश है।

“कमांडरी क्या करनी। आजकल नई टुकड़ी बनाना दुश्मन को खदेड़ने से ज्यादा मुश्किल है। ऐसी गड़वड़ी मच्छी हुई है – पूछिये मत!.. अभी थोड़े दिन पहले मैं आपको याद कर रहा था। पता है क्यों? याद है वह सिपाही, जो रक्तीश्चेवों में हमें गिरफ्तार करने लगा था?”

“चिट्ठेवाला?”

“हाँ, हाँ। एक आंखवाला, दूसरी आंख उसकी गोले की किरच से खराब हो गई है। इपात इपात्येव।”

“तो?”

“वह मेरी टुकड़ी में भरती होने आया था। रक्तीश्चेवों की बात याद करके हम खूब हँसे। मैंने उससे कहा, देख तू क्या करना चाहता था: भला आदमी क्रांति के लिए काम करता रहा है, और तू उसे हवालात में खींच ले चला था... मैं जब अस्पताल में था, तो आपके बारे में अखबार में पढ़ा था,” दीविच ने आदर भाव से कहा।

“हुं,” पास्तुखोव जरा रोबीले अंदाज में बोला। उसने दीविच की पेटी के बकलस को अपनी दो उंगलियों के बीच दबा लिया। “एक बात बताइये। क्या आप यह नहीं समझते कि आप ऐसे मामले में फंस गये हैं जिसका अंत बुरा होगा?”

दीविच ने धीरे से अपनी टोपी पीछे को खिसकाई।

“मामले में?” उसने पूछा। “यह मामला हमारा इतिहास बनायेगा।”

“पर आप इस इतिहास के शिकार होंगे!” पास्तुखोव ने तीखे स्वर में कहा और दीविच को जरा परे को धकेलते हुए उसका बकलस छोड़ दिया।

“हो सकता है,” दीविच ने गम्भीरता से सहमति प्रकट की, पर तभी आंखें मींचकर, मानो नीचे से पास्तुखोव के चेहरे का निशाना लगाते हुए चुनौती भरी चालाकी के स्वर में पूछा: “और अगर न हुआ, तो?”

“अगर न हुए?” पास्तुखोब क्षण भर को रुका, “अगर न हुए, तो इसका मतलब है, मैं बेवकूफ़ हूं।”

दीविच हंस पड़ा:

“अगर आप यही चाहते हैं...”

आस्या ने खतरे की अपनी तीव्र अनुभूति से यह समझ लिया कि उसे हस्तक्षेप करना चाहिये। उसने अपना सद्भावना की कांति से दमकता चेहरा दीविच की ओर मोड़ा, जिसे पहली भेट से ही यह दमक याद थी:

“इस वक्त आप क्या कर रहे हैं?”

“नये रंगरूटों की एक पैदल कम्पनी लेकर यहां आया हूं। उसे उवेक तक ले जाना है और वहां स्टीमर पर विठाना है। मोर्चा विल्कुल पास ही है। कल सफेद गार्डों ने कमीशिन पर काम कर लिया। सुना है आपने?”

पास्तुखोब ने तुरंत पत्नी की ओर देखा। आस्या ने अपनी कम्पनी चंचल मुस्कान में छिपा ली:

“तो यह स्टेशन आपके लिए अपनी हम ग्रीबों की भी गाड़ी पर बिठा दीजिये!”

“आप जा कहां रहे हैं?”

“वहां - घर।”

“घर?” दीविच हंस दिया। “यह तो वो कहां जैसी भूमि है... सचमुच बलाशोब जा रहे हैं? कोई आसान काम तो नहीं। पर मैं कोशिश कर देखता हूं।”

वह भीड़ में गायब हो गया और बहुत देर तक नहीं लौटा। अंधेरा हो चला था जब उसने आकर बताया कि उसने स्टेशन के कमांडेंट से बात की है, वह कहता है कि पास्तुखोब खुद उससे आकर मिले। दीविच ने जल्दी-जल्दी उनसे विदा ली, उसकी कम्पनी गाड़ी में बैठ चुकी थी।

इस क्षण अगर पास्तुखोब को कोई यह बताता कि उसे दस दिन और दस रात मालगाड़ी के डिव्वे में कछुए की रफ्तार से सफर करना होगा, न जाने कितने स्टेशनों और जंकशनों पर रात-दिन खड़ा रहना होगा, और फिर भी वह वहां नहीं पहुंच पायेगा, जहां जाना चाहता है, तो वह शायद अपने परिवार के साथ यहां स्टेशन के पार कहीं, मठ वाले

मोहल्ले में या उससे आगे इगूम्नोव खड़ु में कहीं पेड़ों की छाया में डेरा डाल लेता। पर उसने मन कड़ा करके गाड़ी में जगह पा ली और चल दिया, जैसे कोई जीर्ण-शीर्ण बेड़े पर अनजान सागर में सफ़र पर निकले।

एक बार फिर वह रक्तिश्चेवो पहुंच गया। यहां सारा स्टेशन गाड़ियों के डिब्बों, घोड़ों, सैनिकों की मैदानी रसोइयों, घोड़ों के लिए चारे, भूखे मवेशियों, टूटी-फूटी मोटरगाड़ियों और लोगों से, अनगिनत लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक बार फिर उसने कमांडेंटों, अफ़सरों और कमिसारों के चक्कर लगाये, उनसे मिन्नतें कीं, मांग की कि उसे बलाशोव की गाड़ी पर बिठा दें। वह दुबला और खस्ताहाल हो गया था। आस्या के चेहरे की रंगत जाती रही थी और उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई थी। अल्योशा ओला अदामोन्ना के घुटनों पर सिर टिकाये सोता या ऊंचता रहता था। चारों ओर धूल से सब कुछ मटमैला था और झुलसी स्तेपियों की उमस फैली हुई थी।

एक दिन सुबह जागने पर पास्तुखोव परिवार ने पाया कि उनकी गाड़ी पूरी रफ़्तार से दौड़ती जा रही है। मुर्झाये से काले चीड़ के पेड़ों के बीच जहां कहीं-कहीं भोज वृक्ष भी उग रहे, घड़घड़ाती और खड़खड़ाती गाड़ी ढलान पर चली जा रही थी। उनके डिब्बे को अनजान गाड़ी से कैसे जोड़ दिया गया, वे कहां जा रहे हैं और कब से — किसी को कुछ पता नहीं था। आखिर एक छोटे से स्टेशन पर उन्हें पता चला कि उनका डिब्बा एक खाली गाड़ी से जोड़ दिया गया है, जिसे कोज्ज्लोव ले जाया जा रहा है।

“भाड़ में जाये सब,” पास्तुखोव बोला, “मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या फर्क पड़ता है? कोज्ज्लोव तो कोज्ज्लोव ही सही...”

आस्या के चेहरे पर निराशा देखकर उसने जहां तक वन पड़ा गांत स्वर में कहा:

“यह तो बेहतर ही है। कोज्ज्लोव से हम जल्दी बलाशोव पहुंच जायेंगे — उधर से होकर... क्या नाम उस जगह का... ग्र्याजी...”

उसने ओला अदामोन्ना की ओर देखा और सहसा आपे से बाहर होकर चिल्लाया:

“यह आंखें रगड़ना बंद कीजिये, देवी जी! आप ऐतिहासिक युग में रह रही हैं! और आपको हर बात के लिए तैयार रहना चाहिए... भाड़ में जाये यह सब!”

जुलाई के आरम्भ में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) की केन्द्रीय समिति का पार्टी संगठनों के नाम पत्र प्रकाशित हुआ। इसका शीर्षक था : 'देनीकिन के खिलाफ लड़ाई में सारा जोर लगा दो ! ' यह पत्र लेनिन ने लिखा था और इन शब्दों के साथ शुरू होता था :

"साथियो ! समाजवादी क्रांति के लिए यह घड़ी सबसे नाजुक घड़ियों में से है और शायद यही सबसे नाजुक घड़ी है..."

इस पत्र में कोल्चाक और देनीकिन को सोवियत जनतंत्र के प्रमुख और एकमात्र खतरनाक शत्रु माना गया। साथ ही यह भी कहा गया था कि केवल एंटेंट* की मदद ही उन्हें मजबूत बनाती है। और इस क्षण को संकट का क्षण स्वीकार करने के साथ-साथ पत्र में यह भी घोषित किया गया था कि सभी शत्रुओं पर विजय पा ही ली गई मानी जानी चाहिए : "हम एक शत्रु को छोड़कर शेष सभी शत्रुओं को परास्त कर चुके हैं : वह शत्रु है एंटेंट - ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमरीका का सर्वशक्तिमान साम्राज्यवादी पूँजीपति वर्ग। लेकिन हमने इस शत्रु के भी एक हाथ को, अर्थात् कोल्चाक को, पहले ही तोड़ दिया है ; हमें अब केवल उसके दूसरे हाथ से, अर्थात् देनीकिन से, खतरा है।"

जनतंत्र पर उठे और अभी तक तोड़े न गये इस हाथ का सामना करने के लिए लेनिन ने पार्टी का आह्वान किया था कि वह सभी कार्यालयों के काम को युद्ध की स्थिति के अनुसार पुनर्गठित करे। उन्होंने यह सुझाया था कि विना किसी हिचकिचाहट के कुछ समय के लिए उस सारे काम को बंद कर दिया जाये, जो युद्ध की दृष्टि से नितांत आवश्यक नहीं है। उन्होंने लिखा था : "पेत्रोग्राद के बाहर के मोर्चेवाले इलाके में और उस विस्तृत मोर्चेवाले इलाके में, जो इतनी तेजी के साथ और खतरनाक ढंग से उकड़ना में तथा दक्षिण में बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ को युद्ध की दृष्टि से संगठित किया जाना चाहिये और हमें अपने सारे काम, सारे प्रयासों तथा सारे विचारों को युद्ध

* जर्मनी, आस्ट्रो-हंगरी और इटली के विरुद्ध १९०७ में गठित ब्रिटेन, फ्रांस और जारशाही रूस का साम्राज्यवादी आक्रमक गुट। - सं०

और केवल युद्ध के अधीन कर देना चाहिये। अन्यथा देनीकिन के धावे को परास्त करना असम्भव हो जायेगा। यह बात साफ़ है। इस बात को विल्कुल साफ़ तौर पर समझ लिया जाना चाहिये और पूरी तरह इसपर अमल किया जाना चाहिये।”

यह पत्र ऐसे विश्वास से ओत-प्रोत था, जो हीरे की कनी जैसा अनम्य और तीक्ष्ण था। सारे देश में इस पर ऐसी प्रतिक्रिया हुई, जैसे पहाड़ों में निरंतर बढ़ती जाती प्रतिष्ठनि। यद्यपि इसमें सारे देश के, सारी क्रांति के भविष्य की चर्चा थी, तो भी इसकी प्रत्येक पंक्ति किसी विशेष स्थान, किसी विशेष तथ्य, किसी अलग, विशिष्ट स्थिति पर चोट करती लगती थी। उदाहरणतः, जो लोग इन दिनों सरातोव की घटनाओं से सम्बन्धित थे उनके लिए यह विल्कुल म्पष्ट था, कि पत्र में जिस विशिष्ट स्थान से अभिप्राय है, वह सरातोव ही है, विशिष्ट तथ्य सरातोव के, बोल्शा के निचले इलाके के सामाजिक तथ्य ही हैं; विशेष स्थिति, जिसे सारे रूस की स्थिति से अलग करके देखा गया है, सरातोव के पास के मोर्चे की स्थिति ही है। दूसरे शब्दों में, सरातोव में क्रांति के समर्थकों की नजरों में यह पत्र आम तौर पर मारे जनतंत्र को, और खास तौर पर सरातोव को सम्बोधित था।

रागोजिन ने एक बार दफ्तर में यह पत्र पढ़ा और दूसरी बार घर पर मिट्टी के तेल के लैम्प की रोशनी में पेंसिल हाथ में लेकर पढ़ा और दो पंक्तियों में यह अर्जी लिखी कि उसे वित्त-विभाग से हटाकर किसी सैनिक कार्य पर लगाया जाये।

उसे प्रदेश की पार्टी समिति में बुलाया गया। समिति के व्यूरो के एक मदम्य ने उसे यह सूचना दी कि फ़िलहाल उसे वित्त-विभाग से नेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि रागोजिन के प्रयासों से वित्त-विभाग का काम अब कहीं थोड़ा ढंग से चलने लगा था, और उसके चले जाने से काम पर बुरा असर पड़ेगा। रागोजिन इन आपत्तियों को मुनने के लिए तैयार था, उसके विचार में ये स्वाभाविक ही थीं। उसने जेव में मे नेनिन का पत्र निकाला, जिस पर पेंसिल से नग्ह-नग्ह के निशान लगे हुए थे। ‘गैर-फौजी काम में कमी’ शीर्षक ब्लॅड में उसने पेंसिल के गाढ़े निशान लगा पैरा ढूँढ़ा और उसे ऊचे-ऊचे पढ़ने लगा:

“‘उदाहरण के लिए, सर्वोच्च राष्ट्रीय अर्थ-परिषद के वैज्ञानिक-तकनीकी विभाग को ले लीजिये। यह एक अत्यंत उपयोगी संस्था है, एक ऐसी संस्था, जो समाजवाद के पूरे निर्माण के लिए, हमारी समस्त वैज्ञानिक तथा तकनीकी शक्तियों का उचित हिसाब रखने तथा वितरण करने के लिए नितांत आवश्यक है। परंतु क्या यह ऐसी संस्था है, जिसके बिना काम ही न चल सकता हो? हरगिज नहीं। इसमें ऐसे लोगों को लगा देना इस समय सरासर अपराध होगा, जो सेना में या प्रत्यक्ष रूप से सेना के लिए तात्कालिक तथा सर्वथा अपरिहार्य कम्युनिस्ट काम में लगाये जा सकते हैं और लगाये जाने चाहिए।’’

“ठहरो-ठहरो ज़रा,” रागोज़िन के विपक्षी ने उसे रोका। “तुम सोचते हो, हमने यह सब पढ़ा नहीं, इस पर विचार नहीं किया है?”

“पढ़ा तो होगा, पर तुम और दो-चार लाइनें तो सुनो। ‘केन्द्रीय शासन में और प्रदेशों में इस प्रकार की अनेक संस्थाएं तथा संस्थाओं के विभाग हैं। समाजवाद को पूरी तरह स्थापित करने के अपने प्रयासों में हम फ़ौरन इस प्रकार की संस्थाएं स्थापित करना आरंभ कर देने के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकते थे। परंतु यदि देनीकिन के ज़बर्दस्त हमले के सामने हम अपनी पांतों को इस ढंग से पुनर्गठित करने में असफल रहे कि हर उस काम को, जो सर्वथा अपरिहार्य नहीं है, स्थगित कर दें या उसमें छंटनी कर दें, तो हम मूर्ख या अपराधी होंगे।’’

“तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वित्त-विभाग बंद किया जा सकता है?”

“वित्त-विभाग में मुझे कम किया जा सकता है।”

“अगर यह मुमकिन होता तो हम तुम्हें वहां बिठाते ही नहीं।”

“उस वक्त यह ठीक था, उस वक्त,” रागोज़िन ने अर्थपूर्ण लहजे में कहा और अपनी उंगली भी सिर के ऊपर उठाई। “तुमने देखा ही है, हम विज्ञान और तकनीक के खिलाफ़ तो नहीं हैं न? विल्कुल खिलाफ़ नहीं हैं। पर अब इसका वक्त नहीं है। ठीक समझा न मैं? इसका वक्त नहीं है... वित्त का काम कोई दूसरा भी संभाल सकता है। इसके बारे में भी साफ़-साफ़ कहा गया है। यह देखो।”

उसने फिर से तह किया पत्र खोला, उसमें दूसरा निशान लगा

स्थान ढूँढ़ा और उंगलियों से चुटकी बनाकर पंक्तियों पर फेरते हुए पढ़ने लगा:

“...हम कुछ समय के लिए इस बात का खतरा मोल ले सकते हैं कि ऐसी अनेक संस्थाओं को (या संस्थाओं के विभागों को), जिनमें जवर्दस्त छंटनी कर दी गयी हो, एक भी कम्युनिस्ट के विना छोड़ दें, उन्हें पूरी तरह पूंजीवादी कार्यकर्ताओं के हाथों में छोड़ दें।”

“हां, हां, आगे पढ़ो,” व्यूरो के सदस्य ने रागोजिन को रुकते देखकर कहा और उसके हाथ से पत्र खींचने लगा। “आगे क्या कहा गया है? ‘यह कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि इनमें केवल उन्हीं संस्थाओं का सवाल है, जो सर्वथा अपरिहार्य नहीं हैं...’ समझे? और तुम्हारा विभाग नितांत आवश्यक है।”

“मैंने भी पढ़ना सीखा है,” रागोजिन उठ खड़ा हुआ और मेज का चक्कर लगाकर व्यूरो के साथी से सटकर खड़ा हो गया। पहले की ही भाँति वह कागज पर चुटकी चला रहा था, पर अब पढ़ नहीं रहा था, बल्कि पत्र में जो लिखा था, उसे आग्रहपूर्वक और सख्ती से अपने शब्दों में कह रहा था: “सवाल क्या है? सवाल यह है कि अगर हम विभाग को कम्युनिस्टों के विना छोड़कर उसका काम दस में से नौ हिस्सा कम कर दें, तो क्या हम मारे जायेंगे? इस सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी किस पर है? हर विभाग के अध्यक्ष पर या पार्टी इकाई पर। मैं विभाग का अध्यक्ष हूं कि नहीं? क्या मैं खुद इम सवाल का जवाब दे सकता हूं? या फिर पार्टी इकाई को मेरे बदले इसका जवाब देना है?”

“तुम्हारे बदले इसका जवाब दिया जा चुका है,” व्यूरो के कामरेड ने भुंभलाकर कहा और उस पर अपना भार डाल रहे रागोजिन को पीछे हटाया। “और जवाब भी पार्टी इकाई ने नहीं, प्रदेश समिति के व्यूरो ने दिया है। तुम पार्टी के आह्वान का उत्तर देना चाहते हो? शौक से दो। जो लोग सेना के लिए, युद्ध के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा पैसा दो, और उनके खर्चों में कटौती करो, जिनका काम अभी युद्ध के लिए खास लाभदायक नहीं है। देखो न वहां जातोन में, जहां हमारे जंगी जहाजों की मरम्मत होती है, खरादियों की कमी है। उनके खर्चों का खाता बढ़ा दो, तो शायद उन्हें खरादी भी मिल जायें।”

रागोजिन बेद्ब मुद्रा में खड़ा रह गया, मानो अचानक पीड़ा ने उसे आ धरा हो।

“मुझे क्यों नहीं बताया कि जातोन में खरादियों की ज़रूरत है? मैं भी तो फ़िटर हूं।”

“फिर अपनी ले बैठे! यहां लोगों को खराद से हटाकर ज़िम्मेवारी के ओहदों पर लगाया जा रहा है, और एक तुम हो कि अपनी ज़िम्मेदारी छोड़कर खराद पर जाना चाहते हो!”

“नहीं, भई, मेरा मतलब यह नहीं था। रेलवे डिपो में अभी भी कुछ पुराने लोग होंगे, जो शायद मुझे अभी तक भूले न हों—मैंने कितने साल वहां फ़िटर का काम किया है। उन्हें जातोन में काम पर लगाया जा सकता है। सौंपते हो मुझे यह काम?”

“सौंपने का क्या है? जाओ करो। वस अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारी को मत भूलना।”

रागोजिन ने हौले से आंख मारी:

“मैं ज़िम्मेदारी थोड़ी कम कर लूंगा। दस में से नौ हिस्सा तो नहीं, हां आठ हिस्सा।”

“यह मज़ाक का वक्त नहीं है।”

“अच्छा, अच्छा!” दरवाजे पर पहुंच गये रागोजिन ने हंसते हुए जवाब दिया। “अच्छा, सिर्फ़ सात, सात हिस्सा, ज्यादा नहीं... कसम् से!”

इस तरह पहले वह रेलवे डिपो में पहुंचा—वर्कशॉप के धुएं भरे शेड तले, जहां टूटे हुए काले शीशों में से आती हवा सीटियां बजा रही थीं, और फिर जातोन में, खुले आसमान तले, जहां रिपिटें लगने की ठकाठक और रेतियों तथा आरियों का शोर गूंज रहा था।

डिपो में दो ही ऐसे खरादी मिले, जिन्हें पुराने दिनों की याद थी और उन्होंने दिल खोलकर पुराने दोस्त से गपशप की, पर उनमें से एक ही जातोन में काम करने पर राजी हुआ (“श्रमदान के तौर पर” जैसा कि उसने कहा), क्योंकि रेलवे डिपो में ही इतना काम था कि दम लेने की फ़ुर्सत नहीं थी। पर हां दोनों ने यह वायदा किया कि वे जवान मज़दूरों में से कुछ को जातोन में मदद करने के लिए मना लेंगे।

जातोन में रागोजिन ने सबसे पहले वहां के संगठन को आर्थिक

जहायता दी। संगठन छोटा सा ही था और युद्ध के कारण उसके सम्मुख प्रस्तुत कार्यभारों को निभाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। फिर जहाजों का चक्कर लगाते हुए रागोजिन एक टगवोट पर पहुंचा, जिसके अड़वाल की लोहे की परतों के टांके खोले जा रहे थे। वहां वह मज़दूरों की मदद करने लगा, और फिर शाम तक घन चलाता रहा। इसके बाद रोज सुबह घंटे भर को जातोन आने पर वह अवश्य अपनी इस “चहेती” टगवोट पर पहुंच जाता, और यहां उसने एक बार फिर उन सब औजारों से काम किया, जो कभी उसके हाथ पर खूब अच्छी तरह चढ़े हुए थे। प्रबंधक शीघ्र ही इस बात के आदी हो गये कि रागोजिन जातोन के काम की देखभाल करता है, और उसे पता भी न चला कब उसकी जबाबदेही हो गई: जहाजों की मरम्मत इतनी धीरे क्यों हो रही है? उसने बस अपनी मूँछों पर ताब दिया:

“बाह रे बुद्ध, ओखली मैं सिर दे डाला!”

त्सरीत्सिन पर शत्रुओं का कब्जा होने के तुरन्त बाद ही पूर्वी मोर्चे पर कोल्चाक के विरुद्ध सफलतापूर्वक काम करते रहे नदी वेडे के जहाजों को कामा नदी से बोल्ना के निचले भाग में बुला लिया गया। ऐसा उन्हीं दिनों हुआ जब लाल सेना ने पेर्म को मुक्त कराया।

जहाज दक्षिण में सैनिक कार्रवाई के क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने बोल्ना के तटों पर लड़ रही फ़ौजों की अपने तोपखाने से मदद की, पर इन टुकड़ियों के साथ ही उन्हें पहले कमीशिन तक और फिर और ऊपर को कोई सौ मील तक पीछे हटना पड़ा। इस समय तक दसियों जहाजों का वेडा सैनिक कार्रवाइयों में भाग ले रहा था, ये जहाज नदी में कई मील के फ़ासले पर फैले हुए थे, उनके पास लगभग सौ तोपें थीं। पीछे हटने के बाद जहाजों की एक टुकड़ी को फिर से शत्रु के चंडावल में भेजा गया, इस उद्देश्य से कि वे ब्रांगेल की पिछली कतारों को तबाह करें। इस अभियान में जहाजों के नौसैनिकों की कई छोटी-छोटी टुकड़ियां किनारे पर उतारी गई, जिन्होंने सफेद सेना की टुकड़ियों में भगदड़ मचा दी। जहाजों ने अचानक ही कमीशिन पर और नगर के मामने बोल्ना के दूसरे तट पर स्थित निकोलायेव्स्काया मुहल्ले पर गोलावारी की, ताकि सरातोव के पास बढ़ते आ रहे देनीकिन के मोर्चे को रोका जा सके।

इस अभियान में गम्भीर क्षति भी पहुंची। दुश्मन नदी बेड़े पर हवाई जहाजों से जोरदार बमबारी करता रहा था। कुछ जहाजों को मरम्मत के लिए जाना पड़ा। कई दूसरे जहाजों की भी मरम्मत हो रही थी, या उन्हें फौजी काम के लिए तैयार किया जा रहा था। इन जहाजों को बोला नौसैनिक बेड़े की उत्तरी टुकड़ी में शामिल होना था, जिसे सरातोब की शत्रुओं से रक्षा करनी थी। नगर अब समुद्री बंदरगाह सा लगने लगा था, जहां गोदियों में जंगी जहाज खड़े थे, सड़कों पर काले सागर और वाल्टिक सागर के बेड़ों के नौसैनिक दिखाई देते थे। नगर की सारी दिनचर्या में ही नौसैनिक पुट आ गया था, जिससे बोला की शांतिमय जहाज़रानी अभी हाल ही तक पूर्णतः अपरिचित थी।

मंद गति वाली टगबोटें, जो सदा से बजरों के कारबां खींचती आई थीं, और स्वयं बजरे भी जिनके सुक्कान-खम्मे पर खेवैयों के रंगविरंगे कपड़े ढंगे होते थे, जल्दी-जल्दी आग उगलते किलों में बदले जा रहे थे। टगबोटें गनबोटें बन रही थीं और बजरों से नौसैनिकों को हमलों के लिए तट पर उतारने या पैदल सैनिकों को धावे के समय नदी पार कराने के काम के लिए तैयार किया जा रहा था। कई गनबोटों पर बड़े-बड़े हथियार लगे थे—सबसे मज़वूत बोटों पर दो चार इंच की तोपें, दो तीन इंच की विमानभेदी तोपें, चार मणीनगने लगी थीं, उन पर बायरलैस सेट और दूरमापी भी रखा गया था।

गनबोट का रूप धरकर टगबोट अपना सीधा-सादा स्वरूप खो बैठती। उस पर लाल नौसैनिक बेड़े का झंडा फहराता। अब यहां मल्लाहों की नहीं नौसैनिकों की शब्दावली चलती: वह किनारे नहीं लगती, लंगर डालती। धीमे-धीमे तय करते फ़ासले को वह किलोमीटरों में नहीं नापती: अब इसे मीलों में नापा जाता। उसे देखकर कोई चाव से यह नहीं कहता: “वाह, क्या शानदार चाल है!” नहीं, अब कहा जाता: “वह बारह समुद्री मील प्रति घंटे की रफ़्तार से बढ़ रही है”। डेक पर अब कप्तान नहीं कमांडर खड़ा होता। और बोट के पुराने कर्ता-धर्ता मल्लाहों का भी नाम अब नौसैनिक होता।

बोला के पोतों पर बस एक ही आदमी था, जिसका स्थान कोई नौसैनिक नहीं ले सकता था। और यह आदमी मज़े में इन सब नई बातों को देखते हुए मन ही मन सोचता: किये जाओ जो मर्जी। मेरे

विना तो तुम्हारा यह समुद्री किला पलक झपकते ही जमीन पकड़ लेगा, बोल्या-मैया के मर्म को तो मैं ही जानता हूँ कि कहां छिछला पानी है, कहां पाट में चाकी है, कहां उसमें ओड़े कुंड हैं और कहां दो धाराओं की टक्कर से सिल पड़ती है। यह आदमी बोल्या के तट पर ही जन्मा जहाजरान था, जो जंगी जहाजों को उथले जल में कठिन यात्रा पर ले जा सकता था। वैसे तो स्वयं गनवोटें भी अपने सारे परिवर्तनों के बावजूद असल में टगवोटें ही रहती थीं, जो पानी पर छपछप पैडल मारती थीं और कभी नहीं भूलती थीं कि उनका डुवाव दो फुट से कम ही है और इंजन की क्षमता मुश्किल से पच्चीस अश्व शक्ति।

ऐसी ही एक छोटी सी टगवोट से रागोजिन को लगाव हो गया था। बोट का नाम था 'जोखिमी'। रागोजिन को यह नाम पसंद आया। बालंटियर मल्लाहों ने इसे बख्तरवंद किया था, पर जब नौसैनिक 'जोखिमी' को जंगी बेड़े में शामिल करने आये, तो वे दंग रह गये। डेक की रेलिंगों के साथ-साथ छत बनाने के मामूली टीन से चौड़ा अड़वाल बना दिया गया था और उसके बीच की खाली जगह ओकम से भर दी गई थी। कहीं-कहीं अड़वाल में छेद छोड़ दिये गये थे, जिनमें से मधीनगने और बंदूकें चलाई जा सकती थीं। गलही और दवूसा खुले थे, यहां मैदानों में काम आनेवाली पहियेदार तीन इंच की दो तोपें रखी हुई थीं। तोपों को डेक से बांधा नहीं गया था।

"अरे भाइयो, अगर तुमने अपने इस दुर्ग से गोले दागे, तो ओकम तो जल उठेगा और अड़वाल भी नदी में जा गिरेगा। नहीं भाइयो, यह 'जोखिमी' के लिए भी बहुत जोखिम का काम है। चलो, फिर मेरे ठीक करें," नौसैनिकों ने कहा।

अड़वाल हटाकर फिर से सारा काम करने का आदेश दिया गया। रागोजिन जब पहली बार वहां पहुँचा था, तो तोड़ने का काम पूरे जोरों पर चल रहा था। लोगों का यह जोश देखकर वह भी काम में नग गया। मैकेनिक और मल्लाह, कोयला भोंकू और हम्माल, जिन्होंने अपनी गैरफौजी, बोल्याई समझ से जनतंत्र की रक्षा के लिए यह दुर्ग बनाया था, अब उसे वेरहमी से तोड़ रहे थे और फिर से दिन-रात लगाकर उसे नौसैनिकों की फौजी समझ के अनुमार बनाने जा रहे थे।

रागोज़िन को लगा कि सारी उम्र वह ऐसा ही काम करना चाहता रहा है—जिसमें खून-पसीना बहे, थकावट से चूर होकर आदमी ढह जाये, ऐसा काम, जो मजदूरों द्वारा पा ली गई और शत्रु द्वारा खतरे में डाली गई सच्चाई की रक्षा के उच्च ध्येय से प्रेरित हो। पर वह यह भी नहीं भूल सकता था कि वित्त-विभाग के कमिसार के दायित्व से उसे मुक्त नहीं किया गया है और उसने इस दायित्व को दस में से न तौ और न सात ही, बल्कि सिर्फ़ कही दो हिस्सा ही, जैसे कि वह कहता था “बस इत्ता सा”, ही कम किया है। और घंटा-आध घंटा यहां काम करके ज्ञातोन के फाटक से बाहर निकलता, जहां बंदूक उठाये नौसैनिक पहरा दे रहा होता, वह पसीने से पर होता, ज़ंग और तेल से उसके हाथ पीले पड़े होते, पर वह थकावट से चूर न होता, बल्कि बदन में मीठी थकन होती, और उसे इस बात पर ज़रा भी खीभ न होती कि उसे फिर से वे ढेरों कागज देखने होंगे, जिनमें प्रायः कोई शब्द न होता, बस आंकड़े ही आंकड़े होते और असंख्य शून्य लगे होते।

परन्तु एक बार जब वह फाटक से बाहर निकला और अपनी खस्ताहाल बग्धी पर, जो सारी गर्मियां उसकी अच्छी सेवा करती रही थी, चढ़ने लगा, तो सहसा उसे कुछ कमी महसूस हुई, मानो कोई ज़रूरी चीज़ कही भूल आया हो और यह याद न कर पा रहा हो कि क्या भूला है, मानो अभी-अभी उसके हाथों में कुछ था, पर अब हाथ खाली थे।

कुछ छोकरे सड़क के किनारे छोटे से नाले के पास खेल रहे थे। सबसे बड़े ने ईट के टुकड़े पर ठोकर मारी और उसे नाले में फेंक दिया, उसके बाद सबने अपने-अपने मतलब का पत्थर ढूँढते हुए यही किया। सबसे छोटे को इससे संतोष नहीं हुआ, उसने दोनों हाथों से भारी ईट पकड़ी और खूब जोर लगाकर उसे नाले में फेंक दिया। साथियों में से कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था, और वह उनका आदर पाने की पूरी कोशिश करता लगता था।

यह नन्हा पहलवान किसी बात में उसे पाल्लिक पारावुकिन जैसा लगा।

“क्यों भई...” रागोज़िन ने कोचवान से पूछा, “अगर हम उस

पहाड़ी वाली सड़क पर चल दें तो ?.. सिम्बीर्स्क की सड़क पर पहुंच जायेगे न ? ”

कोचवान को इसमें कोई एतराज़ न था। और सहसा रागोजिन ने उसे उधर गाड़ी ले चलने को कहा।

अपने बेटे को खोजने का इरादा उसके मन में सदा रहा था। पर वह एक झोके की तरह मन में उठता था – कभी दिल में टीस उठती और कभी फिर मन शांत हो जाता। यही कोई महीना भर पहले रागोजिन अचानक आश्रम में चला गया था, इस आशा से कि शायद लड़के का कोई अता-पता चल जाये। यह विचार उसे बेचैन किये रहता था कि उसका बेटा शायद सुधारगृह में हो। और हो भी कहां मिली होगी ? बेशक, आवारा धूमता रहा होगा, विगड़ गया होगा, हो सकता है, चोरी भी करता हो। नहीं किनारे, स्टेशन पर और बाजारों में कितने ऐसे अभागे धूमते-फिरते हैं।

आश्रम के अनाथालय में न किसी बच्चे और न ही किसी शिक्षक को रागोजिन नाम के लड़के का कुछ पता था। एक शिक्षक, जो यहां दूसरों से ज्यादा अरसे से काम कर रहा था, कुछ याद करने लगा कि जब वह यहां लगा ही था, उन दिनों एक लड़के को किसी अपराध के लिए गुस्पेल्का सुधारगृह में भेजा गया था और उसका नाम पता नहीं रेमेज़ोव था या रागोजिन। अनाथालय में कोई कागजात नहीं बचे थे, पुराने शिक्षक चले गये थे, पहले के बच्चों में से भी कोई नहीं रहा था, यहां निरंतर सब कुछ बदलता रहता था। बाल संस्थाओं के लिए उत्तरदायी संगठनों में इस बात के लिए खींचातानी चलती रहती थी कि बच्चों की शिक्षा का, उनके लालन-पालन का अधिकार किसे ज्यादा था, क्योंकि इस काम में एक साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और सामाजिक कल्याण के जन कमिसारियत लगे हुए थे। ऐसे पेचीदा हालात में घने जंगल की भाँति बालक का खो जाना कोई बड़ी बात न थी, खास तौर पर जबकि यह भी पता नहीं था कि बालक है भी कि नहीं।

अनाथालय से बाहर निकलते हुए आश्रम के उपवन में रागोजिन ने फूले से चेहरे बाले मठवासी को देखा, जो छड़ी का सहारा लिये

और जमीन में आंखें गड़ाये थूम रहा था। शिक्षक से रागोजिन को पता चला कि यह अनाथालय का पड़ोसी है—विशप, और उसने खिसियाते हुए सोचा: विशप तो यहां सही-सलामत है, और उधर बच्चों की संस्थाओं की गुत्थी में उलझकर शैतान भी मुंह के बल गिरेगा। आखिर ये विशप-विशप तो अतीत की बातें हैं न? विलकुल। और बच्चे भविष्य हैं? सही बात। वस तो सोचो बैठकर...

प्रिस्तान्नोये गांव की उजाड़ सी सड़क पर हिचकोले खाते हुए रागोजिन वे सब बातें याद कर रहा था, जो उसने कभी गुस्योल्का के बारे में सुनी थीं। एक जमाना था जब यह नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। गुस्योल्का अल्पायु अपराधियों को सख्त सज्जाएं देने के लिए मशहूर था। अगर किसी ढीठ बच्चे को डराना होता, तो उसे गुस्योल्का भेज देने की धमकी दी जाती और अगर किसी के बारे में यह कहा जाता कि वह गुस्योल्का से आया है, तो बच्चों से ज्यादा बड़े डर जाते।

शीघ्र ही कुछ मनहूस सी पक्की इमारतें नज़र आईं। उनके चारों ओर फैले मैदान में इक्के-दुक्के पेड़ उग रहे थे और मैदान बाड़ से घिरा हुआ था। दूरी पर बोल्ना चमक रही थी। दायें तट पर धूप में झुलसी पहाड़ियां गेरुए-पीले रंग की लग रही थीं।

सड़क पर बढ़ते हुए वे बांगों और क्यारियों तक जा पहुंचे। क्यारियों में ताजी हरियाली छाई हुई थी। बाग में पेड़ों को पानी दिया जा रहा था। स्लेटी रंग के कपड़े पहने किशोर लड़के-लड़कियां सेव के पेड़ों तले गुड़ाई कर रहे थे। लड़के-लड़कियां जानदार लगते थे, थोड़ी दूर पर उनके हंसने की आवाज आ रही थी। लगता था कि वीते दिनों में गुस्योल्का के चारों ओर शहादत की जो ज्योति थी, वह अब फीकी पड़ गई थी।

डायरेक्टर कहीं गया हुआ था, सो रागोजिन को बाग में ही लड़की सी लगनेवाली अध्यापिका से बात करनी पड़ी। बड़े सहज भाव से युवती ने कहा कि उसे स्कूल के सब मामलों की उत्तरी ही जानकारी है, जितनी डायरेक्टर को, क्योंकि वह खुद गुस्योल्का में सुधरी है और अब दूसरों को सुधार रही है।

“अच्छा सुधार हो रहा है?” रागोजिन ने अविश्वास के लहजे में पूछा।

“ और नहीं तो क्या ? ”

रागोजिन नाम के लड़के के बारे में उसने जरा भी सोचे विना तुरंत यों जवाब दिया कि रागोजिन ने उसके शब्दों पर जरा भी विश्वास नहीं किया ।

“ हाँ , था ऐसा लड़का । पर वह वसंत में भाग गया । ”

“ कैसे भाग गया ? ”

“ कैसे यहाँ से भागते हैं ? मुझे अच्छी तरह तो वह याद नहीं – वह वर्कशाप में था , बागवानी में नहीं । ”

“ कितनी उम्र थी उसकी ? ”

“ यही कोई चौदह साल । ”

“ हाँ , जरूर गप हांक रही है , ” रागोजिन ने मन ही मन फ़ैसला किया और दफ़तर जाने का रास्ता पूछा । उसने रास्ता दिखाया – पहले सीधा जाइये , फिर उधर दाई ओर की उस इमारत की ओर । पर जब वह कुछ कदम दूर चला गया , तो पीछे से चिल्लाई :

“ वहाँ कोई नहीं है । आज सब आलू खोदने गये हैं । ”

वह खाली हाथ लौट गया । प्रत्यक्षतः , वह गलत रास्ते पर चल निकला था , यहाँ कोई और ही था । उसे विलकुल दूसरे ढंग से खोजना चाहिए था – नीचे से नहीं , जहाँ हजारों बच्चे खाड़ी में तैरते पौनों की तरह एक जैसे थे , बल्कि ऊपर से , जहाँ से कोई रोशनी रहस्यमयी गहराई को बींध सकती थी और एकमात्र आवश्यक मछली को प्रकाश में ना सकती थी । आखिर कहीं तो यह रोशनी होनी चाहिए ! अभिलेखागारों में , पुराने रजिस्टरों में कहीं तो एक निश्चित तिथि और निश्चित क्रमांक पर उस उपेक्षित , पर प्यारे बच्चे का ज़िक्र होगा , जो प्योत्र पेत्रोविच और उसकी पत्नी क्साना का सगा बेटा था ।

रागोजिन काम पर पहुंचा , तो उसका मन उचाट था और उसे काफी देर भी हो चुकी थी । बहुत से लोग उसका इंतजार कर रहे थे । एक अजीब जोड़ा भगड़ा-वगड़ा करके अपनी बारी से पहले ही उसके कमरे में घुस आया ।

“ कामरेड रागोजिन ! यह आपके यहाँ क्या हो रहा है ? ” आ-गंतुक चिल्नाया ।

“ हड हो गई ! ” उसकी सायिन भी उसी लहजे में बोली ।

सीधे कटे काले स्थाह बालों वाला हब्शी सा लगता विद्यार्थी ने इन शब्दों को अपने भाषण में शामिल किया। उसके बाद रागोजिन ने अपने आवश्यक पैसों की तुलना करने के लिए उसकी जांच की। उसकी जांच के दौरान उसकी छोली की तरफ से एक छोटी खड़ी लड़की आपके बाप की ओर आ रही थी।

“आपके ख्याल में पांच दिन से वित्त-विभाग में उनकी अजी पड़ी हुई थी, जिसमें स्कूलों के उपविभाग की ओर से प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए तुरंत आवश्यक पैसों की मांग की गई थी।

“आपके ख्याल में पांच दिन बहुत ज्यादा हैं?” रागोजिन ने रुखाई से पूछा।

“हूँ है!” लड़की बड़वड़ाई।

“फौरी मांग है! तो भी पांच दिन हो गये! हफ्ता हो चला है!” विद्यार्थी गुस्सा हो रहा था। “हमारा काम पूरा हो चला है, और आप उसे ठप्प करने पर उतार हैं!”

“नहीं, मुझे लगता है, अभी ठप्प नहीं हुआ,” रागोजिन कुटिल मुस्कान के साथ बोला।

“क्या मतलब?.. थोड़े से पैसों के पीछे!” विद्यार्थी की साथिन ने मानो धिन के साथ कहा, जबकि विद्यार्थी ने अपनी टोपी उतारी और अपने कलाकारों के से बाल झटके।

“स्कूलों के उपविभाग ने हमें प्रदर्शनी के आयोजकों के नाते आवश्यक राशि पाने भेजा है। प्रदर्शनी लग चुकी है, पर हम उसे खोल नहीं सकते, हमारे पास कैटलाग और निमंत्रण पत्र छपवाने के लिए पैसे नहीं हैं।”

“ये हमारे पैसे हैं, आपके नहीं। आप तो बस खजांची हैं,” फिर से युवती बोली, खजांची शब्द उसने ऐसी धिन के साथ कहा, मानो वह कोई कीड़ा हो।

“हम बच्चों के चित्रों और मूर्तियों की नगर प्रदर्शनी खोल रहे हैं,” विद्यार्थी हठधर्मी से अपनी बात कहे जा रहा था, “ताकि पहली बार श्रम विद्यालयों की उपलब्धियां दिखा सकें और दूसरे कार्यों की...”

“तो खोल लो न,” रागोजिन ने उसे टोका, “मेरा इससे क्या बास्ता है?”

“अच्छा जी, आपका कोई वास्ता ही नहीं? तो फिर कहां हैं हमारे पैसे, जो आपने गैरकानूनी ढंग से रोक रखे हैं?” युवती ने गुम्से से कहा।

रागोजिन ने होंठ भीचकर जवाब दिया:

“इस काम के लिए अभी पैसे नहीं मिल सकते और मेरे पास अब वात करने का वक्त भी नहीं है। नमस्ते।”

“मुनिये तो! ठीक है हम कैटलाग नहीं छापेंगे, पर निमंत्रण-पत्र ही छपवाने दीजिये!” सहसा विद्यार्थी मिन्नत करने लगा और उसका चेहरा भी अब हँड़ी जैसा नहीं रहा।

“अख्वार में निमंत्रण छाप दीजिये।”

“पर... पर हमारे पास इसके लिए भी पैसे नहीं हैं!”

रागोजिन हँस पड़ा।

“मैं क्या करूँ, प्यारे कामरेडो! आप भी समझने की कोशिश कीजिये न कि आजकल तुम्हारे इन वचकाना कामों से ज्यादा ज़रूरी काम हैं।”

“वचकाना काम?” स्तव्ध युवती चीखी और उसने अपनी छोटी-छोटी मुट्ठियां उठाकर मेज़ के सिरे पर रखीं। “आप यहां अपने वहीं-बातों में ऐसे मगन हैं कि आपको यह खबर ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है! आप जिंदगी से कट गये हैं, सच्चे नौकरशाह की तरह।”

रागोजिन की आंखें फैल गईं। यह चिड़िया क्या चीं-चीं कर रही है? दुनिया में क्या हो रहा है, इसे ज्यादा पता है? रागोजिन नौकरशाह है? नहीं, उसकी कल्पना में नौकरशाह की तस्वीर कुछ और रही है—ऐसा थोड़ा गोल-मटोल सा, या फिर कम से कम सोने का दांत तो हो।

“आपको तो वस इन्कार करना ही आता है,” युवती रुकने में ही नहीं आ रही थी। “आप क्रांतिकारी पहलकदमियों में वाधा डालते हैं! हम त्रम पर आधारित स्कूल बना रहे हैं, जनतंत्र के लिए नये नागरिक गिरित कर रहे हैं! आप आकर देखें तो हमारी प्रदर्शनी, वजाय डमके कि...”

“देखूंगा, देखूंगा,” रागोजिन ने फिर में उमे टोका। “देखूंगा किन कामों में नुम लोग पैमा उड़ाने हों।”

उसे सचमुच ही गुस्सा आ गया था और उसने एक तरह से इन जवानों को निकाल बाहर किया।

परन्तु इस भेंट की याद में जवानी की एक उमंग थी, और कुछ दिन बाद निमंत्रणपत्र पाकर उसे खुशी हुई। निमंत्रणपत्र जल रंगों से बनाया गया था, लाल और हरी लालटेनों से सजे कागज पर बड़े जतन से ये शब्द अंकित थे, जिनके पीछे उसे बाल स्वर सुनाई दिया: “प्रिय कामरेड, हमारी प्रदर्शनी के उद्घाटन में आइये, और हमारे चित्र तथा मूर्तियां देखिये।”

“छपे निमंत्रणपत्रों से कितना सुंदर है! और कितनी होशियारी से बनाया गया है!” हंसते हुए उसने कहा।

उसने फैसला किया कि ज़रूर थोड़ी देर को यह देखने जायेगा कि ये नह्वे अकलमंद क्या दिखा रहे हैं। “नहीं तो, भई, कहीं सचमुच ही जिंदगी से कट जाऊँगा,” वह फिर से हंस दिया और निमंत्रणपत्र को उसने संभालकर जेव में रख लिया।

२१

प्रदर्शनी नगर के केंद्र में स्थित हॉल में लगी, और उसके उद्घाटन से पहले ही निश्चित क्षेत्रों में उसकी काफ़ी चर्चा रही। नगर में कला की अपनी परम्पराएं थीं—इसे प्रांतीय नगरों में सबसे पुराने अपने रादिश्चेव संग्रहालय और कला विद्यालय पर गर्व था। यहां के कलाकार यूरोपीय कलाकृतियों के आधार पर शिक्षित हुए थे—संग्रहालय में वर्बीज़ोन और बोगोल्यूबोव शैली के चित्र थे। परन्तु कांति पूर्व के वर्षों में यहां के कला-जीवन में तरह-तरह की अतिवादी प्रवृत्तियों का बबंदर आया था, और नवीनतम प्रयोगवादियों द्वारा विछाये गये दस्तरखान में वोरीसोव-मुसातोव के चटकीले रंग कुछ ज्यादा ही चटपटे लगते थे। यहां परमवादियों (सुप्रीमिस्टों) के चित्र भी थे, जिनकी प्रमुखतया दो रंगों—लाल और काले में बनी ज्यामितीय आकृतियों की पहेलियां देखकर सरातोव बाले चकरा जाते थे।

बाल-प्रदर्शनी पर चर्चा इन चित्रकारों के दायरे में ही चल रही थी, जो खास बड़ा नहीं था। गर्मागर्म बहसों के दो

विषय थे। पहला विषय कला की शिक्षा की विधि का था। इस नई विधि के अनुसार शिक्षक पृष्ठभूमि में चला जाता था, जबकि शिक्षार्थी अग्रभूमि में आता था। वच्चों को इस बात की पूरी आज़ादी थी कि वे संसार को जिस तरह देखते-समझते हैं, वैसे ही उसे अपने साधनों से व्यक्त करें। कल्पना की उड़ान को बहुत महत्व दिया जाता था। पुराने थ्रेप्छ चित्रों की नकलें करना, उनके आधार पर चित्र बनाना यह सब निपिढ़ था, माडल से चित्र उतारना आवश्यक नहीं था। दूसरा विषय था कला का ध्येय। क्या कला का ध्येय अभिरुचि विकसित करना है? किस दिशा में यह अभिरुचि विकसित की जानी चाहिए? या फिर मारी बात यह है कि दर्शक कलाकृति को किस हद तक समझ पाता है? जो लोग सौंदर्यवोध-शिक्षात्मक ध्येय का समर्थन करते थे, वे विभिन्न प्रवृत्तियों के अपने पुराने झगड़े में फंस जाते थे। क्या सौंदर्य शाश्वत है? कला के विकास का क्या अर्थ है? फ़ीडियस या रोदेन? “कला जगत्” या भविष्यवादी? जो लोग यह कहते थे कि कला ऐसी होनी चाहिए जिसे सब समझ सकें, उन्हें ये विवादी हीन दृष्टि से देखते थे: “समझ सकें” का क्या मतलब है? – वे पूछते। समझने की ही बात है, तो “पेरेट्रीभनिकी”* शैली के चित्र ही नहीं, ब्रोकर एण्ड कं० के सावुन के रैपर भी समझ में आते हैं। आप नई पीढ़ी को किस दिग्गा में ले जायेंगे?

अंततः ये मुट्ठी भर दार्शनिक उद्घाटन के समय उन लोगों की भीड़ में खो गये, जो केवल कौतूहलवश यहां चले आये थे, यह देखने कि स्कूलों में क्या हो रहा है, और क्या सचमुच वच्चे रोचक चित्र बना सकते हैं।

रागोजिन यह देखकर हैरान हुआ कि काफ़ी लोग जमा हुए हैं। हां, अधिकांश लोग उसकी भाँति ही दो मिनट को आये थे – किसी के पास इन कामों के लिए समय नहीं था, युद्ध नगर के द्वार पर दस्तक दे रहा था, और यहां बड़े लोग गुड़े-गुड़ियां खेल रहे थे। लेकिन रागो-जिन इससे भी अधिक चकित तब हुआ, जब वह उजले हाँल में घुसा

* इसी यथार्थवादी चित्रकार, जो प्रदर्शनियों का आयोजन कर कला का प्रचार करते थे। – मं०

और आंखों में दीवारों पर टंगे चित्रों के रंग-विरंगे धब्बे चौंधने लगे – उसकी आंखों के लिए यह एक विचित्र अनुभूति थी।

वह चित्र देखने लगा। पहली नज़रों में ये आम तस्वीरों जैसे ही थे। जिनके अपने बच्चे हैं, वे ऐसी तस्वीरें अच्छी तरह जानते हैं। चिमनियों वाले घर, उनके पास बाड़े, पेड़, कुत्ते, घोड़ा-गाड़ियाँ, सूरज, हिम के फायों जैसे तारे। टमाटरी लाल रंग के भंडे उठाये काले-काले छोटे-छोटे लोग। लड़ाई : तोप आग उगल रही है, सारे चित्र पर बैंगनी धुआं छाया हुआ है। फिर से लड़ाई : बिना सींगों की सफेद बकरियों पर रिसाला दौड़ा जा रहा है। एक बार फिर लड़ाई : फ़ीरोज़ी रंग की घास पर भरा हुआ सैनिक पड़ा है और उसके बगल में पत्र, जिस पर बहुत ही छोटे-छोटे अक्षरों में लिखा है : “तुम्हारा वेटा बोलोद्या ...”

रागोजिन को हर चित्र में व्यक्त विचार देखने की आदत थी। यहां कुछ और ही बात थी, जो उसे आकर्षित कर रही थी। सहसा दो मिलते-जुलते चित्रों को देखकर वह समझ गया कि यह “कुछ और” क्या है। उसने नींवू के रंग का ऊंट देखा, जो हल्के गुलाबी, पानी मिली अंगूरी के रंग के रेगिस्तान में खड़ा था। इस चित्र में अजीव उदासी थी, रेगिस्तान की सारी निराशा, ऊंट का सारा अकेलापन इस पीले-गुलाबी रंग के मेल में समा गया था। पास ही टंगे चित्र में अरबी नस्ल का लंबी गर्दन वाला, खूनी लाल रंग का घोड़ा कत्थई चट्टान पर चढ़ रहा था। घोड़ा एकदम सीधी चट्टान पर चढ़ रहा था, परन्तु उसके रंग में ऐसी शक्ति थी कि इस बात में कोई संदेह नहीं था कि वह आकाश पर भी चढ़ जायेगा। यह रंग, जिसे नन्हे चित्रकार ने प्रकाश में परिवर्तित कर दिया था, मन को उत्तेजित करता था।

रागोजिन इन बेजोड़ चित्रों के पास गया और उनके निचले दायें कोनों पर बना बड़ा सा हस्ताक्षर पढ़ा : इवान रागोजिन।

वह खड़ा-खड़ा ऊंट और घोड़े को देख रहा था और बार-बार हस्ताक्षर को पढ़ रहा था, और उसे लग रहा था कि उसके हाथ-पांव सुन्न होते जा रहे हैं और वह अपनी जगह से हिल नहीं सकता। उसके दिल में भय उत्पन्न हुआ : उसे यह विश्वास कैसे हो गया कि क्साना ने वेटा ही जन्मा था ? क्यों उसने यह मान लिया था कि उसे बेटे

को ढूँढ़ना है? हो सकता है अगर वह वेटी को ढूँढ़ता तो कव का पा चुका होता?

लेकिन उसकी आंखें, जो तनाव से नम हो गई थीं, ऊंट और घोड़े तले बने हस्ताक्षरों के अलावा और कुछ नहीं देखना चाहती थी। चारों ओर सब कुछ लाल-कत्थई, पीला-गुलाबी हो गया, और इस हर्पमय प्रकाश-रंग में अनम्य स्पष्टता के साथ एक नाम लिखा हुआ था - डिवान रागोजिन। उसका वेटा ज़िंदा था! वह पास ही रह रहा था। वह दीवार से रंगों में सना अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा रहा था। वह होनहार लड़का था, हो सकता है मेधावी हो! वेशक, रागोजिन और क्माना का वेटा होनहार नहीं तो और कैसा हो सकता था?

भीड़ को चीरकर तेजी से बढ़ते किरील इज्वेकोव ने रागोजिन की कोहनी दबाई और ज़ोर से पूछा:

“कमाल है, है न?”

“हां,” रागोजिन ने यों यंत्रवत उत्तर दिया कि उसे स्वयं अपनी आवाज दूर में आती लगी।

फिर उमने दोगोगोमीलोव को देखा, जो लड़कों के भुंड के बीच मन्त्र कफ वाला अपना हाथ भुला रहा था। लड़कों में उसे पाल्विक का लाल में बालों वाला सिर दिखा। रागोजिन ने अपनी जड़ता तोड़ते हुए उमका हाथ पकड़ लिया और उसे चित्रों के पास छींच लाया।

“देखो तो। अच्छा लगता

“हुं,” पाल्विक बोला, “पर घोड़ा सचमुच का नहीं है। मुझे पता है ये किसने बनाये हैं। रंगैये-कंगाल ने।”

“कैमा कंगाल?” रागोजिन को यह बुरा लगा। “तुम्हें कैसे पता है?”

“हम वहां किनारे पर साथ धूमा करते थे। सब लड़के उसे रंगैया-कंगाल कहते हैं। वह हर बक्त रंगता रहता है। उसने हमें अपनी तम्हीं दिखाई थी। उसमे भी अच्छे घोड़े उमने बनाये हैं।”

“उधर आओ जगा,” रागोजिन ने दृढ़तापूर्वक कहा और लड़के को चित्रों के पास धकेला, “पढ़ो, क्या लिखा है।”

पाल्विक ने झन्नाझर पढ़ा और प्रथमसूचक दृष्टि से रागोजिन की ओर देखा।

“वही, जो आपका है,” वह हैरान-परेशान सा बोला।

“वही है यह?”

“नाम का क्या है? नाम तो चाहे कोई सा भी लिख दे। पर बनाया रंगेया-कंगाल ने ही है, मुझे पता है।”

“तुम्हें इस लड़के को मेरे पास लाना होगा। वायदा करते हो?”

“कहां से लाऊंगा मैं उसे? वह तो अनाथालय का है।”

“कौन से अनाथालय का?”

“मुझे क्या पता? उसने बताया थोड़े ही था।”

“पर तुम नदी किनारे उससे मिलोगे तो? कहां तुम लोग मिला करते हो? वायदा करो कि लाओगे उसे!”

इसी क्षण एक बूढ़ा पाल्किक के आगे आ खड़ा हुआ। वह रेतीले पीले रंग के मोटे रेशमी कपड़े का मला-दला कोट पहने था। वह उत्सुक-तापूर्वक मुस्कराया:

“क्षमा कीजिये, कामरेड रागोजिन। क्या आप प्रदर्शनी के बारे में अपने विचार बताने की कृपा करेंगे? समाचारपत्र के लिए। मैं यूम नाम से लिखता हूँ। शायद कभी पढ़ा हो आपने?”

“हां, हां,” अत्यंत गम्भीरतापूर्वक रागोजिन बोला। “लिख लीजिये कि एक विख्यात कला मर्मज्ञ के नाते मेरा यह विचार है कि यह प्रदर्शनी नवीनतम चित्रकला के विकास में एक युगांतरकारी चरण है।”

मेत्सालोव का नोटवुक बाला हाथ नीचे लटक गया। उसकी गंजी खोपड़ी की पीली चमड़ी धीरे-धीरे तनी भौंहों की ओर रेंगने लगी।

“आप तो इस पर अच्छा लेख लिख लेंगे। अब तो वह... तीव्र सामाजिक दृष्टि वाले पत्रकार हैं न। अभी कुछ दिन पहले आप ही का वह लेख छपा था न ‘नक्काशी आरी कहां खरीदें?’”

मेत्सालोव का मुंह और भी अधिक खुल गया, पर उसकी नज़रों में कोध और अपमान था।

“या नहीं, मुझे गलतफहमी हो रही है!” रागोजिन बोला, और फिर मेत्सालोव से सटकर उसने अपना गुस्सा उगला: “आपने ही वह बकवास छापी थी न कि पास्तुखोव क्रांतिकारी पर्चे बांटता रहा था। छापी थी न? पर आपको पता है कि पास्तुखोव सफेद गार्डों

के पास भाग गया है? नहीं? आपको अखवार से निकाल वाहर करना चाहिए! आप...”

अपनी बात पूरी किये विना ही वह तेजी से मुड़ा और मानो तुरंत ही मेत्मलोच को भूल गया।

वह भीड़ में पाल्विक को ढूँढ़ना चाहता था, पर उसे वह अमेज़ोन रणवांकुरी सी लगती युवती दिखाई दी, जो पैसों के लिए उससे झगड़ी थी। घोत्र पेत्रोविच ने उसे ड्वान रागोजिन के चित्रों के पास आने को कहा।

“यह किसका कमाल है?”

“क्यों? अच्छे हैं न?” युवती ने उल्लासमय स्वर में कहा और अपना मिर यों पीछे को झटका, मानो कह रही हो ‘देखा, किसकी जीन हुई?’

“हां, हां। पर आप यह बता सकती हैं कि इस रंगसाज़ को मैं कहां ढूँढ़ सकता हूँ?”

“मुझे बड़ी चुश्ची है कि आप अच्छे-बुरे चित्रों में भेद कर सकते हैं। देख रहे हैं कैसी भव्य सरलता है इस रेखा में?” उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी धोड़े के अयाल, पीठ और पूँछ पर फेरी। “यह लोक चित्रों से अधिक थ्रेप्ट है, क्योंकि इसमें लोक चित्र से अधिक सामान्यीकरण और स्पष्टता है। आप समझते हैं न कि हम यहां ऐसी कला का आदि श्रोत देख रहे हैं, जो विभिन्न प्रभावों से दूषित नहीं हुई है।”

“मैं मव ममझता हूँ,” रागोजिन अधीर हो रहा था, “सिवाय एक बात के: आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देतीं? चित्र तो आपने खूब अच्छी तरह टांगे हैं, पर ये बनाये किसने हैं, इससे आपको कोई वास्ता नहीं है।”

“इम दीवार पर अनाथालयों के बच्चों के चित्र हैं। अगर आप चाहते हैं, तो मैं पूछताछ कर देखूँगी कि आपको जो चित्र पसंद आये हैं, उन्हें बनानेवाला कहां है।”

“हां, हां, डन्हीं चित्रों का! यही चित्रकार! ज़हर चाहता हूँ, प्यारी कामरेड! और जिननी जल्दी हो सके!”

उसने जोर से युवती का हाथ हिलाया। पहली बार वह मुस्करायी।

“और हमारे पैमां का क्या होगा?”

“पैसों का कुछ नहीं होगा,” रागोजिन भी मुस्करा दिया। “अब आपको पैसों की क्या ज़रूरत है? सारा काम तो हो गया। और बहुत अच्छा हुआ है।”

यही वाक्य दोहराता हुआ वह जल्दी-जल्दी बाहर निकलने लगा, अब न लोगों और न चित्रों की ओर ही उसका ध्यान जा रहा था।

इस क्षण से उसके लिए जीवन में सब कुछ थम गया था, एक ही प्रश्न मानो दीवार बनकर सामने खड़ा हो गया: क्या बेटा मिल गया है या नहीं?

तीसरे दिन ज्ञातोन से लौटते हुए उसने नगर सोवियत की इमारत के बाहर दो लड़कों को खड़े देखा। बाड़ से सटे वे सूरजमुखी के बीज खा रहे थे। वह फौरन ही पाल्कि को पहचान गया और फौरन ही समझ गया कि उसके साथ कौन है।

“हम कितनी देर से आपकी राह देख रहे हैं और आप आ ही नहीं रहे थे,” पाल्कि ने उसे उलाहना दिया।

“चलो, अंदर चलें,” प्योत्र पेत्रोविच ने कहा और ज्यादा जल्दी कदम न बढ़ाने का जतन करते हुए चलने लगा।

अपना कमरा अंदर से बंद करके वह एक कोने से दूसरे कोने में गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करना ठीक होगा: लड़कों को अपने पास बिठा ले या उन्हें खड़ा रहने दे और खुद बैठा रहे, या फिर वे बैठ जायें और वह कमरे में चक्कर लगाता रहे। “धृत् तेरे की! क्या फर्क पड़ता है इससे,” चलते-चलते ही उसने सोचा, और सहसा उसे यह अहसास हुआ कि वह उस लड़के की ओर देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा है, जिसे पाल्कि लाया है। तब तुरंत उनके सामने खड़े होकर उसने प्यार से मुस्कराने की कोशिश की। पाल्कि बेफिक सा इधर-उधर देख रहा था। दूसरा लड़का बिल्कुल अविचलित खड़ा था। पयाल के रंग के उसके बाल अस्त-व्यस्त थे, माथा ऊंचा, भौंहों के सिरे तेजी से ऊपर को उठे हुए, भूरी आंखें गोल और थोड़ी उभरी हुई सी। लंबी-लंबी टांगों और लम्बी सी बांहों वाला दुवला-पतला लड़का कोहनियां बाहर को निकाले खड़ा था, मानो हमले का सामना करने को तैयार हो।

“वो... तुम्हारी ही तस्वीरें देखी थीं मैंने?” रागोजिन ने पूछा,

साथ ही उसे यह अहसास हुआ कि वह जिस तरह बात करना चाहता था, नहीं कर रहा।

“पता नहीं।”

लड़के की आवाज में धृष्टतापूर्ण आत्मविश्वास था।

“वो ऐसी... लाल-लाल घोड़ा भी था वहां।”

“अरे हां, तेरा ही घोड़ा था,” पाल्लिक ने कहा। “डरता क्यों है? प्योत्र पेत्रोविच को तस्वीरें पसंद आई हैं।”

“मैं क्यों डरने लगा।”

“मैं काटता नहीं हूं,” रागोजिन मानो खुशामद करते हुए बोला। “मुझे सचमुच पसंद आई हैं। ऐसे शोख रंग हैं... अच्छी हैं... तुम्हारा नाम क्या है?”

“इवान।”

“इवान रागोजिन, है न? और उम्र कितनी है? दसवां लगनेवाला है, है न?”

“हो सकता है, ज्यादा ही हो।”

“ज्यादा ही होगी,” पाल्लिक ने हाथी भरी। “मुझे म्यारह्वां लगनेवाला है, और यह तो मेरे से ज्यादा ताकतवर है।”

“अच्छा?” प्योत्र पेत्रोविच ने मानो राहत की सांस ली। “दिखाओ तो।”

उसने हौले से लड़के के सूखे से, पतले-पतले डौले छुए और उसकी उंगलियां अनचाहे ही वहां टिकी रह गई, जब तक कि लड़का अपनी बांह छुड़ाकर एक कदम पीछे नहीं हट गया।

“वान्या,” रागोजिन धीरे-धीरे बोला, “वो... तेरा बाप है?”

“कोई तो रहा होगा, मेरे स्थाल में,” लड़के ने बड़ों की तरह अंगथपूर्वक मुस्कराते हुए जवाब दिया।

“हुं, मेरा भी यही स्थाल है,” रागोजिन सकपकाकर पीछे हट गया और उसने फिर से कमरे का चक्कर लगाया।

“मां याद नहीं है?” चलते-चलते उसने पूछा।

“वह तो बाप को याद होगी,” वान्या ने और भी अधिक तीखा जवाब दिया।

वह रागोजिन की ओर बगल किये बढ़ा था। उसका सिर और भी

ऊपर उठा हुआ था तथा कोहनियां अधिक फैली हुई थीं। प्रत्यक्षतः वह मां-वाप के बारे में सबाल पूछे जाने का आदी था, इसलिए उसके पास सब जवाब तैयार थे। लड़के के ऐसे कठोर जवाब सुनकर रागोजिन भौचकका रह गया। और फिर उसे गुस्सा आने लगा कि वह अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकता। उसने गुस्से से लड़के की ओर नज़र उठाकर देखा। नज़र उठाते ही उसे वान्या के चेहरे के पाश्व में हूबहू क्साना की नक्ल दिखी – वैसी ही तीखी, जरा सी ऊपर को उठी हुई नाक और वैसी ही गोल, थोड़ी उभरी-उभरी सी आंख। उसकी ज्वान पर बड़ी देर से जो शब्द था – बेटे ! मेरे बेटे ! – वह निकलते-निकलते रह गया, उसने अपने आप को रोक लिया।

“आपने मुझे किसलिए बुलाया था ?”

“मैं तुमसे मिलना चाहता था, अच्छी तरह जान-पहचान करना चाहता था ...” प्योत्र पेत्रोविच ने कहा और लड़के की बदरंग स्लेटी कमीज़, पेटी की जगह बंधी डोरी और घिसे हुए जूतों पर नज़र डाली।

“आप तस्वीरें खरीदते हैं क्या ?” वान्या ने अचानक पूछा।

“क्या मतलब ?”

“मैंने सोचा, आप ... बो, जो प्रदर्शनी में तस्वीरें हैं, खरीदना चाहते हैं।”

“तुम बेच रहे हो ?” रागोजिन ने अब मुस्कराते हुए पूछा।

“नकदी काम आयेगी।”

“क्या काम आयेगी ? तुम तो बालघर में रहते हो, न ?”

“जब जहां अच्छा रहे। आजकल गर्मियों में हर जगह अच्छा है।”

“और रोटी कहां मिलती है ?”

“मिलती है।” वान्या ने कंधे विचकाये। “मैं कोई नमकखोर नहीं हूँ जो रोटी मिला करे !”

“बोला पर हमेशा पेट भरा जा सकता है,” पाल्लिक ने नदी तट के पुराने जानकार के अंदाज़ में कहा।

“नौसैनिकों के यहां या और जहां मौका लगे,” वान्या ने अपनी ओर से जोड़ा।

“तेरा तो गुस्योल्का में भी मौका लगा है?” प्योव्र पेन्नोविच ने अचानक सख्ती से पूछा।

वान्या ने मुंह बना लिया।

“बोलता क्यों नहीं? गया था गुस्योल्का?”

“गया था। तो क्या हुआ? ऐसे ही भूठमूठ मेरा नाम लगा दिया कि मैंने बालघर के स्लीपर बाजार में बेच दिये, और वस मुकदमा चलाने लगे! पर वो तो एक चोट्टे ने मार लिये थे... मैं वस चुगल-छोरी नहीं करना चाहता था।”

“ठीक है, जो हो गया, सो हो गया। अब तू कहां रह रहा है?”

वान्या ने छाती पर हाथ बांध लिये, धीरे-धीरे मुड़कर दरवाजे की ओर देखा, मानो सवालों से तंग आ गया हो, फिर अनमना सा बोला:

“मुझे वापस आश्रम में भेज रहे हैं। कागजात भी वहां भेज दिये।”

“ठीक, ठीक,” रागोजिन जल्दी-जल्दी बोला, “अच्छी बात है... मैं तुझे कहना चाहता था, अगर तू मेरे साथ रहे तो? मैं अकेला हूं, इकट्ठे हमारी अच्छी बनेगी। तू स्कूल जायेगा... चित्रकारी सीखेगा...”

वान्या चुप खड़ा था। पाव्लिक ने आंखें सिकोड़कर रागोजिन की ओर देखा और हौले से सीटी बजाई।

“आहा... मुझे कुछ पता है!”

“कुछ पता-वता नहीं,” रागोजिन मानो चिल्ला ही पड़ा। “मैं काम की बात कर रहा हूं!”

उसने वान्या की ओर कदम बढ़ाया, अपनी चौड़ी हथेलियां उसके कंधों पर रखीं।

“आज आम को यहां आ जाना, ठीक है? या चाहो तो सीधे घर चले आना, समझ गया?”

उसने उसे अपना पता समझाया। ऐसा करते हुए वह लड़के की आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा था, पर वह नजरें चुरा रहा था। पाव्लिक शक्की नज़रों से वान्या की ओर देख रहा था, मानो डर रहा हो कि वह वहनावे में आ जायेगा, या उनके किसी आपसी समझौते को नोड देगा।

“अच्छा, तो पक्की बात रहीः शाम को तुम मेरे यहां आ जाओगे,” रागोजिन हठपूर्वक दोहराता जा रहा था।

“सोचने की बात है,” पाल्लिक बोला, मानो कोई सौदा कर रहा हो।

रागोजिन ने मज्जाक में उसे धमकाया:

“मैं तेरा सोचना कर दूँगा ! ”

पर सहसा वह वान्या का सीधा प्रश्न सुनकर सकपका गया:

“पर आप यह क्यों चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूँ ? ”

प्योव्र पेत्रोविच को एकदम समझ में ही नहीं आया कि क्या कहे, और उसने मन में उठती पीड़ा को छिपाते हुए जोर से वान्या की पीठ थपथपाई:

“ज्यादा जानेगा, तो बाल जल्दी सफेद हो जायेंगे। शाम को आना, मैं सब कुछ बता दूँगा। अच्छा, अब बहुत हुआ। जाओ अब।”

उसने लड़कों के पीछे दरवाजा भिड़ाया, पर तुरंत ही खोलकर वान्या को आवाज दी।

“यह ले, ले ले,” अपनी जेवें टटोलते हुए और फिर मुड़े-तुड़े नोट वान्या की मुट्ठी में ठूंसते हुए वह जल्दी-जल्दी बोला, “ले ले। खाने को कुछ खरीद लेना। और हां, ज़रूर आना ! सुना तूने ? ”

वह चौकन्ना सा दरवाजे के पास खड़ा था, मानो गलियारों और सीढ़ियों के शोर में खो गई बच्चों के कदमों की आहट सुन सकता हो। पर वह वस यह अनुमान लगा रहा था कि कब बच्चे बाहर पहुंच जायेंगे, और फिर पल भर भी खोये विना वह दौड़ा-दौड़ा नीचे गया, उछलकर अपनी फ़िटन में बैठ गया और सारे रास्ते, जो खत्म ही होने में नहीं आ रहा था, कोचवान को कहता रहा: “जल्दी करो भई, जल्दी ! ”

आश्रम में पहुंचकर रागोजिन ने इवान रागोजिन के कागजात निकलवाये। फ़ाइल में शिक्षकों की रिपोर्टें थीं, डाक्टरी और शिक्षा आयोगों के निष्कर्ष थे, इवान रागोजिन द्वारा बालघर के स्लीपर बाजार में बेचे जाने के मामले में नावालिगों के सामाजिक-न्यायिक विभाग का फ़ैसला तथा और कई दस्तावेज़ थे। रागोजिन ने जल्दी-जल्दी उन्हें पलटा और आखिर जब उसे जार के राज-चिह्न और गृह

मवानय की मोहर बाला पीला भा पड़ गया कागज मिला, तो वह उन मवको नुग्न ही भूल गया।

रागोजिन की दृष्टि ने इस दम्भावेज में एकमात्र, निर्णायक गद्द ढूँढ़ लिया, पर इस धरण वह यह नहीं कह सकता था कि यह शब्द क्या है। वह उठा, खड़े-खड़े यह दम्भावेज पढ़ना चाहता था, पर फिर में बैठ गया। दोनों हाथों में भिर थामकर एक-एक पंक्ति पढ़ने लगा।

जेल के कार्यालय ने अपना मोहर लगा कागज अनाथालय सड़क पर स्थित अनाथालय के नाम लिखा था, इसके साथ एक बालक को मण्कागी खर्चे पर पालने-पोमने के लिए भेजा जा रहा था। आगे यह कहा गया था कि बच्चे की मां सरगतोव नगर की क्सेनिया रागोजिना है, जो हिंगमत में थी, और प्रमव के समय मर गई; बच्चे का पिता, मा के कहने के अनुमार, उमका पति, किसान का बेटा प्योव्र पेंट्रोविच गर्गोजिन है, जिमपर गजकीय अपराध का आरोप है, पर जिसे पकड़ा नहीं जा सका है। बालक के बारे में कहा गया था कि जेल के गिरजे में उमका वपतिम्मा हुआ है और उसका नाम डवान रखा गया है।

डवान नाम का बच्चा रागोजिन की नजरों के सामने ऊचे ललाट, गोल आंदो बाले लड़के के स्वप में खड़ा था, और वह अपनी उंगलियों पर मानो अभी भी उमकी बांह की नग्न मांसपेशियों का स्पर्श अनुभव कर रहा था।

“मैं उम लड़के को पालने के लिए ले रहा हूँ,” रागोजिन ने उम युवती से कहा। जो उसे फ़ाइल उलटते-पलटते देख रही थी।

“बच्चे को संग्रहण के लिए देने से पहले हमें सामाजिक-न्यायिक विभाग की अनुमति मिलनी चाहिए,” युवती ने जवाब दिया।

“संग्रहण का क्या मतलब ?”

“आप बच्चे को गोद लेना चाहते हैं ?”

“मैं उमका बाप हूँ,” रागोजिन ने खुशी से प्रायः चिल्लाते हुए कहा और तनकर खड़ा हो गया।

“उसमे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ...”

“मुझे भी उसमे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे संरक्षक कहने हैं, या अभिभावक या कुछ और। लड़के को पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ?”

“आप जन शिक्षा विभाग में जाइये। वहां सामाजिक-न्यायिक विभाग है...”

“अरे बाबा, क्या है वहां! ” रागोज़िन मानो मस्ती में चिल्लाया। “बच्चा तो आपके पास नहीं है, है क्या? बच्चा तो मेरे पास है! समझो आप कि नहीं? मैंने उसे ढूँढ़ लिया है, समझो? ! बेटे को ढूँढ़ लिया है! वाह रे! ”

उसने खुशी की लहर में लड़की की बांह थपथपाई और दौड़ा-दौड़ा फ़िटन पर जा चढ़ा।

वह घर गया, मकान मालकिन को पैसे देकर शाम का खाना बना देने को कहा और काम पर चला गया। वाकी सारा दिन उसे यही लगता रहा कि उसने कोई काम अधूरा छोड़ दिया है: वार-वार वह यह याद करता कि सब कुछ खरीदने को कह आया था न, यह पूछताछ करता रहा कि दफ्तर के भोजनालय से कुछ खाने का सामान पाया जा सकता है कि नहीं, और सांझ धिरने से पहले ही घर चला गया।

वान्या नहीं आ रहा था। प्योत्र पेत्रोविच ने वड़े ध्यान से खाने की सब चीज़ें देखीं, अपनी पसंद से मेज़ पर वर्तन लगाये, कपड़ों की टोकरी में से चादर, लिहाफ़ वगैरह निकाले, मालकिन की मदद से एक और गद्दा कमरे में घसीट लाया। फिर वह मेज़ के पास बैठ गया, सोचने लगा कि और क्या किया जा सकता है। उठकर वार-वार खिड़की के पास जाता, कई बार बाहर सड़क पर भी गया। सारी रात उसे नींद नहीं आई, अपने आप को कोसता रहा कि लड़के को क्यों जाने दिया, जबकि उसे तभी घर ला सकता था।

अगले दिन सुबह पहली बार वह ज्ञातोन नहीं गया। वह समझ गया कि उसने पाब्लिक का पता न पूछकर गलती की है, अब फिर से वान्या को कैसे ढूँढ़े? हां, दोरोगोमीलोव की मदद से यह गलती सुधारी जा सकती है। रागोज़िन को अपने आप पर हैरानी हुई: पहले क्यों उसे यह ख्याल नहीं आया कि वान्या को ढूँढ़ने में आसेंनी रोमानो-विच से अच्छा मददगार और कोई नहीं हो सकता।

पिता-पुत्र की कहानी सुनकर दोरोगोमीलोव गद्गद हो गया। वह प्रदर्शनी में देखे असाधारण चित्र और रंगीये-कंगाल के बारे में अपने

नन्हे दोस्तों से सुनी वातें याद करने लगा, और कहने लगा कि वह भी इस लड़के को ढूँढ़ना चाहता था और तुरंत ही इसके लिए सब कुछ करेगा।

सचमुच ही दोपहर के खाने के बहुत जब रागोजिन यह पता लगाने के लिए घर गया कि वान्या आया था या नहीं, तो मालकिन ने उसे खुशखबरी सुनाई – घटा भर पहले लड़का आया था, मालकिन ने उसे खाना खिलाया और फिर वह सो गया।

प्योत्र पेत्रोविच ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और हौले से अपने कमरे के अंदर सरक गया। वह दवे पांव खिड़की के दासे तक गया और वहां बैठ गया।

वान्या कमरे के बीचोंबीच फ़र्श पर बिछे गढ़े पर लेटा हुआ था। प्योत्र पेत्रोविच बड़े ध्यान से उसे देख रहा था। लड़के के नंगे पांवों पर मक्कियां रेंग रही थीं, पर वह गाढ़ी नींद सो रहा था। धूल से काले तलवों पर चीरों, खरोंचों के निशान दिख रहे थे। पैरों की उंगलियों के सिरे चपटे से थे। सहसा रागोजिन को यह स्थाल आया कि ये चपटी उंगलियां और चपटा सा तलवा उसके अपने पैरों जैसे ही हैं। वह वान्या के पास खिसक गया और उसके हाथ देखने लगा। उंगलियों की गाठों पर हड्डियां चौड़ी थीं, नाखून छोटे-छोटे थे और मिरों पर फैले हुए। ये हूँवहूँ प्योत्र पेत्रोविच के हाथ थे, उनकी छोटी नकल। कैमी अजीब वात थी कि प्रकृति पृथ्वी पर एक बार वन गई आकृतियों को किन्हीं कारणों से दोहराती रहती है। चेहरे से वान्या क्षाना पर गया था। बंद आँखों से यह समानता और भी अधिक स्पष्टतया उभरती थी। क्षाना को जब वह चैन से सोते हुए देखा करना था, तो उसका चेहरा भी ऐसा ही कोमल और कुछ विचारमण्डन मा होता था।

प्योत्र पेत्रोविच को प्यास लगी। वह बाल्टी के पास गया, अनजाने में मग का खटका हुआ, उसने झट से मुड़कर देखा: नहीं, वान्या पहने की ही भाँति चैन से सो रहा था। रागोजिन ने उसे चादर ओढ़ा दी, ताँनिये में हवा की ताकि मक्कियां कमरे में से निकल जायें और खिड़की पर कम्बल में पर्दा कर दिया।

वान्या जब जागेगा, तो वह उसमें वातें कैसे शुरू करेगा? वह

कहेगा : तू मेरा बेटा है। बेटा वाप से पूछेगा : पहले तुम कहां थे ? वाप को उसे यह बताना होगा कि कैसे पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी , कैसे उसकी मां मर गई। बेटा कहेगा , तुम अपनी जान बचा रहे थे , पर मां को क्यों नहीं बचाया ? मैं अपने को नहीं , उस महान ध्येय को बचाता रहा जिसकी मैं सेवा करता था और आज भी कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हें मालूम था कि मेरा जन्म होनेवाला है , तो फिर मुझे क्यों नहीं ढूँढ़ा ? इससे महान ध्येय में बाधा पड़ सकती थी – वाप कहेगा । मतलब तुम्हें यह महान ध्येय मुझ से ज्यादा प्यारा है – बेटा पूछेगा – तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है ? तुम बेटे को नहीं जानते थे और जी रहे थे। मैं वाप को नहीं जानता था और जी रहा था। तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है ?

हां , सोचना चाहिए कि बातचीत कैसे की जाये , सोचना चाहिए । सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि वह बेटे को सहज ही डराकर अपने से दूर कर सकता है। अपने आप को अनाथ समझनेवाले बच्चे के लिए वाप क्या है ? उसकी आजादी में बाधा , निरीक्षक की सत्ता , बड़ों के नियम – इस सब का कड़वा घूट तो बान्धा पहले ही पी चुका था , और अब एक अनजान , गंजा सा आदमी , जो शायद बान्धा को अप्रिय लगता हो , उसे अपना बेटा कहेगा । नहीं , पिता को उसके मन में ऐसी भावनाएं जगानी होंगी , जो कोई शिक्षक नहीं जगा सकता । पिता को उसके लिए जीवन का आदर्श और जीवन की उमंग होना चाहिए ।

रागोज्जिन चुपके से कमरे से बाहर निकल आया । उसने सोचा , जब तक बेटा सो रहा है , वह उसके लिए रंग और ड्राइंग की कापी खरीद लाये । उसने मालकिन से कहा कि अगर लड़का जाग जाये , तो उसे जाने न दे ।

पास की दुकान में उसे न रंग मिले , न कापियां । रागोज्जिन शहर के केंद्र में चला गया । वह जल्दी में था । उसके मस्तिष्क में उठता हर विचार एकदम नया था और उसके विचार उससे भी ज्यादा जल्दी में लगते थे । उसने यह पाया कि पहले कभी भी उसने बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के बारे में नहीं सोचा है । नहीं , वह शिक्षा के बारे में सोचता तो रहा है , पर अन्य कई विषयों की भाँति ही । यह और बहुत

में प्रश्नों में मेरे एक था, जो अमूर्त रूप से कमोवेग सफलता के साथ हल्का किये जाते थे। अब गगोजिन को कोई सिद्धांत नहीं गढ़ना था, वर्णिक वर्ताव की योजना तैयार करनी थी—पिता के नाते अपना वर्ताव नय करना था। बच्चे को पिता का वर्ताव, उसका चाल-चलन देखना चाहिए, ताकि वह यह जान सके कि जीवन में उसका अपना चाल-चलन कैसा होना चाहिए। वेश्यक, बच्चे की शिक्षा का दायित्व समाज पर है। बच्चा हर हालत में समाज के व्यवहार का अनुकरण करेगा। अनुकरणीय समाज के निर्माण के लिए तो समय चाहिए। लेकिन रागो-जिन वेटे को यह तो नहीं कह सकता ठहर जा वेटे, हम अनुकरणीय उदाहरण बना ने, तब तुझे पना चल जायेगा कि कैसा व्यवहार करना चाहिए। अभी तो हम तेरे भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सो अभी हमारे पास तेरे लिए समय नहीं है, जैसे ही हम जीत जायेंगे, हम तेरी ओर ध्यान देने लगेंगे। इसका मतलब तो यही कहना होगा: बढ़ना बढ़ कर दो। नहीं, नहीं, बच्चे को जग भी देर किये बिना वह मव मिलना चाहिए, जिसकी उसके विकास के लिए आवश्यकता है।

गगोजिन दूसरी दुकान में गया और वहां उसे पता चला कि रंग तो शायद ही कही मिले, क्योंकि आजकल रंगों में कहीं ज्यादा ज़रूरी चीजों की कमी है, और गही कापियां, तो उनके लिए तीसरी दुकान में जाना चाहिए—वहां अभी कुछ दिन पहले, लगता है, बिक रही थीं।

वाहर आकर वह तुरंत ही यह याद नहीं कर पाया कि उसके विचारों का ताता कहा दृटा था। हाँ, वह यह सोच रहा था कि सबसे पहले शिक्षा के अध्ययन स्पष्टतः निर्धारित होने चाहिए। उदाहरण के लिए, हम चाहते हैं कि सोवियत नागरिक चाहे वह कही भी हो, अपनी मातृभूमि का मान बनाये रखें। सो हमें हर दिन उसमें यह मान की भावना विकसित करनी चाहिए, वचपन में ही यह भावना उसके चर्चित का अभिन्न अग बन जानी चाहिए और गेज़मर्झ की छोटी-छोटी बानों में उस पर चोट नहीं आनी चाहिए। या फिर हम लाल मेना का यह आङ्कड़ा करने हैं कि उसमें माध्यमिक और कमांडर के बीच भाईचारे हो, युद्ध में वे परम्परा दायित्व और निष्ठा बनाये रखें। प्रत्यक्षता, मूल में ही भाईचारे की यह भावना पानी जानी चाहिए, परिवार में मैत्री भावना होनी चाहिए, दैनंदिन जीवन में—

दूसरों का ध्यान रखने, विनम्रता और शिष्टता की भावना होनी चाहिए। ठहरो, ठहरो! – रागोजीन ने स्वयं को टोका। शिष्टता? पर इस शब्द में से तो पुरानी धारणाओं की बूँ आती है। आम तौर पर दोस्ती? धर्म के रूप में दोस्ती? ये कैसी धारणाएं हैं? दूसरी ओर, अगर दोस्ती मौके की हो, किसी इरादे से, किसी खास हित में हो, तो क्या वच्चे में आत्मा का यह महान् गुण विकसित किया जा सकता है? नहीं, इससे पहले कि वेटा अपने दोस्त बना ले, उसे इस बात को समझ लेना चाहिए। उसे इसका फ़ैसला अभी कर लेना चाहिए, जब तक कि वान्या जागा नहीं है। हो सकता है वह जाग गया हो? जल्दी करनी चाहिए। उसे वेटे के हर सवाल के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बारे में और उसकी तरफ़ से सोचना चाहिए। हां, हां, उसे यही करना है।

तीसरी दुकान में भी न रंग थे, न कापियां। “कैसी कापियां? कहां से आयेंगी कापियां? आजकल तो स्कूल में छुट्टियां हैं,” रागोजीन को उल्टे ये सवाल सुनने पड़े।

पर उसने यह सपने में तो नहीं देखा था कि बाल चित्रों की प्रदर्शनी में रंगों से भरे कागज़ दीवार पर टंगे हुए हैं? प्रदर्शनी पास ही थी, सो रागोजीन ने वहां जाने का फ़ैसला किया।

वहां उसे अपने परिचित मिले – हव्वी जैसा विद्यार्थी और गर्वीली युवती। वे किसी बात पर बहस कर रहे थे, पर रागोजीन को देखकर दोनों उसकी ओर मुड़े। उसने उन्हें अपनी मुसीबत बताई। उन्होंने जवाब दिया कि वह वेकार ही परेशान हो रहा है, क्योंकि सब कुछ ठीक-ठाक है: रंग और कापियां वच्चों को स्कूलों और बालघरों में मिलते हैं और वहां उन्हें इन चीजों की कोई तंगी नहीं है।

“पर यह इंतज़ाम तो कोई बहुत ठीक नहीं लगता,” रागोजीन ने आपत्ति की। “घर के काम का क्या होगा?”

“हमारे वच्चों के लिए ‘घर’ जैसी कोई धारणा नहीं रहनी चाहिए,” विद्यार्थी ने कहा।

“घर पर काम देना – यह पुरानी शिक्षा पद्धति है,” युवती बोली।

“इन सब बातों पर तो लंबी बहस की ज़रूरत है। अभी आप

मुझे बस इतना बता दीजिये कि मैं अपने वेटे के लिए रंग कहां खरीद सकता हूँ ? ”

“ हम वेचने का काम नहीं करते , ” युवती भड़क उठी ।

“ हम वच्चों में निजी सम्पत्ति की भावना मिटाने की कोशिश कर रहे हैं , हम इस बात के विरुद्ध हैं कि वच्चों को घर पर नवाबजादों की तरह उपहार दिये जायें , ” विद्यार्थी ने कहा ।

“ सुनो , ” तेजी से दरवाजे की ओर मुड़ते हुए रागोजिन ने जवाब दिया , “ या तो आप लोग ज़रूरत से ज्यादा पढ़ गये हैं , या आपने कुछ भी नहीं सीखा है ! ”

वह जल्दी-जल्दी अपने लंबे-लंबे डगों से सड़के नापता जा रहा था । बान्या गायद जाग गया होगा । अभी रागोजिन उसे देखेगा । इस बात में कोई संदेह नहीं कि बान्या जैसे वच्चे के लिए आजादी की भावना ही उसकी चेतना का मर्म स्थल है । उसे यह नहीं ज़ाहिर होने देना चाहिए कि वाप उसकी आजादी पर कोई अंकुश लगाना चाहता है । उसे नन्हे हृदय के कपाटों को झटके से खोलना नहीं चाहिए , ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए कि बान्या क्या करता है , कैसे रहता है । नहीं , पहले उसे विश्वासपूर्वक अपने जीवन में लाना चाहिए , उसे अपने काम के बारे में , अपने संघर्ष और भविष्य की योजना के बारे में बताना चाहिए ।

सहसा रागोजिन के कदम ढीले पड़ गये । शुरूआत बुरी नहीं है ! देखो तो , आज ज़ातोन भी नहीं गया , दफ्तर का काम भी छोड़ रखा है , और छोटी-मोटी चीजों के पीछे शहर का चक्कर लगा रहा है । वह बान्या को क्या कहेगा ? वेटा , आज मैंने अपने काम से छुट्टी मार नी है । तुझे पाकर मैं इतना खुश हूँ कि मुझे काम की सुध ही नहीं । इसका मतलब अगर बहुत बड़ी खुशी हो , तो काम पर लात मारी जा सकती है ? – वेटा पूछेगा ।

प्योत्र पेत्रोविच इम विचार से इतना शर्मिदा हुआ मानो सचमुच ही बान्या ने यह बात कही हो । पर आज का दिन तो अपवाद है – वह मोत्र रहा था – मारी जिंदगी में पहली बार ! वह काम की कसर खूब अच्छी तरह पूरी कर लेगा । काम तो रागोजिन के लिए पहले की ही तरह मर्वोपरि है ।

वह मोड़ मुड़ा, सोचा, काम पर कहता जाये कि और एकाध घंटे तक बाहर रहेगा।

दरवाजे के पास ही उसके आगे-आगे चल रहा आदमी, जो रागो-जिन को जरा बेढ़व सा लग रहा था, अचानक गिर पड़ा। उसे उठने में मुश्किल हो रही थी, रागोजिन ने उसकी मदद की।

“धन्यवाद। कोई खास बात नहीं। तरबूज के छिलके पर पैर फिसल गया, वह रहा छिलका।”

“चोट लगी क्या?”

“नहीं, कोई खास नहीं। जरा कोहनी पर,” उस आदमी ने अपना सफेद कोट झाड़ते हुए कहा।

उसने कृतज्ञतापूर्वक रागोजिन की ओर देखा और सहसा पीछे हट गया।

“कैसा संयोग है! मैं आपसे मिलने ही जा रहा था। नमस्ते, कामरेड रागोजिन।”

रागोजिन ओज्जोविशिन को पहचान गया।

“क्या काम है? माफ़ कीजिए, मैं बहुत व्यस्त हूं।”

“निजी मामला है। ज्यादा समय नहीं लूंगा। चाहें, तो यहीं एक ओर को हटकर बता देता हूं।”

“आपका अपना काम है?”

“जी नहीं, आपका,” ओज्जोविशिन ने कहा।

“मेरा?”

वे दरवाजे से परे हट गये और धीरे-धीरे बाड़ के पास चलने लगे।

“जरा जल्दी से बता दीजिये।”

“बस, छोटी सी बात है। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने तब मेरी ओर ध्यान देकर मेरे बारे में भ्रम दूर कर दिया और मुझे नाजुक स्थिति से उवारा।”

“आप भूतपूर्व अभियोक्ता हूं न?”

ओज्जोविशिन मुस्कराया:

“अगर ऐसा होता, तो अब मैं आपसे बातें न कर रहा होता ... मेरा मतलब यहां सड़क पर। मैं सचमुच आपका कृतज्ञ हूं कि आपने इतने धीरज से मामले की जांच की और मेरे अतीत के बारे में संदेह दूर कर दिये।”

“अच्छा, मेरा काम क्या है?”

“आपने तब साफ़-साफ़ तो नहीं कहा था, परन्तु मैं समझ गया कि आपके लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी पत्नी का क्या हुआ, यही नहीं, यह जानना कि क्या उनके बच्चा हुआ था या नहीं और वह जीवित है कि नहीं।”

“हुं-हुं,” रागोजिन ने थमते हुए कहा।

“तब मैंने अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने की हिम्मत नहीं की थी, परन्तु मन ही मन शपथ ली थी कि एड़ी-चोटी का जोर लगाकर आपकी सेवा का यत्न करूँगा।”

“तो?”

“काफ़ी खोज-वीन के बाद मैंने एक दस्तावेज़ ढूँढ़ा है, जिससे कुछ परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है, हैं तो वे दुखद, पर साथ ही हमें इसमें कुछ आशा भी मिलती है। यह दस्तावेज़ अब पाया जा सकता है, आप चाहें तो ले सकते हैं।”

“कहां से?”

“अभिलेखागार से।”

“है क्या उसमें?”

“दुर्भाग्यवश, उसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि जेल में आपकी पत्नी का देहांत हुआ। वह स्थान भी डंगित है, जहां उन्हें दफ़नाया गया है।”

“अच्छा?”

“जी हाँ। परन्तु साथ ही दस्तावेज़ में यह भी उल्लिखित है कि उनकी मृत्यु प्रसव के समय हुई, इस प्रकार, आपका... कम से कम यह मान सकते हैं कि बच्चा हुआ था।”

“अच्छा, यह बात है,” रागोजिन बोला।

“जो भी हो। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके बच्चे का मुग्गग मैंने पा लिया है।”

“मच? और इस सुराग मे क्या पता चलता है?”

“इसके लिए निश्चित प्रयास करने की आवश्यकता है, और यदि मुझे आपका समर्थन मिले, तो मैं महर्ष ऐसा करूँगा।”

“किस बात में समर्थन?”

“और आगे खोज करने में।”

“और अगर मैंने आपकी मदद की, तो आप अवश्य ही बच्चे का पता लगा लेंगे ?”

“निस्संदेह !” ओज्जोविश्वन बड़े उत्साह से बोला। “यह तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात होगी ! मैं जेल के अभिलेखागार से, बच्चे के जन्म के वर्ष से प्रारम्भ करूँगा।”

“और अगर मैं आपको यह बता दूँ कि आपका सुराग आपको मेरे ब्वार्टर पर ले आयेगा ?”

“कैसे ब्वार्टर में ?”

“जहां मैं अपने बेटे के साथ रहा हूँ।”

“बेटे के साथ ... आपने उसे ढूँढ़ लिया ...”

ओज्जोविश्वन मानो डर ही गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसने हाथ थोड़ा ऊपर को उठाये, हौले से चोट लगी कोहनी सहलाई, पर तुरंत ही सारा धड़ रागोजिन की ओर बढ़ाकर उसके मुँह पर राहत की सांस ली :

“बधाई हो, मेरी हार्दिक बधाई ! क्या सच ? बेटा आपके पास है ? वही बेटा ...”

“यह बात है,” रागोजिन ने उसे टोक दिया। “पर यह तो बताइये कि आप मेरे लिए इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं ?”

“जी, क्या ... केवल आपके लिए कुछ करने की इच्छा से ही। आपका अहसान चुकाना चाहता था।”

“मेरा आप पर कोई अहसान नहीं है।”

“मुझे आपकी सेवा करके खुशी होती।”

“यह कोई आसान काम नहीं। मैं किसी की सेवाएं स्वीकार नहीं करता।”

रागोजिन ने हाथ उठाकर कनपटी पर रखा, सिर भुकाया और उखाजे की ओर चल दिया। चलते-चलते वह मुड़ा और हँसकर बोला :

“फिसल गये ... तरबूज के छिलके पर !”

वह सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि उसके विभाग के एक आदमी ने से रोका :

“आप समिति में गये हैं ? आपका बुलावा आया था।”

ऊपर, अपने कमरे में जाने के बजाय वह गलियारों में से होता हुआ पहली मंज़िल के एक सिरे की ओर चल दिया।

व्यूरो के उस सदस्य ने, जिससे रागोजिन लेनिन के पत्र की व्याख्या पर बहस करता रहा था, सिर हिलाकर उसका स्वागत किया और कहा:

“लो भई, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। तुम्हें फौजी काम पर भेजने का फैसला हुआ है। बोला वेडे में स्वचैड़न कमिसार नियुक्त किया गया है। जहाजों पर जो स्थिति है उससे तो तुम थोड़े-बहुत वाकिफ़ ही हो।”

“थोड़ा-बहुत वाकिफ़ हूं,” कुर्सी पर बैठते हुए रागोजिन ने जवाब दिया। “मुझे कब जाना होगा?”

“फौजी कमिसार को फोन कर लो। स्वचैड़न का कमिसार बीमार पड़ गया है, तुम उसकी जगह लोगे। रवानगी शायद कल है।”

“कल?”

रागोजिन कुछ देर तक खामोश रहा और फिर दूसरी ओर को देखने लगा।

“मेरे विभाग का क्या होगा?”

“तुम्हें चिंता किस बात की है? अपने डिप्टी को सारा काम सौंप जाना।”

“कुछ घंटों में ही?”

“पता नहीं। हो सकता है कुछ मिनटों में। सफेद गार्ड लेस्नोर्ड कगमिंग के पास पहुंच गये हैं।”

“अच्छा, तो...” रागोजिन ने धीरे-धीरे उठते हुए कहा।

“तुम कुछ नाखुश से लग रहे हो?”

“नहीं तो।”

“तो ठीक है... मही सलामत लौटना...”

उन्होंने हाथ मिलाये।

रागोजिन ने फौजी कमिसार को फोन किया, पता चला कि उसे तुरंत ही कागजात लेने के लिए उसके पास जाना चाहिए। फिर फिटन मंगाई और कोचवान में घर चलने को कहा।

अपने कमरे में जाने हुए उसने जानवूभकर जोर से दरवाजा

ोला ताकि वान्या जाग जाये। जिस कम्बल से उसने खिड़की पर पर्दा
दाला था, वह उतरा हुआ था, सिर्फ़ एक कील पर टंगा हुआ था।
हांडा खाली था, चादर फ़र्श पर पड़ी हुई थी।

रागोजिन मालकिन की ओर मुड़ा। वह भी हैरान-परेशान थी।
उसने वान्या के उठने की आवाज़ सुनी थी—कैसे लड़के ने उठकर
नी पिया था; वह उसके लिए चाय बनाना चाहती थी, पर जब
संदर भाँककर देखा, तो वहां कोई नहीं था। पता नहीं वह दरवाजे
से बाहर गया था या खिड़की में से कूद गया था। उसे वस यही
र है कि कहीं कोई चीज़ खो तो नहीं गई?

रागोजिन ने भर्त्सना की दृष्टि से उसे देखा, पर फिर अनचाहे
कमरे में नज़र दौड़ा ली—कि सब कुछ अपनी जगह पर तो है?
व कुछ सही-सलामत था।

क्षण भर को वह कमरे में खड़ा रहा। कमरा उसे अजीब सा
नू-सूना और बेगाना लग रहा था, मानो वह कभी भी यहां अकेला
रहा हो। वह समझ गया कि उसका सारा व्यवहार गलत था:
हली भेंट में ही उसे वान्या को सच्चाई बता देनी चाहिए थी। क्या
ड़का यह भांप गया है कि उसे वाप मिल गया है? अब आगे उसके
गाथ क्या होगा? क्या सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जायेगा? रागोजिन
मली-दली चादर को जतन से तह किया और अपने विस्तर पर सिर-
ने तले रख दिया।

“मुझे शायद वहुत जल्दी ही कहीं जाना पड़ेगा,” विचलित मन
उसने मालकिन से कहा, “थोड़े दिनों के लिए। आप एक काम
ज़रेंगी: अगर यह लड़का आया, तो आप उसे भगाना नहीं, यहीं
हरा लेना। मेरे कमरे में। वह इस लायक है। मैं आपको सारा खर्चा
दूंगा, इस ओर से आप चिंता न करें। अच्छा, मैं चलता हूं।”

वह लपककर बाहर आया और कोचवान से कहा कि फ़िटन
डौड़ा ले चले, इतनी तेज़ जितनी उसने पहले कभी नहीं चलाई।
फौजी कमिसार के यहां उसे बोल्या बैड़े की उत्तरी स्क्वैड्रन के
डक्वार्टर जाने की चिट्ठी मिली। वहां उसे यह आदेश मिला कि
उगले दिन सुबह छह बजे वह गनबोट ‘अक्तूबर’ पर हाजिर हो,
गो रेतियों के पार लंगर डाले खड़ी है।

सारी गाम और सारी रात वह वित्त-विभाग का काम सौंपता रहा और वहां से सीधे बोल्ला तट को चला गया। इस क्षण से यह नौकरी उसके लिए अतीत की बात हो गई थी और अब इसके बारे में सोचने की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे कि उसने इससे पहले के अपने सभी कामों और नौकरियों को छोड़ने पर उनके बारे में कुछ नहीं सोचा था।

फौजी नाव उमे बोल्ला के बड़े पाट पर ले गई। वह 'अक्तूबर' के डेक पर चढ़ गया, जहां इयूटी के अफ़सर ने उसका स्वागत किया। घंटे भर बाद म्बैड्रन कमांडर के साथ वह चार जहाजों का निरीक्षण करने निकला, जो टापुओं के बालुई तटों के समानांतर एक कतार में खड़े थे। सबसे आखिर में थी गनबोट 'जोखिमी'। उसकी चिमनी छोटी कर दी गई थी, अड़वाल नीचा ही था और उस पर पानी जैसे हरे-मटमटे रंग का रोगन किया गया था। टगबोट बड़ी जुझारू लग रही थी। उसके दल में प्रायः सभी नौसैनिक ही थे, पर कुछ बोल्ला के पुगने नाविक भी थे, जिनके साथ रागोजिन ने जातोन में काम किया था। जाने-पहचाने जहाज पर जाने-पहचाने लोगों की इस मुलाकात में न केवल रागोजिन खुश हुआ, बल्कि मल्लाहों ने भी उसे "अपने" आदमी के तौर पर स्वीकार कर लिया: सभी जहाजों पर यह ख्वार फैल गई कि म्बैड्रन में ऐसा जहाज भी है, जिसे बल्टरवंद करने में कमिसार ने हिम्मा लिया था, और वह कमिसार हर तरह के औजार में काम करना जानता है।

दोपहर को डेक केविन में म्बैड्रन स्टाफ़ की बैठक शुरू हुई, और प्योव्र पेंट्रोविच रागोजिन ने जीवन में पहली बार यह देखा कि फौजी नक्शा कैमे पढ़ते हैं, और उसने खुद हल्की सी परकार हाथ में ली। किं जहाजों के कमिसारों ने उमे रिपोर्ट पेश की।

दिन ढने थकावट मे एकदम चूर रागोजिन डेक पर निकला। जहाज पर आये उसे बाग्ह घंटे से ऊपर हो चले थे, पर अब कहीं जाकर उमने बोल्ला देखी।

नदी एकदम भपाट और गुलाबी थी, बाई ओर चरागाह बाले नट के पास यह गुलाबी रंग धीरे-धीरे मुनहरे रंग में बदलता जा रहा था, और उममे भी आगे इम पिघले मोने के ऊपर काग्वां के ऊटों

के सिरों और कोहनों जैसे लगते पोक्रोव्स्क के ऊंचे-नीचे कोठार धूप में पीले-पीले दिखाई दे रहे थे।

सहसा रागोजिन के स्मृति पट पर गुलाबी रेगिस्तान और पीला ऊंट स्पष्टतः उभर आये — वह चित्र जिसने उसे इतना उद्घेलित किया था। “तो सचमुच ही ऐसा होता है,” उसने सोचा, “ऐसे रंग, ऐसा सूनापन और—नहीं, क्या यह मुमकिन है? — ऐसी निराशा भी।” सहसा उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दी। आराम करना चाहिए था: दो रातें वह सोया नहीं था। मानव मस्तिष्क की एकसाथ ही कई चित्र देखने की अवोध क्षमता के फलस्वरूप गुलाबी-पीले रंग में व्यक्त हुई बेटे की याद के साथ-साथ उसे एक और दृश्य याद आ रहा था: रेत के पीलेपन और पानी की गुलाबी सतह में रागोजिन को एक बार फिर सूर्यास्त की वह घड़ी उभरती लगी, जब वे मछली पकड़ने वैठे हुए थे और उसने टापू की ओर तेज़ी से बढ़ती आ रही मोटरवोट देखी थी। अब फिर से उसे वही मोटरवोट साफ़-साफ़ दिखाई दे रही थी, उसने जोर से आंखें रगड़ीं, यह सोचते हुए कि थकावट के कारण उसे दृष्टि-भ्रम होने लगा है। लेकिन आंखें खोलने पर उसे मोटरवोट और भी अधिक स्पष्टतया दिखाई दी, जो मानो दोहरे फाल से सुनहरी लहरों को जोतती चली आ रही थी।

“यह क्या, मोटरवोट आ रही है?” उसने ड्यूटी पर खड़े मल्लाह से पूछा।

“जी हाँ, कामरेड कमिसार।”

मोटरवोट तेज़ी से पास आती जा रही थी, वह आकार में बड़ी होती जा रही थी और उसका शोर भी बढ़ता जा रहा था। फुर्ती से चक्कर लगाकर वह वहाव के विपरीत ‘अक्तूबर’ के साथ आ लगी। गनवोट से सीढ़ी नीचे उतारी गई और रागोजिन ने आखिर उस आदमी को देख लिया, जो फटाफट ऊपर चढ़ रहा था।

“किरील!” वह चिल्लाया और नीचे ढौड़ चला।

निचले डेक पर इंजन की कोठरी के पास वे मिले। तेल और गैसोलिन की गंध से भरे तंग गलियारे में वे गले मिले। रागोजिन किरील को अपनी केविन में ले चला। वहाँ उन्होंने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा और खुशी से हँस दिये। रागोजिन की नींद रफूचक्कर हो गई।

“यह क्या ले आये ?” उसने पूछा।

किरील सरकंडे की टोकरी लिये खड़ा था। ऐसी टोकरियां लेकर औरतें बाजार जाती हैं। वह सकुचाते हुए बोला :

“मां ने कुछ बनाया है। मैंने उन्हें कल बताया था कि तुम जा रहे हो।”

“तुम तो जैसे मरीज से मिलने आये हो,” रागोजिन ने कहा।
“कैसा मरीज ?”

किरील ने टोकरी में टटोलकर नीचे से बोतल निकाली, और वे फिर हँस पड़े। अखबार पर लाल, खस्ते रुसी समोसे रखकर और गिलासों में शगव उँडेलकर वे तंग चारपाई पर कंधे से कंधा सटाकर बैठ गये। एक दूसरे की ओर देखकर उन्होंने सिर हिलाया और चुपचाप पहला जाम पी लिया। समोसे खाते हुए वे खुली खिड़की में से जल-दर्पण में उठती सूर्यास्त की लपटों को देखते रहे। यहां से बाहर का पानी सिर से ऊपर लगता था और उसका बहाव असली बहाव से सौ गुना तेज़।

“आज रवानगी है ?” किरील ने पूछा।

“आधी रात को।”

“मैं जल्दी कर रहा था, सोच रहा था कहीं पहुंचने में देर न हो जाये।”

“तुम उन लोगों में से नहीं हो जिन्हें देर होती है,” रागोजिन ने कहा और किरील के घुटने पर हाथ रख दिया।

“पर देखो न, तुम तो कभी फौज में रहे नहीं, फिर भी मुझसे आगे निकल गये।”

“जल्दवाज़ी मत करो। तुम्हारा वक्त भी आ जायेगा। तुम्हें सबसे ज़रूरी काम के लिए संभाले हुए हैं।”

“मरमे ज़रूरी काम क्या है ? हर घड़ी अपने काम की चिंता ही मरमे ज़रूरी है।”

“मो तो ठीक है। मरमे ज़रूरी काम और कम ज़रूरी काम भी। मरमे ज़रूरी काम तुरंत ही किया जाना चाहिए, मामूली काम ... दाना जा भकना है।”

रागोजिन ने गहरी सोच में यह बात कही, और किरील ने ध्यान से उसकी ओर देखा।

“क्या बात है?”

रागोजिन उछलकर खड़ा हो गया, घर की आदत के अनुसार अंगड़ाई ली, पर केविन नीची थी, सो उसकी मुट्ठियां छत से टकराईं।

“धृत तेरे की!” वह बोला, फिर से किरील के घुटने पर हाथ रखकर उसे दवाया। “एक काम है मेरा, माफ करना, हो सकता है... अभी टाल देना चाहिए... पर... मैं तुम्हें पहले बता नहीं सका। बात यह है कि मुझे मेरा बेटा मिल गया है।”

किरील और भी अधिक आश्चर्य से उसकी ओर देख रहा था।

“हाँ, बेटा। मेरा और क्सेनिया अफ़ानास्येवा का। वह तब वहां जेल में पैदा हुआ था। मुझे अभी थोड़े दिन पहले पता चला है।”

“कहां है वह?”

“वह... बात यह है कि मैंने उसे खोज तो लिया है, पर पूरी तरह नहीं... उसे ढूँढ़ना पड़ेगा। पर इसमें कोई मुश्किल नहीं है! (रागोजिन जल्दी-जल्दी कहने लगा और अपना सारा बदन उसने किरील की ओर मोड़ लिया।) अगर तुम तैयार हो... मैं उसका इंतजाम नहीं कर सका। बक्त नहीं था। समझ रहे हो न? मैंने उसे पाया ही था, कि वस यह...”

“ठीक तरह से बताओ न, बात का सिर-पैर ही समझ में नहीं आता।”

“तुम्हें याद है वह पाल्लिक पारावुकिन? उसी का दोस्त है। तुम पाल्लिक से कह देना कि वह... या नहीं, इससे अच्छा दोरोगोमी-लोव से कहना कि तुम इवान रागोजिन को ढूँढ़ रहे हो। समझ गये? वह सब काम कर देगा। तुम तो जानते ही हो सब लड़के उसकी जेव में हैं। तुम वस उसे कह देना, किसी से कहलवा देना... ठीक है? है न?”

किरील ने रागोजिन को कभी ऐसी हालत में नहीं देखा था—प्योत्र पेत्रोविच के चेहरे में कुछ इतना विरोधाभास भरा भाव था, उसमें मर मिटने के दृढ़ निश्चय के साथ क्षमापूर्ण अनुनय-विनय का ऐसा अस्वाभाविक मेल भलक रहा था कि किरील अब उसकी ओर देख नहीं सकता था।

किरील ने रागोजिन का सिर झुकाकर अपने कंधे से लगा लिया और भावपूर्ण तथा दृढ़ स्वर में बोला :

“मैं सब समझ गया और सब कुछ कर दूँगा। तुम परेशान मत होओ। मैं लड़के को ढूँढ़ लूँगा और उसे अपने पास रखूँगा। मेरा मतलब मां के और अपने पास। और उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर होगी। मेरा मतलब मां और मेरे पर। ठीक है? और तुम यह भूल जाओ कि यह मामूली काम है, वकवास है यह। मैं इस काम को इतना ही जरूरी मानता हूँ, जितना हमारा दूसरा काम जरूरी है, जिसे निभाने तुम आज आधी रात को जा रहे हो। और तुम चैन से यह काम करने जाओ। अपने बेटे के लिए भी और अपने ध्येय के लिए भी अब तुम्हें लड़ना है। और राजी-खुशी लौटना ! ”

वे थोड़ी देर और बैठे रहे, शांत होकर कुछ घातें कीं और जब फुटपुटा हो गया, तो उन्होंने विदाई का जाम पिया।

इंजन की कोठरी के पास तंग गलियारे में से सीढ़ी की ओर जाते हुए उनका एक भीमकाय नौसैनिक से सामना हुआ। वह रागोजिन से ऊचे कद का था और छाती उसकी इतनी बड़ी थी कि जब वह दीवार से सटकर छड़ा हो गया, तो भी गलियारे में से गुज़रने का गम्ना मुश्किल से बन पाया। उसके पास से जैसे-तैसे निकलते हुए किरील ने सिर उठाकर उसके चेहरे की ओर देखा, जो छत से लटकते विजली के लैम्प के पास ही था। लैम्प की नारंगी रोशनी में किरील को उसके उभरे हुए कल्पे, उसका असाधारण माथा और नाक के इर्द-गिर्द छोटे-छोटे तिलों जैसी विंदियां दिखाई दीं। नौसैनिक मुस्करा दिया और उसकी यह शांत मुस्कान देखकर किरील को स्थाल आया कि उमने पहले भी कही यह चेहरा देखा है। तत्क्षण उसे अखंगिल्स्क नगर का वह मल्लाह याद हो आया, जिससे वह अस्पताल में मिला था, जब दीविच को देखने गया था, और वह भी मुस्करा दिया:

“कामरेड म्वाइनोव ? ”

“कामरेड इज्वेकोव, आप क्या हमारे साथ चल रहे हैं? ” नौसैनिक ने अपनी भागी आवाज में पूछा।

“नहीं. मैं इनमे मिलने आया था। मेरे दोस्त, कामरेड रागोजिन. तुम्हारे कमिसार होंगे। इनका स्थाल रखना। ”

“जरूर ! ”

“देखो , इनका जिम्मा तुम पर होगा , ” किरील ने हँसते हुए कहा।

“हां , हां , हम पर भरोसा रखिये । ”

“ठीक , ” किरील ने जवाब दिया , उसे याद आया कि अस्पताल में भी मल्लाह ने यही वात कही थी और यह कि वहां से चलते हुए उसे ऐसा लगा था मानो अभी-अभी सफलतापूर्वक इम्तहान देकर आया हो ।

“ठीक हो गये ? ”

“भूल भी गया , कहां दर्द हुआ था । ”

किरील ने मुस्कराकर नौसैनिक से हाथ मिलाया ।

प्योत्र पेत्रोविच से विदा होकर वह मोटरबोट पर उतर गया , ऊपर देखकर चिल्लाया : “जीत कर लौटना ! ” , पर मोटर के शोर में उसे जवाब सुनाई नहीं दिया ।

रागोजिन काफी देर तक नाव की गलही पर लगी बत्ती को दूर होते देखता रहा । काफी अंधेरा हो गया था , और पानी कत्थई-काला लग रहा था । उसकी सतह पर गनवोटों की गांत बत्तियां झलक रही थीं । गनवोटें निश्चल खड़ी थीं । यहां नदी पर अगस्त की शाम की ठंडक महसूस हो रही थी । आधी रात होने में दो घंटे से कुछ अधिक समय वाकी था । थोड़ा सो लेना चाहिए था । रागोजिन अपनी केविन में लौट गया ।

२२

वसंत और गर्मियों के दौरान देनीकिन की सेनाओं के हमलों से लाल सेना के लिए बहुत गम्भीर स्थिति बन गई थी । ऐसी परिस्थितियों में दक्षिणी मोर्चे की कमान ने सेनाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार जवाबी हमले की योजना तैयार की । इस योजना का प्रमुख विचार यह था कि दक्षिणी मोर्चे के बायें पक्ष की सेनाएं दोन स्तेपी को पार करते हुए त्सरीत्सिन से नोवोरोस्सीइस्क की दिशा में सफेद गार्डों पर गहरी चोट करें । इस उद्देश्य से दो सेनाओं को मिलाकर प्रहारक सैन्य-दल बनाया गया , जिसे त्सरीत्सिन पर प्रहार करने और वहां से

आगे बढ़कर दोन पार करने का प्रमुख कार्यभार सौंपा गया। इसके पास वाले सैन्य-दल को, जो प्रमुख दल से पश्चिम की ओर था, सहायता के तौर पर कुप्यान्स्क और खार्कोव पर हमला करना था। इन अभियानों के लिए लाल सेना के पास देनीकिन की सेनाओं से कहीं अधिक पैदल सैनिक, तोपें और मशीनगनें थीं, किन्तु रिसाले की संख्या पहले की ही भाँति सफ्रेद गाड़ों के पास अधिक थीं।

अक्तूबर-नवम्बर में शुरू हुई जिन कार्रवाइयों से देनीकिन की किस्मत का फँसला हुआ था, उनसे यह पता चला था कि प्रमुख कमान और दक्षिणी मोर्चे की कमान ने गर्भियों में दोन पार करके नोवोरोस्सीड़स्क पर हमला करने की जो योजना बनाई थी, वह अगस्त में इसे क्रियान्वित करने के पहले प्रयास के बाद ही अपना महत्व खो दैठी थी।

लाल सेनाओं की इस योजना को विफल करने के उद्देश्य से देनीकिन ने पहले ही धावा बोल दिया। उसने प्रायः एक साथ ही दो कार्रवाइयां कीं। ये कार्रवाइयां उसने प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों के पुराने और वफ़ादार चाकरों—कज्जाकों के जनरल मामोन्तोव तथा वालंटियरों के जनरल कुतेपोव को सौंपीं।

मामोन्तोव की कमान में लगभग छह हजार घुड़सवार, बहुत सी तोपें, वज्तरवंद मोटरगाड़ियां और प्रायः तीन हजार पैदल सिपाही भी थे। इस चौथी दोन कैवेलरी कोर ने अगस्त में नोवोखोपेस्क के पास सोवियत मोर्चा तोड़ दिया। देनीकिन ने लाल सेना के दक्षिणी मोर्चे के पीछे, चंडावल में तोड़-फोड़ करने के उद्देश्य से इस कोर के सम्मुख आरम्भ में कोज्जनोव जंक्शन पर कब्जा करने का कार्यभार रखा। परन्तु बाद में उमने यह कार्यभार बदल दिया और कोर को वोरोनेज की ओर बढ़ने को कहा, ताकि वह नोवोखोपेस्क से उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित लाल मंत्रा के नीस्कीन सैन्य-दल को छिन्न-मिन्न कर दे। मामोन्तोव ने देनीकिन के आदेश का पालन नहीं किया और मोर्चा भेदकर अपनी कोर को सीधे उत्तर की ओर, तम्बोव की दिशा में ले गया। देनीकिन ने मामोन्तोव को पश्चिम की ओर मोड़ने के प्रयास किये परं ये प्रयास विफल रहे। मोर्चे पर केंद्रित लाल सेना की शक्ति से वह दिन पर दिन दूर होता जा रहा था, मोर्चे के पीछे के क्षेत्रों में तेजी

से घुसता जा रहा था और अपने मार्च के आठवें दिन उसने तम्बोच पर कब्ज़ा कर लिया।

जुलाई में लेनिन का लिखा पत्र जिन लोगों ने पढ़ा था, वे दोन ही यह देखकर विस्मित हुए कि लेनिन के शब्दों में कैसी अचूक सच्चाई थी। मामोन्तोव द्वारा मोर्चा भेदने के ठीक एक महीना पहले लेनिन ने लिखा था: “और हाँ, देनीकिन की सेना की एक विशेषता यह है कि उसमें अफसरों तथा कज्जाकों की भरभार है। यह एक ऐसा तत्व है, जिसके पीछे जनता की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए बहुत अधिक संभावना इस बात की है कि यह बहुत तेज़ी से हमले करने पर, दुस्साहसिकता पर, सब कुछ की वाज़ी लगाने पर उत्तर आये ताकि बौखलाहट फैला सके और केवल तवाही की खातिर तवाही मचा सके।”

किरील इज्वेकोव भी यह देखकर विस्मित था कि लेनिन के शब्दों में घटनाओं का कितना ठोस पूर्वानुमान था। उसे लग रहा था कि उसके साथियों को और स्वयं उसे भी एक तरह से चौथी दोन कैवेलरी कोर की ही चढ़ाई की सीधे-सीधे चेतावनी दी गई थी और यह उनका अधम्य अपराध है कि उन्होंने इस चेतावनी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। किरील का मन कहता था कि न उसके साथी और न वह स्वयं हमला उनके लिए इतना अप्रत्याशित था, कि वे उसके लिए विल्कुल तैयार न थे: आखिर वे इसकी उम्मीद तो नहीं कर सकते थे कि उन्हें पहले से ही वह तिथि और स्थान बता दिया जाता, जहाँ मोर्चा भेद जायेगा। उसी पत्र में ही तो लेनिन ने असाधारण सतर्कता बरतने का आह्वान किया था: “ऐसे शत्रु के खिलाफ़ लड़ने के लिए उच्चतम कोटि के सैनिक अनुशासन तथा सैनिक सतर्कता की आवश्यकता है। अचक्के में पकड़े जाने या हतप्रभ हो जाने का मतलब सब कुछ खो देना है।”

अपने काम को मन ही मन परखते हुए किरील यह पा रहा था कि जिस पद पर वह था वहाँ उससे जो कुछ हो सकता था वह उसने किया था। लेकिन वह सोच रहा था कि उसे इससे कहीं अधिक करना चाहिए था, और यह कि उसने ही दूसरों के साथ “मौका खो दिया”

है और उम मुसीबत का कारण बना है, जो मामोन्तोव की चढ़ाई में मोर्चे तथा चंडावल पर आई है।

गगोजिन के मोर्चे पर चले जाने के बाद किरील का यह विश्वास दिन पर दिन बढ़ता गया था कि उसके लिए भी और उनके ध्येय के लिए भी यही वेहतर होगा कि वह लाल सेना में हो। यह बात उसे दिन-गत बेचैन किये रहती थी। सफेद गाड़ों द्वारा मोर्चा भेदने की नई घटना के बाद तो यह बेचैनी बौखलाहट बन गई।

कुतेपोव की कमान में पहली बालंटियर कोर ने दक्षिणी मोर्चे के केंद्रीय भाग में दो मोवियत सेनाओं के संधि स्थल पर हमला करके मोर्चा भेद दिया और एक सेना को कूर्स्क की दिशा में तथा दूसरी को बोरोज्वा की ओर पीछे हटने पर विवश किया। इसका नतीजा यह था कि जिन मैनिकों को कुप्यान्स्क पर लाल सेना के सहायक हमले में भाग लेना था, उनका एक भाग अब ऐसा करने में असमर्थ था।

इस बव के बावजूद मामोन्तोव द्वारा मोर्चा भेदने के पांच दिन बाद और कुतेपोव द्वारा मोर्चा भेदने के तीन दिन बाद, अगस्त के मध्य में लाल सेना की प्रमुख कमान और दक्षिणी मोर्चे की कमान ने इन घटनाओं से पहले तैयार की गई अपनी योजना के ही अनुसार देनीकिन के विरुद्ध अपना अभियान आरम्भ किया।

अधिकांश मोवियत कर्मियों की ही भाँति (जिनमें सैनिक भी थे) उज्जेकोव को यह पता नहीं था कि दक्षिणी मोर्चे की नई परिस्थितियों को देखते हुए इस अभियान को छेड़ने का समय निकल चुका था। उल्टे, उसे यह जानकर बहुत शुश्री हुई कि लाल सेना ने दक्षिण में मक्किय कार्गिवाई आगम्भ कर दी है, और उसे यह बात एक शुभ लक्षण तथा लाल सेना की शक्ति का प्रमाण लगी कि सफेद गाड़ों की जवाही कार्गिवाइयों के बावजूद हमला किया गया है और उसकी शुरुआत सफल हुई है। उसे बव इस बात पर ही थोड़ी परेशानी हो रही थी कि मामोन्तोव के गिमाले को पछाड़ने का काम प्रमुख प्रहारक सैन्य-दल की कमान को माँगा गया था और उसने इस काम के लिए दो राइफल डिविजनें भेजी थीं: इसमें तो बोल्ना के निचले इनाकों तथा दोन की ओर लाल सेना के प्रहार की शक्ति कम हुआ बिना नहीं रह सकती थी। और वह बड़ी बेचैनी के माथ मामोन्तोव के गिमाले के हमले की

खबरें देख रहा था, जो अब तम्बोव के इलाके में खेतों और लोगों को रौद्र रहा था।

भोर्चे से कोई नया समाचार पाते ही किरील सारा काम छोड़ देता और स्कूली नक्शों से लेकर खेती के बड़े नक्शों तक में से जो भी नक्शा हाथ लगता उसे खोलकर सेनाओं की गतिविधियों का ठीक-ठीक पता लगाने और आगे की कार्रवाइयों का अनुमान लगाने की कोशिश करता। आरम्भ में ज्यों-ज्यों लाल सेना को सफलता मिलती गई, त्यों-त्यों उसके मन में रागोजिन से ईर्ष्या बढ़ती गई।

एक दिन शाम को आनोच्का ने उसे ऐसे ही नक्शा देखने में मग्न पाया। वह दरवाजे पर दस्तक दिये बिना ही उसके दफ्तर के कमरे में चली आई थी और अब असमंजस में खड़ी थी, क्योंकि किरील ने उसे अपनी सेक्रेटरी समझा और सिर उठाये बिना ही पूछा – क्या वात है? उसके बड़े गये बाल भाँहों पर गिरे हुए थे, लैम्प-शेड की परछाई में वे सदा से अधिक काले लग रहे थे, कसे हुए होंठों और ठोड़ी पर लैम्प की तेज़ रोशनी पड़ रही थी और साफ़ दीखता था कि उसने दाढ़ी नहीं बनाई है।

“क्यों, क्या वात है?” उसने ऊंची आवाज में फिर से पूछा और नक्शों से नज़र हटाई।

तुरन्त ही वह मेज के पीछे से निकलकर आनोच्का के पास दौड़ आया, उसका हाथ पकड़ लिया और अभिवादन करने के पश्चात बदली हुई, भिभक भरी आवाज में पूछा:

“आप यहाँ कैसे आ पहुंचीं?”

“बाहर मुझे कहा गया था कि अंदर जा सकती हूं... नहीं आना चाहिए था क्या?”

“क्यों नहीं, क्यों नहीं! मेरा मतलब यह नहीं। मैं यह नहीं समझा कि आप कहाँ से प्रकट हो गई। मुझे आपकी प्रतीक्षा थी... मेरा मतलब मैं मिलना चाहता था। एक काम है... बहुत ज़रूरी...”

वह आम तौर पर इतनी जल्दी-जल्दी नहीं बोलता था। उसका ध्यान इस बात की ओर भी गया कि वह ठीक से बोल नहीं पा रहा है। उसने मुड़कर आखिरी सहारे की तरह नक्शों की ओर देखा और फिर से आनोच्का का हाथ पकड़कर उसे मेज की ओर खींचा।

“रोज सोचता था कि आज बात करूँगा, पर वक्त ही नहीं मिलता। कितना अच्छा हुआ कि आप आ गई। हाँ, यह देखिये, क्या हो रहा है।”

वायें हाथ से वह उसे पकड़े हुए था और दायां हाथ उसने सारी मेज पर फैले नक्शे के ऊपर बढ़ाया।

“यह रही बोल्गा। देखा? हमारा बेड़ा अब यहाँ है। बस और एक दिन में कमीशिन हमारे हाथों में होगा। समझीं? ब्रांगेल पीछे हट रहा है। इधर से हमारा रिसाला जोर डाल रहा है (उसने पश्चिम की ओर डगारा किया और आनोच्का के कंधे पर झुकते हुए उसे बाई ओर को धकेला।) बुद्योन्नी की कैवेलरी कोर। सुना है उसका नाम? नहीं? यह देखिये, यह कोर किधर बढ़ रही है। सुतूलोव के दोन कज्जाक रिसाले से जूझने। अगर हमने उसे हरा दिया, तो ...”

उसने आनोच्का को और आगे धकेला और वह सहसा परे हट गई। किरील ने उसकी ओर नजर उठाकर देखा और धीरे से कहा: “तब बहुत अच्छा होगा।”

वह आनोच्का को केवल वही बातें बता रहा था, जिनसे उसका मन उत्तेजित हो रहा था, आगा बंधती थी, पर मन में दबी चिंता पर वह चुप्पी साधे हुए था, नक्शे में उत्तर की ओर आंख नहीं उठा रहा था, ताकि कहीं आनोच्का भी ऐसा न कर दैठे। बोल्गा की उत्साह-व्यर्द्धक घटनाओं के बारे में बताते हुए अनचाहे ही वह सरातोव से उत्तर-पश्चिम की ओर हो रही घटनाओं के खतरे के बारे में सोचता जा रहा था। वहाँ तम्बोव प्रदेश में मामोन्तोव के घुड़सवार इस दिन तक कोज्जोव पर कब्जा कर चुके थे और मास्को का सीधा रास्ता कट गया था, अब पेंजा का चक्कर लगाकर ही राजधानी तक पहुंचा जा सकता था। उसने निश्चय किया कि वह हर हालत में आनोच्का का व्यान इन दुखद घटनाओं की ओर नहीं जाने देगा, उसे पूरा विश्वास था कि वह केवल इन घटनाओं को ही आनोच्का से छिपा रहा है, इनके अलावा और कुछ भी नहीं। वह कभी यह स्वीकार न करता कि आनोच्का को यों अप्रत्याधित ही इतना निकट पाकर उसके मन में जो उद्गार उठ रहे हैं, उन्हें छिपाने की भी चिंता उसे कम नहीं है।

अपने नक्शे उलट-पलटकर उनमें से एक छोटा नक्शा निकालकर

उसने ऊपर रखा और फिर से आनोच्का के पास आ गया।

“यह तो मैंने कमीशिन – त्सरीत्सिन की दिशा दिखाई थी। अब इससे पश्चिम की ओर देखिये। यहां हमारा दूसरा सैन्य-दल है। देख रही हैं, पांच दिन पहले मोर्चा कहां था? अब देखिये हम कहां घुस गये हैं। यह रही लाल लाइन। है न बढ़िया वात? अगर आगे भी ऐसे ही चलता रहा, तो हफ्ते भर बाद हम कुप्यान्स्क में होंगे। यह देखिये।”

वह आनोच्का को मेज पर जरा झुकाना चाहता था, पर वह बोली:

“मुझे अच्छी तरह दिख रहा है। पर यह क्या वात है – कमीशिन में हम एक दिन बाद होंगे, और कुप्यान्स्क में हफ्ते भर बाद? कमीशिन तो अभी इतनी दूर है, और कुप्यान्स्क विल्कुल पास ही।”

“हुं,” एक ओर को हटते हुए किरील बोला, “हां, यह तो काफी बुरी वात है। पर सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि ... नक्शे अलग-अलग माप के हैं।” (उसने अपने ऊपरी होठ को छुआ।) “छोटे नक्शे पर दूर की जगह भी पास लगती है।”

“तो फिर छोटे नक्शों से ही लड़ाई लड़नी चाहिए,” आनोच्का मुस्करा दी।

किरील हँस पड़ा। आनोच्का ने गम्भीरता से और साथ ही कुछ चंचलता से पूछा:

“आप कह रहे थे कि मुझसे मिलना चाहते थे। रणनीति समझाने के लिए क्या?”

“नहीं, नहीं, रणनीति के बिना ही।”

“यह कैसे हो सकता है, आप तो रणनीतिज्ञ हैं न?”

“मैं कमज़ोर रणनीतिज्ञ हूं। नहीं तो मैं छोटे नक्शों से लड़ाई लड़ता ... कम से कम आप से?”

“आप मुझ से लड़ना चाहते हैं?”

“नहीं, आप से नहीं, आपके लिए।”

वह फिर से मुस्कराई। उसकी इस मुस्कान में न चंचलता थी, न अठखेली, परन्तु उस स्त्री का विजयपूर्ण संतोष था, जो इस वात का आनन्द ले रही हो कि मजाक-मजाक में ही उसने पुरुष का सारा

व्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पर तभी लगा, उसने अपने आप को टोका और बातचीत में हल्के से नखरे का जो पुट आ गया था, उसे बदलते हुए कहा:

“आपको सचमुच मुझसे काम है? मैं भी जरूरी काम से आई हूँ।”

“मुझे आपके भाई से वात करनी है।”

“पाब्लिक से?”

“उसके दोस्त इवान रागोजिन के बारे में। आपको याद है वह रागोजिन, जिसके पास आप तब पैसों के लिए गई थीं... त्वेतुखिन के साथ? उसका एक बेटा है...”

“अरे!..” आनोच्का ने मानो घबराते हुए उसकी बात काटी। “कैमा अजीब संयोग है! मैं भी पाब्लिक के सिलसिले में आपसे बात करने आई हूँ। वह गायब है।”

“गायब है?”

“परसों मुबह घर से निकला था और फिर नहीं लौटा।”

“आपने ढूँढ़ा है कही?”

“पिता जी ने मिलीशिया में रिपोर्ट की है, बोल्गा पर जिस किसी से पूछ सकते थे पूछा है...”

“गायद दोरोगोमीलोव को कुछ पता हो?”

“आसेंनी रोमानोविच ने पाब्लिक के सभी दोस्तों से पूछा है, पर कुछ पता नहीं चला... कोई अता-पता नहीं। हे भगवान्!”

“हाँ, हाँ, आपके दिमाग में तो तरह-तरह की बातें आ रही होंगी: मारा गया, या और पता नहीं क्या हो गया,” किरील ने आनोच्का को ढाढ़स बंधाने के लिए जानबूझकर रुखे अंदाज में कहा।

“वह तो बम मोर्चे पर भाग गया है। धमकी दे तो रहा था कि भाग जायेगा।”

“पर मुझे डमसे क्या तसल्ली? छोटा सा तो है, जरूर उमे कुछ न कुछ हो जायेगा।”

“आप क्या मोर्चती हैं कि ऐसे लड़ाकों को मचमुच मोर्चे पर जाने दिया जाना है?”

“पर वह अगर भाग गया है, तो?”

आनोच्का ने कुर्सी की पीठ का सहारा लिया और उसकी सुकोमल देह सहसा कुर्सी पर ढह गई।

“सुनिये आनोच्का,” किरील कहने लगा, पर आनोच्का ने उसे बोलने नहीं दिया।

“मुझे पता है कि कसूर मेरा है, मेरा ही! माँ के होते कभी ऐसा न होता! वह पाल्लिक को इतना प्यार करती थीं! और मैंने उसे विल्कुल अकेला छोड़ रखा है। वह तो अभी बच्चा ही है, विल्कुल बच्चा!”

उसने अपनी कोहनी के मोड़ में मुंह छिपा लिया, उसका हाथ कुर्सी की पीठ पर ही था।

“आप खुद अभी बच्ची हैं,” उसके पास आते हुए किरील ने कहा।

इससे वह मानो पसीज गई, रुअांसी सी होकर वह सुवकी रोकते हुए बड़बड़ायी:

“मैं आपको रिहर्सल पर बुलाना चाहती थी, हमारी ड्रेस रिहर्सल होनेवाली है, पर अब मुझे पता है, मेरे से कुछ न होगा, कुछ न होगा!”

किरील और अधिक सख्ती से बोला, इस डर से कि कहीं आनोच्का रो न पड़े:

“वेकार की बातें मत करिये। रिहर्सल ही तो है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है! वन जायेंगी आप लुईज़ा, या और क्या बनना है आपको? और मैं आकर तालियां बजाऊंगा। क्या रखा है लुईज़ा बनने में! मेरा मतलब है—आपकी इस लुईज़ा का पार्ट कोई मुश्किल नहीं है। और रहा पाल्लिक... मुझे एक लड़के को छूटना था, अब दो को छूटूँगा। मुझे यकीन है मिलीशिया वाले उसे घसीट लायेंगे। वह कोई पहला ऐसा सूरमा नहीं है।”

आनोच्का ने सिर ऊपर उठाया।

“‘पहला ऐसा सूरमा नहीं है! योड़ी धुनाई हो जाये वस उसकी!’” किरील की भारी आवाज़ की काफ़ी अच्छी नकल उतारते हुए आनोच्का ने कहा, और किरील ने गम्भीरता बनाये रखने के लिए मुंह मोड़ लिया।

“कल सुवह ही मैं मिलीशिया को इस काम में लगा दूँगा, सब कुछ करूँगा,” पहले से मृदु स्वर में उसने कहा।

“सच?” आनोच्का ने मानो खुश होते हुए पूछा। “आपके अंगाल में मैं मचमुच ही अपना पार्ट अच्छी तरह अदा कर लूँगी?”

किरील को बातचीत में ऐसा भोड़ आने की आशा नहीं थी।

“अगर अभी तक अदा करती आई हैं...”

“आपको कैसे पता है कि मैं लुईज़ा का पार्ट कर रही हूँ?”

“मां से पूछा था।”

“अच्छा, तो आखिर आप मुझे भूले नहीं थे?”

“हां, भूला नहीं था।”

“इमीलिए दो महीने तक नहीं मिले?”

“दो महीने? नामुमकिन है!”

“सात हफ्ते और तीन दिन।”

“आप गिनती रही हैं?” किरील और भी अधिक हैरान हुआ।

“और आप गिनती भूल वैठे?”

उसने विवशता दिखाते हुए कागजों और नकशों की ओर डशारा किया।

“हां, मैं समझती हूँ,” आनोच्का बोली। “फुरसत नहीं थी...”

उमकी भौंहें धीरे-धीरे ऊपर उठ गई, और उसकी डस अनचाही गति में डतनी निगदा थी कि किरील से कुछ कहते नहीं वना।

“अच्छा, अब चलना चाहिए। धन्यवाद। पाव्लिक की बड़ी चिंता है मुझे!”

“मैं आपको छोड़ने चलूँगा।”

“नहीं, नहीं, आप कैसे?..” आनोच्का ने कहा और ठीक किरील की तरह ही हाथ घुमाते हुए मेज़ की ओर डगारा किया।

“ठहरिये, ठहरिये,” वह बोला, डधर-उधर देखता हुआ वह अपनी टोपी ढूँढ़ रहा था, पर पा नहीं रहा था। “मैं आपके माथ घृमना चाहता हूँ, उम दिन जैसे ही।”

“और किर दो महीने के लिए गायब हो जाना?”

“नव नो जहर ही जाना चाहिए। चलिये चलें।”

उसे टोपी नहीं मिली और वह नंगे सिर ही बाहर आ गया।

शीतल अंधकार ने उन्हें अपने आलिंगन में समेट लिया - सांझ ढले अब शरद क्रह्तु के आने का आभास होने लगा था और इससे संध्याओं की मोहकता में उदासी का पुट आ गया था। हवा में ताज़गी और खुनकी थी। सीधी सड़क पर स्टीमर के भोंपू की लंबी आवाज मानो आह्वान करती चली आ रही थी।

किरील ने आनोच्का की बांह में बांह डाली। दूसरी बार उसने यह कोमल हाथ पकड़ा था, जिसकी एक-एक हड्डी का आभास होता था। उसे यह ख्याल आया कि शायद अक्सर यह हाथ सहारा ढूँढता होगा और थकावट से गिर जाता होगा। परन्तु हाथ के नुकीले मोड़ों में उसे हठधर्मी का अहसास हुआ।

“आपको ठड़ लग रही होगी... टोपी के बिना ?”

“आप यह तो नहीं पूछना चाहती थीं,” किरील ने कहा।

“क्यों, आप ऐसा क्यों सोचते हैं ?” आनोच्का ने तुरंत उसकी बात काटी, पर आगे नहीं बोली। उसके उत्तर की प्रतीक्षा में वह कुछ कदम चली। “पता नहीं क्यों मुझे आप से बात करने का कोई बहाना ढूँढना पड़ता है,” उसे कुछ न कहते देखकर वह आगे बोली। “शायद इसलिए कि आप सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात नहीं करना चाहते। ठहरिये, ठहरिये ! मुझे पता है, आप ज़रूर अभी पूछेंगे : सबसे महत्वपूर्ण क्या है ? है न ?”

हौले से हँसकर किरील ने पूछा :

“हां, सचमुच सबसे महत्वपूर्ण क्या है ? इस बक्त तो शायद पालिक को ढूँढना ही सबसे महत्वपूर्ण है, है न ?”

“वेशक,” बहुत ही जल्दी से आनोच्का ने हासी भरी। “पर तब, कार में आपने अपनी बात पूरी नहीं की थी, याद है ?.. आप को इस बात का विल्कुल अफ़सोस नहीं कि आप लीज्जा से जुदा हो गये ?”

“अच्छा, तो यह है सबसे महत्वपूर्ण विषय !.. मुझे बीती बातें याद करना पसंद नहीं है।”

“उसने दूसरी बार शादी कर ली है। अभी हाल ही में। आपके सरातोंव लौटने के बाद। आपने सुना है ? यह अतीत नहीं, वर्तमान है।”

“पर यह ऐसा वर्तमान है, जिसका मुझसे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए।”

“नहीं होना चाहिए? या सचमुच नहीं है?”

“आप इस मामले में ही बाल की खाल उतार रही हैं या सदा ऐसा करती हैं?”

“सदा!” निर्मिता से उसने पुष्टि की।

किरील फिर से हँस दिया, पर मानो अनिच्छापूर्वक, और काफी देर तक चुप रहा।

“चूंकि आपको इस मामले में इतनी दिलचस्पी है, तो इसे सदा के लिए खत्म किया जाये,” दबी-दबी आवाज़ में वह बोला, “मैंने सचमुच लीजा को याद करना छोड़ दिया है। पहले इसके लिए अपने को विवश करता था और फिर यह आदत ही हो गई।”

“तो इसका मतलब है आपको अभी भी लीजा से प्यार है?” आनोच्का ने अधीरता से पूछा और हाथ को झटका दिया, मानो उसे छुड़ाना चाहती हो, पर तुरंत ही डरादा बदल दिया।

“क्यों, यह मतलब कैसे हुआ? वह लीजा जिससे मुझे कभी, याद भी नहीं कितने साल पहले, प्यार था, हो सकता है, वह लीजा कभी थी ही नहीं।”

“पर यह तो विल्कुल वेमतलब वात हुई。” आनोच्का ने कुछ आहत से स्वर में कहा, और इस बार उसकी उंगलियों से अपना हाथ छुड़ा लिया।

“वेमतलब क्यों? वे हमारे यौवन के दिन थे, हमारे सपने थे।”

“वेमतलब ही तो है। अगर तब प्यार था, तो अब भी है। और अगर नहीं, तो इसका मतलब है आपका कोई भरोसा नहीं।”

“हाँ, यही वात है! मेरा कोई भरोसा नहीं।”

किरील को इस वात में बड़ा मजा आया और वह जोर से हँसने लगा। आनोच्का ने सहसा अपना हाथ उसकी हथेली में रख दिया, मानो हटाया ही न हो, और वे आगे चल दिये। अब वे कुछ नहीं बोल रहे थे, उनके कान बम एक दूसरे पर ही लगे हुए थे, हालांकि पैरों तले मड़क पर रेत की सरसर के अलावा और कुछ नहीं मुनाई दे रहा था।

जब वे आनोच्का के घर तक पहुंचे, तो उसने गेट पर ही किरील को विदा कर देना चाहा, पर वह बोला कि उसे आंगन में दरवाजे

तक पहुंचायेगा। आनोच्का रोशन खिड़की पर दस्तक देने गई और सहसा चिल्ला उठी:

“हे भगवान् ! देखिये तो ! ”

किरील उसके पास गया।

चारपाई पर पाल्लिक बैठा हुआ था। धुंधली रोशनी में भी उसके गालों पर आंसुओं से बने धब्बे दिखाई दे रहे थे – रोते-रोते उसने गदे चेहरे पर आंसू पोंछे थे। उसके लाल से बाल किसी चिड़िया के लड़ाई में नुचे परों की तरह खड़े थे। वह जल्दी-जल्दी रस्सी का टुकड़ा उंगली पर लपेटा और फिर झटके से उसे उतार देता।

उसके सामने मेज़ के पीछे पारावुकिन विराजमान था – नालायक बेटे को डांट पिलाते बाप की साक्षात् मूर्ति बना। वह उंगलियों से मेज़ पर पटापट कर रहा था और बेटे की ओर क्रोध भरी नज़रें फेंक रहा था।

दरवाज़ा खोलकर उसने आनोच्का को अंदर आने दिया और इज्वेकोव की ओर ध्यान दिये बिना ही तुरंत बोलने लगा।

“आ गया नवाबज्जादा, आ गया ! भूख खाला जी का घर नहीं। यह बाप ही है, जो इस निकम्मे का पेट भरता है। समझ में नहीं आता, नालायक गया किस पर है ? माँ इसकी इतनी मेहनती थी, सूअर के बच्चे को नहलाती, धुलाती रहती थी। और वहन इतनी समझदार लड़की है, कल को माँ बराबर होगी। बाप... बाप भी क्या ?”

पारावुकिन ने तिरछी नज़र से बेटी और उसके साथी की ओर देखा, तनके खड़ा हो गया, तेजी से हाथ उठाकर अपने अस्त-व्यस्त बालों और दाढ़ी पर फेरा, इसी क्षण यह दिखा कि चाहते हुए भी वह सीधा नहीं खड़ा रह पा रहा है।

“बाप भी कोई बेहया नहीं है, सारी उम्र घरबालों के लिए दुख के घूंट पीता रहा है...”

“ठहरिये भी न पिता जी,” आनोच्का बोली। “कहां गायब रहा था तू, पाल्लिक ?”

जब से वह अंदर आई थी, एकटक भाई की ओर देख रही थी। उसकी नज़रों में ऐसा प्यार, विह्वलता और सच्चे मन से उठता उलाहना था कि पाल्लिक ने सिर नीचा कर लिया था और रस्सी लपेटना बंद कर दिया था।

“ठहरना क्या? मैंने इससे सब उगलवा लिया है,” पारावुकिन ने कहा और अपनी मांमल हथेली खोलकर बड़े गर्व से हिलाई। “बता दिये इसने मुझे अपने सब जहाजी सपने। कहता है फौजी बेड़े में जहाजी बनना चाहता था। बना दिया है मैंने इसे जहाजी!”

आनोच्का पाल्विक की ओर लपकी, उसे अपनी छाती से लगा लिया। राहत की सांस लेकर उसने अपना मुंह बहन की छाती में छिपा लिया। वह थग्यराया और फिर शांत हो गया, उसकी उंगलियाँ फिर से रम्मी लपेटने लगीं।

“जहाज के खाव में जा छिपा, उबेक तक पहुंच गया, वहाँ चलासियों ने ड्रमों के साथ इसे भी बाहर निकाल लिया। मैंने पूछा क्यों गया था? कहता है, समुद्री लड़ाई देखना चाहता था। कौन मे समुद्र में या भील में? कहता है—यह फौजी राज है!”

“कैसे तुमने ऐसी हरकत की, पाल्विक?” आनोच्का ने पाल्विक के विवरे बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। वह अभी भी उत्तेजित थी।

“आविर में कहता है कि मैंने क्रांति के लिए अपनी जान न्योछावर करने का फैसला किया है। देखो तो इस लड़ाके को! क्या करेगे भला इसका?”

“मैंने क्या कहा था?” इज्जेकोव बोला। “समय की पुकार है। बच्चे इसे हम बड़ों में ज्यादा अच्छी तरह सुनते हैं—मोर्चे पर चलो! मोर्चे पर!”

किमी अजनवी की आवाज मुनकर पाल्विक ने बहन की छाती मे मिर हटाया, तेजी मे उम और देखा और तुरंत ही किंगिल को पहचान लिया। अचानक ही मिले इस समर्थन मे उसका हौसला बड़ा और उसने धिकायत और चुनौती भरी नजर बाप की ओर फेंकी।

“मैं अकेला होता तो कोई बान भी थी। यह तो मव उस बान्या नंगेये-कंगाल की करनी है। चुद तो वह मोटग्वोट में सीधे बेड़े पर चला गया होगा, पर मुझे कह गया: तू किसी जहाज पर जैमे-तैमे उबेक पहुंच जा। वहाँ बेड़ा डीजल लेने आयेगा, वहाँ मैं तुझे ले लूंगा। मैं दो दिन तक गह देखना रहा, पर बेड़ा तो उबेक आनेवाला ही नहीं था। क्या जन्मन है उन्हें उबेक आने की!”

“च-च-च ! कैसा साथी मिला तुझे, जरा भी भरोसेमंद नहीं !”
इज्जेकोव ने गम्भीरतापूर्वक कहा। “कौन है यह वान्या ? रागोजिन
तो नहीं ?”

“और कौन ? उसके तो मज़े हैं। उसे सब नौसैनिक जानते हैं !”

“तुझे क्या अपने किये का जरा भी अफ़सोस नहीं ?” आनोच्का
भाई से परे हट गई।

पाल्लिक ने फिर से सिर झुका लिया : वहन की वेदना ही उसके
लिए सबसे बड़ा उलाहना थी।

इतनी आसानी से ही एक भगोड़ा मिल गया था, और मानो
ओस पर दूसरे के पदचिह्न उभर आये थे। किरील खुश हो सकता
था। उसने चलने की सोची, पर तभी पारावुकिन ने, जिसे रोबीले
बाप की भूमिका से वंचित कर दिया गया था, अकड़ते हुए पूछा :

“माफ़ कीजिये, आप मेरी वेटी के साथ थियेटर में काम करते
हैं, या कोई और हैं ?”

“यह वेरा निकान्द्रोव्ना के बेटे हैं,” आनोच्का बोली, “आप
जानते तो हैं इन्हें।”

पारावुकिन फ़ौरन सातवें आसमान से ज़मीन पर आ गिरा,
उसने अपना बोरे सरीखा कुर्ता झटककर ठीक किया और बड़े अद्व
से बोला :

“आपके ऊंचे ओहदे से ही आपको ज्यादा जानता हूं, क्योंकि
तकरीबन हर फ़रमान पर आपके दस्तखत देखता हूं। और फिर आपका
मातहत हूं—पुरानी चीज़ों के महकमे में काम करता हूं।”

“हाँ, अरसे से आपका यह महकमा देखने की सोच रहा हूं,”
किरील ने कहा। “क्या हो रहा है आपके यहां ? सुना है आप लोग
कितावें तबाह करते हैं ?”

“इजाज़त के बिना एक पन्ना भी नहीं ! जैसा हुक्म है, विल्कुल
वैसा ही करते हैं। मज़हबी किताबों या जारशाही कानूनों की रटी
ज़रूर फ़ाड़ते हैं। या फिर वो सरमायेदारों की छपाई—शेयर कम्पनियों
की रपटें या इश्तहार बैगरा।”

“और वो भूगोल की किताब के लिफ़ाफ़े नहीं बनाये थे क्या ?”
पाल्लिक बाप को डंक मारने का मौका पाकर तुरंत बोल उठा।

“चुप रह, वे! बड़ा आया है समझनेवाला। जुगराफिये की नहीं इतिहास की किताब थी। क्योंकि यह पुराना इतिहास है, जो अब नहीं होगा। यह इतिहास रह हो गया है। तू क्या सोचता है हमारे महकमे में किमी को किताबों का कुछ डल्म नहीं? सब छांटना जानते हैं: काम की किताबें—सब एक तरफ़, जो काम की नहीं—वे रही में। किताबों की जिल्दें—पताबों के लिए, छपे हुए पन्ने—लिप्ताफ़ों के लिए, माफ़ कागज़ लिखने के लिए।”

“जम्हर आऊंगा आपका महकमा देखने। बड़ी दिलचस्पी हो रही है मुझे इसमें,” किरील ने कहा।

“हमारे यहां बड़े-बड़े जानकार लोग आते हैं, और कोई इसे अपनी तौहीन नहीं समझता। पूरी की पूरी लैबरेशियां बना ले जाते हैं हमारी किताबों से।”

“हां, हां, मैं भी देखूंगा”, किरील ने मुस्कराते हुए पाव्हिक की ओर हाथ बढ़ाया। “अच्छा तो, मूरमा! वक्त आयेगा, तो हम भी लड़ नेंगे। हमारे जीवन में अभी जाने कितने युद्ध आयेंगे। पर अभी आनोच्का को मताना नहीं, ठीक है?”

पाव्हिक किरील से हाथ मिलाते हुए फिझक रहा था, फिर उसने धीरे में हाथ ऊपर उठाया, पर कोहनी बगल से सटाई रखी, और मिर घुमा लिया।

आनोच्का अपने अतिथि को छोड़ने वाहर आई। वह अब शांत हो गई थी। किरील जब पाव्हिक से बात कर रहा था, उस बीच उसने अपने कटे वाल संवार लिये थे।

वाहर के खुले दरवाजे के पास अंधकार में क्षण भर को वे रुके, तो आनोच्का ने चंचल म्बर में पूछा: “अब कब तक?”

“कल तक। ठीक है—कल मिलें?” किरील ने कहा। उसे यह याद हो आया कि पिछली बार वह कितने दिनों तक आनोच्का से मिलना टालता रहा था और अब उसने यह गलती न दोहराने का फ़ैसला किया।

एक बार फिर वह यह देखकर विस्मित था कि उसका छोटा मा हाथ किनना कोमल है, और महमा वह इस हाथ पर, जैसा दुनिया में कोई दूसरा न था, भुक गया, और दो बार जल्दी-जल्दी बेढ़व में चुम्बन लिये।

“अरे यह क्या!” आनोच्का चीखी, ड्योड़ी में हट गई और फिर दरवाजे के पीछे से सहसा इतना और जोड़ा: “कितने चुभते हैं!”

वह तुरंत ही छोटे-छोटे, पर दृढ़ कदम भरता वहां से चल दिया। वह इस बात पर स्तब्ध था और साथ ही खुश भी कि उसने आनोच्का का हाथ चूमा है। पहले कभी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किसी स्त्री का हाथ चूमेगा: उसके लिए यह या तो अभिजात वर्ग का कृत्रिम शिष्टाचार या ऐसी तुच्छतापूर्ण, दासीय हरकत थी, जिसे वे लोग करते थे, जो इज्वेकोव से ज़मीन-आसमान की तरह दूर थे। स्टेशन, आदि पर कहीं जब किरील किसी को ऐसा करते देखता, तो उसे धिन होती, और पहले कभी उसे यह सोचकर ही अपने आप पर हँसी आती कि वह स्त्री के लिए अपमानजनक और पुरुष के लिए मानमर्दक इस रस्म की नकल करेगा। अब जबकि स्त्री अंधविश्वासों और हीनता के सभी वंधनों से मुक्त हो रही थी, हाथ का चूमना उसे विशेषतः असंगत लगता था। नहीं, अगर कोई हाथ चूमने की इस रस्म को पुरुष शौर्य के प्रतीक के रूप में बनाये रखने का समर्थन करता है, तो फिर इसमें भी स्त्री का समानाधिकार हो, और वह भी पुरुष के प्रति लगाव व्यक्त करने के लिए अपने होंठों से उसके हाथ का स्पर्श करे। नहीं, नहीं, किरील हाथ चूमने के विलकुल खिलाफ़ है। वह तो केवल इसलिए खुशी से ओत-प्रोत हो रहा है कि उसने आनोच्का का हाथ चूमा है—अनोखी युवती का इतना प्यारा-प्यारा हाथ! उसका यह चुम्बन छवीलों की भोंडी रस्म से सर्वथा भिन्न है। उसने आनोच्का का हाथ नहीं चूमा है, बल्कि उसके उस आकर्षण को, जो उसके हाथ में घनीभूत है, उसने आनोच्का को चूमा था, स्वयं आनोच्का को! — क्या उसकी देह का हरे अंग—चेहरा, गर्दन, मुंह या हाथ, सभी एकसमान ही इस योग्य नहीं कि उन्हें चूमा जाये? कल वह आनोच्का को यह बतायेगा कि उसके लिए आनोच्का की देह का हर अंश एकसमान है, कल ही, हां कल ही—कितनी अच्छी बात है कि कल ही वह बता सकेगा!

वह उसी रास्ते से वापस जा रहा था, जिस पर थोड़ी देर पहले वे दोनों चल रहे थे, और हर कदम के साथ उसमें आनोच्का की समीपता की अनुभूति फिर से जाग रही थी, अंधेरी सड़कों पर पैरों

तले रेत की सरसराहट इसे सजीव बना रही थी। वे जब इकट्ठे जा रहे थे, तब भी रेत ऐसे ही सरसरा रही थी। आनोच्का के पैरों तले ऐसी ही सरसराहट हो रही थी। वह अस्पष्ट से मंद स्वर में कुछ गुनगुना रहा था। उसे सुर की पहचान नहीं थी, लेकिन जब वह अपने लिए गाता था, तो उसे यह अच्छा लगता था और उसे लगता था कि उसमें संगीत की अनुभूति है। उसकी गुनगुनाहट का एक ही अर्थ था—कल, कल। चुम्बन के बारे में अपने विचारों के उत्तर में वह कह रहा था—कल, कल। हाँ, कल ही, कल ही।

अपने कमरे में उसने कुछ साथियों को बैठे पाया। कुछ खिड़कियों के दासों पर बैठे सिगरेट पी रहे थे, कुछ वे नक्शे देख रहे थे, जो किरील ने आनोच्का को दिखाये थे। वह सब को जानता था और तुरन्त ही समझ गया कि किसी अप्रत्याशित घटना के कारण वे यहाँ जमा हुए हैं।

“कहाँ गायब थे इतनी देर से?” एक साथी ने पूछा।

“कहीं नहीं। यों ही ज़रा बाहर निकला था, देख तो रहे हो, टोपी पहने बिना गया था,” उसने कहा और सदा की भाँति चलने की कोशिश करते हुए अपनी मेज तक गया और उस पर नज़र दौड़ाई।

उसकी नज़र तुरंत ही कलमदान के पीछे रखे तार पर पड़ी। जब तक वह तार पढ़ता रहा, कोई कुछ नहीं बोला। उसका मुंह भिंच गया और लगा वह बूढ़ा हो गया है। उसने तार को दोहरा किया और धीरे से कुर्सी में बैठ गया।

“बैठो नहीं,” उससे कहा गया। “अध्यक्ष हमारा इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई है।”

“अच्छा। चलो चलें,” उसने ऐसे विवास के साथ कहा कि सब तुरन्त उसके पीछे चलेंगे ही, मानो स्वयं उसने ही यह मीटिंग बुलाई हो, और जल्दी-जल्दी अपने कमरे में होता हुआ अगले कमरे में चला गया।

२३

अगले दिन के अंत में ही कहीं किरील को आनोच्का को रुक्का भेजने का वक्त मिला, जिसमें उसने लिखा था कि वह दो-एक दिन बाद ही उससे मिल सकेगा। जब वह दो-एक दिन लिख रहा था,

तो उसे विश्वास नहीं था कि ऐसा ही होगा, पर वह और कुछ नहीं लिख सकता था। हां, उसने आगे यह भी लिख दिया कि आनोच्का से मिलने का उसका बहुत मन है। उसका ख्याल था कि इतना लिख देने पर और कुछ समझाये बिना ही उसका पश्चाताप हो जायेगा।

दो दिन तो क्या, दो घंटे वाद क्या होनेवाला है, इसका भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। सारी रात उनकी मीटिंग चलती रही थी, टेलीफोन और तार लगातार काम कर रहे थे: नगर के लिए उत्तर की ओर से नये बलबे का खतरा पैदा हो गया था तथा इससे मास्को के साथ पेंजा होते हुए अंतिम रेल सम्पर्क टूट जा सकता था।

दोन कज्जाकों की लाल डिविजन के कमांडर, भूतपूर्व कज्जाक कर्नल मिरोनोव ने पेंजा प्रदेश के सरान्स्क नगर में कैवेलरी कोर गठित करने के पश्चात क्रांतिकारी सैनिक परिषद की सत्ता मानने से इन्कार कर दिया था। इससे पहले ही वह डिविजन के राजनीतिक विभाग को नजरंदाज करने लगा था और अपनी मनमर्जी से कज्जाकों और किसानों को जमा करके यह कहते हुए कि वह क्रांति की रक्षा कर रहा है, उन्हें बोल्शेविकों और सोवियतों के विरुद्ध उकसाता रहा था। क्रांतिकारी सैनिक परिषद की ओर से जब उसे पेंजा बुलाया गया, तो इसके जवाब में उसने अपनी टुकड़ियों को हथियारों से लैस कर दिया और यह अल्टीमेटम भेजा कि उसे वेरोक-टोक भोर्चे पर जाने दिया जाये। उसका लक्ष्य यह था कि जैसे भी हो देनीकिन से जा मिले। मामोन्तोव इस समय अपने हमले में सबसे उत्तरी बिंदु तक पहुंच चुका था और इससे बलबे के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई थीं। ऐसी हालत में मिरोनोव अगर लाल सेना के चंडावल में उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता आता, तो इससे मामोन्तोव को बहुत मदद मिलती। यह गद्दार मर्झो जैसा ही दुस्साहसपूर्ण काम था जो वसंत में ही सफेद गाड़ी से जा मिला था।

नगर सोवियत के सभी कर्मियों को गिरफ्तार करके और जेल में बंद करके मिरोनोव अपनी कज्जाक टुकड़ियों के साथ सरान्स्क से पेंजा की ओर चला। रास्ते में उसने अपने एजेंटों को गांवों में भेजा

ताकि वे किसानों को वगावत के लिए उकसायें। मकार्येक्स्कोये वस्ती में वह तकरीबन एक दिन के लिए रुका रहा, और इससे सोवियत कमान को उसे मोर्चे के निकटवर्ती क्षेत्र में पहुंचने से रोकने तथा चंडावल में ही उसका अंत कर देने के लिए अपने सैनिक जमा करने का अवसर मिल गया।

ਪेंजा प्रदेश में घेरेवंदी की स्थिति की घोषणा कर दी गई। सैनिक परिपद ने सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली, और ज़िलों में कांतिकारी समितियां गठित की गई। गांवों के कम्युनिस्ट कुल्हाड़ियां और जेलियां लिये शहरों में जमा होने लगे, ताकि संगठित होकर विश्वासघाती डिविजन का मामना कर सकें। टोह लेने का इंतज़ाम किया गया, हथियारों की मरम्मत के लिए वर्कशापें खोली गई। घोड़ों और ज़ीनों की फहरिस्त बनाई जाने लगी। पेंजा में मज़दूर रेजीमेंट के लिए बालंटियरों के नाम लिखे गये। प्रदेश के दूर-दराज के भागों में भी बोल्शेविकों की लामवंदी हुई और सैकड़ों लोगों ने हथियार संभाले।

सरान्स्क से चलने के चार दिन बाद मिरोनोव की कुछ टुकड़ियों ने मूरा नदी पार करने की कोशिश की, जहां मणीनगनों से गोलियों की बौछार ने उनका स्वागत किया और उनमें भगदड़ मच गई। इसके तीन दिन बाद मिरोनोव के लगभग एक हज़ार सिपाहियों ने हथियार ढाल दिये और अपने प्रतिनिधियों द्वारा यह कहलवाया कि वे फिर मेरे लाल सेना में लौटना चाहते हैं।

मिरोनोव शेष वगावतियों के साथ दक्षिणी मोर्चे की ओर बढ़ता रहा। पेंजा मेरे उन्हें परे खदेड़ दिया गया था और वे उधर से बचते हुए मरानोव प्रदेश के उत्तरी ज़िलों से होते हुए बलाशोव की ओर बढ़ रहे थे। मिरोनोव की शक्ति दिन पर दिन कम पड़ती जा रही थी, मामोन्तोव के हमले के मुकाबले उसका बलवा बेदम था, वह सावधानी बरतता हुआ बढ़ रहा था, यहरों में घुसने का साहस नहीं कर पाता था। कुछ मुठभेड़ों की वजह से और कुछ लड़ने से बचने के लिए कज़ाकों के छोटे-छोटे गिरोह उसमे अनग होते जाने थे, जंगलों में छिप जाते और गांवों, बस्तियों में चले जाने थे। जिस इलाके मेरोनोव गुज़रा था, उसे मारे इलाके में इन गिरोहों ने आतंक फैला रखा था। स्वयं मिरोनोव को उसके पांच मौ लोगों के माथ लाल अङ्गारेही मैनिकों

ने बलाशोव जिले में घेरकर गिरफ्तार कर लिया। यह उसके विश्वास-धात के तीन हफ्ते बाद सितम्बर के मध्य में हुआ।

बलवे के पहले दिनों में यह कल्पना करना असम्भव ही था कि बलवा कितना फैलेगा और कब खत्म होगा। इस बलवे से सरातोव को केवल इसीलिए खतरा नहीं था कि पंजा के हाथ से निकल जाने पर मास्को के साथ रेल सम्पर्क विल्कुल खत्म हो जाता (उन दिनों मास्को का सीधा रास्ता भी कटा हुआ था, क्योंकि मामोन्तोव ने कोज्जोव पर कब्जा कर लिया था), बल्कि इसलिए भी कि सरातोव प्रदेश के उत्तरी जिले बलवे की परिधि में थे। इन निकटवर्ती उत्तरी क्षेत्रों में बलवे की आग भड़क सकती थी, जबकि दक्षिण में देनीकिन के मोर्चे की ज्वालाएं पहले से धधक रही थीं। यह बलवा किसी भी क्षण पंजा की घटना के साथ-साथ सरातोव की घटना बन सकता था।

दक्षिणी मोर्चे पर लाल सेना के अभियान में अभी-अभी कुछ जान आने लगी थी। जिस दिन मिरोनोव का बलवा भड़का, उसी दिन बोल्शा वेडे के नौसैनिकों ने कमीशिन के सामने बाले तट पर निकोलायेव्काया मुहल्ले में प्रवेश किया था और अगले दिन पैदल सिपाहियों ने कमीशिन जीत लिया था। इसलिए मिरोनोव के दुस्साहस की खबर सुनकर किरील को और भी अधिक क्रोध आया। मामोन्तोव के हमले से भी वह इतना स्तम्भित नहीं हुआ था, जितना उत्तर में अचानक ही उठे इस खतरे से। विपदाओं से लगातार संत्रस्त सरातोव किरील को किसी ऐसे रोगी जैसा लग रहा था, जो एक रोग से पूरी तरह ठीक न होने पाता कि उसे दूसरा रोग आ धरता। पहले “खंदकों के दिन” हुए, जब सारे नगरवासी खंदकों खोदने निकले थे, फिर “मोर्चा सप्ताहों” की घोषणा हुई, जिनमें अनगिनत लाभवंदियां हुईं। संकट में संकट उठ रहे थे।

इस सब के बावजूद उन्हें वहाँ से नई शक्ति पानी थी, जहाँ लगता था अब कोई शक्ति नहीं रही।

नगर का गैरिजन पहले ब्रांगेल का सामना करने में और फिर जवाबी हमला करने में ही इतना कमज़ोर हो गया था कि मिरोनोव के खिलाफ लड़ने के लिए मुश्किल से कुछ छोटी टुकड़ियां ही दे सकता था।

ऐसी एक टुकड़ी ख्वालीन्स्क जिले को भेजी जा रही थी। फौजी कमिसार के गवर्नर्म में वह “शायद बुरी नहीं थी”। इसमें कोई डेढ़ सौ वालंटियर और नये रंगरूट थे जिनकी एक कम्पनी बनाई गई थी। अब यह सबाल हल करना था कि इसका कमांडर किसे बनाया जाये : मिरोनोव के विश्वासघात से जारगाही फौज के अफसरों को लाल सेना में सैनिक विशेषज्ञों के रूप में स्वीकार करने के प्रबन्ध पर फिर से विवाद उठ चड़ा हुआ था। नया कमांडर किसे नियुक्त लिया जाये , इस प्रबन्ध पर विचार करते हुए फौजी कमिसार ने दीविच का नाम लिया , जिसने नई टुकड़ियां गठित करने में बहुत अच्छा काम किया था , पर लाल सेना में ज्यादा अरसे से नहीं था और लड़ाई में अभी परम्परा नहीं गया था।

“मैरे, मैं आपको क्या बता रहा हूं,” अंत में फौजी कमिसार ने कहा , “दीविच की सिफारिश कामरेड इज्वेकोव ने की है , वही बतायें।”

किसी ने मजाक में कहा कि अगर इज्वेकोव ने सिफारिश की है , तो उसे ही अपनी सिफारिश परखने दो : उसे दीविच का कमिसार बना दो ! यह बात शायद यों मजाक में ही उड़ जाती , पर इस वक्त मवके दिमाग में यह प्रबन्ध था कि कहां से ऐसा दृढ़निश्चयी व्यक्ति ढूँढ़ा जाये , जिसे कम्पनी कमिसार का ही नहीं , बल्कि उससे ज्यादा बड़ा जिम्मा सौंपा जा सके , यहां तक कि उसे आवश्यकता पड़ने पर कांतिकारी समिति बनाने का भी अधिकार सौंपा जा सके। इस छोटे पद पर इज्वेकोव की नियुक्ति से बड़ी समम्प्या हल होती थी , सो यह मजाक सटीक बैठा ।

किरील ने मंद्रेप में कहा :

“दीविच को मैंने जर्मनों से नड़ते देखा है। वह साहसी कमांडर है , कोई भांसापट्टी करनेवाला आदमी नहीं है। हमारे ध्येय पर मोन्च-विचार करके , उसे स्वीकार करके ही वह लाल सेना में भरती हुआ है , मफेद गाड़ों के पास नहीं गया। मैं उसकी जिम्मेवारी लेता हूं।”

इसके बाद यह सबाल नहीं उठाया गया कि दीविच पर विश्वास किया जाये या नहीं , – इमनिए नहीं कि ऐसा कोई नहीं था जो भूतपूर्व अफसर के गड़े मुर्दा न उत्ताड़ना चाहता हो , बल्कि इमनिए कि तुमन्

ही इज्वेकोव की बात चल पड़ी। उसे तुरंत ही कमिसार नियुक्त कर दिया गया, और अब सबकी नज़रों में उस पर न केवल दीविच या कम्पनी का उत्तरदायित्व था, बल्कि मानो उन सब घटनाओं का भी जो स्वालीन्स्क ज़िले में हो सकती थीं।

घंटे भर बाद वसीली दनीलोविच दीविच कम्पनी कमांडर की हैसियत से इज्वेकोव के पास आया, आगामी अभियान की तैयारी के सिलसिले में बातचीत करने।

“जरा देखो तो, आदमी अपनी जगह पर हो तो क्या से क्या हो जाता है,” किरील ने उसका स्वागत किया, “चेहरा निखर आया है! हम दोनों फिर से एक ही टुकड़ी में आ गये!”

“हाँ, पर आपको तरक्की मिली है, और मैं पुराने ओहदे तक भी नहीं पहुंच पाया,” दीविच बोला।

“अफसोस हो रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए, मौका खुद आपके हाथ में आ रहा है: हफ्ता बीतते न बीतते अपने घर में होंगे, स्वालीन्स्क में।”

“और सो भी कितने सम्मान के साथ”, दीविच मुस्कराया, “हथियार उठाये! पर कहीं अपने घर को भी लड़कर न जीतना पड़े।”
“तो क्या हुआ? जीत लेंगे!” किरील ने कहा। “यह लीजिये पेसिल, बैठिये।”

उसने बोला का नक्शा खोला और सहसा उसकी आंखों के सामने यह दृश्य सजीव हो उठा: कैसे आनोच्का इस नक्शे पर भुकी हुई थी, नक्शे पर चलती किरील की उंगली पर नज़रें टिकाये, और कैसे वह दक्षिण में हो रही कार्रवाइयों की ओर उसका ध्यान ले जाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह उत्तर की ओर नज़रें न उठाये। अब उसने नक्शे के दक्षिणी भाग को नीचे मोड़ दिया।

पर उनकी बातचीत नक्शे से नहीं शुरू हुई। दीविच ने यह बताया कि जिस कम्पनी को “शायद बुरी नहीं” बताया गया था, वह असलियत में क्या थी। नये रंगरूट मोटी-मोटी ट्रेनिंग भी नहीं पा सके थे, पुराने सैनिक कम्पनी में आधे से कम थे। लोगों के पास ढंग की बर्दी, जूते, बद्दकें नहीं थीं। वे बर्दियों, हथियारों, गोला-बालूद, रसद, भादि की फहरिस्त बनाने लगे। आखिर में यह हिसाब लगाया कि सात-

मामान जमा करने के लिए कितना समय चाहिए, तो पता चला कि कम मेर कम तीन दिन। तब किरील बोला:

“यह तो कुछ बात नहीं बनती। हमें इसे आधा करना होगा।”

“क्या मतलब?”

“यह कि परसो सुवह हम कूच कर सकें।”

“मैं तो अभी कूच करने को तैयार हूँ, पर कैसे? जंगल मेर डंडे काटने के लिए भी बक्त चाहिए और यहां तो गोदामों का एक-एक कोना छानना होगा।”

“जल्दी-जल्दी छानना होगा।”

“हमने तो पहले ही मिनटो तक का हिसाब लगाया है।”

“अब मेकडो में हिसाब लगाना पड़ेगा।”

“कहना आमान है। मैं यह पहली कम्पनी नहीं तैयार कर रहा।”

“हमारी कम्पनी खास है।”

“तो इसे और भी अच्छी तरह लैस करना चाहिए।”

किरील ने अपनी सिकुड़ी भौंहों तले से दीविच की ओर देखा।

“देखिये, बमीली दनीलोविच। हमें यह मान लेना चाहिए कि लड़ाई शुरू हो गई है, और लड़ाई में तो हम में मतभेद नहीं हो सकता, ठीक है न?”

“यह मतभेद नहीं, सीधा-साधा अंकगणित है।”

“तो सीधे अंकगणित मेरे काम नहीं चलेगा। हमें खास अंकगणित मेरे हिसाब लगाना होगा। सबसे मुश्किल काम का जिम्मा मैं लेता हूँ। आपके व्याल में कौन सी चीजें पाना सबसे मुश्किल है?”

“दो मधीनगरों चाहिए? और संचार साधन? पर आजकल तार कहीं ढूँढ़े नहीं मिलता।”

“ठीक है। मैं कोशिश करूँगा। संचार साधन मेरे जिम्मे रहे। और कुछ न हुआ तो यह टेलीफोन ही यहां से काट लूँगा,” किरील ने महमा जाने क्यों अपने टेलीफोन पर हाथ मारते हुए कहा।

“एक टेलीफोन मेरे संचार थोड़े ही बनेगा,” दीविन ने आपत्ति की।

“जितनी जरूरत होगी ढूँढ़ लेंगे। और क्या चाहिये?”

उन्होंने अपनी फ़हरिस्तें दुवारा देखीं, उन पर निशान लगाये, सारा काम आपस में बांटा और फिर नकशा देखने लगे।

कम्पनी को सड़क से बोल्ट्क तक और वहां से ख्वालीन्स्क जाना था। यह कुल सौ मील का फ़ासला था। दीविच के हिसाब से पड़ावों समेत इसमें कुल पांच दिन लगने थे। अच्छे स्टीमर पर वे एक दिन में ही पहुंच सकते थे। पर स्टीमर सब दक्षिणी अभियान में लगे हुए थे, संयोग से ही कोई मिल जाता, तो मिल जाता। इज्वेकोव ने रेलगाड़ी पर बोल्ट्क तक जाने का सुझाव रखा (इससे फ़ासला दुगना पड़ता, पर समय कम लगता) और वहां से ख्वालीन्स्क तक मार्च करते हुए जाने का। इस तरह वे तीन दिन में ख्वालीन्स्क पहुंच सकते थे।

“अगर इंजन दगा न दे गया तो,” दीविच ने कहा, “भाप तो लकड़ियां जलाकर बनाते हैं।”

“कोई बात नहीं, ज़रूरत पड़ने पर लकड़ियां काट लेंगे,” इज्वेकोव बोला।

“और अगर मिरोनोव पेंजा से दक्षिण को न बढ़ आया और उसने कहीं पेत्रोव्स्क के पास हमारा रास्ता न काट दिया, तो!”

“हमें भेजा किसलिए जा रहा है? जहां दुश्मन टकरा गया, वहीं उससे लड़ेंगे।”

“हमें ख्वालीन्स्क भेजा जा रहा है। पेत्रोव्स्क में दूसरों को भेजा जायेगा। हमें अपना काम पूरा करना चाहिए।”

“हमारा काम है मिरोनोव की टांगें तोड़ना, किस स्टेशन पर हम उसकी टांगें तोड़ेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।”

“आप ख्वाहमखाह ऐसा सोच रहे हैं। कौन किस पर लड़ाई थोपता है, कौन लड़ाई का समय और स्थान चुनता है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारा बास्ता रिसाले से है, और वह कूच कर चुका है। और हम तीसरे दिन कहीं कूच के लिए तैयार होंगे। उनके लिए हमारी कार्रवाई का पहले से ही अंदाज़ा लगा लेना आसान होगा।”

“तीसरे दिन नहीं, बल्कि डेढ़ दिन बाद,” किरील ने उसकी बात ठीक की। “और अगर हम कम्पनी को रेल से भेजेंगे, तो उनकी गतिविधि का अंदाज़ा लगाने में पहल हमारी रहेगी।”

“मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दो या तीन दिन में स्थिति क्या होगी, यह तो किसी को भी पता नहीं,” दीविच ने बहुत ही धीमे में कहा और चुप हो गया।

सहसा उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह उत्तेजित स्वर में बोला:

“आपने मतभेद की वात छेड़ी है। आइये, अभी फँसला कर लें। आपको मुझ पर भरोसा है या नहीं? अगर नहीं, तो वक्त मत गंवाइये – आपको दूसरा कमांडर चाहिए।”

“मुझे आप पर भरोसा है,” किरील ने शांत स्वर में कहा।

“पूरा?”

“पूरा।”

“धन्यवाद। एक सवाल और है। कमान हम दोनों में से किसके हाथों में होगी?”

“आपके।”

“मैं यह नहीं पूछ रहा कि सैनिकों को हमले में कौन ले जायेगा, वल्कि यह कि लड़ाई कैसे लड़ी जाये, यह कौन निर्धारित करेगा – आप या मैं?”

“हम दोनों मिलकर।”

“इसका मतलब है कि आप जो फँसला करेंगे, वह मुझे स्वीकार करना होगा, यही न?”

“नहीं। इसका मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे की वात को समझने की कोशिश करेंगे और सहमति ढूँढ़ेंगे। और मैं यह चाहूँगा कि आप भी मुझ पर उतना ही भरोसा रखें, जितना आप अपने लिए चाहते हैं।”

“और अगर मतभेद हुए तो?”

दीविच अधीरता में जलती आँखों से किरील की ओर देख रहा था, उसका चेहरा अभी भी पीला था। किरील को यह याद आया कि इस कमरे में पहली बार उसने दीविच को किस हालत में देखा था – बीमार, किम्मत की चोटों से बेहाल और इन चोटों से बिलकुल ही दृट न जाने के लिए अपने निश्चय घरीर के अंतिम बल से जूझता हुआ।

“आप लाल सेना में हैं, इसके नियम और कायदे आपसे छिपे नहीं हैं,” उसने जवाब दिया। “पर मुझे उम्मीद नहीं कि हमारे वीच कोई मतभेद हो। पहली बात, मैं जानता हूँ कि आपका सैनिक ज्ञान मुझसे अधिक है और मैं उसका सहारा लूँगा। दूसरे, हमारे ध्येय तो एक ही हैं।”

उसके पास खिसककर किरील ने स्नेहपूर्ण स्वर में इतना और जोड़ा:

“विश्वास मानिये मैं कभी भी आपके गर्व पर चोट नहीं आने दूँगा।”

दीविच का चेहरा सुर्ख हो गया और उसने हाथ झटका।

“नहीं, नहीं, मैंने यह बात इसलिए नहीं छेड़ी थी... वस सदा के लिए सब स्पष्ट हो जाये... और फिर यह सवाल न उठे... और आप यह जान लें कि मैं अपनी जान की बाज़ी लगा रहा हूँ।”

“बाजी?” किरील चिल्लाया। “पर क्यों? हम कोई जुआरी नहीं। आपकी जान तो बड़े-बड़े काम करने के लिए है।”

“मैं समझता हूँ, सब समझता हूँ!” दीविच भी वैसे ही जोश में बोला। “मैं चाहता था कि आप यह जान लें कि मैं सदा अपने विश्वास, अपनी धारणाओं के अनुसार काम करूँगा, अपने गर्व की संतुष्टि या किसी और कारण से कदापि नहीं... इसलिए अगर कभी हमारा मतभेद हो, तो...”

“पर क्यों, क्योंकर हमारा मतभेद हो?” किरील ने कहा और उठकर दीविच के बिल्कुल पास आ खड़ा हुआ। “चलिये, हम कदम मिलाकर चलें।”

“चलिये,” दीविच ने दोहराया, “कदम मिलाकर चलें।”

वे मुस्करा रहे थे। उनके हृदयों में एक दूसरे के प्रति स्नेह की नई भावना उमड़ रही थी और वे हर अच्छी नई भावना की भाँति इस पर खुश हो रहे थे।

“मैंने एक बात और सोची है,” किरील बोला। “अगर रसद जमा करने में अचानक कहीं देर हो गई, तो आप रेलगाड़ी पर चले जाना, मैं सारा काम पूरा कर लूँगा और कार में बोल्स्क पहुँच जाऊँगा।”

“कार कहां से आयेगी?”

“यह जिम्मा भी मेरा रहा।”

“ओह, आपके जैसा सप्लाई एजेंट पाकर तो सारा काम फटाफट हो जायेगा!” दीविच हंसा।

जब वह जा रहा था, तो इज्वेकोव ने उसे क्षण भर को रोका।

“मैं पूछना चाहता था, यह जूविन्स्की कैसा आदमी है, आप जानते हैं उसे? फौजी कमिसार हमें उसे संचार के लिए दे रहा है।”

“पुराने जमाने में रेजीमेंट का एडिकांग था। बड़ा बनता है। पर हुक्म ठीक बजाता है—कम से कम चंडावल में।”

“फौजी कमिसार कहता है वह पक्की दीवार जैसा भरोसेमंद है।”

“उसके स्थाल में हम दीवार पीछे छिपने जा रहे हैं?” दीविच ने चुटकी ली।

“तो फिर लें उसे या नहीं?”

“लोगों की कमी है। मेरे स्थाल में ले लेना चाहिए।”

इस क्षण से अभियान की जोरदार तैयारियां होने लगीं। दो रातों तक नीद की सोचने तक की फुरसत नहीं थी, और उनके बीच का दिन भी रात जैसा था, सब कुछ जैसे सपने में हो रहा था, जिसमें देर हो जाने के डर से आदमी जल्दी-जल्दी चीजें समेटता जाता है, समेटता जाता है, और समेटने को वाकी वच्ची चीजें बढ़ती ही जाती हैं, मानो कोई घटा का सवाल कर रहा हो और जिस संख्या में से घटाया जा रहा है, वह बढ़ती ही जा रही हो।

जूविन्स्की उम्मा नस्ल के काले घोड़े पर अग्रेजी जीत कसे शहर में डधर-उधर घोड़ा दौड़ाता नजर आता था। वह पैदायशी एडिकांग था, उसे हुक्म मुनना पसंद था और उन्हें जिस वारीकी से, जितने उत्माह से वह पूरा करता था, वह अक्सर निष्ठुरता की हद तक पहुंच जाता था। जिस किसी पर वह चीख-चिल्ला सकता था, उस पर चीखता-चिल्लाता था, जिस किसी को गिरफ्तार कर सकता था, उसे गिरफ्तार कर लेता था, अपने से वडे अधिकारियों के नाम पर यों काम करता था कि मानो वे सब, जिनके वह अधीन था, स्वयं उसके अधीन थे या उसके लंगोटिया यार थे। बांके-छवीलों जैसा तलवार का पटका बांधे और कून्हे पर चरमराता होल्स्टर लटकाये वह अपने घोड़े जितना ही आलीगान लगता था। क्षण भर को भी अपने अनगिनत कामों

को रोके बिना वह हर बक्त तस्वीर जैसी अपनी आकृति को संवारता-निखारता रहता था : लोगों से बातें करते हुए नाखून साफ़ करता ; घोड़े पर खूब तेज़ दौड़ते हुए अपनी टोपी उतारकर अपने चिकने-चुपड़े बाल ठीक करता ; कागजों पर दस्तखत करते हुए खाली हाथ से अपनी वर्दी के बटन या अपनी सज्जा और बकलस टटोल-टटोलकर देखता रहता । हर बक्त, उठते-वैठते, चलते-फिरते वह कभी अपने कपड़ों को साफ़ करता, कभी कुछ ठीक करता, कभी कुछ झटकता, मानो परेड की तैयारी कर रहा हो ।

“हाँ तो, नौजवान,” उम्र में उससे कम से कम ड्योड़े बड़े क्वाटरमास्टर सार्जेंट से वह कहता, “अगर दोपहर ऐन एक बजे गोदाम से मुझे पचास फ़ील्ड किट न मिले, तो आप ठीक अड़तालीस घटे के लिए जेल में बंद होंगे ! यह बात इतनी ही पक्की है, जितनी यह कि हम सोवियत राज में रह रहे हैं ।”

अपनी धमकियां पूरी करने में उसे मज्जा आता था । लोग यह जानते थे, सो वह अपना काम करवा लेता था । निश्चित परिस्थितियों में ऐसा व्यक्ति निस्संदेह उपयोगी हो सकता था ।

कम्पनी के कूच करने से पहले की शाम को इज्वेकोव ने मां से मिलकर उससे विदाई लेने का निश्चय किया । उसने ड्राइवर को उस रास्ते से चलने को कहा, जहाँ पारावुकिन परिवार रहता था । वह उस रास्ते को देख भर लेना चाहता था, जिस पर वह अभी उस दिन आनोच्का के हाथ में हाथ डाले चला था ।

कार के आगे-आगे सफ़ेद प्रकाश-पुंज दौड़ रहा था, और इस प्रकाश में सड़क की ऊवड़-खावड़ लीकें हवा में उठती लहरों सी लग रही थीं । मकानों के सामने बनी क्यारियों पर कार की रोशनी पूर्णिमा की चांदनी की तरह पड़ रही थी । पेड़ जल्दी-जल्दी अपना स्थान बदलते प्रतीत होते थे । किरील मुहल्लों को पहचान नहीं रहा था, बस उनका अनुमान ही लगा पा रहा था । सहसा उसने ड्राइवर की कोहनी छुई और कहा : “ठहरो ।”

ध्यण भर को वह असमंजस में रहा और फिर कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया ।

“जरा रुकना । मैं अभी आया ।”

कार की तेज़ रोशनी के बाद अहाते में घुप्प अंधेरा लग रहा था, आनोच्का के साथ जब वह आया था तब भी ऐसा ही अंधेरा था और उस दिन की ही भाँति आज भी तुरंत ही उसे अहाते में रोशन खिड़की दिखाई दे गई। खिड़की के पास जाने से पहले उसे ब्याल आया कि यह अच्छी बात नहीं, कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। परन्तु उस दिन उसे यहां जो अनुभूति हुई थी, एक बार फिर उन्ही क्षणों की अनुभूति पा लेने की उसकी कामना इतनी प्रवल थी कि उसके कदम धीरे-धीरे खिड़की की ओर बढ़ गये और वह छोटे से पर्दे के ऊपर मे अंदर भाँकने लगा।

आनोच्का कमरे में अकेली ही थी। यह छोटा सा कमरा किरील को उस कमरे से कहीं बड़ा लगा, जो उसके स्मृति-पटल पर स्पष्टतया अंकित था।

आनोच्का चारपाई के पास खड़ी थी। लैम्प की टिमटिमाती रोशनी में उसके चेहरे का पीलापन कभी कम हो जाता, कभी बढ़ जाता, मानो रह-रहकर उसके गालों पर खून चढ़ आता हो और फिर उतर जाता हो। उसके होंठ कांप रहे थे। वह कुछ बुदवुदा रही थी। उसकी लंबी गर्दन और भी अधिक नाजुक लग रही थी। हंसली के ऊपर उभरी नस ऐसे खिंची हुई थी, जैसे कोई गायक अपनी क्षमता के सबसे ऊने सुर में गाने की कोशिश कर रहा हो। लगता था कि वह बड़े जतन से चीख दवाये हुए हैं और किसी भी क्षण उसके मुंह से यह चीख निकल सकती है।

वह सचमुच ही चीखी। उसने एक झटके से हाथ पसार दिये और यों दौड़ चली, मानो कोई याचना में फैले उसके हाथों से उसे बेग़हमी से छीन रहा हो, और दौड़ते-दौड़ते ही घुटनों के बल गिर पड़ी।

वह छोटी भी गोल मेज के मामने घुटनों पर गिरी थी। मेज पर जानीदार मेजपोश विछा हुआ था और वक्से में बंद सिलाई की मरीन रखी हुई थी। उसने वक्से की ओर बाहें फैलाई, हाथ जोड़कर अनुनय करने लगी। उसके आहत मन से पीड़ा के गब्द एक के बाद एक बेनहाशा निकल रहे थे। प्रन्यक्षतः, वह बावली हो उठी थी, उसकी बेदना और नहीं देखी जाती थी।

किरील ने खिड़की का पतला सा चौखटा कसकर पकड़ लिया, मानो अभी उसे उखाड़कर अंदर कूद पड़ेगा। पर तभी आनोच्का की विचित्र गति ने उसे रोका: आनोच्का ने खिड़की की ओर मुंह मोड़ा, कमरे की रिक्तता में नज़रें गड़ाकर कुछ देखती रही, अपने छोटे कटे वालों में उंगलियां डालकर लड़कों की तरह बाल ठीक किये और किर से मेज की ओर मुंह मोड़ लिया।

तत्क्षण ही उसने हाथों से चेहरा ढांप लिया, फिर दुवारा से हाथ फैलाये, अनवूभूत तेज़ी से उठ खड़ी हुई और दुख से मारे व्यक्ति की तरह वधे-वधे कदमों से खिड़की की ओर चल दी। वालिकाओं जैसे उसके कंधे दुख के बोझ से भुक गये थे, अपलक आंखों में भय की जड़ता थी। किरील कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आनोच्का की आंखें इतनी बड़ी और इतनी भयावह हो सकती हैं।

वह चलती ही जा रही थी, मानो इस कोठरी जैसे कमरे का कोई आर-पार ही न हो, उसकी निश्चक्त, कांपती उंगलियां मानो खिड़की की ओर खिंचती जा रही थीं। वह रोशनी से परे हट गया। उसने देखा कि पर्दा हिला: आनोच्का ने अपनी उंगलियों के सिरों से उसे छुआ था। उसके कराहने की आवाज आई: “मत जाओ! मत जाओ! कहां जा रहे हो? पिता जी! मां! इस मुसीबत की घड़ी में यह हमें छोड़ जा रहे हैं...”

किरील ने जोर से माथे पर हाथ फेरा।

“हे भगवान! यह तो अभिनय कर रही है। शायद अपनी लुईज़ा के पार्ट की रिहर्सल कर रही है!”

वरवस ही उसकी हँसी फूटी और उसने जोर से दरवाजा भड़भड़ाया।

तुरंत ही अंदर से आवाज आई:

“पाव्लिक, तू है?”

“मैं हूं, मैं!” वह चिल्लाया।

आनोच्का ने चुपचाप दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने दिया। किरील ने आनोच्का के गालों को गुलाबी होते देखा और उसका रोम-रोम इस खुशी से सिहर उठा कि उसके आने पर आनोच्का यों लजा उठी है।

“कितने अच्छे हैं आप, आ ही गये,” आनोच्का ने मानो उसकी मुझी की पुष्टि की।

“मुझे आना ही था।”

“आपका रुका मिला, तो मैं मुझे गई थी कि आप नहीं आयेंगे। क्या वात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं?”

“खुश?” किरील ने हँसते हुए पूछा।

वह हँसते हुए अंदर आया था और अब तक उसके होठों पर मुस्कान बनी हुई थी।

“वह, यह समझिये कि मैं वैसी सूरत नहीं बनाना चाहता, जैसी लोग विदा होते समय बनाते हैं।”

“विदा होने समय?” आनोच्का ने चिंतित स्वर में पूछा।

“घबराड़िये नहीं। कोई खास वात नहीं है। एक काम से जा रहा हूँ।”

“मोर्चे पर?”

“नहीं। यों ही। एक छोटा सा अभियान है।”

“उम मिरोनोव के बिलाफ़?”

उसके मुंह से यह वात मुनकर वह हैरान रह गया और उसने कुछ जवाब नहीं दिया।

“आप भी कैसे मित्र हैं, जो मुझसे भेद रखते हैं?”

“कैसे भेद?”

“अगर आप को मुझ पर भरोसा है, तो मुझसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए।”

आनोच्का ने वच्चों की तरह शिकायत करते हुए यह वात कही, किरील से कुछ कहते न बना, और वह परे हट गया, पर तुरंत ही उसके पास लौट आया और कोहनी से ऊपर उसकी बांह पकड़ ली। तब वह परे हट गई और जानीदार मेज़पोश बाली उम मेज़ के पास बैठ गई, जिसके मामने किरील ने उसे घुटनों के बल बैठे देखा था।

“मौ आप हमारी गिर्हर्मल देखने नहीं आयेंगे,” वह उदास भी बोली।

“मैंने आपको गिर्हर्मल करने देख लिया है।”

आनोच्का की भौंहें तन गईं।

“अभी-अभी,” फिर से मुस्कराते हुए किरील ने इतना और कहा।

“मजाक कर रहे हैं?”

“बिलकुल नहीं। कहें, तो आपके शब्द दोहरा ढांग।”

उसने आनोच्का की कराह की नकल करने की असफल कोशिश की: “मत जाओ! मत जाओ! कहां जा रहे हो?”

आनोच्का ने भट से हाथों से चेहरा ढांप लिया और चीखी:

“आप चोरी-चोरी खिड़की में से देख रहे थे!”

किरील उसकी इस चीख से डर गया और जड़वत खड़ा रहा। आनोच्का ने मेज पर सिर झुका लिया।

“आप कैसे ऐसा कर सकते हैं!” वह बड़वड़ाई।

“सच मानिये, मैं वस पल भर को ही भाँका था,” वह असमंजस में बोला।

आनोच्का ने पीठ सीधी कर ली और फिर से वैसे ही निश्चिंतता-पूर्वक, मानो लड़कों के से अंदाज में अपने बाल ठीक किये।

“अच्छी बात है। रिहर्सल आपने देख ली है, तो नाटक के पहले शो में तो आना। आप तब तक लौट आयेंगे न? कहां जा रहे हैं? मैंने ठीक अनुमान लगाया है न? आप किस हैसियत में जा रहे हैं?”

न जाने क्यों उसने जवाब में कह डाला:

“मैं क्रांतिकारी समिति का अध्यक्ष हूँगा। सुना है आपने यह क्या होता है?”

आनोच्का ने पलकें थोड़ी झुकाकर बड़े ध्यान से उसकी ओर देखा और पूछा:

“आपको सत्ता से ही सबसे अधिक प्रेम है?”

“और सत्ता से प्रेम सबसे बड़ा पाप है न?” किरील मुस्करा दिया।

“नहीं, यह पाप नहीं है, बर्त... सत्ता मानवजाति के हित में हो।”

“हमारी सोवियत सत्ता तो मानवजाति के हित में है। इस बात से आप सहमत हैं?”

“हां।”

“तो फिर मुझे सत्ता से प्रेम हो सकता है?”

“वेशक। पर मैं यह नहीं पूछ रही थी... आप समझे नहीं। मैंने पूछा था—आपको सत्ता सबसे बढ़कर प्यारी है?”

पहले तो वह सख्ती से उसकी ओर देख रहा था, परन्तु फिर मानो प्रकाश किरणों से तपकर यह सख्ती पिघल गई और उसके चेहरे पर भोलेपन का भाव आ गया, जैसा विरले ही कभी होता था। मस्तिष्क में कौंधे किसी विचार से नहीं, बल्कि मन की हलचल से वह यह समझ गया कि इस वक्त आनोच्का के लिए वातचीत का विषय विल्कुल मानी नहीं रखता, शब्दों के पीछे जिन भावनाओं का हल्का सा आभास होता था, वे ही उसके हृदय तक पहुंच रही थीं।

“नहीं,” वह भी अब अपनी भावनाओं के आवेग में पूरी तरह बहता हुआ बोला, “मैं आपकी वात समझ गया।”

आनोच्का ने जल्दी से मुंह मोड़ लिया और फिर इससे भी अधिक जल्दी से उसकी ओर वापस मुड़ी—उसका चेहरा दमक रहा था और उस पर संशय की कोई छाया न थी। किरील ने उसकी ओर कदम बढ़ाकर सहज भाव से उसे अपनी सशक्त वाहों में भर लिया। पल भर को वे निश्चल रहे। फिर आनोच्का ने दृढ़तापूर्वक उसे परे हटा दिया, और उसे मानो कहीं दूर से आती उसकी आवाज सुनाई दी:

“जब आप लौटेंगे... जब लौटेंगे... अभी नहीं...”

इस भेंट में पहली बार किरील ने उसे मुस्कराते देखा, सदा की ही भाँति उसकी मुस्कान चंचलता भरी थी, पर साथ ही सहसा उसमें उदासी धुल गई प्रतीत होती थी।

“सच में, मैं आपसे भी बही वात कह सकती हूं, जो आपने खिड़की में मैं सुनी थी: ‘मत जाओ! मत जाओ!..’”

वह स्वयं उसके पास चली आई, उसकी अब तक फैली वाहों में सिमट गई, और उसे आनोच्का के चेहरे की गर्माहट और अनजानी गंध का आभास हुआ।

शोड़ी देर बाद वह उसे बाहर छोड़ने आई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। मन्द्या की नीरवता में डंजन का योग गूंजा, इस धमाके में आगामी बेचैनी की चेतावनी थी। आनोच्का के होठ किरील के कान ने छुए और उसने कहा:

“पहले शो में मैं आपकी राह देखूँगी।”

वह सहसा पूछ वैठा:

“त्स्वेतुखिन ने यही नाटक क्यों चुना?”

“क्यों क्या? यह तो हर कोई समझ लेगा, कैसे गरीब लोग अमीरों के अत्याचारों का शिकार होते थे।”

“अरे हां!” मजाकिया अंदाज में उसने कहा, पर सहसा छात्र को प्रोत्साहन देते शिक्षक की भाँति बोला: “विल्कुल ठीक, हर कोई समझ लेगा।”

विदा होते हुए किरील ने उसकी उंगलियां दबाईं।

कार में जाते हुए यह विचार उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था: मैं तो जा रहा हूँ और आनोच्का यहां त्स्वेतुखिन के साथ रह जायेगी। एक बार फिर वह मन ही मन इस व्यक्ति पर झुंभला रहा था, और फिर से अपने आप को यह समझा रहा था कि झुंभलाने का कोई कारण नहीं है। सबसे अधिक उसे यह बात चुम्ब रही थी कि जीवन में एक बार फिर वैसा ही मौका आया था, जिसमें त्स्वेतुखिन उससे श्रेष्ठ स्थिति में था। यह यहीं रहेगा, और किरील को जाना होगा, हालांकि किरील जी-जान से जीना चाहता था, सचमुच जी-जान से, क्योंकि उसका हृदय इस विचार से प्रदीप्त हो उठा था कि वह प्यार करता है और कोई उससे प्यार करता है! पर क्या यह वक्की त्स्वेतुखिन इसीलिए इस दुनिया में आया है कि किरील के जीवन के सबसे सुखद क्षणों पर अपनी मनहूँस छाया डाले।

“नहीं, कभी नहीं! हर्मिज नहीं!”

“क्या कहा आपने?” ड्राइवर ने पूछा।

“पूछ रहा हूँ गाड़ी चलाते कितना अरसा हुआ?”

“क्यों? क्या ठीक नहीं चलाता?”

“नहीं, ठीक ही चलाते हो... इंजन की अच्छी समझ है?”

“बहुत अच्छी तो नहीं कह सकता। हां, काम चला लेता हूँ।”

“हुं-हुं।”

किरील घर पहुँचा तो वेरा निकान्द्रोव्ना घर पर नहीं थी। वह किसी सभा में भाग लेने गई हुई थी, जल्दी ही लौटनेवाली थी।

किरील ने अपना सामान वांध लेने का निश्चय किया। बड़ी देर

तक वह अपना अटैची ढूँढ़ता रहा, आखिर मां के पलंग के नीचे वह मिला। किरीन जल्दी-जल्दी उसमें से चीजें निकालने लगा, पर फिर उसके हाथ धीरे चलने लगे और आखिर उन चीजों पर आकर वह बिल्कुल ही रुक गया, जो उसकी कल्पना को अतीत में ले गई।

नीने कागज पर, जिसका रग उड़ चुका था, नदी के स्टीमर की अनुप्रस्थ और अनुलम्ब काटों का सफेद रेखाओं में बना आरेख मम्भालकर रखा हुआ था, प्रजेवाल्स्की और तोलस्तोय के छवि-चित्र थे ये दो विद्वान कितने भिन्न और कितने समान थे, एक ने अपने मन्त्रिक वी नजरों से पृथ्वी की गहराइयों को टटोला था और दूसरे ने मानव-आन्मा की गहराइयों को। ये कागज उसे उसके कैंगोर्य के जगत में ने गये। उसे याद आया कैसे वह तब अपनी कल्पना में भांति-भांति की नौकाएँ और जहाज बनाया करता था और उन पर भविष्य के अज्ञात देशों की यात्राएँ किया करता था। उसे यह भी याद आया कि कैसे उसने वास्तविक जीवन में इन देशों का मार्ग ढूँढ़ने की कोशिश की और कैसे पहले कदम उठाते ही उसका रास्ता रोक दिया गया था। उसे घर की तलाशी याद आई और वह पुलिसवाला, जिसने प्रजेवाल्स्की का छवि-चित्र दीवार में उखाड़कर फर्ज पर फेंक डाला था। उसे यह याद आया कि गिरफ़तारी की वह शाम लीजा के साथ अंतिम भेट की शाम थी। वह जानता था कि उस शाम में सारा रास्ता, कल्पना में वास्तविकता तक का मार्ग उसने पूरी तरह अपनी छल्ला के अनुमार ही तय किया है तथा वह नहीं चाहता कि किसी और गम्ने पर चला होता, तो भी यह सोचकर उसका मन दुख रहा था कि जीवन में इन्हें अधिक समय तक और इतनी अधिक बार उसने अपने आपको बिल्कुल अकेला पाया है।

अटैची के नने पर उसे एक निफ़ाफ़ा मिला। इसमें पुराने फोटो ग्ये हुए थे। उसने अपने बचपन का फोटो देखा, इसमें वह डेढ़ माल मे ज्यादा का न रहा होगा, वह नेम के कालर वाला नंदा फ़ाक पहने था। यह शायद उसके जीवन की पहली याद थी—कैसे काली दाढ़ी वाले आदमी ने उसे मृद्गी नोंगी की दुम वाला थोड़ा दिया, “कु-कू” कहा और काली चादर नने छिप गया, फिर चादर नने में निकलकर उसने थोड़ा छीन लिया था और किरीन जोर-जोर में रेने लगा था,

खिलौना देना ही नहीं चाहता था। फोटो में किरील वह घोड़ा कसकर पकड़े बैठा था, और उसके चेहरे पर मासूमी भरे गुस्से का भाव था।

सहसा किरील को सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी। वह जल्दी से दूसरे कमरे में चला गया। यहां खड़े होकर ही उसे यह आभास हुआ कि उसकी सांस ज़ोर-ज़ोर से चल रही है।

चित्त शांत हो गया, तो वह उस कमरे में लौटा, जहां अटैची में से चीज़ों निकाल रहा था।

वेरा निकान्द्रोव्ना मेज पर निकाल रखी चीज़ों के पास निश्चल खड़ी थी। वह मां के पास गया और चुपके से उसके कंधों पर हाथ रखा। वड़ी देर तक वे दोनों कुछ नहीं बोले, उनकी नज़रें चीज़ों के इस बेतरतीब ढेर पर लगी हुई थीं, जो मानो उनके मौन वार्तालाप में भाग ले रही थीं। फिर किरील ने मां की ठंडी और कुछ नम सी कनपटी चूमी।

“बताते क्यों नहीं कब जा रहे हो?” मुश्किल से बोलते हुए वेरा निकान्द्रोव्ना ने पूछा।

“आज रात को। ठीक बक्त अभी पता नहीं।”

मां उसे एक ओर को, खिड़की के पास ले गई। उसके कंठ से स्वर नहीं निकल पा रहे थे, वह फुसफुसाई:

“बैठ जाओ... थोड़ी देर बैठो मेरे पास...”

गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और कमरे में पुरानी चीज़ों की गंध फैली हुई थी। मेज पर एकसार जलते लैम्प से गर्माहट का अहसास होता था। फर्नीचर पर कहीं-कहीं पड़ती उसकी झलक भी मानो गर्माहट लिये थी और सारे कमरे में घर का सुखद, शांत वातावरण बना रही थी।

मां और वेटा ऐसे ही कुछ क्षण तक चुपचाप बैठे रहे। फिर वेरा निकान्द्रोव्ना ने किरील का सामान बंधवाया और वे दोनों बाहर आ गये। यहां विदा होते समय वेरा निकान्द्रोव्ना ने कहा कि वह कब से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन फिर भी इसके लिए तैयार नहीं थी। किरील उसके कहे बिना ही यह देख रहा था। इसलिए वह जाने की जल्दी कर रहा था, ताकि मां के संयम पर अधिक ज़ोर न पड़े। वेरा निकान्द्रोव्ना दूर जाती कार की बत्तियां देखती रही और

जब वे नज़रों में ओम्भल हो गई, तब भी वह देर तक धने अंधकार में मृत्तिवत खड़ी रही।

पौ फटने पर किरील इज्वेकोव ने अपनी कम्पनी को रखाना किया। दीविच की कमान में मिपाही रेलगाड़ी पर जा रहे थे। जैसा कि पहले मे नय हो चुका था किरील को दिन में कार पर जाना था और बोल्स्क में कम्पनी में मिलना था। उसे अपने साथ दवाइयां, दूरवीने और ग्रिवाल्वर की गोलियां ले जानी थी—वे सब चीजें, जो तैयारी के थोड़े में समय में वे अभी तक पा नहीं सके थे। उसके साथ जूविन्स्की और एक बोल्नेविक वालंटियर, जिसे किरील अपना सहायक बनाना चाहता था, जा रहे थे।

चलने में थोड़ी देर पहले जूविन्स्की ने रपट दी कि सब कुछ तैयार है, पर कार नद्दरे दिखा रही है, सो नौसिखिये ड्राइवर के साथ जाना जोखिम का काम है।

“अनाड़ी हाथों में ‘मसर्टिज़’ देना खतरनाक है। कहीं बीच गम्ने में कार खगड़ हो गई तो?”

“तो क्या किया जाये?” किरील ने पूछा।

“अगर आप कोशिश करें, तो आपको ऐसा ड्राइवर मिल सकता है, जो अच्छा मैकेनिक भी हो।”

“है ऐसा आदमी?”

“हाँ, है। आपके गैरगज का मैकेनिक शुन्निकोव। ड्राइवर भी बहुत बढ़िया है। एक जमाने में कागें की दौड़ों में हिस्सा लेता था।”

कुछ जवाब देने में पहले किरील बड़ी देर तक चुप रहा। उसे बीनी शाम को ड्राइवर के साथ हुई बातचीत याद हो आई: ऐसे आदमी के साथ जाना, जो खुद यह स्वीकार करता है कि उसे डंजन का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है, वो भी मैर पर नहीं, मोर्चे पर जाना, वेवकूफ़ी ही होगी। पर शुन्निकोव के नाम से किरील के मन में विगेश और नक्कन की भावना उठ गई थी। उसने नीखी नज़रों में जूविन्स्की की ओर देखा। वह आदेश की प्रतीक्षा में सावधान खड़ा था, और उसकी आंखों से सेवा करने की तप्पता का भाव फूटा पड़ रहा था।

“श्रीक है, मैं अभी फोन किये देना हूँ,” किरील ने कहा और मन ही मन मोर्चा: “भाड़ में जाये शुन्निकोव—जस्ती है तो क्या कर्द़?”

आधे घंटे बाद टाइपिस्ट को यह आदेश लिखवा दिया गया कि वीक्टोर सेम्पोनोविच शुब्निकोव को कामरेड इज़वेकोव का ड्राइवर-मैकेनिक नियुक्त किया जाता है।

२४

लीज़ा से शादी के बाद शुब्निकोव की जिंदगी जिस तरह चली, उसमें बहुत से अमूल्य तथ्य पाये जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर पत्रकार मेत्सालिओव उसे ऐसा व्यक्ति मानता था, जिसकी तसवीर क्रांति की पूर्ववेला में रूसी आचार-व्यवहार के वृत्तांत में पेश की जानी चाहिए। और छोटे-मोटे पत्रकारों में मेत्सालिओव ऐसा आदमी माना जाता था, जो इन वृत्तांतों में बहुत कुछ जोड़ सकता है, जिनकी रूसी साहित्य में अभी काफ़ी कमी है। परन्तु शुब्निकोव के जीवन का संक्षिप्त विवरण ही एक पूरा अध्याय ले लेगा। यहां इस व्यक्ति के कार्यकलापों के एक दो पहलुओं का उल्लेख ही पर्याप्त होगा। यह व्यक्ति उन बहुत बड़े तो नहीं, पर खासे तेज़ कारोबारियों में से था, जो अब या तो लुप्त हो गये थे, या जिन्होंने अपना रूप बदल लिया था।

वह नगर में सबसे पहले कार खरीदनेवालों में से था। वग्धी की शक्ल की कार घोड़ों को डराती थी, छोकरे उसे देखकर खुशी से सीटियां बजाते और उसके पीछे भागते थे। निठल्ले छोकरे रवड़ के काले गोले वाले भोंपू की तीखी आवाज़ की नकल उतारते थे। यह भोंपू वाँड़ी के बाहर ब्रेक और गियर के लीवरों के साथ लगा हुआ था, जो रेलवे की कैंचियों जैसे लगते थे। जब अधिक आरामदेह कारें आईं, तो शुब्निकोव ने नई कार खरीद ली और पुरानी को टैक्सी बना दिया।

‘उद्धारक जार’ के स्मारक के निकट रवड़ के टायरों वाली “तूफानी” घोड़ागाड़ियों के अड़े के पास ही यह “विना घोड़े की वग्धी” घंटों तक रोमांच के प्यासे ग्राहकों का इंतज़ार करती खड़ी रहती थी। घोड़ागाड़ियों के कोचवानों को अभी यह अहसास नहीं था कि आंतरिक दहन इंजन का निष्ठुर युग उनके पेशे का सफाया करनेवाला है और वे खड़े टैक्सी ड्राइवर पर हँसा करते थे, जो अपनी

गाड़ी पर किराये की पट्टी लटकाया करता था। वे अलग से भुंड बनाये स्मारक के उस ओर खड़े रहते थे, जहां जार के घोषणापत्र* के शब्दों “प्रभु का आभार प्रकट करो, ईसा के भक्त रूसी लोगो...” के प्रतीक कांस्य किसान की ऊँची सी मूर्ति थी। टैक्सी ड्राइवर अपनी किराये की पट्टी के साथ स्मारक के दूसरी ओर न्याय देवी की मूर्ति के पास अकड़ से भरा अकेला खड़ा रहता था। यह मूर्ति इस मामले में न्याय का प्रतीक कम थी, इतिहास की निष्पक्षता का अधिक, और अपनी आंखों पर पट्टी बांधे दो युगों के इस मुकाबले को देखना नहीं चाहती थी। जीत कोचवानों की हुई। वीक्टोर शुन्निकोव ने प्रत्यक्षतः अपने स्वभावगत उतावलेपन के कारण अल्पविकसित मरीन के आकर्षण का अतिमूल्यांकन किया था। ट्रामों के साथ दौड़ लगाने के शौकीनों को “तूफानी” घोड़ागाड़ियों में ही ज्यादा मजा आता था, सो टैक्सी का कारोबार ठप्प हो गया।

विश्वयुद्ध के दौरान शुन्निकोव घर में ही बैठा रहा। भरती आयोग ने उसे मिरगी के मरीज के नाते छूट दे दी। मिरगी के दौरे उसे सचमुच ही पड़ते थे, पर तभी जब वह चाहता था और उतनी ही देर के लिए, जितनी देर वह लीजा को सताना चाहता था या वुआ दार्या अन्तोनोव्सा के मन में रहम जगाना चाहता था। फौजी कलर्को और डाक्टरों के माथ उसने मेल-मिलाप बढ़ा लिया और रसद अधिकारियों के साथ दोस्ती गांठ ली।

लड़ाई के दूसरे साल में दार्या अन्तोनोव्सा चल वसी और उसकी मारी दौलत वीक्टोर को विरामत में मिल गई। अब उस पर विल्कुल ही कोई लगाम न रही। वह पहले से भी ज्यादा गुलछर्झे उड़ाने लगा और अपनी बनावटी डाह से लीजा को विल्कुल ही चैन नहीं लेने देता था। जैमा कि विगड़े स्वार्थी जीवों के माथ प्रायः होता है, वह किसी भी वहाने नीजा मे सचमुच ही डाह याने लगता था, इस हद तक कि रोने-कल्पने लगता।

आविर लीजा उसे छोड़कर चली गई। शुन्निकोव ने तुरंत ही

* १८६१ में भूदाम प्रथा समाप्त करने के निए जारी किया गया जार का ओपणापत्र। — म०

न्याय की शरण ली। वह मुंसिफ़ों और वकीलों से यारी करने लगा, और उसके मामले का फैसला हो ही चला था, उसे आशा थी कि किसी भी दिन उसकी पत्नी और बेटे को उसके घर वापस लाया जायेगा और पति के मान को जो बद्दा लगा है, उसके लिए उसे हरजाना मिलेगा। परन्तु तभी फ़रवरी क्रांति हुई, मामला ढीला पड़ गया, और फिर अक्तूबर क्रांति के साथ तो पुरातन गृहस्थी ढांचे को वहाल करने पर उसका खर्चा बेकार हो गया।

यह बात नहीं कि बुआ की मौत के बाद शुनिकोव केवल गुलछर्झ उड़ाने और अपनी पारिवारिक यातनाओं में ही मशगूल रहा हो। इसके विपरीत उसके उद्यमी स्वभाव को पूरी छूट मिल गई थी और वह बड़े-बड़े कामों में हाथ डालने लगा था। वह मास्को से शानदार मर्सीडिज़-वेंज़ कार ले आया, जिसे देखकर न केवल आठा मिलों के अमीर मालिक, बल्कि सरकारी अधिकारी भी चकरा गये—वे अभी तक घोड़ागाड़ियों पर, या बहुत हुआ तो लड़ाई के पहले के माडलों की कारों पर ही चला करते थे। फिर उसने घुड़साल बनवाई, अपना पुराना सवारी घोड़ा बेच दिया और दौड़ के घोड़ों का जोड़ा खरीद लिया, जिनमें से एक ने तुरंत ही घुड़दौड़ में पहला पुरस्कार जीत लिया। उसने डाक टिकटों और सिक्कों के अपने संग्रह तथा पाल नौका बेच दी और नई मोटरबोट खरीद ली। हरे टापू पर पिकनिक के समय उसने एक कम्पनी में साझेदार होने का फैसला कर लिया, जो कपड़ा मिल बनाना चाहती थी। चेहरे पर अथाह गम्भीरता लिये वह इस भावी मिश्रित पूंजी कम्पनी की सभाओं में भाग लेता।

पर एक दिन कहीं दावत उड़ाते हुए मास्को के 'सुवह तड़के' नामक अखबार के एक रंगीले स्तम्भ लेखक से उसकी वहस हो गई और उसने शर्त लगाई कि वह सस्ता अखबार निकालेगा और दो महीनों में ही सभी प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ डालेगा। और फिर वह जी-जान से इस काम में लग गया।

उसने लाल-लाल नाकों वाले पियक्कड़ पत्रकारों का एक दल जमा किया, जिन्हें बोला के धाटों, बैरकों, बाजारों और रैन-बसेरों की ज़िंदगी की खूब अच्छी जानकारी थी। स्तम्भ लेखक ने यह हिसाब लगाया कि उसके लिए शर्त हारना ही बेहतर होगा और वह शुनिकोव के अखबार के लिए

धारावाहिक जामूसी उपन्यास लिखने लगा। ओरेखोवो-जूयेवो का कुख्यात डाकू वसीली चूर्किन अखबार का भाड़े का हीरो बन गया। उसके बारे में प्रचलित किस्से, चुटकले, गाने जमा करके अखबार में छापे जाते, चूर्किन के किस्सों पर बने विभिन्न लोक-नाटकों और कठपुतली तमाशों के बारे में छच वैज्ञानिक लेख तक छापा गया।

स्वयं वीक्तोर में कोई साहित्यिक रुझान नहीं था, और न ही अपने ज्ञान की डीग हाँकने का उसका कोई इरादा था। उसके लिए फ्रेमोपील और फ़िलीपीन में कोई फ़र्क नहीं था, और वह यह कभी भूलता नहीं था। हाँ, वह अखबार की दिशा निर्धारित करता था, इस दिशा का नाम उसने 'राजनीतिसेवचोवाद' रखा था और उसका अपना आदर्श वाक्य था: 'लोगों को चटपटा मसाला पसंद है'। इसलिए उसके अखबार में छुरेवाजी, दिवालों, आगजनी, तलाकों, ट्रामों के पटरी में उत्तरने आदि घटनाओं को खूब नमक-मिर्च लगाकर पेश किया जाता था। अखबार के लिए थियेटर का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन अभिनेत्रियों के निजी जीवन की तस्वीरें उसमें हमेशा उतारी जाती थीं। बहुत गीत्र ही सरकस के पहलवानों और फ़िल्मों की सफलता वीक्तोर के अखबार पर निर्भर करने लगी। पाठकों के लिए मन्त्ता यह अखबार मानव कौतूहल से पैसा कमानेवालों के लिए बड़ा कीमती हो गया।

अक्सर वीक्तोर अपने कर्मचारियों को तनख्वाह के बदले 'वोल्ला म्टेंशन' में बोद्का की दावत दिया करता था। नदी तट पर बने इस भठियारखाने में ऐसी काव्य-प्रेरणा जागती थी कि ग्राहकों के मज़े के लिए छुटभैये शर्लोक होम्स के किस्से यहाँ पर ही धड़ल्ले में गढ़े जाते थे। प्रकाशक की कल्पना भी साहित्य के मज़दूरों के साथ इस काम में पूरा भाग लेती थी। कलम के ये कारनामे देखकर तो शायद शुन्निकोव में कम घमंडी कोई व्यक्ति भी इस बात का कायल हो जाता कि बड़े में बड़े काम करनेवाले भी इन्सान ही होते हैं, कोई खुदा नहीं। और जब वह तर्ज में आ जाता, तो यह कसमें खाने लगता कि उपन्यास और कविताएँ मिर्झ इमलिए नहीं लिखता कि उसके पास बक्त नहीं है। एक बार जब किमी ने साहित्य देवना अपोलो के मान की रक्षा करने की कोशिश की तो शुन्निकोव ने अपनी एकमात्र कविता लिखकर

सबको चकित कर दिया। कविता उसने 'ऊबीकोन' उपनाम से लिखी और उसकी पहली पंक्तियां इस प्रकार थीं:

उड़ चली मेरी आत्मा
पृथ्वी के बंधन तोड़ ,
अंतरिक्ष में विचरती
मन के दाह को पीछे छोड़ ।

परन्तु शीघ्र ही शुभ्निकोव का यह जोश ठंडा पड़ गया और उसने बड़े मौके पर अखदार बेच दिया। इसका एक कारण यह था कि मुनाफ़ा कम हो गया था (क्रांति से पहले विज्ञापन कम मिलने लगे थे), और एक यह भी था कि शहर में एक नया नारा गूंज रहा था, जिससे शुभ्निकोव को अपने अनिष्ट का अस्पष्ट सा पूर्वाभास हो रहा था और जिसने बाद में अंतरिक्ष में विचरते खिलाड़ी पत्रकारों को ज़मीन पर ला पटका। यह नारा था: "सारी सत्ता सोवियतों की हो !"

इस सत्ता की स्थापना के साथ शुभ्निकोव की सारी सम्पत्ति राज्य द्वारा हस्तगत कर ली गई। एक एक करके वीक्टोर को उसके बैंक-खातों, उसकी दुकानों, घोड़ों, मकानों और मर्सींडिज़-वेंज़ कार से वंचित कर दिया गया। सबसे ज्यादा अफ़सोस उसे कार का था। जब कार लेने आये, तो वह दो चार आंसू भी टपकानेवाला था, पर तभी पता चला कि नौसिखिया ड्राइवर इंजन स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। तब भूतपूर्व स्वामी ने इस नौसिखिये को तिरस्कार से देखा और कोध से तिलमिलाते हुए कार में जा बैठा और फर्टे से चलाते हुए उसे नई जगह पर ले जा खड़ा किया। अपनी प्यारी कार से जुदा होते हुए उसने उसका शीशा चूमा।

इस क्षण से वह चुपके-चुपके कार पर नज़र रखने लगा। उसे हमेशा पता होता था कि कौन कार इस्तेमाल कर रहा है, और अगर कभी सड़क पर कार को देख लेता, तो मानो वुत सा बना देर तक उसे जाते देखता रहता। कार के ड्राइवरों से उसने दोस्ती कर ली थी और उन्हें सलाह-मशविरा देता रहता था कि उसे कैसे ठीक-ठाक रखें। एक दिन यह जानकर उसे भारी सदमा पहुंचा कि मर्सींडिज़ की एक ट्रक से टक्कर हो गई। उसे कार की मरम्मत के लिए बुलाया

गया और उसने इस काम में अपना हुनर दिखाया। क्रांति के कोर्ड माल भर वाद उसे नगर सोवियत के गैराज में नौकरी पर लगा लिया गया और शीघ्र ही वह वहां सबसे काविल मिस्त्री के रूप में मशहूर हो गया।

शुभ्निकोव में अब पहले की शान का नामोनिशान न रहा था। उमके पास छैलों के कुछ कपड़े बचे हुए थे, लेकिन वह मज़दूरों का ओवरआल ही पहनता था। अपनी तावदार मूँछें उसने अब कूची जैसी बना लीं, और अकसर तेल में सने हाथ मेज पर रखकर कहता कि हम भी काम करने के आदी हैं।

मेरकूरी अब्देयेविच अपने भूतपूर्व दामाद को देखकर हैरान होता — कितनी जल्दी वह वक्त के मुताविक बदल गया था। जब तक शुभ्निकोव को यह उम्मीद थी कि लीजा लौट आयेगी, तब तक वह अक्सर खिलौने-विलौने लेकर बेटे से मिलने जाया करता था और चुपके-चुपके उसे मा के खिलाफ भड़काता था। तलाक के बाद उसने यह तमाशा छोड़ दिया और मन ही मन खुश था कि क्रांति आने पर वह परिवार के बंधनों से मुक्त था। पर समुर से मिलने वह जाया करता था। उसके निए वीक्टोर के मन में कृतज्ञता थी, क्योंकि मेश्कोव ने बाप के नाते लीजा को क्षमा तो कर दिया था, पर फिर भी यही मानता था कि वीक्टोर का दोप कम है। यद्यपि शुभ्निकोव मेश्कोव के विचारों से महमत नहीं था, परन्तु उसे उस पर भरोसा था और सिर्फ उमके माथ ही वह जी खोलकर बातें करता था। वे दोनों एक दूसरे को सीख देने की कोशिश करते थे, लेकिन मेश्कोव जहां नतमस्तक होकर सब कुछ स्वीकार करने में ही मुक्ति समझता था, वही शुभ्निकोव हार मानने को नैयार नहीं था, उसे पूरा विश्वास था कि डितिहास का यह सुवक जल्दी ही खन्म हो जायेगा और लोगों को एक बार फिर मेर ममाज में अपना उचित स्थान मिल जायेगा।

“आप को तो कूटनीति जग नहीं आती,” वह कहता, “आप यह नहीं समझते कि आज हवा का मृद्द किधर है। जब तक वे ऊपर हैं, हमें उनकी हां में हां मिलानी चाहिए। ज्यादा देर तो यह चलेगा नहीं। मोर्चने दो उन्हें कि हम उनकी वुद्धिमत्ता की बाहवाही कर रहे हैं। और आगे जो होगा देख लेंगे।”

“अरे नहीं, बेटा, यह हमारे पापों की मज़ा है,” मेश्कोव

आपत्ति करता। “प्रभु का धीरज चुक गया है। और तुम कहते हो—
आज हवा का रुख है! तुम्हारा क्या ख्याल है कि आज भगवान ने
सज्जा देने का फ़ैसला किया और कल माफ़ कर देगा? नहीं, तुम
यह सज्जा कवूल करो, पश्चाताप करो, मेहनत करो, रोटी का अपना
टुकड़ा पाने के लिए खून-पसीना बहाकर काम करो। तब, हो सकता
है, कृपासिंधु परमेश्वर को तुम पर दया आ जाये।”

“काम करना भी कोई नई बात है क्या? आपने सारी उम्र
मेहनत की, काम किया, और मिला क्या? मेहनत तो वस आत्म-
रक्षा का साधन है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो यह है कि मेहनत
करने में कोई दिमाग-विमाग नहीं लगता, मेहनत तो वस मजबूरी
ही है। और कोई उच्च विचार उसमें नहीं है।”

“तुम क्या उनसे ज्यादा चालाक बनना चाहते हो? हमने शुरू
में जितना समझा था, वे उसे बहुत ज्यादा चालाक हैं।”

“ऐसी क्या चालाकी है उनमें? मुझे तो कुछ दीखती नहीं।”

“उनकी चालाकी यह है कि उन्होंने तेरी गाड़ी छीनकर तुझे
ही उसमें जोत दिया, और अब तू उन्हें ढो रहा है।”

“मैं उन्हें ज्यादा देर नहीं ढोऊंगा।”

“अरे लाला, वे तुझे ज्यादा देर तक नहीं जोते रखेंगे—जब तक
तू ढह नहीं जाता, वस तभी तक जुता हुआ है।”

कभी-कभी यह बहस झगड़े में बदल जाती, पर शुनिकोव
थोड़े दिन बाद फिर से ससुर के पास चला आता और उससे
बहस छेड़ता।

मठ में जाने से पहले मेश्कोव ने एक बार फिर शुनिकोव के
सामने मन का गुबार निकाला, और इस बार उसे यह पक्का विश्वास
हो गया कि उसका नया दामाद अनातोली मिखाइलोविच ओज्जोविशिन,
पुराने दामाद से कहीं अधिक समझदार है। ओज्जोविशिन भी मेश्कोव
की भाँति वर्तमान स्थिति को प्रभु के कोप का परिणाम बताता था,
जबकि शुनिकोव कहता था कि परमपिता का काम हमारी ज़िंदगी
में गड़वड़ी पैदा करना है, और हमारा काम है अपनी समझ से जहां
तक बन पाये अपनी परवाह करना।

“मैं कभी यह नहीं मान सकता कि आप को भगवान की सज्जा पसंद

है। और अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसे नतमस्तक होकर स्वीकार कैमे कर सकते हैं? यह सब पाखण्ड है।”

“तोवा, तोवा, बीक्तोर, तुम भगवान की बुराई करते हो!” विदा होते हुए मेहकोव ने कहा। “अब मैं खुश ही हूं कि लीजा ने वेटे को तुम्हारे पास नहीं रहने दिया। तुम तो उसे नास्तिक बना डालते। बचकर रहना, कहीं तुम्हें अपनी जान के ही लाले न पड़ जायें।”

“जान देनी ही पड़ी, तो सस्ते में नहीं दूंगा।”

“सस्ता या महंगा, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो रहोगे नहीं।”

“देख लेंगे, कौन रहेगा...”

इडवर बनकर खालीन्स्क जाने की ब्रवर शुब्लिकोव के लिए बज्जपात के ममान थी। अभी उसे यह पता चला ही था कि किसलिए उमे जाना पड़ रहा है, तभी कार की बैटरी बैठ गई। मर्सीडिज उसकी चहेती थी, पर इतनी नहीं कि उसे बचाये रखने के लिए वह मिरोनोव का बलवा कुचलने जाये।

मरातोव में शुब्लिकोव को सब अच्छी तरह जानते थे, सो उसके लिए नगर में बाहर होना अधिक निरापद था। लेकिन यह बात शांति के दिनों के लिए मच थी, जब चारों ओर स्थिति एक जैसी होती। पर अब मोर्चे और चंडावल की तुलना करने पर सारी बात ही बदल जाती थी। मरगतोव में ज्यादा मेर ज्यादा कोई बीक्तोर की अमीरी याद कर सकता था, या उसका अब्दवार, या उसकी एय्याशी, जबकि मोर्चे पर गोनियों को लोगों की जीवनियों मेर कोई बास्ता नहीं होता — गोनियां चाहे गृहयुद्ध में चलें या किसी और युद्ध में, गोनियां ही हैं।

फौज के रम्प अधिकारियों के साथ गत-गत भर मौज मार्गे के दिनों में जूविन्स्की की शुब्लिकोव से दोस्ती हुई थी। इस वक्त मोर्चे की मम्भावनाओं के बारे में उसके विचार शुब्लिकोव से विल्कुल भिन्न थे।

“बुद्ध मन बनो,” बीक्तोर को डरते देखकर उसने कहा। “ममभ-दार नोर्ग भव अपनी विमान ममेट रहे हैं। यहां का खेल खत्म हो रहा है, इस पर बाजी नगाने में कोई तुक नहीं। अगर मफेद गार्ड

सरातोव में आ धमके तो वे सिर्फ़ इतना ही पूछेंगे: 'सोवियतों की नौकरी की थी?' और वस छुट्टी। पढ़े-लिखे आदमी के लिए और भी ज्यादा मुसीबत है: कहेंगे तुम तो समझते थे कि क्या कर रहे हो। और मोर्चे पर संकट की घड़ी आई तो वहां खेत भी हैं, जंगल भी, कहीं किसी किसान का घर भी होगा, अपनी खंदक भी और दुश्मन की भी... जहां चाहो, जा सकते हो।"

"मोर्चे में कोई आंख-मिचौनी तो खेली नहीं जाती। वहां गोलियां चलाते हैं।"

"तो क्या हुआ? तुम भी बुद्ध मत बनो। चलाओ... अपनी मर्सीडिज," जूविन्स्की हँस दिया और फिर अपने कफ पर चिपका एक रोयां झाड़कर हुक्म सा देते हुए बोला: "खैर, कार विल्कुल ठीक हालत में तैयार होनी चाहिए!"

वीक्तोर समझ गया कि उसकी हालत बाल्टी में गिर पड़ी चुहिया जैसी है, और वह यह उम्मीद नहीं कर सकता कि कोई बाहर निकलने में उसकी मदद करेगा। उल्टे, ऐसे मौके पर अधिकारी कुछ नहीं सुनेंगे, सख्ती ही बरतेंगे। इसलिए शुनिकोव ने ठीक समय पर गाड़ी पेश कर दी, बड़े जतन से सामान बंधवाने में मदद की और जब इज्वेकोव वहां आया, तो जूविन्स्की की ही भाँति ठसक से उसे सल्यूट मारा।

किरील ने कार का चक्कर लगाया।

"सब ठीक है?"

"पैट्रोल की टंकी भरी हुई है और एक कनस्तर भी साथ में है। दो टायर भी ले लिये हैं। इंजन इतनी अच्छी हालत में नहीं, बहुत घिस गया है, पर खैर, भगवान राखा है..."

पिछले एक वर्ष में वीक्तोर ने चेहरे पर सदा ऐसी मुस्कान बनाये रखने का अभ्यास कर लिया था, जिसमें एक साथ ही साफ़ दिल सादगी का और चापलूसी का भाव व्यक्त होता था।

किरील ने एकटक उसको ओर देखते हुए कहा:

"कार की जिम्मेवारी आपके सिर पर है, न कि भगवान पर..."

"वेशक। वो तो वस यों बात की बात में कहा था।"

जूविन्स्की ने किरील को आगे की सीट पर बैठने को कहा, पर वह वालंटियर के साथ पिछली सीट पर बैठा। घड़ी देखकर उसने चलने का आदेश दिया।

गाड़ी में सफर करते हुए घटनाओं को समझने, शांत दृष्टि से उन्हें समग्र रूप में देख पाने का पर्याप्त समय होता है। रास्ते के दोनों ओर फैला विस्तार ही चिंतन-मनन की प्रेरणा देता है।

सगतोव के बाहर फैला विस्तार उदासी भरा है और कही-कही नो इसकी एकरसता मनहृस लगने लगती है। उपनगर में पंद्रह-बीस माल पुराने पेड़ों के कुंज पार करते ही आगे बूचे टीले ही टीले नजर आते थे, जिनके बीच-बीच में गहरे बहु थे। कई-कई मील बाद कहीं किसी वस्ती के पास पॉप्लर और बेद के पेड़ों के छोटे-छोटे झुरमुट दिखाई दे जाते। रास्ते के दोनों ओर भोज वृक्ष लगाने चाहिए और निचाड़ियों में बलूत व चीड़ के पेड़, ताकि जमीन की यह लाल-पीली नगता ढकी जा सके। अगर म्तेपियों की भुलसती गर्मी के बजाय हवाएँ जंगलों की नमी खेतों में लायें, तो वे कैसे हरे-भरे हो उठें! कैसे बहु दो चमक उठेंगे, भोर को ओस फिलमिलायेगी और छोटी-छोटी नदियां कैमे कलकल करती बहेंगी! किरील की आंखों के सामने फैले इस निर्जल विस्तार का यह मदियों पुराना सपना था। बचपन से ही किरील अपने डलाके की इस प्यास को अनुभव करता आया था, इस असीम पठार पर फैले धने वनों की कल्पना करता आया था। अब यह याद करते हुए कि बचपन में वह इन भावी वनों की कल्पना किम रूप में करता था, किरील हैरान हो रहा था। तब उसकी कल्पना उसे उण्णकटिवंधीय वृक्षों के अनोखे उद्यानों में ले जानी थी, जो मानो धरती के ऊपर हवा में लटकते होते और उनके शिखर धरती को शीतल छाया प्रदान करते होते। ये अजीवोगरीव उद्यान उसकी कल्पना में एक छतांग में ही बन जाते थे—उसकी कल्पना वृक्षी म्तेपी को देखकर उड़ान भरती और मीधे बेलों के विचित्र गुंथन पर जा पहुंचती। स्वप्नदृष्टि को इस बन में कोई वास्ता नहीं था कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। महसा म्तेपियों में बन-उद्यान उग आते। ये उद्यान और बन कैमे बने—इनमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। कल्पना नो पके फल का मजा चबूती है, किमने फल का पांधा उगाया, उसे

सींचा - इससे उसे क्या लेना-देना। फल तोड़ो, लो और खाओ, फल मीठा है, सुगंधित है, भले ही यह दूर भविष्य का फल हो ; मनहूँ चिकनी मिट्टी पर उगते नागदौन के झंखाड़ों से तो वितृष्णा ही होती है। अब किरील को उसके बाल-मस्तिष्क को अभिभूत करनेवालं उष्णकटिवंधीय सजावट शैल स्तरों की अश्वभूत बनस्पतियों जैसे लग रही थी। इस समय वह उस बात में मग्न था, जिसका बचपन में कल्पना के लिए कोई अस्तित्व नहीं था। वह परिवर्तनों के बाहर में सोच रहा था - यह कि स्तेपियों को हरा-भरा कैसे बनाया जाये कैसे उनकी प्यास बुझाई जाये ? निन्नाड़ियों में कैसे पेड़ उगाये जाएं और टीलों पर कैसे ? कौन सी ऐसी किस्में हैं, जो स्तेपी की शुष्क गर्म हवाएं सह सकती हैं ? जिले में सिंचाई का कितना लम्बा-चौड़ा जाल बिछाना होगा, ताकि इस वृक्षहीन धरती पर जंगल उगाने लगें कैसे गांवों, बस्तियों को संगठित करके धरती के कायाकल्प के काम में लगाया जा सकता है ? क्या एक करोड़ पेड़ों की देखभाल के लिए दस हजार लोग काफ़ी होंगे ? एक करोड़ पेड़ बहुत हैं या कम ? कितने समय बाद जंगल मनुष्य से पानी नहीं मांगेंगे, और खुद आद्रता के स्रोत बन जायेंगे ? नहीं, यह धरती के कायाकल्प की कल्पना नहीं थी, इसे तो विचार भी नहीं कहा जा सकता, यह तो समस्या के हृत की खोज थी, कच्चा हिसाब-किताब था। भविष्य के निर्माण का स्वप्न अब निर्माण कार्य बन रहा था, और स्वप्नदृष्टा निर्माता। “पर फिर भी, फिर भी !” किरील के मस्तिष्क में सहसा घने बलूत बन उत्तर आते और दूर कहीं, बनों की नीलिमा के पीछे से धरती के ऊपर बचपन के अनोखे बन उठे दिखते।

और रास्ता दायें, वायें धूमता, ऊपर-नीचे बल खाता बढ़ता जा रहा था, उसे न लोगों की ऊब से कोई बास्ता था, न उनविचारों से। कहीं पीले-पीले और कहीं खड़िया के रंग के गोल टीरे धरती के उदर पर उभर आये फफोलों जैसे लगते थे। खेतों में कटाहो चुकी थी, और गांवों के पास ही कहीं-कहीं बदरंग से गांज दिखावे रहे थे।

जूविन्स्की धीरे-धीरे पीछे को मुड़ा, मानो इस असमंजस में जितनी लम्बी चुप्पी भंग की जा सकती है या नहीं।

“कामरेड इज्जेकोव, मैं पूछना चाहता था कि मुझे क्या कहकर पुकारा जायेगा?”

किरील को अपने विचारों के क्रम को यों तोड़ा जाना बुरा लगा, वह चुपचाप जूविन्स्की के लंबे चेहरे को देखता रहा, जो पीछे मुड़े होने के कारण बकाकार लग रहा था। कौन है यह आदमी? किस कागज से उसने वही मार्ग चुना है, जो इज्जेकोव ने चुना था? किसने उन्हें इस गस्ते पर मिलाया है – सामान्य मित्रों ने या सामान्य शत्रुओं ने?

“आपके नाम से बुलाया जायेगा,” अंततः किरील ने जवाब दिया और हौले से हंसा।

“मौ तो मैं समझता हूं!” जूविन्स्की ने ठहाका मारा। “मेरा मतलब था मेरा ओहदा क्या होगा?”

“आपके स्थान में आपका ओहदा क्या है? आपका काम क्या होगा?”

“मैं तो यह समझता हूं,” जूविन्स्की ने पूरे विश्वास से कहा तथा थोड़ा और घूमकर, सीट की पीठ पर कोहनी रखकर आगम से बैठ गया, “मैं आपका एडिकांग हूंगा। रिपोर्ट लिखा करूंगा।”

“कैसी रिपोर्ट?”

“युद्ध का वर्णन। मैनिक कार्रवाइयों की डायरी। आप कमांडर के नाते...”

“मैं कमांडर नहीं हूं...”

“मैं समझता हूं। पर साफ़-साफ़ कहें, तो असली कमांडर के नाते आप आम आदेश देंगे, कमांडर मैनिकों को लड़ाई में ले जायेगा, और मैं आपको रिपोर्ट पेश करूंगा।”

किरील देर तक हंसता रहा – कार के हिचकोलों से डोलता हुआ; किन्तु उसने जूविन्स्की की आंखों में आंखें डालकर ऐसे मस्ती से देखा कि उसने कोहनी हटा नी और तनकर मीधा बैठ गया।

“आप वे काम करेंगे, जिसका आदेश हमारे कमांडर कामरेड शीशिच देंगे, या मैं हूंगा।”

जूविन्स्की का विश्वास मानो कम हो गया था, पर उसक नहीं। वह बोला:

“बेयक, आदेशों का पालन करना में कर्तव्य है... पर मैं

चाहता था कि आप यह बता दें कि मेरे काम के दायरे में क्या कुछ आता है, ताकि मुझे पता रहे। पुराने जमाने में रेजीमेंट का एडिकांग मिसाल के तौर पर, संचार का काम संभालता था; उसके अधीन होते थे—अरदली, टोही, टेलीफ़ोन आपरेटर ...”

“वस यही काम मैं भी आपको दूंगा,” उसकी वात काटते हुए इज्वेकोव ने कहा, और फिर से जूविन्स्की को धूरकर देखा, “सिवाय टोहियों के ...”

फिर से वे देर तक चुप रहे। कार की डोलायमान गति से भपकी आ रही थी, पर ऊबड़-बाबड़ जगहों पर लगते धचकों की वजह से आंख लग भी नहीं पा रही थी। शुनिकोव कभी-कभी बड़वड़ाता, पर कार खूब अच्छी तरह चला रहा था। जूविन्स्की फिर से पीछे मुड़ा।

“आपने तो कामरेड इज्वेकोव, कमाल कर दिया। इतनी जल्दी कम्पनी तैयार करके भेज दी। कहीं कोई जिच नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। ऐसे काम संगठित करना भी हुनर है। किसी-किसी में ही यह पाया जाता है।”

इज्वेकोव ने कोई जवाब नहीं दिया।

“आपके हाथों में तो पूरी सेना की कमान होनी चाहिए,” जूविन्स्की कहे जा रहा था। “सच मानिये! शहर में लोग समझ ही नहीं पा रहे थे: इतने ऊचे ओहदे पर थे और अचानक आपको एक मामूली सी कम्पनी सौंप दी ...”

“क्या मेरे लिए रंज हो रहा है?”

“नहीं, सो तो नहीं, पर हैरान हैं। मेरे विचार में यह प्रतिभा का अपव्यय है। वडे लोगों को वडे काम सौंपने चाहिए। जरा देखिये न विश्व क्रांति में कैसी सफलता हो रही है। वहां है असली अखाड़ा! हमारे इस पिछवाड़े में तो यह कौए हँकाना नहीं है।”

“बड़ा दिलचस्प विचार है,” इज्वेकोव बोला। “आपका क्या रणनीति पर भी अपना अलग दृष्टिकोण है?”

“मैं यह सोचता हूं,” अत्यंत गम्भीर भाव से जूविन्स्की बोला, “मैं यह सोचता हूं कि उकड़नी प्रतिक्रांतिकारियों के विरुद्ध सारी शक्ति केन्द्रित करना ज्यादा सही होता, उनका सफ़ाया करके सारा

मोर्चा पश्चिम की ओर मोड़ना चाहिए। और वहां हम विश्व क्रांति में जा मिलेंगे।”

“बड़ी दिनचम्प वात है,” इन्डेकोव ने फिर से कहा। “इधर देनीकिन और कोल्चाक की ओर से पीठ मोड़ लें, ताकि वे आपस में मिल जायें और हमारी पीठ में छुरा घोंप दें। यही सोचते हैं आप?”

“वेगक, पूरब की ओर पीठ मोड़ने से हमें कुछ नुकसान जहर होगा। पर अब हम जो पश्चिम की ओर पीठ मोड़ रहे हैं, यह हमें और भी ज्यादा महंगा पड़ेगा: मौका हाथ से निकल जायेगा और फिर यह बक्स लौटकर नहीं आयेगा। विश्व क्रांति का उवाल ठंडा पड़ जायेगा।”

“वाह, आपके पास तो पूरी योजना है। वैसे यह काफी प्रचलित है: दूर के द्वोल मुहावरे!”

जूविन्स्की ने आपत्ति करनी चाही, पर इसी क्षण कार को ज़ोर में झटका लगा और वह मड़क के किनारे की ओर बढ़ चली, ब्रेकों की ची-चीं के साथ आग्निर वह रुक गई।

“पंचर हो गया!” युनिकोव ने भुंभलाकर कहा और झटके में दरखाजा खोल दिया।

मध्य लोग कार में उतरने लगे।

वे नदी के ऊंचे कगार पर स्थड़े थे। कगार कहीं-कहीं कट गया था और धीरे-धीरे सर्गकता हुआ नदी तक चला गया था, कहीं-कहीं वह नुकीले टीलों जैसा लगता था, जो मानो ऊंचते हुए पहरा दे रहे थे। मूर्य अन्नाचल को जा रहा था। टीलों की परछाइयों से आस-पास के स्थान जड़ और शोकग्रस्त प्रतीत होते थे। हवा ज़रा भी नहीं चल रही थी। दूर कही उड़ता गुलू उंदन कर रहा था।

अमर्नी ड्राइवर की भाँति, ज्यादा मोर्च-विचार में पड़े विना युनिकोव पश्चिया बदलने लगा। इन्डेकोव को यह देखकर अच्छा लगा कि वह जग भी दौम्बलाये विना, भधे हाथों से काम कर रहा है। जूविन्स्की वर्डे जनन में अपनी पेटियां चोल-चोलकर कम रहा था। किरील का महायक बान्डियर, जो मारे गए एक शब्द भी नहीं बोला था, शक्ति नज़रों में जूविन्स्की को देख रहा था।

किरील ने कगार के भिन्ने पर टहलकदमी करने हुए कुछेक बार

घड़ी देखी। वे आधे से ज्यादा रास्ता पार कर चुके थे, पर इस पंक्चर की बजह से किये-कराये पर पानी फिर रहा था। धीरे-धीरे किरील को इस बात पर झुंझलाहट हो रही थी कि शुनिकोव यों पहिये से लगा हुआ है। किरील को यह लगने लगा था कि ऐसे सधे-सधे काम करने के बहाने वह जानवूभकर देर कर रहा है, इतनी देर से उससे हवा ही नहीं भरी जा रही थी।

“जरा जल्दी करो! चलो वारी-वारी से हवा भरें,” किरील ने कहा।

“क्यों नहीं?” जूविन्स्की ने हामी भरी और बड़े जतन से अपना पटका खोलने लगा।

उसकी इन मंद-मंद गतियों को देखते हुए किरील के मन में इस बने-ठने बांके के प्रति धिन उठ रही थी।

“सो आप कौए हंकाना नहीं चाहते?” उसने जूविन्स्की से पूछा।

“मैं अपनी बात नहीं कर रहा था। मेरा तो काम वस हुक्म बजा लाना है, और मेरा ओहदा ही ऐसा है कि मैं अपनी ओर से कोई पहलकदमी नहीं कर सकता।”

“यह बात तो नहीं। पहलकदमी दिखाने में आप कम नहीं। वो दोरोगोमीलोव का घर खाली कराने की क्या सोची थी आपने?”

“अच्छा-आ! आप तक शिकायत पहुंच गई? यह काम तो मुझे फौजी कमिसार ने सुझाया था। हमारे पास लामबंदी के लिए जगह कम पड़ रही है। मैंने सारा शहर छान मारा। और दोरोगोमीलोव का घर तो सरकारी घर है। बड़ी अच्छी जगह पर है।”

“आपके लिए अच्छी जगह है?”

“मेरे लिए नहीं, पर...”

“आपका अपना बंदोवस्त अच्छा है?”

“रिहायश का? बहुत ही बेकार!”

“और आपको दोरोगोमीलोव का घर पसंद आ गया?”

“मेरी समझ में नहीं आता कि मैं लाल सेना का अधिकारी क्यों किसी कोठरी में रहूँ...”

“जबकि दोगेगोमीलोव के पास खासा अच्छा घर है,” किरील ने उमकी बात पूरी की।

“मैं घर अपने लिए तो नहीं ले रहा। यह सब चुगलखोरों की बातें हैं। हाँ, मुझे उम्मीद थी कि फौजी कमिसार लामवंदी केंद्र में मुझे एक कमग लेने देंगे।”

“आपने कमिसार को अपनी यह योजना बताई थी?”

ज़्यूविन्स्की ने कंधे विचका दिये। उसने जैकट उतार ली थी, उसे उलटाकर तह किया और सड़क के किनारे करीने से रखी अपनी पेटियों और होल्टर के ऊपर रख दिया। कार के पास जाकर उसने गुब्लिकोव में पम्प ने निया, उसकी हत्थी ऊपर खींचकर कोहनियां फेलाये रुक गया और किरील से कहा:

“कामरेड इज्वेकोव, आप मुझे अच्छी तरह नहीं जानते। ज़ूविन्स्की रपट देने से पहले काम पूरा करता है। अगर मैं आपको अभी यह बताऊं कि ड्राइवर हवा भर रहा है, तो इसमें क्या तुक होगी? जब मव तैयार हो जायेगा, तो मैं रपट दूंगा: कामरेड कमिसार, गाड़ी गीक हो गई, आगे चल सकते हैं!”

वह जोर-जोर से पम्प चलाने लगा।

उमके बाद और बंदा भर तक कार ठीक चलती रही, पर फिर अनानक डंजन में कुछ गड़बड़ी होने लगी। अब गुब्लिकोव को डंजन देखना पड़ा (स्पार्क ठीक नहीं आ रहा था) और एक बार फिर से मव कार में उतर गये।

मड़क के दोनों ओर गांव के घरों के सामने उगते पेड़-पौधों की कतारें चली गई थीं। सांझ के झुटपुटे में लोग अपने घरों के बाहर आगम कर रहे थे। शीघ्र ही नड़कों का भुंड कार के पास जमा हो गया।

ज़्यूविन्स्की उतना हुआ थोड़ी दूर खड़े किसानों के पास चला गया। जब वह लौटा तो काफ़ी उत्तेजित लग रहा था, सदा में अधिक जतन में बन-मंवर रहा था।

“कोई खबर मुनी?” इज्वेकोव ने पूछा।

“मव वामी खबरें हैं, कामरेड कमिसार। मोच रहा था थोड़ा दूध मिल जाये, पर पैमे नहीं लेने, दूध के बदले नमक मांगते हैं।

ओफ़, जल्दी से बोल्स्क पहुंचें ! क्यों, शुन्निकोव, ठीक हुआ इंजन कि नहीं अभी । ”

बीक्टोर बड़बड़ाया कि चलने से पहले अगर इंजन को ओवरहाल करने का वक्त मिल जाता तो यों बार-बार रुकना न पड़ता, कि अब सारे कोटेक्ट देखने पड़ेंगे ।

“ऐसे चलाने से तो मर्सीडिज का भट्टा बैठ जायेगा ! ”

खैर, इंजन स्टार्ट हो गया और सब अपनी-अपनी जगह जा बैठे । कोई कुछ नहीं बोल रहा था । वे पूरब की ओर बढ़ रहे थे, जहां अंधेरा छा गया था । अक्सर रास्ते में छोटे-छोटे जंगल आ रहे थे, कुछ काफ़ी धने थे । कार की हेडलाइट जला दी गई । सहसा सारा संसार रोशनी की सफेद पट्टी तक सीमित हो गया, जिसमें सामने से तार के खम्भे धीरे-धीरे बढ़ते आते थे और फिर झट से अंधेरे में खो जाते थे ।

वे नगर के पास पहुंच रहे थे, स्टेशन की बत्तियां दिखाई देने लगी थीं, तभी फिर से इंजन बंद हो गया । शुन्निकोव के मुंह से गाली निकली । हेडलाइट बुझाते ही कार अंधेरे में डूब गई । शुन्निकोव हुड उठाकर इंजन देखने लगा, जूविन्स्की टार्च से रोशनी कर रहा था ।

किरील मन में उफनते क्रोध को दबाते हुए सड़क के किनारे आगे-पीछे चल रहा था, कभी वह हाथ छाती पर बांध लेता और कभी पीठ पीछे ले जाता । सहसा वह थम गया ।

इंजन के ऊपर भुके शुन्निकोव और जूविन्स्की के चेहरों पर टार्च की रोशनी पड़ रही थी । जूविन्स्की पलकें भुकाये गुस्से में शुन्निकोव से कुछ कह रहा था, जो प्रत्यक्षतः उसकी बातों से खुश नहीं था और संक्षिप्त से उत्तर दे रहा था । विल्कुल साफ़ था कि वे इंजन ठीक करने में नहीं लगे हुए हैं । किरील को जूविन्स्की के नथुने विचित्र लगे — वे इतने उभरे हुए थे, मानो बाहर को निकल पड़ रहे हों ।

किरील ने बालंटियर को बुलाया, उसे चुपके से कहा कि वह दूर न जाये, और खुद जूविन्स्की के पास चला गया ।

“जब तक यहां इंजन ठीक नहीं होता, क्यों न हम यह पता

नगा ने कि कम्पनी की रेलगाड़ी कहां है। जाइये, जाकर स्टेशन
ने पूछताछ कर आड़ये।"

"जैमा हुक्म, कामरेड कमिसार!"

"टार्च मुझे दे दीजिये। मैं ड्राइवर को रोशनी दिखाता रहूँगा।"

"पर मैं अनजान रास्ते पर अंधेरे में कैसे जाऊँगा?"

"कोई बात नहीं। स्टेशन की वत्तियां तो नज़र आ ही रही हैं।"

जूबिन्स्की चुपचाप चला गया।

किरील इजन के पास गया।

"क्या हो रहा है आविर यहां?"

"कुछ समझ में नहीं आता," शुभ्निकोव हताश स्वर में
दोना।

"कोशिश करो समझते की," किरील ने कहा।

"स्पार्क प्लग ठीक लगता है, पर स्पार्क नहीं आ रहा। घिसे-
पुगने इजन से बढ़कर कोई मुमीवत नहीं। कभी-कभी ऐसी पहली
वुझा डालते हैं कि थैतान तक न वूझ सके!"

"जग पकड़ो तो," किरील ने टार्च शुभ्निकोव को थमाई और
बुद्ध मैग्नेटो पर भुका।

"मैग्नेटो ठीक है!" शुभ्निकोव ने जल्दी से कहा और टार्च की
गोलनी एक ओर को हटा दी।

"इधर पास रोगनी करो," किरील ने हुक्म दिया।

वह डिम्टीव्यूटर का ढकना खोलने लगा।

"यहा देखने को कुछ नहीं है, मैं देख चुका हूँ," शुभ्निकोव
ने जोर में कहा और अपना हाथ भी ढकने की ओर बढ़ाया।

किरील ने उसका हाथ परे धकेल दिया और चाबी लेकर दिवरी
खोलने लगा। शुभ्निकोव ने टार्च वुझा दी। उसी क्षण उसे अपनी उंगलि-
यों पर मजबूत पकड़ महसूस हुई: वालंटियर ने पीछे से हाथ बढ़ाकर
उसमें टार्च छीन ली। टार्च फिर मे जल उठी। किरील ने निजिचंत
होकर डिवरी खोलकर ढकना उतार और शुभ्निकोव की ओर देखा:
गेटर गायब था।

वालंटियर ने शुभ्निकोव के चेहरे पर गोलनी डाली: उसका निचला

होंठ फड़फड़ा रहा था, मानो वह कुछ कहना चाह रहा हो, पर कहन पा रहा हो।

“रोटर किसने निकाला?” इज्वेकोव ने पूछा।

“मैं क्या... अपना ही दुश्मन हूं?” सहसा फटी-फटी आवाज में शुब्निकोव बोला।

“अपने तो दुश्मन नहीं हो।”

“मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आता,” शुब्निकोव ने खांसते और मुस्कराने की कोशिश करते हुए कहा।

“मैं खूब समझता हूं,” किरील ने कहा। “रिवाल्वर है?”

“नहीं।”

किरील ने उसकी जेबें टटोलीं।

“गाड़ी में वैठो... नहीं, ड्राइवर की सीट पर नहीं! पीछे वैठो!”

शुब्निकोव कुछ कहे-सुने विना कार में जा वैठा। जब तक वह कार में चढ़ रहा था और बैठ रहा था, टार्च की रोशनी उसके पीछे-पीछे चल रही थी, फिर टार्च बुझ गई। कार के एक ओर इज्वेकोव और दूसरी ओर उसका सहायक वालंटियर खड़े हो गये।

बड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। एक निशाचर पंछी उनके सिरों के ऊपर उड़ता निकल गया। उसके पंखों की फड़फड़ाहट से आह जैसा स्वर हुआ और फिर दो बार उसकी कर्कश चीख सुनाई दी। मैदानों में टिछुओं का समवेत स्वर ज़ोरों से गूंज उठा। शीतल पवन के साथ गर्म ईटों की गंध आ रही थी। स्टेशन से इंजन की उदासी भरी सीटी की आवाज आई। स्टेशन की वत्तियां अब ज्यादा साफ दिखने लगी थीं। किरील धीरे-धीरे बोला:

“सोचा नहीं था कि मुझे भी इंजनों के बारे में कुछ पता है, है न?”

“क्यों नहीं सोचा था!” शुब्निकोव ने मानो राहत के साथ कहा। “मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने तकनीकी शिक्षा पाई है।”

“अच्छा! तो फिर किस भरोसे थे?”

“ईमान कसम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा!”

“मतलब, रोटर जूविन्स्की ने निकाला है? क्या वातें हो रही थीं उससे?”

“कोई वात नहीं हो रही थी। वह मुझे डांट रहा था कि मैं गडवड़ी का पता नहीं लगा पा रहा। कह रहा था कि मैंने कामरेड इज्वेकोव से तुम्हारी सिफारिश की थी और तुम निरे भोंदू निकले।”

फिर से चुप्पी छा गई, और रात मानो अधिक गहरा गई।

“वाकई किसी को बिल्कुल भोंदू समझकर ही रोटर निकाला जा सकता है,” शुब्निकोव बोला।

किरील ने कोई जवाब नहीं दिया।

“आप खामखवाह मुझ पर शक कर रहे हैं, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है,” उलाहना के स्वर में शुब्निकोव ने कहा। “आप तो वस मुझसे खार खाये हुए हैं। निजी मामले को लेकर।”

“क्या वक्वास कर रहे हो!” किरील ने कहा।

“मैंने भी सोचा था वक्वास है, बेकार की वात है। सब कुछ कव का भुलाया जा चुका है। पर लगता है ऐसा नहीं है।”

“क्या ऐसा नहीं है?”

“आप शुब्निकोव को माफ़ नहीं कर सकते कि उसने आपका रास्ता काटा था। कव की वात है, कितना वक्त गुजर चुका है। पर लगता है आप भूलनेवालों में नहीं हैं।”

“वंद करो यह वक्वास।”

“मैं तो कव का उस सुख को तिलांजलि दे वैठा हूं, जिसके लिए कच्ची जवानी में हमारी टक्कर हुई थी। मैं येलिजावेता मेरकूर्येव्ना को छोड़ चुका हूं, कामरेड इज्वेकोव। अब मुझसे बदला लेने में क्या तुक है! कौन जाने, येलिजावेता मेरकूर्येव्ना के साथ अपने दुर्भाग्य से मैंने आपको बहुत बड़ी निराशा से बचा लिया हो।”

“बहुत हुआ! चुप हो जाओ!” किरील गुस्से से खौलते हुए चिल्नाया।

मारा समय चुप रहा बालंटियर गुर्याया:

“अबे ओ! चुप होता है कि नहीं!”

कम मे कम आधा घंटा बीता होगा, जब सड़क पर फौजियों

की तरह मार्च करते आदमी की परछाई का आभास हुआ। ज्यों-ज्यों वह पास आता जा रहा था, उसकी आकृति स्पष्ट होती जा रही थी—उसका कोट कमर से नीचे घंटी की शक्ल में फैला हुआ था, पतलून जांधों पर दो हँसियों के फालों और पिंडलियों पर हँसियों की मूठों जैसी लगती थी।

किरील ने जूविन्स्की को कार के बिल्कुल पास आने दिया और तब हेडलाइट जला दी। जूविन्स्की की आंखें चौंधियाई, भौंहों के ऊपर हाथ रखते हुए वह बोला:

“मैं हूं, कामरेड कमिसार, मैं!”

“क्या पता चला?” इज्वेकोव ने पूछा।

“सैनिक गाड़ी कोई बीस मिनट में पहुंचनेवाली है। कार ठीक हो गई?”

“धन्यवाद,” किरील ने कहा। “अपनी पिस्तौल उतारिये।”

“क्या मतलब?”

“कहा न, पिस्तौल इधर दीजिये।”

“मज़ाक कर रहे हैं क्या, कामरेड इज्वेकोव?”

जूविन्स्की ने रोशनी से परे हटते हुए एक ओर को कदम बढ़ाया। किरील ने जेव में से अपना रिवाल्वर निकाल लिया।

“उतारिये पिस्तौल!”

जूविन्स्की सदा की भाँति बहुत बनते हुए, धीरे-धीरे भारी भरकम होल्स्टर खोलने लगा। चमड़े का चौड़ा पटका चरमरा रहा था।

“क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि आखिर हुआ क्या है?” चुनौती के स्वर में और साथ ही मटकते हुए अंदाज में उसने पूछा।

जैसे ही उसने होल्स्टर खोला, किरील ने उसकी पिस्तौल झपट ली।

“यह आप बतायेंगे कि क्या हुआ है। जब मैं आपसे पूछूँगा...”

गिरफ्तार व्यक्तियों को कार सड़क के किनारे धकेल देने का हुक्म हुआ। उसे कुछ देर के लिए यहां अंधेरे में ही छोड़ना पड़ रहा था।

फिर वे दो जोड़ियों में चल दिये—इज्वेकोव और उसका सहायक पीछे-पीछे चल रहे थे। सहायक की बदूक आगे चल रहे जोड़े की ओर सधी हुई थी।

वे अभी स्टेशन से काफ़ी दूर थे, जब घड़घड़ाती हुई गाड़ी गुज़री। डिव्वों की संख्या से किरील पहचान गया कि यह दीविच की कम्पनी की गाड़ी है। ये लोग जब स्टेशन पर पहुंचे, तो सैनिक गाड़ी से सामान उतारने में व्यस्त थे।

दीविच इज्वेकोव को देखकर इतना खुश हुआ, मानो वे पिछली मुबह नहीं, बरन कव के विछुड़े हुए हों। अचानक एक दूसरे को देखकर वे गले मिलने लगे।

“कम्पनी में सब ठीक-ठाक है। आप लोगों का सफर कैसा रहा?”

“अपनी कार से पहले पहुंच गये।”

“क्यों? कुछ खराकी हो गई, क्या?”

“हाँ, मामूली सी। वैसे तो हम उस पक्की दीवार से जा टकराये। याद है?” किरील ने मुस्कराते हुए कहा।

“पक्की दीवार?” दीविच की तुरन्त समझ में नहीं आया, पर फिर उसकी आंखें फैल गई: “जूविन्स्की?”

“हाँ। जरा दो घोड़े भेज देना, मर्सीडिज स्टेशन पर ले आयें। अभी तो उसे स्टेशन के पहरेदारों के हवाले छोड़ना होगा।”

किरील ने दीविच को सारी वात बताई और अंत में कहा कि उन्हें कैंदियों को अपने मुकाम तक साथ ले जाना होगा, और वहाँ पहुंचकर मामले की जांच-पड़ताल करनी होगी।

“लो, यहाँ सैनिकों से हाथ धोना पड़ गया,” सारी वात सुनकर दीविच ने कहा।

“हमें नहीं, हमारे शत्रु को हाथ धोना पड़ा है,” किरील ने उसकी वात को सही कगते हुए कहा।

“हमारे टोही सफल रहे,” दीविच प्रोत्साहन भरी नज़रों से इज्वेकोव की ओर देखकर मुस्कराया।

“नहीं, टोही धोखा था गये,” किरील भी मुस्कराया, “खुशकिम्मती में हमने गलती बत्त रहते ठीक कर ली।”

“मुझसे गलती हुई। मुझे आपसे कह देना चाहिए था कि जूविन्स्की को साथ न लें।”

“गलती मेरी है, जल्दवाज़ी में रहा,” किरील ने गम्भीरतापूर्वक कहा। “आगे से ज्यादा चौकस रहूंगा। चलिये अब काम करें। पौफटने से पहले ही हमें कूच करना होगा।”

२५

ख्वालीन्स्क तक अब उन्हें एक दिन से भी कम मार्च करना था, तभी सुबह तड़के दीविच के टोहियों की भेंट लाल सेना के एक गश्ती दल से हुई, और उससे पता चला कि पास ही के कस्बे रेप्पोक्का पर किसी गिरोह ने कब्जा कर लिया है। यह गश्ती दल गिरोह को कुचलने के लिए ख्वालीन्स्क से भेजी गई छोटी सी फौजी टुकड़ी का भाग था।

ऐसे बलवे प्रायः होते थे। इनके पीछे थीं प्रतिक्रांतिकारी पार्टियां, जो अमीर किसानों के बूते पर चलती थीं और जिन्हें किसानों के समर्थन की आशा थी। कहीं-कहीं तो ये बलवे कस्बे अथवा तहसील तक ही सीमित होते थे और कभी ज़िला या प्रदेश तक में फैल जाते थे।

उस साल वसंत के आरम्भ में वोल्या के विच्चले मैदान में सिम्बीर्स्क और समारा प्रदेशों के पास-पास के ज़िलों में बलवा काफ़ी फैल गया था। इसे चपानी बलवा कहा जाता था। (किसानों का कोट, जिसे कुछ इलाकों में अज्याम या अर्म्याक कहा जाता है, वोल्या के मैदानों में चपान कहलाता है। इसके बारे में एक चुटकुला मशहूर है: “हम घोड़ागाड़ी पर सैर करने गये थे?” — “गये थे।” “मैंने चपान पहना हुआ था?” — “हाँ, पहना हुआ था।” “मैंने चपान उतारा था?” — “हाँ, उतारा था।” “गाड़ी पर रखा था?” — “हाँ, रखा था।” “तो कहाँ है वह?” — “क्या?” “चपान!” — “कैसा चपान?” “अरे, हम घोड़ागाड़ी पर गये थे कि नहीं?” — “गये थे।” “मैंने चपान पहना हुआ था?” — “पहना हुआ था...” और इस तरह, बार-बार वही बात चलती रहती है।) चपानियों के पीछे दक्षिणपंथी और वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारी पार्टियां थीं, जिन्होंने रूसी सो-

वियत संघात्मक समाजवादी जनतंत्र के संविधान की रक्षा के नाम पर “मोवियतों को कम्युनिस्टों के चंगुल से छुड़ाने” का नारा दिया था। अपनी हरकतों को और अधिक गूढ़ बनाने के लिए वे किसानों में ऐसे झड़े बांटते थे, जिन पर उकसावे भरे नारे लिखे होते थे: “बोल्डोविक जिंदावाद! कम्युनिस्ट मुर्दावाद!” इसके अलावा विद्रोही कुलक अपने प्रचार में रूसी आर्थोडोक्स धर्म की रक्षा का नारा भी लगाते थे। स्ताव्रोपोल नगर के चपानी कमांडेंट दोलीनिन ने किसानों के नाम अपना आह्वान इन शब्दों से आरम्भ किया था: “समय आ गया है, सब आर्थोडोक्स रूसी जाग उठे हैं,” और इन शब्दों में खत्म किया: “उठो, विद्रोह करो, भगवान हमारे साथ है।” भगवान, देवचित्रों और दूसरी धार्मिक वातों के लिए संघर्ष चपानियों के बलवे में बहुत बड़ा सम्बल था, उसी दोलीनिन ने अपनी एक घोषणा में कहा था: “सभी नागरिकों को यह आदेश दिया जाता है कि वे सरकारी कार्यालयों में घुसते ही टोपी उतारें, क्योंकि यह हर ईसाई का पहला कर्तव्य है।” चपानी बलवा भड़कने के एक सप्ताह बाद ही स्थानीय सेनाओं ने इसे दवा दिया। परन्तु इसकी प्रतिव्वनि काफ़ी देर तक बोला तट के स्तेपी बाले और बन-प्रांतों के दूर-दराज के गांवों में गूंजती रही।

भगवान के नाम पर यह चपानी लूटपाट रूसी प्रतिक्रिया का ही एक अंग थी। गृहयुद्ध के दिनों में बोला के मैदानों, उकइना और मध्य रूस के तम्बोव प्रांत में किसानों को प्रतिक्रियाकारी खेमे में ले आने की भग्सक कोशियों के बावजूद रूसी प्रतिक्रिया एक संयुक्त शक्ति नहीं बन पाई। कई बलवे काफ़ी लंबे और खतरनाक थे, इनमें बहुत खून-खरादा हुआ, परन्तु ये निर्णयिक संघर्ष का रूप धारण नहीं कर पाये। भविष्य की बागडोर लाल सेना अपने हाथों में संभाले हुए थी, और इसके सबमें शक्तिशाली बन्दू थे सफेद गार्ड, जिनकी अपनी सेनाएं थी। कुलकों के विद्रोह मोर्चों की घटनाओं के अनुरूप ही भड़कते और ठड़े पड़ते थे, इनकी आग मुलगाती रहती थी और अक्सर यह युद्ध के बवंडर में उड़कर दूर-दराज के गांवों में जा गिरी चिनगारी के समान ही थे।

- दीविच के टोही जब रेप्योव्का में दुश्मन के होने की खबर लाये, तो तुर्नं ही ख्वालीन्स्क से बलवे को कुचलने आई टुकड़ी के साथ

सम्पर्क स्थापित किया गया। इस टुकड़ी का संचालन फौजी कमिसार और ज़िला सोवियत की कार्यकारिणी समिति का एक सदस्य कर रहे थे, जिन्हें सरातोव से आ रही कम्पनी के बारे में पता था। टुकड़ी और कम्पनी के कमांडरों की मुलाकात रेप्योव्का से दक्षिण में स्थित एक टीले पर हुई, जहां से आस-पास का सारा स्थान अच्छी तरह दिखाई देता था। रेप्योव्का कस्बा घाटी में स्थित था, उत्तर और दक्षिण में ढलुवां टीलों से घिरा हुआ। कस्बे में घने वर्गीचे थे, जो पश्चिम में ज़ंगल में जा मिले थे। पूर्व में बोल्ना तट के ऊचे कगारों वाले टीले थे। इस घाटी के आर-पार बड़ी सड़क चली गई थी, उत्तरी और दक्षिणी टीलों से उत्तरती कच्ची सड़क इस बड़ी सड़क से जा मिली थी यह कच्ची सड़क वर्गीचों में खो जाती थी और आगे चलकर कस्बे की बड़ी गली के रूप में दिखाई देती थी, जो रेप्योव्का को दो हिस्सों में वांटती थी। दूरबीन में कस्बे के बीचोंबीच बाजार का चौक दिखाई देता था, जहां तहसील का कार्यालय, सराय, स्कूल, अनाज का गोदाम और नीले गुम्बदों वाला गिरजाघर था।

टीलों से घिरी इस निचाई में विद्रोहियों की स्थिति अत्यंत अनुविधा-जनक लगती थी। हाँ, एक ही बात का उन्हें फ़ायदा था कि कस्बे में घने वर्गीचे थे और ज़ंगल पास ही था। विद्रोहियों की तादाद के बारे में आस-पास के गांव वाले तरह-तरह की अटकलें लगा रहे थे: कोई कहता वहां पचास लोग हैं, कोई कहता सौ। यह भी ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता था कि गिरोह किसका है। कोई कहता कि ये भगोड़े फौजी हैं, कोई कहता मिरोनोव के सिपाही हैं, और कुछ लोगों का कहना था कि यह रेप्योव्का के ही कुलक थे, जिन्होंने अपना अतिरिक्त अनाज सरकार को देने से इन्कार कर दिया था। आयद सच्चाई किसी न किसी हद तक इन सब बातों में ही थी, हालांकि मिरोनोव के गलवे के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी, सिवाय स्वालीन्स्क की टुकड़ी की बताई इस अफ़वाह के कि मिरोनोव को सूरा नदी पर हरा दिया गया है और उसके रिसाले के सिपाही इधर-उधर भाग रहे हैं। यह फ़ैसला किया गया कि कम्पनी और टुकड़ी मिलकर दीविच की कमान में कार्रवाई करेंगी। साथ ही कांतिकारी सैनिक समिति गठित करने का निश्चय किया गया, जिसमें इज्वेकोव, स्वालीन्स्क

का फौजी कमिसार और कार्यकारिणी का सदस्य – ये तीन लोग होंगे। दीविच घुड़सवारों को लेकर तुरंत ही मोर्चा चुनने निकल पड़ा। उधर क्रांतिकारी समिति फौरी मामलों पर गौर करने लगी, जो सदा की भाँति जमा हो गये थे।

सबसे पहले इज्वेकोव ने ड्राइवर शुन्निकोव और जारशाही सेना के भूतपूर्व अफसर जूविन्स्की द्वारा तोड़-फोड़ का मामला पेश किया। यह मामला सैनिक ट्रिव्यूनल के अधिकार क्षेत्र में आता था। विद्रोह की स्थिति में ऐसे ट्रिव्यूनल का दायित्व क्रांतिकारी सैनिक समिति पर पड़ता था और समिति ने माना कि मामले की तुरंत ही जांच-पड़ताल करनी चाहिए।

दसियों मोर्चों के बीच सहसा बन गये इस एक और मोर्चे के सत्ता निकाय ने एक किसान की झोंपड़ी में स्थान ग्रहण किया, जिसकी घिड़कियों में से बोल्गा तट के लहरदार सूर्यस्नात टीले दिखाई दे रहे थे।

जूविन्स्की को जब झोंपड़ी में लाया गया, तो काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। पैदल मार्च के दौरान जूविन्स्की का चेहरा मुरझा गया था। उसकी वर्दी धूल से सनी थी, तो भी लगता था, मानो थोड़ी देर पहले उस्तरी की गई हो। उसके सुडौल शरीर पर वर्दी एकदम फिट थी। उसका चमड़े का चौड़ा पटका और होल्स्टर गायब थे और टोपी पर लाल सितारा भी नहीं चमक रहा था। वह टकटकी लगाये इज्वेकोव को देख रहा था।

किरील बोला:

“आपको क्रांतिकारी सैनिक समिति के सामने पेश किया गया है, जो सोवियत सत्ता के विरुद्ध अपराध करने के लिए आप पर मुकदमा चलायेगी। अपना पूरा नाम और सामाजिक मूल बताइये।”

जूविन्स्की ने बिना किसी ज़िच के यह आदेश पूरा किया और अंत में भृकुटि नानकर अपनी अधीनता दर्शाते हुए पूछा:

“क्या मुझे यह जानने की इजाजत है कि मुझ पर क्या आरोप लगाया गया है?”

“आप पर जानवूभकर तोड़-फोड़ करने का अभियोग है। लाल मेना को धनि पहुंचाने के उद्देश्य से आपने अपनी कम्पनी की कार जानवूभकर बरगाव कर दी।”

“कैसे ?” जूविन्स्की ने आश्चर्य प्रकट किया।

“अदालत को यह वताइये कि आपने कार खराब करने के लिए क्या किया ।”

“जो काम मैंने किया नहीं उसके बारे में कैसे बता सकता हूं ?”

“मैग्नेटो में से रोटर निकालने में आपका क्या उद्देश्य था ?”

“मैं पहली बार सुन रहा हूं कि रोटर नाम की कोई चीज़ होती है। कहां होती है यह ? हो सकता है ड्राइवर के पास वैठे हुए मेरा पांव कहीं लग गया हो ? मुझे कारों के बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे तो घोड़ों की पहचान है।”

“जवाब दीजिये : कार क्यों खराब की ?” फौजी कमिसार ने अधीरता से पूछा।

“मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि कार खराब करना वहशियत है ! मुझे पैदल चलने के बजाय कार पर सवारी करना ज्यादा पसंद है।”

इज्वेकोव ने आग्रहपूर्वक कहा :

“इस वक्त हम मोर्चे पर हैं। आप सैनिक हैं और अच्छी समझते हैं कि क्या हो रहा है। युद्ध में जांच-पड़ताल के लिए अधिक समय नहीं होता। संक्षेप में उत्तर दीजिये : आखिरी बार जब शुनिकोव इंजन में खराबी के बहाने कार रोककर इंजन देख रहा था, तो आप उससे फुसफुसाकर क्या बत कर रहे थे ?”

“मैं जोर से यह नहीं कहना चाहता था कि वह गधा है। मैं उससे कह रहा था कि अगर वह इंजन की गड़बड़ी का पता नहीं लगा पायेगा, तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपके सामने शर्मिदा हूं, कामरेड कमिसार ...”

“मैं आपका कामरेड नहीं हूं।”

“हां, मैं समझता हूं, इस वक्त आपको न्यायाधीश कहना चाहिए शायद ? मैं शुनिकोव से कह रहा था कि मैं कामरेड इज्वेकोव के सम्मुख उसके लिए जवाबदेह हूं, क्योंकि मैंने उसकी सिफारिश की थी।”

“आपने किस इरादे से शुनिकोव की सिफारिश की थी ?”

“वह बढ़िया मैकेनिक माना जाता है। मैंने सोचा था कि यह

वात सही है। और फिर मुझे यह उम्मीद थी कि शुब्निकोव अपनी गाड़ी की ठीक तरह देखभाल करेगा। वह उसे विगड़ता न देख सकेगा ! ”

जूविन्स्की ने कंधे उचकाये और उसके होंठ एक सिरे से ज़रा खिंच गये। किरील ने सतर्क नज़रों से उसकी ओर देखा।

“अपनी कार का क्या मतलब ?”

“क्रांति से पहले मर्सीडिज़ उसकी थी।”

“आपने पहले मुझे यह क्यों नहीं बताया था ?”

समिति के दोनों दूसरे सदस्यों ने एक साथ ही इज्वेकोव की ओर सिर घुमाया। वह पेंसिल उठाकर घुमाने लगा, कभी उसका एक सिरा मेज़ पर ठकठकाता, कभी दूसरा।

“दो दिन तक मैं काठी से उतरा तक नहीं,” जूविन्स्की ने जवाब दिया। “ज्यादा सोचने-विचारने का समय नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि शुब्निकोव हमें मुसीबत में नहीं डालेगा, पर हुआ ...”

“क्या हुआ ?” फौजी कमिसार ने पूछा।

इस नई सूचना से इज्वेकोव परेशानी में पड़ गया था। वह पेंसिल से मेज़ पर ठकठक करता जा रहा था। अब यह वात उसके ही खिलाफ़ जा रही थी कि उसने शुब्निकोव को इस अभियान में अपने साथ लिया। उसे शुब्निकोव के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए थी; उसे निजी तौर पर शुब्निकोव पसंद नहीं था, केवल इसलिए ही उसे ढुकराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। यह सच है कि समय कम था, लेकिन यह पूछने के लिए कि कार से उसका क्या सम्बन्ध है, ज्यादा समय नहीं चाहिए था। अब जांच-पड़ताल मुश्किल हो रही थी। पर हो सकता है उलट वात हो ? क्या इससे मामला आमान नहीं होता ? जांच-पड़ताल करनेवाले का कर्तव्य क्या है ? स्वयं तर्क-वितर्क करके किसी निष्कर्प पर पहुंचना ? अभियुक्तों को यह समझाना कि मामले के क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं ? किरील ने और चाहे जो कुछ किया हो, जांच-पड़ताल के काम के लिए अपने को कभी तैयार नहीं किया था। और अब वह जांच-पड़ताल कर रहा था और साथ ही उसे न्याय भी करना था। पहले तो ये दायित्व अलग-अलग लोगों के होते थे। पर आयद देखने में ही ऐसा लगता था ? न्यायाधीश भी तो जांच-पड़ताल करता है, और मामले को समझकर

फैसला सुनाता है। किरील को जांच-पड़ताल करनी थी, न्याय करना था और फैसला सुनाना था। यह क्रांति के सम्मुख उसका उत्तरदायित्व था। यह पूछताछ नहीं थी, पहले जमाने जैसी जांच-पड़ताल नहीं थी, जारशाही कानूनों के अनुसार न्यायिक कार्रवाई नहीं थी। यह क्रांति का न्याय था। और किरील कोई जांच-पड़ताल अधिकारी या जन-अभियोक्ता नहीं था। वह क्रांतिकारी था। उसे कानून के अधरशः पालन की चिंता नहीं करनी थी, बल्कि उन हितों की, जिनके लिए वह काम कर रहा था, क्रांति के हितों की। सो, यह शुब्निकोव और जूविन्स्की द्वारा तोड़-फोड़ का मामला था ...

सहसा उसने उत्तेजना में चलते अपने हाथ को रोका। वह पेंसिल पकड़े हुए था और उसके बारीक घड़े सिक्के को देख रहा था, सिक्के से उसकी उंगलियों के सिरे काले पड़ गये थे। वह हौले से मुस्कराया।

“तो हुआ क्या?” फ्रौजी कमिसार के बाद उसने भी पूछा और रूमाल निकालकर अपनी उंगलियां पोंछने लगा।

“हुआ क्या ... लगता है, गलती हो गई ...” जूविन्स्की ने भी हौले से मुस्कराते हुए कहा।

“गलती नहीं, अपराध हुआ है,” इज्वेकोव ने सख्ती से कहा।

“अगर अपराध हुआ है, तो मुझसे नहीं।”

“किससे? साफ़-साफ़ बोलिये।”

“मुझे नहीं पता। चर्चा मेरी और शुब्निकोव की है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है।”

“तो आप शुब्निकोव पर आरोप लगा रहे हैं?”

“उस पर आरोप लगाने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं है।”

“क्या आप उसे काफी अरसे से जानते हैं?”

“किसी जमाने में उसे घुड़दौड़ का झौक था, मुझे भी। फिर वह कारों में दिलचस्पी लेने लगा, कभी-कभार ही हमारी मुलाकात हो जाती थी। वह खिलाड़ी है।”

“खिलाड़ी है!” कार्यकारिणी का सदस्य चिल्लाया और तिरछी नज़र से इज्वेकोव की ओर देखा, मानो उसे किसी बात पर खेद हो और साथ ही उसने कुछ अनुमान लगा लिया हो।

“यह तो सोचा भी नहीं जा सकता कि शुब्निकोव ने कार जान-

बूझकर खराब की हो। यह तो वैसे ही होगा, जैसे मैं अपने घोड़े के चारे में कांच के टुकड़े डाल दूँ।”

“पर किर भी उसने कार खराब कर ही दी, कि कि नहीं?” इन्हें कोव ने पूछा।

“हो मकता है, उसने अपनी कार बचाने की सोची हो,” जूविन्स्की ने मानो वात की वात में कहा, “शायद डर रहा होगा कि मोर्चे पर कार बेकार हो जायेगी।”

“ठीक,” फौजी कमिसार पहले से भी अधिक अधीरता से बोला, “सो आपका यह वयान है कि कार इसलिए खराब की गई, ताकि वह मोर्चे पर काम न आ सके।”

जूविन्स्की ने अपनी शानदार वर्दी के पैड लगे कंधे ऊपर उठाये।

“अगर मुझे इस वात पर रक्ती भर भी बिछास होता, तो मैं खुद उसी वक्त शुनिकोव को गोली से उड़ा देता!”

“मेरे स्थाल में मामला माफ़ है,” फौजी कमिसार ने कहा।

ममिति के सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा, और किरील ने जूविन्स्की को ने जाने का आदेश दिया।

शुनिकोव में पूछताछ के ममय वातावरण दूसरा ही था। स्वयं अभियुक्त के व्यवहार से ही वातावरण में यह परिवर्तन आया था। वीक्नोग शुनिकोव भयभीत था। वह मुड़-मुड़कर गाड़ों की ओर देखता, मानो डर रहा हो कि अभी कुछ हो जायेगा, खुद अपनी ही वात काटता और वाक्य अधूरे छोड़ देता। लगता था वह यह तय नहीं कर पा रहा कि किस लहजे में बोले। एक वात वह खूब अच्छी तरह ममक रहा था (और उसकी आंखों में छाये भय से यह म्पष्ट था) कि मवाल उसकी ज़िंदगी का है, और यहां पलक भपकते ही उसकी जीवन की नौ दियामलाई की भाँति बुझाई जा सकती है। अपना नाम, उम्र वर्ग-ग्रह वताते हुए वह महसा थम गया और विल्कुल हैरान-परेशान मा पूछने लगा:

“यह क्या गह-गम्ने में भी कोई अदालत होती है? अदालत गहर में होती है, कायदे के मृताविक। आपके पास तो कलम-दवात नक नहीं है!”

उसे ममझाया गया कि वह मेना में है, किन्तु उसने आपत्ति की:

“नहीं, विल्कुल नहीं! मुझे छूट मिली हुई है, मिरगी की बजह से। मैं मिरगी का मरीज़ हूं। मेरे पास छूट का कार्ड है। यह देखिये।”

अंदर की जेव में से उसने ढेर सारे, नये-पुराने कागज़ निकाले और उन्हें मेज़ पर विश्रेतकर कार्ड ढूँढ़ने लगा, जो उसे मिल ही नहीं रहा था, उसकी उंगलियां उसके वस में नहीं थीं।

कार्यकारिणी के सदस्य ने कागज़ समेटकर शुनिकोव को दे दिये और कहा:

“मैं अभियुक्त से एक सवाल पूछना चाहता हूं, वैसे इस मामले से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यों ही मुझे दिलचस्पी है, क्योंकि मैं भी खेलों का शौकीन हूं। शुनिकोव, यह बताइये, जूविन्स्की यहां डींग हांक रहा था कि सरातोव में कारों की दौड़ में उसकी टक्कर का कोई दूसरा नहीं है, क्या यह बात सच है?”

“भूठ!” हाथ झटकता हुआ शुनिकोव चिल्लाया। “सब भूठ बोलता है वह! कभी गाड़ी चलाई तक नहीं उसने! कैसा खिलाड़ी है वह! घोड़ों की भी तो उसे कोई पहचान नहीं! हमेशा चोरी-चोरी यह पता लगाया करता था कि मैं कौन से घोड़े पर बाजी लगा रहा हूं। सरातोव में पूछ देखिये... मैंने कहा न सही मुकदमा तो शहर में ही हो सकता है। वहां गवाह हैं। वे बता देंगे हमारे यहां कौन कारों की दौड़ में सबसे बढ़कर है!”

“कौन है?” कार्यकारिणी के सदस्य ने पूछा।

“गवाह बतायेंगे कौन है! शुनिकोव है, और कौन!”

“मतलब जूविन्स्की को कारों के बारे में कुछ पता नहीं है?”

“उसे अगर कुछ पता है तो दर्जियों के बारे में!” शुनिकोव धिन से चिल्लाया, पर फिर सहसा उसने जीभ काट ली, इज्वेकोव की ओर टकटकी लगाकर देखा और धीरे से बोला: “आजकल कारों तक सवकी पहुंच हो गई है। कोई बड़ी बात नहीं कि सीख लिया हो।”

इज्वेकोव की ओर धुंधली नज़रों से देखते हुए उसने खीसें निपोरी:

“ऐसा भी होता है कि आदमी ने गाड़ी कभी चलाई नहीं, पर इंजन के बारे में जानता है। हो सकता है जूविन्स्की भी ऐसा ही हो... वह मेरे लिए एक पहेली है।”

“आप अपनी मर्सीडिज पर ही कारों की दौड़ों में हिस्सा लेते थे?” कार्यकारिणी के सदस्य ने पूछा।

शुभ्रिकोव ने मुड़कर दरवाजे की ओर देखा और कुछ देर सोचता रहा।

“अलग-अलग मार्कें की कारों पर।”

“जो मर्सीडिज आपने खराब की, वह पहले आप ही की थी?”

“मैंने कार खराब नहीं की। मैं क्यों खराब करता? और अगर आप मन्त्रमुच्च शिलाड़ी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कार का मार्क मर्सीडिज-वेंज है, मर्सीडिज नहीं।”

“मवाल का जवाब दीजिये मर्सीडिज आपकी है?” इंजेकोव ने पूछा।

“मेरी नहीं, सोवियत की है,” शुभ्रिकोव फिर से चिल्लाने लगा। “जूविन्स्की ने चुगली खार्ड है क्या? हाँ, थी मेरी, और तब घड़ी की तरह चलती थी।”

“और फिर आपने उसे खराब कर दिया?”

“मैंने, मैंने! सब कुछ मैं ही तो करता हूँ! मेरे बिना सरातोव नगर मोवियत का गैराज कव्रिस्तान होता। मैं अकेला सारा मरम्मत का काम करता हूँ, और आप मेरा नाम लगाते हैं—मैं कार खराब करता हूँ। मैं मोवियत गाड़ियों की देखभाल करता हूँ। सोवियत गाड़ियां निजी गाड़ियों से चार गुना जल्दी खराब होती हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, अगर आपको पता नहीं। मैंने कामरेड कमिसार से चलते बक्त कहा भी था कि इंजन की हालत खस्ता है। किसने उसकी यह हालत की? मैंने की क्या? मैं मोवियत गाड़ियों की देखभाल के लिए गैराज में काम करने लगा। मैंग तो यह देखकर कलेजा मुंह को आता है कि कैसे सोवियत गाड़ियां...”

“बस कीजिये,” इंजेकोव ने उसे टोका। “जूविन्स्की ने यह कहा है कि आपने गेटर निकाल दिया था ताकि कार मार्च में काम न आ सके।”

“जूविन्स्की भूठा है! आप देखते नहीं, वह निश बक्की है?” जल्दी हथेली में मुंह पोंछते हुए शुभ्रिकोव चिल्लाया। “उसे इंजन के बारे में कुछ पता नहीं, ऊपर से कहता है कि मैंने कुछ कर दिया। भूठ बोलता है वह!”

“चूंकि जूविन्स्की को इंजन के बारे में कुछ पता नहीं, सो वह रोटर नहीं निकाल सकता था,” इज्वेकोव ने अपनी बात जारी रखी। “मतलब उसका यह कहना सही है कि आपने यह काम किया। क्या आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं?”

शुनिकोव ने इधर-उधर नज़र दौड़ाई, क्षण भर को जड़वत हो गया, फिर जल्दी-जल्दी हाथ से होंठ पोंछने लगा, मानो थूक की बजह से वह बोल न पा रहा हो। उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं।

“अगर आप खुद नहीं बताना चाहते कि आपने ऐसा क्यों किया, तो फिर हमें जूविन्स्की की बात पर भरोसा करना होगा। उसका कहना है कि आप अपनी भूतपूर्व सम्पत्ति को बचाना चाहते थे, इसलिए इंजन खराब कर दिया। अब जवाब दीजिये: क्या आप फौज छोड़कर भागना चाहते थे?”

“ठीक है,” शुनिकोव ने हौले से कहा और सिर झटका। “ठीक है। जूविन्स्की ने मुझे मरवाने के लिए भूठ बोला। वह सोचता है कि मैं व्यापारी तबके का हूं, इसलिए मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। वह भी कोई मज़दूर घर का पला नहीं है। ठीक है।”

“साफ़-साफ़ बोलिये।”

“मैं साफ़ बोल रहा हूं,” शुनिकोव ने अधिक ऊंचे, परन्तु अभी भी अस्फुट स्वर में कहा। “शपथ से कह रहा हूं। समझ लीजिये वाइल की शपथ खाकर। और आप सब लिख लीजिये, पेंसिल से ही सही, लिख लीजिये।”

उसने कमीज़ के कालर का बटन खोला। उसके होंठों पर गाढ़ी थूक के दो बिंदु उभर आये। वह ज़ोर-ज़ोर से सांस ले रहा था और जल्दी-जल्दी बोल रहा था।

“जूविन्स्की भागकर सफेद गाड़ी से जा मिलना चाहता था। मैं नहीं चाहता था। वह मुझे डरा-धमका रहा था, कहता था कि मेरी खोपड़ी में गोली दाग देगा, और किसी को पता तक न चलेगा। कहता था कि कार पर एक रात में सफेद गाड़ी तक पहुंचा जा सकता है।”

“क्या कहा था उसने यह सब?” इज्वेकोव ने पूछा।

“आखिरी बार जब हम रुके थे, तब। गांव में उसे यह खबर

मिली कि सफ्रेद गार्ड पेंज़ा में पहुंच गये हैं। किसान उनका इंतजार कर रहे थे। जब हम गांव के पास रुके थे तब उन्होंने उसे बताया था। और यह भी कि वे सरातोव की ओर बढ़ रहे हैं। किसान कहते थे बोल्शेविकों के दिन चुक गये। ”

“ कौन बढ़ रहा है सरातोव की ओर ? ”

“ सफ्रेद गार्ड। मिरोनोव और उसके सिपाही। उसने मुझे ठीक तरह से कुछ नहीं बताया। जल्दी कर रहा था। कहता था, अब सोचने का बक्त नहीं है। वस यही है सारी बात। सारा दोष उसका है, जूविन्स्की का। वस, अब आप जो चाहे कर लीजिये। ”

शुभ्निकोव ने खूब जोर से उसांस छोड़ी।

“ और उसने आपको रोटर निकालने का हुक्म दिया ? ”

“ उसने कहा : निकाल दो कोई पुर्जा-वुर्जा। ”

“ और आपने रोटर निकाल दिया ? ”

“ कामरेडो ! ” शुभ्निकोव चिल्लाया। “ कामरेड इज्वेकोव ! आप यह कैसे कह सकते हैं कि रोटर मैंने निकाला ? मुझे तो मौत की धमकी दी गई थी ! मुझे यह आजादी तो नहीं थी कि निकालूँ या न निकालूँ। ”

“ आप को मुझे समय रहते इस विश्वासघात के बारे में बता देने की तो पूरी आजादी थी, ” किरील ने कहा। “ जूविन्स्की जब स्टेशन पर चला गया था, तब तो आपको उससे कोई खतरा नहीं था। ”

“ पर जूविन्स्की अपनी जेब में रोटर जो ले गया था ! ” हताश शुभ्निकोव चीखा।

क्षण भर को सब चुप रहे।

“ लेकिन आपने मुझे धोखा दिया और जूविन्स्की का अपराध छिपाया, ” किरील ने कहा।

शुभ्निकोव नीचे को झुका, मानो घुटनों के बल गिरने लगा हो।

“ हाँ, यह मेरा कसूर है। मैं डर रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे। सोच रहा था कि हमारे निजी मम्बन्धों को देखते हुए आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे। ”

“ कैसे मम्बन्ध ? ” किरील ने रुखार्ड से कहा और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा।

समिति के दोनों दूसरे सदस्यों ने एक बार फिर उसे धूरकर देखा।

“अब मैं यहां तो वो सब बता नहीं सकता,” शुनिकोव चेहरे पर भोली-भाली मुस्कान लाते हुए बुद्बुदाया।

“और जो हो सो हो, निर्लज्ज भी हो।” इज्वेकोव से रहा न गया। “क्या यह स्वीकार करते हो कि सरातोव में ही जूविन्स्की के साथ सफेद गार्डों से जा मिलने की योजना बनाई थी?”

शुनिकोव ने हाथ आगे बढ़ा दिये, मानो हमले से बचाव कर रहा है और क्षण भर तक इसी मुद्रा में रहा।

“नहीं, नहीं। कोई योजना नहीं थी! यहां मैंने जो बताया है, वह बिल्कुल सच है, सोलह आने सच! मैं हालात का शिकार हुआ हूं। धमकी में आकर मैंने यह काम किया, बस। खुद कभी भी ऐसा न करता। मैं अपनी बात का पक्का हूं। सोवियतों की नौकरी स्वीकार की है, तो ईमान से कर रहा हूं।”

फौजी कमिसार ने खिन्न स्वर में कहा:

“मेरे विचार में मामला साफ़ है। अभियुक्त ने जान-बूझकर कार खराब की और उसने यह स्वीकार कर लिया है कि ऐसा अपने हाथों ही किया।”

“क्या मतलब अपने हाथों? मुझसे जबरदस्ती ऐसा करवाया गया! मैंने खुद यह नहीं किया। मैं तो धमकी का शिकार हूं। आप मुझे जूविन्स्की के बराबर कैसे रख सकते हैं? मैंने ऐसा क्या जुर्म किया है?”

“आपको फैसले से यह पता चल जायेगा कि किस जुर्म की सजा दी जा रही है,” किरील ने कहा और गार्ड की ओर देखा: “ले जाओ इसे।”

“फैसले से कैसे?” मेज पर गिरते हुए रुधे गले से शुनिकोव चिल्लाया। “फैसला सुना दिया, तो फिर जानने को क्या रह जायेगा? मैं अभी जानना चाहता हूं। ताकि साफ़ हो जाये कि दोष किसका है। अगर आप मुझे अपराधी करार दे रहे हैं, तो मैं अभी जूविन्स्की को यहां पेश करने की मांग करता हूं।”

“मेरे ख्याल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है न?” किरील ने समिति के दूसरे सदस्यों से कहा।

“ज़रूरत नहीं है?” शुनिकोव सहसा पागलों की तरह चीखा। “हां, हां, शुनिकोव को जीने की क्या ज़रूरत है? आपके लिए तो

युनिकोव की जिंदगी की कभी कोई जरूरत नहीं रही। लीज़ा के लिए मुझे माफ़ नहीं कर सकते! अब मैं आपके हत्ये चढ़ गया हूँ न? बदला लेना चाहते हैं न?"

"चुप हो जाओ!" किरील ने शांत, दृढ़ स्वर में उसकी चीख-पुकार को काटते हुए कहा।

"हां, हां, मेरा मुंह बंद करोगे! देख नहीं सकते न मुझे! नहीं, तुम्हारी यह चाल नहीं चलेगी!"

युनिकोव ने भटके से कमीज़ का कालर फाड़ डाला। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, नज़र भटक रही थी। सहसा उसने आंखें चढ़ा लीं, वह एकदम पीला पड़ गया और चीख मारकर धड़ाम से सीधा फर्श पर गिर पड़ा। उसका बदन ऐंठने लगा, सिर पीछे को लटक गया, सांस प्रायः श्वक गर्ड, वस रह-रहकर वह कराह उठता। उसकी जेव में मे कागज निकलकर फर्श पर विखर गये।

सब खड़े हो गये और चुपचाप उसकी ओर देखते रहे। फौजी कमिसार ने इतमीनान से कागज में तम्बाकू लपेटकर सिगरेट बनाई, उसे मुलगाया और कग लेने लगा, बीच-बीच में तिरछी नज़र से युनिकोव के विकृत चेहरे की ओर देखता जाता।

"शायद इसे बाहर ताजी हवा में ले जाना चाहिये?" व्यथित इज़वेकोव ने पूछा।

किसी ने जवाब नहीं दिया, और दो मिनट तक सब चुपचाप खड़े यह दौरा देखते रहे। फिर फौजी कमिसार ने शांत स्वर में, पर कुछ घिन के साथ कहा:

"बहुत देखे हैं मैंने ऐसे। इससे भी ज्यादा अच्छी तरह तमाशा करनेवाले हैं—डाक्टरों तक को पता नहीं चल पाता।"

वह खिड़की के पास चला गया, सिर थोड़ा पीछे को घुमाया और धुआं छोड़ते हुए बोला:

"उठो, युनिकोव। मामला साफ़ है।"

लेकिन युनिकोव और भी जोर से हाथ-पैर फेंकने लगा।

"ने जाओ इसे ड्योड़ी में," इज़वेकोव ने हृक्षि दिया। गार्ड ने चौखट पर अपनी बंदूक टिकाई और युनिकोव की बगलों में हाथ डालकर उसे कमरे से बाहर घमीट ले गया।

इसके बाद विचार-विमर्श आरम्भ हुआ। समिति के तीनों सदस्य इस बात पर सहमत थे कि शुब्लिकोव का दोष सिद्ध हो गया है—उसी ने तोड़-फोड़ की असल कार्रवाई अपने हाथों की थी। जहां तक जूविन्स्की का सवाल था, तो अपराध में उसके हिस्सा लेने के बारे में इज्वेकोव का यह परोक्ष सबूत ही था कि तोड़-फोड़ की कार्रवाई जिस वक्त हुई, उस वक्त जूविन्स्की शुब्लिकोव से बात कर रहा था। और शुब्लिकोव ने, हो सकता है, अपना दोष कम करने के लिए ही जूविन्स्की के खिलाफ गवाही दी हो। यह भी सम्भव था कि चूंकि जूविन्स्की ने शुब्लिकोव का भेद खोल दिया था, इसलिए उससे बदला लेने के इरादे से शुब्लिकोव ने उस पर भूठा आरोप लगाया हो। यद्यपि जूविन्स्की के दोषी होने में किसी को कोई संदेह नहीं था, तो भी उसके खिलाफ सबूत काफी नहीं थे, और साथ ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि ऐसे व्यक्ति ने और भी जाने क्या-क्या अपराध किये हों। अगर वे जल्दवाजी में मामले का फैसला कर देंगे, तो इन अपराधों का पता न लग सकेगा। इसलिये यह निश्चय किया गया कि जूविन्स्की का मामला अलग रखा जाये और अगर अनुकूल परिस्थिति हो, तो कैदी को सरातोव पहुंचवा दिया जाये।

इस विचार-विमर्श में कोई मतभेद उत्पन्न नहीं हुआ, परन्तु जब सज्जा तय करने का सवाल आया, तो इज्वेकोव ने सहसा यह कहा कि शेष दोनों सदस्य शुब्लिकोव को जो भी सज्जा देने का सुझाव रखेंगे, उसे वह स्वीकार करेगा, लेकिन स्वयं फैसले पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।

किरील इस बात के लिए तैयार था कि उसके साथी हैरान होंगे। लेकिन जब वे यह सुनकर एकदम चुप रहे तो उसने नजरें झुका लीं और उनकी भाँति ही जड़वत खड़ा रहा। फिर इससे पहले कि वे उससे कुछ पूछते, मन मारकर उसने इतना और कहा:

“निजी कारणों से मुझे इन्कार करना यड़ रहा है।”

लेकिन इन शब्दों से तनावपूर्ण खामोशी भंग होने के बजाय और गहरी हो गई।

“आप दोनों ने शुब्लिकोव को यह कहते सुना है कि मैं उससे निजी मामले पर बदला ले रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपके या और किसी के भी मन में कभी यह संदेह उठे कि बात ऐसी ही है।”

“पर तुमने मुकदमे में हिस्सा तो लिया था,” आखिर फौजी कमिसार बोला।

“हां, मैं यह सोच ही नहीं सकता था कि न्याय करने के मेरे अधिकार पर संदेह किया जायेगा। अभियुक्त ने तो अदालत की निष्पक्षता को चुनौती दी है।”

“हुं,” कार्यकारिणी का सदस्य हँस दिया। “तुम्हें इस चुनौती से क्या? प्रतिक्रियारी तो सारी क्रांति को ही चुनौती देते हैं।”

“मुझे इस बात की चिंता नहीं कि सफेद गार्ड हमारे अधिकार को मानते हैं या नहीं। लेकिन क्रांतिकारी को इस संदेह से परे होना चाहिए कि वह भले ही परोक्ष रूप से अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ करता है।”

“तुम्हारा क्या कोई इश्क-विश्व का भगड़ा है?” फौजी कमिसार ने सपाट सवाल किया।

किरील के सांबले चेहरे का जब रंग उड़ता था, वह एकदम पीला पड़ जाता था, और अब तो मानो उसमें हरा सा पुट आ गया। उसके आंखें दहक उठीं।

“हां, यही बात है,” एक-एक अक्षर पर जोर देते हुए उसने कहा।

“बीवी भगा ले गया क्या? लीज़ा का नाम ले रहा था।”

“यह फ़िजूल बात है।”

“तुम क्या मौत की सज्जा के खिलाफ़ हो?” कार्यकारिणी के सदस्य ने जोर से कहा।

किरील खिड़की के पास चला गया। दोनों साथियों ने उसकी ओर सिर घुमाया और सबने देखा कि बाहर गार्ड शुन्निकोव को गली के पार लिये जा रहा था। वह फुर्ती से कदम भर रहा था।

“वह देखो, जिसकी तुम बकालत कर रहे हो, वह भला-चंगा चला जा रहा है!” फौजी कमिसार ने कहा।

किरील तेज़ी से उसकी ओर धूम गया।

“मैं उसकी रक्षा नहीं कर रहा – उसके लांछनों से हम सब की रक्षा कर रहा हूं!”

“तुम अपने हाथ नहीं रंगना चाहते?”

“यह कोई गंदा काम है क्या? पर वह कमीना अपनी उल्टी-सीधी

बातों से इस पर लांछन लगाना चाहता है। और मुझे कोई हक नहीं कि मैं ऐसा होने दूँ।”

“मतलब, तुम कन्नी काट रहे हो,” कार्यकारिणी के सदस्य ने कुछ चुभते हुए से अंदाज में कहा। “उसके भड़कावे में आ रहे हो।”

किरील दरवाजे की ओर बढ़ गया और उसकी मूठ पकड़कर रुका।

“अगर आप चाहते हैं, तो पार्टी मेरे इस व्यवहार पर गौर कर सकती है... क्या मैं मौत की सज्जा के खिलाफ़ हूँ? नहीं। मेरे ख्याल में और कोई सज्जा नहीं दी जा सकती। पर शुनिकोव को सज्जा देने के फ़ैसले पर हस्ताक्षर मैं नहीं करूँगा।”

उसने ठोकर मारकर दरवाजा खोला और बाहर चला गया।

इधर-उधर देखने पर उसे ओसारे पर बैठे अरदली के अलावा कम्पनी का कोई आदमी नज़र नहीं आया—अहाता, गली, गांव के बाहर के टीले सब कुछ सूना था। उसने गली पार की, दो-तीन घर आगे बढ़कर उसने अपने आप को एक बाग के सामने पाया, जिसकी बाड़ टूटी हुई थी। वह बाग में घुस गया।

बाग उजड़ा हुआ था। गड्ढों में कंटीला भाड़-भंखाड़ उग आया था, और उनके बीच सेब के पेड़ों के ठूँठ दिखाई दे रहे थे, जो कभी फलों से लदी टहनियों के बोझ से तड़क गये थे; पेड़ों की कतारों के बीच वेरियों की कांटेदार भाड़ियां थीं, जिन पर छोटे-छोटे सफेद फूलों वाली बेलें चढ़ी हुई थीं।

किरील एक टूटे हुए सेब के साल-दो साल बड़े पेड़ के सामने रुक गया। छाती तक ऊंचे टूटे हुए तने से एक बड़ी टहनी निकली हुई थी, जो विल्कुल आदमी की बांह की तरह बगल से ऊपर को उठी हुई थी, और उस पर खूब सारी पत्तियां उग रही थीं। तने के एक भाग पर छाल विल्कुल उतरी हुई थी, नीचे की सूखी लकड़ी उभरी हुई थी, दूसरे भाग पर छाल ने अपने सिरे अंदर को मोड़ लिये थे, मानो तने के अभी तक हरे-भरे भाग को अच्छी तरह छिपाये रखने का भरसक जतन कर रही हो।

किरील ने गांठदार तने पर हाथ रखा। उसे लग रहा था कि उजड़े बाग से मन पर पड़ रही छापों पर ही उसका सारा ध्यान केंद्रित है। लेकिन इन छापों के पीछे विचारों का मंथन निरंतर जारी था।

वह मोच रहा था कि कहीं धणिक दुर्वलता का शिकार तो नहीं हुआ , हो सकता है उसके साथियों का कहना ठीक हो कि उसने अपना कर्तव्य निभाने से कन्नी काटी है। उसे भी तो अपने इस वर्ताव के लिए किसी के सम्मुख जवाब देना होगा । कोई उसका भी न्याय करेगा , जैसे आज वह शुनिकोव का न्याय कर रहा था ।

उसके मृति-पटल पर आनोच्का की उस पर लगी नज़र आन्चर्यजनक स्पष्टता के माथ उभर आई । वेशक , वह शायद यह कहेगी नहीं , पर सोचेगी ज़रूर कि किरील को लीज़ा के पति से निजी तौर पर घृणा थी । शायद कभी लीज़ा से ही मुलाकात हो जाये । और वह भी शायद किरील को कहेगी तो नहीं , पर मन ही मन सोचेगी : यही मेरे वेटे के बाप की मौत का कारण बना था । किरील की मां भी शायद चुप रहेगी , पर नज़रें चुरा लेगी और सोचेगी : अच्छा होता अगर किरील ने ऐसी अफ़वाहें फैलने का मौका न दिया होता कि वह अपने निजी कारणों में प्रेरित होकर कुछ कर सकता था । और क्या उसके साथ जिन साथियों ने शुनिकोव के मामले की जांच-पड़ताल की थी , उन्हें कुछ ऐसा बाद नहीं रह जायेगा कि इस मामले से इज़बेकोव का कोई अंतरंग मसला भी जुड़ा हुआ था ? इश्क की बात , जैसा कि फौजी कमिसार ने कहा था , यानी ऐसी बात जो दूसरों की नज़रों में नहीं आनी चाहिये , छिपी होनी चाहिए , कोई गुप्त बात ।

पर क्या उमका फ़ैसले पर हस्ताक्षर न करना दिखावे के अलावा कुछ मानी भी रखता है ? शुनिकोव के अपराध से ही उसकी सजा तय हो गई है । किरील का यह अडिग विश्वास है कि शुनिकोव के लिए मौत की सजा सही है । इस बात से सचमुच कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं कि वह हस्ताक्षर नहीं करेगा ? हाँ , वहुत फ़र्क पड़ता है । फ़र्क यह पड़ता है कि सजा के फ़ैसले पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करके किरील इस लांछन को भूठा सावित कर देता है कि शुनिकोव उसका धिकार है । इस तरह उस भूठ का पर्दाफ़ाश होता है , जो क्रांति के मेनानी पर , यानी स्वयं क्रांति पर चोट करना चाहता है । नहीं , नहीं , किरील ने महीं फ़ैसला किया है !

महमा एक नये विचार मे वह स्तव्य हो गया : अगर शुनिकोव जिंदा बच गया , तो ? यह भी तो हो सकता है कि उसे मौत की सजा

न सुनाई जाये ? क्या तब शुभ्निकोव खुश नहीं होगा कि उसके उकसावे का तीर निशाने पर बैठा ?

किरील ने टूटा तना कसकर मुट्ठी में भीच लिया। तने के स्पर्श की अनुभूति ने उसे इस संसार में लौटाया। उसने फिर से लहलहाती टहनी देखी। यह देखकर बहुत अजीब लगता था कि कैसे टूटा हुआ तना जीवन की इतनी तीव्र लालसा से यह टहनी आकाश की ओर बढ़ा रहा था। वृक्ष का अंत निश्चित था, परन्तु उतनी ही अधिक उत्कट कामना के साथ वह अपने अस्तित्व का पल्ला पकड़े हुए था और उसकी कुरुप छाल का अंतिम टुकड़ा असम्भव सी प्रतीत होती शक्ति के साथ एकमात्र हरी-भरी टहनी को पोस रहा था। क्या यह टहनी वची रहेगी ? नहीं। और कुछ समय तक वह पेड़ का शेष रस चूसती हुई नई कोंपलें देती रहेगी, जब तक कि तना विल्कुल सूख नहीं जाता, लकड़ी का टुकड़ा नहीं बन जाता। फिर उसकी मुरझाई पत्तियां झड़ जायेंगी और वह कभी हरी-भरी नहीं होगी। ऐसे मृतप्राय बाग में अगर फिर से प्राण फूंकने ही हैं, तो सबसे पहले पुराने ठूंठों और खुत्थियों को उखाड़ फेंकना होगा, जमीन को नये सिरे से जोतना होगा।

किरील के मुंह से निकला :

“ नहीं, नहीं, मौत की सजा ही सुनाई जायेगी ... ”

सहसा उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी।

उसने इधर-उधर नज़र दौड़ाई। बाग के पासवाले अहाते के पिछवाड़ों में उसे कोठार दिखाई दिया, उसके सामने बंदूक उठाये खड़ा सैनिक हड्डवड़ाकर कोठार के दरवाजे की ओर लपका और कुंडा खोलने लगा। उसी क्षण किरील को ख्याल आया कि कैदियों को कोठार में रखा गया है – शुभ्निकोव को गार्ड इसी दिशा में ले गया था। किरील मदद करने दौड़ा।

यह लट्टों की बनी मज़बूत इमारत थी, जिसमें छत के पास भरोखे बने हुए थे। ऐसे छोटे-छोटे, सुघड़ कोठार किसान मवेशियों के छप्पर के पास ही या अहाते के पिछवाड़े में बनाते हैं, और इनमें अनाज रखते हैं।

उस दिन सुबह ही ज़ूविन्स्की और शुभ्निकोव को यहां रखा गया था, और तब गिरफ्तारी के बाद पहली बार उन्हें खुलकर बातें करने

का मौका मिला था। बोल्स्क से यहां तक मार्च करते समय और पड़ावों के वक्त भी उनके आस-पास काफ़ी लोग होते थे।

जबाबतलवी से पहले शुरू में तो वे खिसियाये-खिसियाये से वातचीत कर रहे थे। शुन्निकोव जूविन्स्की से कह रहा था कि उसकी जल्दवाजी ने सारा काम विगाड़ा है, और जूविन्स्की उसे दोषी ठहरा रहा था, क्योंकि उसने बहुत ही भोंडे ढंग से इंजन खराब किया था, जैसे कि उसके अलावा किसी को इंजन के बारे में कुछ पता ही न हो। पर यह ममझते हुए कि एक दूसरे को उलाहना देकर वे अपनी दुखद स्थिति को बदल नहीं सकते, दोनों शांत हो गये और मिलकर सोचने लगे कि कैसे भाग निकलने की कोशिश की जाये। वे इस निष्कर्प पर पहुंचे कि उन्हें उस क्षण का इंतजार करना चाहिए जब कम्पनी काम में लगेगी, और अभी जब तक शांति है, खामर्खाह अपनी किस्मत आज़माने में कोई तुक नहीं। फिर वातचीत में कुछ शायराना पुट आ गया। शुन्निकोव पुराने सुनहरे दिनों को याद करने लगा। बखार में मिले गेहूं के कुछ दाने चवाते हुए वह बड़े जोश में कह रहा था:

“इस कमवक्त आपसी लड़ाई ने कितनी मेधाएं डुवो दी हैं! मुझे ही लो! कैसी मेधा है! ओह, कैसी मेधा है! पर इससे होता क्या है जबकि हमारे इन ऐतिहासिक दिनों में सारी मेधा इसी काम में लगती है कि कैसे जेल से बचा जाये?”

“फिर भी बच नहीं पाये,” जूविन्स्की ने आग में घी डाला।

“तो कसूर किसका है? तुम्हारी ही मेहरवानी है!”

फिर से वे भगड़ने लगे।

अचानक एक गार्ड आया और जूविन्स्की को न जाने कहां ले गया। वह वस शुन्निकोव के कान में डतना कह पाया: “कुछ भी हो मानना नहीं!” लौटने पर उसने बताया कि क्रांतिकारी समिति मुकदमा चला रही है, और यह कि वह हर बात से इन्कार करता रहा है। “संभलके रहना,” उसने शुन्निकोव को सावधान किया।

जबाबतलवी के बाद उन्हें न यह डर था कि उन्हें सरक रहना चाहिए और न ही यह आशा कि वे अभी भी एक दूसरे के काम आ नकरें हैं। वे अपनी हताशा को गालियां बककर दवाने की कोशिश कर रहे थे। अगर वे गाली-गनौज न करते, तो भय से थरथर कांपते।

अपने भय को उन्होंने क्रोध का रूप दे दिया। शुभ्निकोव वार-वार यह कहे जा रहा था कि जूविन्स्की ने उसके साथ दगा की है।

“क्या रट लगा रखी है? मैंने सच बात कही थी कि मुझे कारों के बारे में कुछ पता नहीं। और कुछ नहीं कहा मैंने।”

“नहीं, तूने भूठ बोला कि तू कारों की दौड़ में सबसे बढ़कर है! और अगर तू सचमुच ऐसा है, तो इसका मतलब तूने ही गाड़ी खराब की।”

“उन्होंने तुझे उल्लू बनाया है, वेबकूफ़!”

“बहका मत मुझे! रोटर कौन जेव में ले गया था?”

“मुझे क्या पता तूने अपनी जेवों में क्या ठूंस रखा है।”

“पर मुझे पता है कि तूने अपनी जेव में क्या रखा था! और यह भी जान ले कि इज्वेकोव को भी यह पता है!”

“तू क्या उगल आया?” सहसा जूविन्स्की ने विनम्र बनते हुए पूछा।

“तेरा क्या ख्याल है मैं तेरी खातिर अपनी जान दे दूँगा? बुद्ध मिल गया न तुझे, यह ले, चख ले!”

“तो क्या मैं तेरी खातिर जान दूँगा?”

“तू अपने किये का फल पायेगा!”

“अच्छा, श्रीमान जी, आपने अभी मेरी जेवें अच्छी तरह नहीं देखी हैं।”

“वच नहीं पायेगा! जैसे तूने मुझे डुबोया, वैसे ही मैंने भी! देखो तो, डुबोने चला था! साले मैं तुझे खुद पहले डुबो दूँगा। अब सब पता चल गया है कि मैंने तेरी धमकी में आकर ऐसा किया। और तू गदार है।”

“तू सोचता है मेरी जान की कीमत पर अपनी जान बचा लेगा?” जूविन्स्की ने कहा। “तो जा फिर जहन्नुम में, कुत्ते!”

कोठार के धुंधलके में शुभ्निकोव ने देखा कि जूविन्स्की ने कोट के अंदर हाथ डाला और तुरन्त ही बाहर निकाल लिया। शुभ्निकोव वस मुंह ही खोल पाया।

एक ही बार में जूविन्स्की ने बड़ी सहजता से उसे मार डाला और झरोखे से आ रही रोशनी की ओर दो नपे-तुले क़दम बढ़ाये।

अपनी वर्दी पर नजर डालकर उसने वायें हाथ से धूल भाड़ी, रिवाल्वर वाला दायां हाथ छाती तक उठाया और यह प्रतीक्षा करने लगों कि कब दरवाज़ा खुलता हैः बाहर सिपाही कुँड़ा खोलने में लगा हुआ था।

कोठार में जैसे ही तेज रोशनी हुई, जूविन्स्की ने गोली दाग दी, पर उसी क्षण सैनिक ने बंदूक का कुँदा उसकी छाती पर मारकर उसे गिरा दिया और धर दबोचा।

तभी किरील दौड़ा आया और जूविन्स्की के ऐंठे हाथ में से ठंडा, चपटा रिवाल्वर छीनने लगा। एक बार और गोली चली, फिर रिवाल्वर इज्वेकोव के हाथ में आ गया। जूविन्स्की को औंधा कर दिया गया और उसके हाथ पीठ पीछे मरोड़ दिये गये। सैनिक ने किरील से कहा कि कोठार के बाहर ताजी उतारी छाल की पट्टियां रखी हुई हैं। लिंडन की छाल की लंबी पट्टी से जूविन्स्की के हाथ बांध दिये।

शुब्लिकोव चित पड़ा हुआ था, उसकी टांगें फैली हुई थीं। सिर में हुआ घातक घाव प्रायः रक्तहीन था।

प्रहरी सैनिक का कंधा गोली से छिल गया था, उसकी कमीज का बाजू लाल हो गया था। किरील फ़र्झ पर गिरी बदूक उठाना चाहता था, पर सैनिक ने उसे परे हटा दिया।

“इसकी इजाजत नहीं है। कामरेड कमिसार, आप कह दीजिए कि मेरी जगह किसी और को भेज दें। तब तक मैं अपनी चौकी से नहीं हट सकता।”

किरील अकेला जूविन्स्की को भोपड़ी में ले गया।

अब जाकर उन्हें यह स्याल आया कि कैदियों की अच्छी तरह तनायी नहीं ली गई थीः जूविन्स्की के वर्दी के कोट में अंदर बगल में जेव थी, जिम्में उसने रिवाल्वर छिपा रखा था। इस घटना की छानबीन में पंद्रह मिनट से ज्यादा नहीं लगे। क्रांतिकारी समिति ने यह पाया कि मोर्चे पर जूविन्स्की को गिरफ्तार रखना खतरनाक है। उसके अपराधों को देखते हुए उसे गोली से उड़ा देने की सजा सुनाई गई।

कम्मनी के क्लर्क से स्याही ली गई, पर कलम में मैल फ़ंसी हुई थी। किरील ने बड़े जतन में उसे साफ़ किया।

उमने सबसे पहले अपनी मुस्पष्ट लिखाई में सजा के फ़ैसले पर हम्माक्षर किये।

अगले दिन सुबह इज्वेकोव और दीविच घोड़ों पर सवार होकर यह देखने निकले कि कम्पनी और टुकड़ी कहां-कहां तैनात हैं।

दीविच ने यहां के भूभाग का लाभ उठाते हुए दुश्मन को चारों ओर से घेरने की योजना बनाई थी और क्रांतिकारी समिति ने उसे स्वीकार कर लिया था। ख्वालीन्स्क की टुकड़ी अपनी उसी जगह पर ही रही थी, जहां कम्पनी के यहां पहुंचने के समय वह थी, हां, वह उत्तरी टीले की ढलान पर थोड़ी नीचे उत्तर आयी थी, ताकि घने भोज वृक्षों वाले कनिस्तान की आड़ ले सके। प्रमुख स्थानों पर कम्पनी के सिपाही तैनात किये गये थे। उसकी कुछ पलटनें रेप्योक्का से पूर्व की ओर बड़ी सड़क के पीछे तैनात थीं और उन्हें सीधे हमला करना था। शेष पलटनें दक्षिणी टीले पर फैली हुई थीं। यहां काफ़ी झाड़ियां उग रही थीं, जो पश्चिम में जंगल से जा मिलती थीं।

पहाड़ी पर फैले इस जंगल में अगल-वगल से पहुंचना कठिन था, क्योंकि जंगल बहुत घना था और उसमें पगड़ंडियां नहीं थीं। जंगल का एकमात्र रास्ता सीधे रेप्योक्का से जाता था और वह विद्रोहियों के हाथों में था। सुबह पौ फटने के समय टोहियों ने दुश्मन को इस सड़क पर जाते देखा था: गिरोह बगीचों से होता हुआ पीछे हट गया था और जंगल के किनारे ऊंचाई पर डट गया था, रेप्योक्का में दुश्मन आड़ के तौर पर थोड़े से लोग ही रहने दिये थे।

इस तरह यह पता चला कि एक तो पश्चिम में प्राकृतिक वाधा के कारण गिरोह को चारों ओर से घेरा नहीं जा सकता, दूसरे, दुश्मन या तो जंगल में टक्कर लेना चाहता है या जंगल के अंदर तितर-वितर हो जाना चाहता है। इसलिए इज्वेकोव ने यह सुझाव दिया कि अगल-वगल की टुकड़ियां अधिक मज़बूत कर दी जायें, ताकि जंगल में दुश्मन का पीछा किया जा सके। दीविच इस सुझाव से सहमत था और वह बड़ी सड़क के पार पूर्वी लाइन से कुछ पलटनों को वहां से हटाने चला गया।

किरील दक्षिणी टीले पर ही रह गया, घोड़े से उत्तरकर वह झुरमुटों से होता हुआ यहां तैनात सैनिकों की लाइन के वगल-वगल चलने लगा।

मुवह के अलावों का धुआं उड़ गया था और सैनिक कहीं अकेले और कहीं तीन-तीन चार-चार की टोलियों में बैठे अपने-अपने कामों में लगे हुए थे। किरील यह देखकर हैरान हुआ कि ये दल कितने छोटे-छोटे नग रहे थे और दुश्मन को खदेड़ने के लिए उन्होंने जो लाइन बनाई थी, उसमें मैनिकों की कड़ियां कितनी विरली थीं। कम्पनी जब मढ़क पर मार्च कर रही थी तो वह खासी बड़ी लगती थी।

कुछ भाड़ियों के पीछे से बुझते अलाव की गर्माहट का आभास हुआ, और उसी क्षण किरील को चहकती आवाज़ सुनाई दी:

“मेरे पास एक कुत्ता था—पूरा अकल का खजाना। मैं उसके माथ घुरगोओं का शिकार करने जाता था।”

“ठहर, ठहर, कौन से पत्ते से काट रहा है?” — रोवदार आवाज़ मुनाई दी।

“तुम्हप मे, और किससे?”

“वहका मत! तुम्हप हुकुम है, चिड़ी नहीं।”

“अच्छा, हुकुम है!” चहकते सिपाही ने कहा। “हुकुम तुम बजाओ। हमारे पास हुकुम नहीं है!”

किरील ने आगे कदम बढ़ाया और पत्तियों के पीछे उसे अलाव से थोड़ी दूर दो सिपाही पनथी मारे बैठे दिखे। वे ‘भोंदू’ खेल खेल रहे थे, खंडक घोदने का वेलचा उनके लिए मेज़ का काम दे रहा था। वह फौर्न ही दोनों को पहचान गया।

बोल्क से मार्च के पहले दिन ही किरील का ध्यान उन दोनों की ओर गया था, और दीविच ने उसे इन अलग-अलग उम्र के सिपाहियों के बारे में बताया था, जिनमें हमउम्रों से भी ज्यादा गहरी दोस्ती थी।

इपातं इपान्येव और नीकोन कर्नाइखोव विश्व युद्ध के दिनों में एक ही कम्पनी में थे और एक ही लड़ाई में दोनों घायल हुए। इपात को अस्पताल में पहले छुट्टी मिल गई और वह फिर से मोर्चे पर पहुंच गया। नीकोन अक्नूबर क्रांति के समय मास्को में था, उसने गांव लौटने में पहले कुछ पैसे कमाने की मोर्ची और फेरी लगाने लगा। बेचाग दिन-गत फेरी लगाता रहता, पर पैसे फिर भी हाथ न आते, वह चीजों के दाम इतनी जल्दी नहीं बढ़ा पाता था, जितनी जल्दी

नोटों की कीमत घट रही थी। फिर भी वह शहर में दिन काटे जा रहा था। एक दिन सुखारेब्का बाजार में गश्ती दल ने घेरा डाला और नीकोन भी आवारागर्दी के लिए पकड़ा गया। इस गश्ती दल में इपात भी था, पुरानी दोस्ती के नाते उसने नीकोन को छुड़वा दिया। शीघ्र ही इपात को चेक कोर के खिलाफ लड़ने भेज दिया गया, वहां उसकी आंख को चोट पहुंची थी, इलाज के लिए वह मास्को आया, फौज से उसे सेवामुक्त कर दिया गया और नीकोन ने उसे अपने पास ठहराया। इसके बाद से वे कभी जुदा नहीं हुए।

दोनों सरातोब प्रदेश के थे, पर अलग-अलग ज़िलों के। इपात के गांव पर सफेद गाड़ों का कब्जा था और नीकोन के गांव में सोवियत सत्ता स्थापित हो चुकी थी। सरातोब पहुंचने पर इपात को पता चला कि वह घर नहीं जा सकता और उसने नीकोन को इस बात पर राजी कर लिया कि वे लाल सेना में भरती हो जायें। नीकोन मन मारकर ही तैयार हुआ—घुमक्कड़ ज़िंदगी से वह आज़िज्ज आ गया था और जल्दी से जल्दी घर लौटना चाहता था। पर इपात कायल कराने के लिए इतना आतुर रहता था कि नीकोन सदा न-न करते हुए भी उसकी बात मान जाया करता था।

मार्च के दौरान इपात और नीकोन को देखते हुए किरील ने दीविच को यह याद दिलाया कि तोलस्तोय ने सैनिकों को कुछ लाक्षणिक किस्मों में विभाजित किया था और इस विभाजन से वह कभी वहूत प्रभावित हुआ था। किरील और दीविच ने नीकोन को आज़ाकारी किस्म का माना और इपात को नेतृत्वकारी किस्म का। परन्तु रूसी सैनिकों के पुराने लक्षणों के साथ-साथ नीकोन और इपात दोनों में ही प्रत्यक्षतः कुछ नये लक्षण भी आ गये थे। नीकोन जोड़-तोड़कर स्वप्न देखता था और जैसी परिस्थितियां होतीं, उन्हें स्वीकार कर लेता ताकि अपना स्वप्न बनाये रखे और किसी न किसी दिन उसे साकार कर ले। इपात में अपने युग के विशिष्ट नेतृत्वकारी लक्षण थे—वह क्रांतिकारी था, पक्का लाल गाड़ी, जिसका आदर्श मज़दूर सैनिक था। उसने लड़ते हुए कार्पथीय पर्वत पार किये, ओर्शा तक पीछे हटा, उक़इना को जर्मनों से मुक्त करने में भाग लिया और विद्रोही चेकों का पीछा किया—वह युद्ध को पूरी गहराई में समझने को उतावला था और

उन ऐमी वाधा समझता था, जिस पर उसे भुंभलाहट होती थी, पर जिसे पार करना लाजिमी था।

पत्तियों के पीछे से उन्हें ताश खेलते देखकर किरील को याद आया कि दीविच ने र्तीश्वेवो में इपात से पहली मुलाकात का क्या किस्सा मुनाया था, साथ ही उसे पास्तुखोव के बारे में हुई बातचीत भी याद हो आई।

“वह भी ख्वालीन्स्क का है,” दीविच ने पास्तुखोव के बारे में कहा था।

“पर उमने ख्वालीन्स्क तो नहीं जाना चाहा,” किरील ने कहा था। “इपात ने उमकी असलियत समझ ली थी। पता है, पास्तुखोव मरगतोव में सफेद गार्डों के पास भाग गया?”

“मुझे पता है, वह चला गया ...”

दीविच ने अपनी बात पूरी किये विना उदासी भरी उसांस छोड़ी थी:

“पत्नी उसकी कितनी सुंदर है! घर लौटकर मैं भी अपने लिए आम्या हूँढ़ लूंगा ...”

उमने लजाते हुए तिरछी नज़रों से इज्वेकोव की ओर देखा था और फिर घोड़े को पीछे मोड़कर दौड़ा ले गया था – पीछे छूट रही रमद की घोड़ागाड़ियों को जलदी चलने को कहने।

उम वीच हाथ नचा-नचाकर बेलचे पर पत्ते फेंकते हुए खिलाड़ी बातें किये जा रहे थे।

“इत्ता रईस था वो, भाई मेरे,” चुटकी में दबाये पत्तों को पंच की तरह खोलते हुए इपात कह रहा था, “इत्ता रईस कि हम्माम में जाकर वीयर से नहाता था। हुं ...”

“अरे, क्यूँ देगम से वादगाह को काटे हैं?”

“नहीं भई, यह तो गुलाम को काटा है... और एक बार तो न्योहार के दिन रम से नहाया ... पी है कभी रम? नहीं? अरे स्पिरिट में तिगुनी तेज होती है... समझा? सो भेजा नौकर को, जा हम्माम में रम ले आ ... ने, फिर तू भोंदू का भोंदू! कल का मिलाके सात बार भोंदू बन गया।”

“कल की गिनो, तो तू भी खास अकलमंद नहीं,” नीकोन ने कहा और पत्ते फेंककर जमीन पर कोहनी टेक ली।

“और मैं साफ़ हिसाब कर रहा हूँ। सात बार तू भोंदू रहा। कमज़ोर है तेरी समझ, जब्ती तो मास्को में तेरा दिवाला निकल गया था।”

“अरे, तो तेरी समझ कौन सी बहुत बड़ी है !”

इपात ने टांगें सीधी कीं, पीठ के बल लेट गया और आसमान की ओर ताकते हुए बोला :

“मेरी समझ में तो बस दो ही बातें हैं। पहली बात कैसे चोखा शिकार हो। दूसरी—कैसे दुनिया को बदलके ठीक किया जाये।”

“हाँ, हाँ, तू ही बदलेगा !”

“हम बदलेंगे।”

“वो कैसे ?”

“वो ऐसे। जो कुछ बंटता नहीं—वह सब का हो। अब जैसे धोड़ा है, धोड़े को बांटा नहीं जा सकता, सो वो तेरा भी हो, और मेरा भी, और किसी दूसरे का भी। ताकि हर कोई उससे खेत जोते, काम ले। यही समझ की बात है।”

“तेरे पास धोड़ा है ?”

“नहीं है।”

“तभी तो,” नीकोन ने आहत स्वर में कहा और खुद भी लेट गया। थोड़ी देर सोचकर उसने पूछा :

“और जो चीज़ बांटी जा सकती है ?”

“वह सबको बरावर-बरावर मिले।”

नीकोन फिर चुप हो गया।

“मैंने शहर में देखा है यह सब,” उसके दिमाग में मानो कोई नया विचार आया, “सब समझता हूँ कहाँ से यह हवा चली है। सब काट-छांट दो, यह काट दो, वो बांट दो !”

“तू जिंदा कैसे बच गया ?” सहसा इपात ने गुस्से में पूछा।

“चौकस रहा, इसीलिए बच गया। चौकस न रहता, तो बस दो मिनट में काम तमाम हो जाता ! शहर में तो गांव वालों का कचूमर निकाला जाता है।”

“अरे, गांव वाले शहर के बिना क्या करेंगे ?”

“और शहर वाले गांव के बिना ?”

“फाल के लिए लोहा चाहिए ? लोहार शहर गया और ले आया। पाटे के लिए दांते चाहिए ? फिर शहर जाओ। पहिये पर हाल चढ़ाना है ? चलो शहर।”

“यह तो व्योपार की बात है। पर पहिया कौन चलायेगा ? यही है अमल बात !” नीकोन ने चालाकी से कहा।

“गांव बालों में रजामंदी है—वस मिलकर, हाथ में हाथ डालके पहिया चलाया और लो पूरा पहिया घूम गया !”

“हुं, मिलकर !” नीकोन ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा। “घर में या तो मर्द का राज होता है या औरत का। कहता है मिलकर !”

किरील ने भाड़ियों के पीछे से निकलकर उन्हें नमस्ते की। दोनों उठकर बैठ गये। इपात ने खुश होते हुए कहा:

“कामरेड कमिसार।”

“आड़ये, बैठिये,” नीकोन ने सकुचाते हुए कहा और जमीन पर बिछे अपने ओवरकोट का दामन खींचकर ताग छिपाने की कोशिश करने लगा।

“हमारी वहस हो रही है,” इपात जोश से बताने लगा।

“छोड़ भी न,” नीकोन ने हाथ झटका, “बड़ी ज़रूरत है हमारी बक-बक की !”

“तू उहर भी। चूंकि आजकल सर्वहारा और ग्रामीण गरीबों में महवंध है,” इपात फर्टे से उस भापा में बोलने लगा, जो उसके विचार में कमिसार से बातचीत के लिए अधिक उपयुक्त थी, “तो नीकोन को मंदेह हो रहा है कि शासन की बागडोर किसके हाथ में होगी ? यह कहता है कि घर में या तो मर्द का राज होगा, या औंगत का, मिलकर काम नहीं हो सकता।”

“एक पुरानी कहावत है,” किरील ने जवाब दिया। “पनचक्की पानी से ही चनती है, पानी से ही दूटती है।”

“इसका क्या मतलब ?” नीकोन ने फिरकते हुए पूछा।

“यही तो मतलब है !” इपात तुरंत ही खुशी से चिल्लाया। “जनता है न ... वही सारा काम चलाती है। पर तुम उसे ठीक तरह में पहिये की ओर बढ़ाओ। गलत दिग्गा में बढ़ा दिया, तो वस साग बांध ही वह जायेगा।”

“तू क्यों बीच में टांग अड़ाता है? कामरेड कमिसार को समझाने दे।”

“इपात ठीक कहता है,” किरील ने कहा। “ठीक दिशा में ले जाने के लिए ऐसी शक्ति होनी चाहिए, जिसमें ऐसा करने की वुद्धि हो। ऐसी शक्ति मज़दूरों के हाथ में है।”

“देखा?” मानो अपनी जीत पर खुश होते हुए इपात फिर से बीच में बोल उठा। “इन सफेद गार्डों को ही लो। ये किसानों से मदद मांगने जाते हैं, पर राज जमींदारों का कराना चाहते हैं। लोगों को गलत दिशा में ले जाते हैं, इसीलिए उनकी सारी वाज़ी उल्टी पड़ रही है।”

वह गर्व से इज्जेकोव की ओर देखने लगा, उसके प्रोत्साहन की प्रतीक्षा में। किरील ने सिर हिलाया। तब प्रोत्साहन पाकर उसने विश्वासपात्र बन गये व्यक्ति की भाँति एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछा:

“आप तो पढ़े-लिखे लगते हैं। हमें यह कौतूहल हो रहा है कि आप जो मेहनतकशों की क्रांति में भाग लेने लगे, इसके पीछे आपका कोई खास इरादा था, या कि यों ही?”

किरील जवाब नहीं दे पाया।

निचाई में बंदूक से गोली दागी गई और जंगल में उसकी आवाज़ कई बार प्रतिघटनित हुई। फिर रेप्योन्का के बाहरी भाग से टीलों पर और बड़ी सड़क पर तेज़ी से गोलियां दागी गईं। एक गोली पास ही सन्न से पत्तियों को चीरती हुई निकल गई।

नीकोन उछलकर खड़ा हो गया, एक कदम पीछे हटा, पर फिर रुककर बोला:

“कामरेड कमिसार, आप पेड़ के पीछे हो जाइये। यहां खड़े हैं, तो दूर से दिखाई देता है।”

इपात ने हैले से ओवरकोट का दामन समेटा, घास पर पड़े पत्ते उठाये और मुड़े-तुड़े पत्तों की जितनी अच्छी गट्टी बन सकती थी, बनाकर जेव में रख ली और ऊपर से बटन बंद कर दिया।

“हमारी लाइन का पता लगाना चाहते हैं,” सहसा वह बड़े-बूढ़ों के से अंदाज़ में बोला। “और ऊपर से धोखा भी दे रहे हैं, जैसे कि गांव में जमे हुए हैं और खुद वहां पर हैं।”

उन्हें अंगूठा घुमाकर जंगल के किनारे की ओर इशारा किया।

“तुम्हारी ओर की कमान खुद कम्पनी कमांडर के हाथ में है,” किरील ने कहा। “मेरी जगह उधर बड़ी सड़क के पार है। आज हमें इस गिरेह का सफाया कर ही देना है।”

“आप जब कहेंगे, तभी सफाया कर देंगे,” डपात ने फिर से अपनी चहकती आवाज में कहा।

वह किरील को घोड़े तक छोड़ने गया, आगे बढ़कर रकाब पकड़नी और घोड़े पर बैठने में किरील की मदद की।

गम्ने में किरील को दीविच मिला, वह बड़ी सड़क से सैनिकों के एक दल को उधर ला रहा था। दीविच उमंग में दूर से ही चिल्लाया:

“दुधमन परेशान हो रहे हैं! खामोशी नहीं सही जा रही उनसे। कोई बात नहीं, अभी बोलेंगे हम!”

पन भर को थमकर किरील और दीविच ने अपनी घड़ी मिलाई, फिर कमांडर ने हाथ आगे बढ़ाया, कमिसार ने उसकी खुली हथेली पर जोर में हाथ मारा और मुस्कराते हुए दोनों अपने-अपने रास्ते पर बढ़ गये।

गत को ही मुरम्द बादल धिरने लगे थे और अब सारे आसमान पर छा गये थे। बूदावांदी होने लगी थी। हवा विल्कुल नहीं चल रही थी और भीनी-भीनी वाग्नि के कारण खितिज से खितिज तक कुहासा मा छा गया था, उसमें चारों ओर का दृश्य देखते-देखते ही बदलने लगा था। हवा में ताजगी आ गई थी और सड़क के पुश्टे की आड़ में नेट भैंसिक वाग्नि में बचने के लिए अपने ओवरकोट खोलने लगे थे।

किरील ने अपनी लाइन का चक्कर लगाया और फिर वीचोंवीच जगह चुनकर लेट गया। वह बार-बार घड़ी देख रहा था, और जितना अधिक वह घड़ी देखता, मुझ्यां उतनी ही धीरे-धीरे बढ़ती लगती।

हमला उत्तरी टीने के मैनिकों को आरम्भ करना था। स्वालीन्क की टुकड़ी को रेष्योक्ता में जंगल को जनेवाला रास्ता काटने का काम भीषा गया था। उसके बाद उन्हें बगीचों से होते हुए पछिचम को जंगल की ओर बढ़ना था। उमी धर्ण बड़ी मड़क के पार में रेष्योक्ता पर भीधे हमला किया जाना था, ताकि वहां पर विद्रोहियों की आड़ को नष्ट किया जा सके। इस अभियान का तीसरा, निर्णायक काम वायें

पार्श्व के सैनिकों को सौंपा गया था, जिन्हें दक्षिण की ओर से दुश्मन के बड़े दल के चंडावल में निकलना था।

किरील को सारी योजना इतनी स्पष्ट लग रही थी, और उसने चारों ओर के भूभाग को इतने गौर से देख लिया था, उसमें अपनी सारी कार्रवाइयों की इतनी अच्छी तरह कल्पना कर ली थी कि उसे विश्वास था कि सारी कार्रवाई ठीक योजना के अनुसार ही हो सकती है, और किसी तरह नहीं।

ज्यों-ज्यों दायें पार्श्व की टुकड़ी द्वारा हमले का क्षण निकट आता जा रहा था, त्यों-त्यों किरील की बैचैनी बढ़ती जा रही थी। बारिश के कारण टीले धूंधले पड़ गये थे और जंगल तो कुहासे के आवरण के पीछे छिप ही गया था। बाइनोकुलर से कब्रगाह के स्थाह से पड़ गये भोज वृक्षों को मुश्किल से देखते हुए किरील यह महसूस कर रहा था कि उसे हिले-डुले बिना लेटे रहने और सैनिकों पर अपनी बैचैनी प्रकट न होने देने के लिए अधिकाधिक यत्न करना पड़ रहा है।

इज्वेकोव को पास ही जानी-पहचानी आवाज सुनाई दी।

“कमिसार कहां है?”

उठे बिना वह बगल पर मुड़ गया।

इपात एक बंदूक कंधे पर लटकाये और दूसरी हाथ में उठाये अपने आगे-आगे निरस्त्र नीकोन को धकेलता ला रहा था।

“आपके पास लाया हूँ, कामरेड कमिसार,” सड़क के पास रुककर उसने ऊंची आवाज में कहा। वह नीकोन की बांह पकड़े हुए था।

“तुम अपनी चौकी छोड़कर कैसे चले आये?” इज्वेकोव ने जल्दी से पूछा, वह इस अप्रत्याशित दृश्य को तुरंत ही समझ नहीं पाया और इन दोनों सैनिकों को इस हालत में देखकर उसे आश्चर्य हो रहा था।

इपात की उभरी हुई, पथरायी सी आंखों में दुस्साहसपूर्ण संकल्प भलक रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उसका सिर कालर में से निकली नंगी, पतली गर्दन पर ऊचा उठा हुआ था।

“कामरेड कमांडर ने भगोड़े कर्नाऊखोव को आपके पास लाने का हुक्म दिया है, आप इसका फ़ैसला करें।”

“क्या कहा? भगोड़ा?”

“छोड़ भी,” जमीन में आंखें गड़ाये नीकोन बड़वड़ाया।

“ डजाजत हो तो बताऊं ? ”

“ जल्दी करो ! ”

“ कामरेड कमिसार , मुझे इसकी बातों पर अरसे से संदेह हो रहा था । यहां पास ही के ज़िले में इसका गांव है , कामरेड कमिसार । ”

“ सीधी बात करो । ”

“ मैं सीधे ही बता रहा हूँ । सो यह कह रहा था कि देख , सारी लड़ाई लड़ आया , जिंदा बच गया और अब यहां घर की दहलीज पर आकर जान देनी पड़ रही है । कहता था , हर आदमी की कोई न कोई निशानी बच रहती है । कहता है , कोई वेंच बना जाता है , कोई नदी किनारे पैड़ियां । और कहता है , तेरी क्या निशानी बचेगी – मड़ी हुड़ी लाग ? ”

“ पर किया क्या है इसने ? ” अधीरता से घड़ी देखते हुए इज्वेकोव ने पूछा ।

“ मैंने सोचा आंख तो मेरी एक ही है , पर तुझे मैं आर-पार देख रहा हूँ । मैंने पूछा , तू धावा बोलने तो चलेगा कि नहीं ? कहता है , तू युद जा । और मुझे गाली भी दी डासने । कहता है मैं तो अपने गांव जाऊँगा । अच्छा बच्चू , यह बात है , मैंने सोचा । झट से इसकी बंदूक झफट ली , और बोला : नहीं , भगोड़े कुत्ते , तू अपने गांव नहीं जायेगा , तू गोली खाने जायेगा । गोली खाने ! और वस सीधा कमांडर के पास ले गया । कमांडर ने मुझे हुक्म दिया : जाओ , कमिसार के पास ले जाओ , जो वे कहेंगे , वही होगा । उड़ा देना चाहिए इसे गोली से कामरेड कमिसार , जाये भाड़ में । ” निर्ममता से इपात ने अपनी बात खत्म की ।

“ ठीक है – और क्या बात है ? ” किरील ने कहा और मुड़कर पहले मड़क के पार नज़र डाली फिर घड़ी देखी ।

“ आहा ! सुना तूने ? ” इपात ने नीकोन की ओर कदम बढ़ाकर कहा ।

“ तुम क्या लड़ाई से पहले अपने साथियों से दगा करने चले हो ? ” किरील ने पूछा ।

“ ये सब डमकी मनगढ़ंत बातें हैं , कामरेड कमिसार , ” नीकोन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा । “ बड़ा गरम मिजाज है यह । ”

“मनगढ़त बातें?” इपात गुस्से में चिल्लाया। “नदी पर पैड़ियां भी मैंने अपने मन से गढ़ी हैं?”

“यह तो कव से मुझे धमका रहा था कि शिकायत कर दूँगा। मेरी बातें इसे पसन्द नहीं आती थीं। ठीक है, वहस होती थी, पर वो तो यों ही बातें करते थे हम, वकत बिताने को, जैसे ताश खेल ली ...”

नीकोन परेशान सा खड़ा था, नये बूट पहने आदमी की तरह पांव बदल रहा था, बस कभी-कभी नीची झुकी नजरें उठाकर उलाहने से इपात की ओर देख लेता।

“तो क्या तुम धावा बोलने नहीं जाओगे, कर्नाऊलोव?” इज्वेकोव ने पूछा।

“जाऊंगा क्यों नहीं, कामरेड कमिसार! यही तो हमारा काम है। मैं भी कोई इपात से बुरा सैनिक तो रहा नहीं।”

किरील कुछ कहना चाहता था, पर तभी मशीनगन की प्रश्नसूचक तड़ातड़ भीगी-भीगी हवा को चीरती आई और फिर वंदूकें चलने लगीं। गोलियां दाईं ओर से दागी जा रही थीं—इतना तो किरील भांप गया। पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वे किस दिशा में दागी जा रही हैं। उसने गहरी सांस खींची और तुरंत ही सांस छोड़ नहीं पाया। एक गहरी टीस से मानो उसके हृदय की धड़कन रुक गई, और इस क्षण उसने जो कुछ देखा उस सबमें असाधारण स्पष्टता और एक विशिष्ट सार्थकता थी।

“तू लड़ किसके लिए रहा है, बताया था न मैंने तुझे?” इपात ने नरम पड़ते हुए पर अभी भी तिरस्कार के पुट के साथ पूछा। “अपने लिये लड़ रहा है। हम नये मानव की सृष्टि करेंगे। समझाया था न मैंने तुझे?”

किरील ने सिर घुमाया। वह मानो एक दूसरी ही दुनिया से इन सैनिकों को देख रहा था, उसने कानों में पड़े अंतिम, अनवूफ शब्द दोहराये और सहसा उनका अर्थ समझ लिया: हम नये मानव की सृष्टि करेंगे। वह पुश्ते पर से उतर आया।

“अगर तुमने लड़ाई में वहादुरी दिखाई, तो तुम्हें माफ कर दूँगा। अगर नहीं तो दोष तुम्हारा ही होगा।”

उसने इपात के कंधे पर हाथ रखा।

“बंदूक दे दो इसे। और इस पर नज़र रखना। तुम्हारे जिम्मे मौंप रहा हूं इसे। अब जाओ दौड़कर अपनी-अपनी जगह।”

“खूब नज़र रखूँगा मैं!” इपात ने चहकते हर्षमय स्वर में कहा।

कंधे पर लटकी बंदूक को कोहनी से दवाये वे सैनिकों की लाइन के पीछे छोटे-छोटे कदमों से तेज़-तेज़ दौड़ते चले गये। पर किरील उन्हें नहीं देख रहा था।

वाइनोकुलर में कव्रिस्तान पहले की ही भाँति जड़वत दिखाई दे रहा था, मगर वह मानो छोटे-छोटे सुस्पष्ट भागों में विभाजित हो गया था, जिन पर किरील नज़रें गड़ाये हुए था। वह अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि गोलियों का निशाना किधर है—कन्वे की ओर या जंगल की ओर? पर उसे कुछ पता नहीं चल पा रहा था, खास तौर पर जव जवाब में रेप्योक्ता से इधर-उधर से गोलियां चलने लगीं, और फिर वारिश के आवरण के पीछे जंगल में छिपा गिरोह मिलकर गोलियां चलाने लगा।

किरील ने वाइनोकुलर कस्बे की ओर घुमाया। उसी क्षण, पल भर को थम गई गोलीबारी के बीच उसे अजीव सी चीखें सुनाई दीं, और सड़क तथा रेप्योक्ता के बीच फैले खेत पर उड़ते कौओं के झुंड दिखाई दिये। कौए कस्बे के ऊपर मंडरा रहे थे, वे गिरजे के नीले गुम्बदों से दूर उड़ते और फिर वही लौट आते। उनकी अजीव चीं-चीं और कांव-कांव मशीनगन और बंदूकों की तड़ातड़ और धांय-धांय में अधिकाधिक जोर से घुलती-मिलती जा रही थी।

इसके बाद जो कुछ हुआ, वह किरील को उस योजना का हर तरह से उल्लंघन लगा, जिसकी कल्पना वह इतनी स्पष्टता से कर रहा था और जिसे विल्कुल सही-सही पूरा करने का वह हर बक्त जतन कर रहा था।

ख्वालीन्क की टुकड़ी गोलीबारी शुरू करने के बाद निर्धारित ममय से पहले ही धावा बोलने वढ़ चली। किरील को भोज वृक्षों की पृष्ठभूमि पर कव्रिस्तान में भागती छोटी-छोटी आकृतियां दिखाई दीं, जो ढलान में उतरकर बगीचों की हरियाली में खोती जा रही थीं। योजना के अनुमार इमी क्षण बड़ी मड़क की ओर से हमला आरम्भ

होना चाहिए था। किन्तु यह धर्म किरील के अनुमान से पहले ही आ गया था, और यह सोचते हुए कि अब सब कुछ वैसे नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए था, उसने रिवाल्वर सिर के ऊपर उठाया और उसे हिलाते हुए, अपने दायें-वायें नज़र घुमाते हुए चिल्लाया: “वढ़ चलो!” अपनी आवाज उसे विल्कुल वैसी नहीं लगी, जैसी वह सुनना चाहता था। सड़क पर चढ़कर किरील ने उसे पार किया और नीचे उतर गया। पीछे मुड़कर देखने पर उसे सड़क पर दौड़ते सैनिक भीमकाय लगे, उनके खुले ओवरकोट फटीचर से लगते थे। किरील फिर से चिल्लाया: “वढ़ चलो, मेरे पीछे!”

रिवाल्वर सिर के ऊपर उठाये वह खेत में दौड़ने लगा। उसके कान इर्द-गिर्द की आवाजों पर लगे हुए थे। पीछे से और अगल-वगल से भारी कदमों की चाप आ रही थी और ऊपर अभी तक मंडरा रहे कौए कांव-कांव कर रहे थे। उसे अपने शरीर का कोई अहसास नहीं था, हालांकि पांव रह-रहकर जुते खेत की लीकों और ढेलों से टकरा रहे थे। वह बार-बार कुछ चिल्ला रहा था।

वे आधा खेत पार कर चुके थे, जब रेप्योव्का के कुछ कोठारों के पीछे से उन पर गोलियां चलाई गईं। किरील ने दौड़ते-दौड़ते ही नज़र घुमाई। उसके बाईं ओर से दूसरा सैनिक सहसा ठिक गया, मानो दौड़ते हुए अदृश्य वाधा से टकरा गया हो, उसका पूरा धड़ पीछे को घूम गया और वह चारों खाने चित गिर पड़ा।

“लेटो!” किरील हाथ नीचे को हिलाकर चिल्लाया और गिर पड़ा। “कोठारों पर फ़ायर करो!”

वह अभी पूरा आदेश दे भी नहीं पाया था और सभी सैनिक अभी लेटे भी नहीं थे कि इधर से भी जवाब में बंदूकें चलने लगीं। किरील ने रिवाल्वर की सारी गोलियां एक कोठार पर दाग दीं और फिर से गोलियां भरीं।

उसके पास वाला सैनिक – भारी-भरकम, घनी मूँछें और टोपी उल्टी पहनी हुई – बोला:

“सन पर गोली चलाइये। देखा, पौधे हिल रहे हैं!”

उसने दूसरी ओर सिर घुमाया और शांत स्वर में चिल्लाया, जैसे मिलकर काम करते हुए कोई चिल्लाता है:

“मन पर नज़र रखो, भाइयो! वगीचों पर!”

उसकी तेज नज़र पर किरील को आश्चर्य हुआ: वह सन के काले में खाड़ तुरंत ही नहीं देख पाया, जो कहीं-कहीं कोठारों जितने उच्चे थे। पर सैनिकों ने निशाना देख लिया था और उधर गोलियां बरसा रहे थे।

अचानक किरील को एक आदमी दिखा, जो एक घर के पीछे से निकलकर गली के पार भागा। एक शिकारी की शिकार हाथ से न जाने देने की उत्कट इच्छा के साथ, जैसी उसके मन में पहली बार जागी थी, किरील ने उसका निशाना साधा, पर वह पलक झपकते ही ओभल हो गया। उसके पीछे-पीछे वैसे ही दो आदमी गली के पार भागे, फिर कर्ड और। मुच्छड़ सैनिक बंदूक का घोड़ा चढ़ाते हुए निराशा मिले स्वर में बोला:

“भाग रहे हैं दुम दवाकर।”

किरील उछलकर खड़ा हो गया और उसकी देखा-देखी दूसरे सैनिक भी। सैनिक उससे आगे निकलकर वगीचों तक पहुंच गये, और बंदूकें बाड़ के पार रखते हुए और खुद फांदकर या चरमराती बाड़ पर चढ़कर उसे पार करते हुए वगीचों की क्यारियों में उगी बंदगोभी रौदते दौड़ चले। मैनिक छितरी कतार में बढ़ते आये थे, पर अब कोठारों के बीच की मंकरी गलियों में बढ़ने लगे। गोलियां लगातार चल रही थीं और बीच-बीच में सैनिक विना किसी आदेश के ही ‘हुर्रा’ चिल्ला उठते थे। इस एक शब्द में ही शब्द के प्रति सारी धृणा और अपना सारा जोश वे उड़ेल देते।

किरील भी सबके माथ दौड़ रहा था, सबकी भाँति ही चिल्ला रहा था और गोलियां चला रहा था। उसे कस्बे की सड़क पर बंदूकें उठाये अंधाधुंध भागते कुछ लोग नज़र आये, उसके मन ने कहा कि वे दुष्प्रभाव हैं, पर उनपर बार नहीं कर सका, क्योंकि रिवाल्वर में गोलियां भर रहा था। इस सड़क की ओर जाते हुए रास्ते में दो और लोग दिखे, जो जमीन पर औंधे पड़े हुए थे। वह उन्हें फांदकर बढ़ गया।

उसे वस इतना याद था कि उसे सैनिकों को बाज़ार के चौक में ने जाना है, और वहां कम्बे के बीच में जो कोई भी विरोध करता हो उसे मार देना या गिरफ्तार कर लेना है।

पर जब वह चौक पर पहुंचा, तो सामने से भी छितरी-छितरी गोलियां चल रही थीं। उसने जल्दी से मुड़कर नजर दौड़ाई, अपने सैनिकों के छिपने के लिए जगह ढूँढ़ी। उसी क्षण चौक के दूसरी ओर से, तहसील कार्यालय की लकड़ी की टूटी इमारत और गिरजे के पीछे से ख्वालीन्स्क की टुकड़ी के सैनिक भी उसके सैनिकों की भाँति 'हुर्रा' चिल्लाते हुए प्रकट हुए।

यह तो योजना का ऐसा उल्लंघन था, जिसे किरील कर्तई समझ नहीं पा रहा था। इस टुकड़ी को रेप्योव्का और जंगल के बीच का रास्ता काटना था और कस्बे में घुसे बिना शत्रु के प्रमुख दल की ओर बढ़ना था।

किरील ख्वालीन्स्क के सैनिकों की ओर दौड़ा यह पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा है। पर वे उसकी ओर कोई ध्यान दिये बिना चौक में दौड़े जा रहे थे, दौड़ते-दौड़ते ही वंदूकों में गोलियां भर रहे थे और चिल्ला रहे थे। वह उनमें से आखिरी सैनिक को पकड़ना चाहता था, उसकी ओर रिवाल्वर हिलाने लगा। तहसील कार्यालय के पास वह उसके पास पहुंच ही गया था, पर तभी ठिक्काकर रह गया।

सड़क पर, कीचड़ भरी लीकों के बीचोंबीच देह पड़ी हुई थी। यह एक युवती की देह थी, उसकी बांहें फैली हुई थीं, उसकी बैंगनी पोशाक फटी हुई थी, वारिश से भीगकर शरीर से चिपक गई थी। उसकी खोपड़ी माथे से गुद्दी तक चिरी हुई थी, एक ओर को छिटकी सुनहरे बालों की चोटी लीक में कीचड़ में धंसी पड़ी थी। चेहरे का ऊपरी भाग – माथे का बच गया हिस्सा, मुंदी आंखें, बांसा – सब कीचड़ और जमे हुए खून से काला पड़ा हुआ था। पर सुधङ्ग नथुनों से नीचे – मोतियों की लड़ी जैसे दांतों के ऊपर उठा उसका कोमल होंठ, ठोड़ी और सुंदर गर्दन – यह सब साफ़ था और इसमें ऐसी कोमलता थी, मानो युवती सो रही हो और किसी भी क्षण सोते-सोते उसांस छोड़ेगी।

किरील फटी-फटी, जड़ आंखों से यह लाश देख रहा था। उसकी ठोड़ी और गर्दन में, जहां वारिश की बूँदें चमक रही थीं, अनवूँ ख स्पष्टता के साथ उसे आनोच्का की ठोड़ी और गर्दन दिखीं, जैसी वे उस क्षण होती थीं, जब वह कुछ बात सुनने के लिए अपना सिर जरा सा पीछे को हटा लेती थी।

गिरजे के पीछे से उड़ते आये कौओं के भुंड की चीं-चीं और कांव-कांव उसके कानों से टकराई और उसका रोम-रोम सिहर उठा।

चौक खाली पड़ा था। दोनों टुकड़ियों के सैनिक मिलकर कस्बे की सड़क पर दौड़े जा रहे थे, जिसके दोनों ओर घर एक दूसरे से काफी दूर-दूर थे।

अभी तक जो कुछ घट रहा था उसकी तुलना किरील मस्तिष्क में निर्धारित उन कार्वाड़ियों से कर रहा था, जिनके लिए उसने अपने को तैयार किया था। अब उसके मन में वस एक ही इच्छा थी कि वह उन सबका खात्मा करता जाये, जो कीचड़ भरी सड़क पर पड़ी उस युवती की मृत्यु के लिए उत्तरदायी थे। वह बड़ी तेज़ी से अपने सैनिकों के पीछे दौड़ चला।

अब यह स्पष्ट हो गया था कि रेप्पोक्का में आड़ देने के लिए रह गये बलवाई दक्षिणी टीले की ओर भागे हैं, डस उम्मीद में कि वहां भाड़ियों में तितर-वितर हो जायेंगे। ढलान पर अलग-अलग बलवाई दिखाई देने लगे, जो पीछे मुड़-मुड़कर गोलियां चला रहे थे और छिपने को दौड़ रहे थे। लेकिन उनका पीछा निर्ममता से किया जा रहा था।

कम्बे के बाहर एक कच्चे रास्ते पर पहुंचकर किरील ने देखा कैमे विना कमरवंद के खुली कमीज पहने तथा नंगे सिर बाले एक लुटेरे ने बंदूक फेंक दी और हाथ ऊपर उठाये, पर उसी क्षण ढह गया। उसके बाद दूसरे भी हाथ ऊपर उठाने लगे, लेकिन सैनिक गोलियां बलाने जा रहे थे – और किरील भी गोलियां दाग रहा था, यह देखे विना कि जिन पर वह गोलियां दाग रहा है, वे हथियार डाल रहे हैं या बंदूकें चला रहे हैं।

इस बीच जंगल की ओर से भी लड़ाई की आवाज आने लगी – कभी लगातार और कभी रुक-रुककर, गोलीवारी की दूरी से यह समझा जा सकता था कि दीविच के सैनिकों ने भी वहां धावा बोल दिया है।

लगातार दौड़ने के बाद अब कहीं किरील रुका और जब उसकी मांस में मांस आई, तो उसने हथियार डाल रहे लोगों को बंदी बनाने का आदेश दिया। पहले दो बंदियों को उसके पास लाया गया। उनकी आतकिन और गिड़गिड़ती नज़रों से उसकी नजर टकराई और उसने नुग्न ही मुह फेंग लिया।

“मिरोनोव के हो ?” उसने पूछा , अपने गुस्से से भिंचे दांतों को वह खोल न पा रहा था ।

“नहीं , नहीं ! भगोड़े हैं !” दोनों ने एक साथ हड्डवड़ी में जवाब दिया , मानो विजेता को यह आश्वासन दिला देने की जल्दी में हों कि उनका गिरोह विल्कुल घटिया दरजे का है ।

“कितनी बंदूकें हैं ?”

“सौ से थोड़ी ही कम हैं ।”

“मशीनगन ?”

“एक है – ‘मक्सीम’ ।”

बंदियों के लिए गार्ड नियुक्त करके किरील ने सब सैनिकों को जमा होने और लाइन बनाने का आदेश दिया । अलग से लाइन में खड़े हो गये स्वालीन्स्क के सैनिकों की संख्या देखकर कुछ पूछे विना ही वह समझ गया कि टुकड़ी में से इस छोटे से दल को रेप्योव्हा पर कब्जा करने में मदद के लिए भेजा गया है । उनमें कोई हताहत नहीं हुआ था । किरील के सैनिकों में से सात नहीं थे । चिकित्सा सहायक ने रपट दी कि उसने चार मामूली धायल सैनिकों की मरहमपट्टी की है , और उनके नाम बताये । फिर खेत रहे सैनिकों के नाम गिनाये जाने लगे , किरील को एक नाम कुछ अजीब सा लगा : पोर्टुगालोव ।

“कौन था यह पोर्टुगालोव ?”

“मूँछों वाला । अकेला वही ऐसी मूँछों वाला था ।”

“अच्छे डील-डैल वाला ?” इज्वेकोव ने पूछा और तुरन्त ही उसे अपने वगल का वह सैनिक याद हो आया , जो इतने शांत स्वर में चिल्लाया था कि सन पर निशाना लगायें ।

किरील के मुंह से करारी गाली और उसने उस ओर मुक्का दिखाया जिधर से गोलियां चलने की आवाज आ रही थी ।

“हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है ,” सैनिकों को सम्बोधित करते हुए वह चिल्लाया । “चलो , अपने कामरेडों का बदला लेने !”

उसने सैनिकों को अपने पीछे चलने का आदेश दिया ।

चुपचाप , बेमेल कदमों से वे कस्बे से गुजरने लगे । सभी अहातों के फाटक बंद थे और अहातों के अंदर घरों की खिड़कियों में जीवन का कोई चिह्न नहीं दिख रहा था । यद्यपि वे जंगल के पास पहुंचते जा रहे

थे, वहां कम पड़ती गोलीवारी मानो दूर होती जा रही थी और काफ़ी छिनरी-छितरी थी। बगीचों के बाहर उन्हें एक संदेशबाहक सैनिक मिला, जिसे दीविच ने कस्बे की स्थिति का पता लेने भेजा था। किरील उससे बात करने ही लगा था कि जंगल के रास्ते पर घोड़े की टाप सुनाई दी और मोड़ के पीछे से दीविच प्रकट हुआ।

लड़ाई के दौरान किरील ने यह पहला दमकता, हर्षमय चेहरा देखा था।

“क्या हमारी मदद को आ रहे हैं? कैसा रहा आपके यहां? कर दिया सफाया? बधाई हो,” घोड़े को रोकते हुए एक सांस में ही वह कह गया। “हताहत हैं? धृत तेरे की! बंदी हैं? कितने? मेरे मैनिक इन हरामधोरों को जंगल में पकड़ रहे हैं। अच्छा मज़ा चखाया हमने ढन्हें! सरदार का काम तमाम कर दिया। मशीनगन छीन ली। मव कुछ ठीक वैसे ही हुआ, जैसे हमने सोच रखा था!”

दीविच की ओर देखते हुए, जो उसे जवाब देने का मौका ही नहीं दे रहा था, किरील भी सहसा यह समझ गया कि सब कुछ विन्कुल योजना के अनुमार ही हुआ था। अब कहीं जाकर उसे यह ममझ में आया कि जो कुछ हुआ था, वह योजना का उल्लंघन कर्तव्य नहीं था, वल्कि उसकी असीम वेचैनी थी और यह उत्कट इच्छा कि योजना का जरा सा भी उल्लंघन न हो।

“आप पैदल क्यों हैं? घोड़ा कहां है?” दीविच सवाल पूछे जा रहा था।

“वाह भई, घोड़े पर सवार होकर मैं खेत में सैनिकों को धावा बोलने ले जाता!”

“अरे हाँ। मैंगा तो सिर फिर गया है!” दीविच हँस पड़ा। “आपने अपनी क्या गत बना ली है! रेंगते आये?”

किरील ने पहली बार अपने कपड़ों पर नज़र डाली। छाती और पेट, घुटने और टांगे – सब कीचड़ में मने हुए थे, हाथों पर खरोंचों में खून निकल रहा था। उसे याद नहीं था कि कब खरोंच आई, और उसे जग भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था।

उन्हें गम्जे से हटना पड़ा: जंगल से वंदियों को लाया जा रहा था। एक बार फिर किरील की नज़र इन नज़रों से टकराई, जिनमें गिड़गिड़ा-

हट के साथ मौत का भय मिला हुआ था। चिथड़ों में लिपटे इन लोगों में, जो कभी सैनिक थे, अब सैनिकों के लक्षणों की शायद कोई हल्की सी झलक ही रह गई थी, और कुछ नहीं। पांव घसीटते, कंगालों के जुलूस से वे चले जा रहे थे। तभी उनके बगल में ही एक और दृष्टि उसकी नज़र से टकराई – हर्षमय, चुनौती भरी दृष्टि। वह उसे पहचान गया।

इपात इपात्येव दूसरे लाल सैनिकों के साथ इन भगोड़ों को बंदी बनाकर ले जा रहा था।

“कामरेड कमिसार, इजाजत हो तो रपट दूं,” चाल धीमी किये विना ही इपात चिल्लाया। “नीकोन कर्नाइखोव कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा, सच्चे लाल सैनिक की भाँति !”

“ज़िंदा है ?”

“ज़िंदा है, कामरेड कमिसार।”

“अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। कह देना उससे – बड़ी अच्छी बात है !”

किरील दीविच की ओर देखकर मुस्कराया, और वे एक दूसरे की बात समझ गये।

“नवदीक्षित !” दीविच ने भी मुस्कराते हुए कहा।

उन्होंने आगे की कार्रवाई तय की और दीविच घोड़ा दौड़ा ले गया ...

तीसरे दिन रेप्योव्का में बलवे का शिकार हुए लोगों को दफ़नाया गया। कस्ता छोड़ने से पहले गिरोह ने कस्ते के कुलकों के साथ मिलकर बंधकों की हत्या कर दी थी। तीन लोगों को उन्होंने बंधक बना रखा था – तहसील सोवियत के अध्यक्ष, नगर से आये खाद्य विभाग के कमिसार तथा स्कूल की अध्यापिका को, जिसकी लाश हमले के दौरान किरील ने सड़क पर पड़ी देखी थी। उनके साथ ही युद्ध में खेत रहे लाल सैनिकों को भी दफ़नाया गया।

लकड़ी के तख्तों से, जिन पर रंदा भी नहीं फेरा गया था, पेटियों जैसे बने आठ ताबूत गिरजे के अलिंद पर रखे गये थे – यहीं यहां सबसे ऊँची जगह थी, जिसे सब देख सकते थे। आस-पास के गांवों से बहुत सारे लोग आये थे और स्वयं रेप्योव्का के लोग भी इस बलवे

के बाद होश में आने लगे थे—सभी अहातों से लोग निकलकर चौक में जमा हुए, फूसफूमाते बच्चों की टोलियां भीड़ में कौतूहलवश इधर-उधर घुम रही थी।

हवा बहूत तेज़ चल रही थी, वारिश कभी थम जाती, कभी फिर होने लगती। खुले ताबूतों के ऊपर झुकाया हुआ लाल झंडा जोर-जोर से फड़फड़ा रहा था। भोज वृक्षों से और अलिंद पर सजावट के ताँग पर ग्यारे गई चीड़ की टहनियों की गंध से शरद कृतु की निकटता का आभास हो रहा था। किमान लड़कियों ने पुराने अखबारों और निकाफों के पीले कागज से बेलवूटे बनाकर ताबूतों को सजा दिया था।

किरील काफी देर तक मृत युवती की ऊपर को उठी कोमल ठोड़ी को देखता रहा। युवती का चेहरा अपनी ओर आकर्पित कर रहा था; उस्मे नजरे हटाने के लिए उसे मुंह मोड़ना पड़ा। मुंह मोड़कर उसने आम-गान की ओर आखेर उठाई। सुरमई घटाएं काफ़ी नीची थी, उन्होंने मानो आममान को आम-पास के टीलों पर टिका दिया था। कस्ता विगाल कड़ाहे की तली पर पड़ा लगता था, जिसमें से उमड़ता-घुमड़ता धुआं उठ रहा था।

किरील को मभा आरम्भ करनी थी। उसने एक बार फिर ताबूतों पर नजर दौड़ाई। हवा पोर्टुगालोव की मूँछें हिला रही थी, सैनिक का घांत चेहरा मानो मुस्कराना चाहता था।

किरील के मुह मे पहला घब्द “साथियो” निकलते ही सब लोग निस्तब्ध हो गये। परन्तु उसने यह महसूस किया कि इस निस्तब्धता के बावजूद लोग उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। जीवन में पहली बार अपनी आवाज पर उमका बम न रहा था। सहसा उसका गला रुध आया।

फिर ताबूतों को कंधों पर उठाया गया और सब लोग चौक के दूसरे मिरे की ओर चल दिये, जहां एक साभी कन्न खोदी गई थी। तीन बार बंदूके दाग कर मलामी दी गई, और एक बार फिर कौए, जो हाल ही के अपने डर को भूल चुके थे, फिर से चीखने लगे। जंगल मे गडगड़ानी प्रतिष्ठनि आई। लोगों ने फिर से मिर ढक लिये।

घटे भर बाद श्वालीन्स्क के भैनिक कताग्वङ्ग वंदियों को लेकर कम्बे मे गुजरे। घोड़ों पर मवार डज्वेकोव और दीविच उन्हें अपने पास मे जाने देखते रहे।

वंदियों में कुछ जान आ गई थी। उनकी चाल-ढाल में अब सभी सैनिकों वाली वह बात आ गई थी, जिससे वे कुछ-कुछ उन्हें ले जाएं हैं लाल सैनिकों जैसे ही लगने लगे थे। उनके कदमों से लगता था फिर विल्कुल पस्त थे, पर मौत का डर अब उनमें नहीं रहा था।

उनमें लाल सैनिकों सी जो समानता आ गई थी, वह किरीट के बुरी लगी, वंदियों के चेहरों से उसे पहले की ही भाँति धिन हो रही थी और मन में दबा-दबा गुस्सा उठ रहा था। भौंहें सिकोड़क उसने वंदियों को रेप्योव्हका के बाहर निकलकर कच्चे रास्ते से हो जाए शहर की सड़क की ओर जाते देखा। फिर उसने घोड़ा मोड़ा और दीविच से कुछ कहे बिना ही चल दिया। अभी रेप्योव्हका के कुलकर्णी और मुकदमा चलाकर उनका निवटारा भी करना था।

२७

उस धूपहले दिन, जब इज्वेकोव और दीविच ने बड़ी सड़क पर उत्तर की ओर प्रस्थान किया, वर्षास्नात ग्रामीण प्रदेश अत्यंत रमणीय प्रतीत हो रहा था।

शरद ऋतु ने चारों ओर अपने शोख लाल-पीले रंग छिटका दिये, परन्तु अभी ग्रीष्म के मटमैले हरे रंग का ही प्रभुत्व था। पिछों कुछ दिनों की वर्षा से धास में फिर से वैसी ही ताजी हरियाली आ गई थी, जैसी मई में होती है। चटकीली हरी धास के मैदानों पर मेप्रवृक्ष के पीले पत्ते उभरे-उभरे लगते थे। बर्डचैरी के वृक्षों पर इकर्के दुक्की सिंदूरी पत्तियां बूँदों सी लटकी धूप में झिलमिला रही थीं। वगीचों की जुती हुई जमीन जामुनी सी थी और उसके धुंधले रंग वगल में वंदगोभियों की फूली-फूली क्यारियां सीपियों सी चमक रहीं।

लेकिन चढ़ाई चढ़कर किरील ने काठी में बैठे-बैठे ही पीछे जन्जर दौड़ाई, तो वहां ऐसा अंतहीन विस्तार पाया कि उसमें रंग का यह सारा छुटपुट खेल खो गया।

बाईं ओर बोला तट के कहीं बूचे और कहीं हरे-भरे टीले तक चले गये थे, इन्हीं टीलों से बोल्स्क तक फैली खड़िया की पहाड़ियां

आरम्भ होती थीं, जिन्हें देवीच्छी (कुमारी) पहाड़ियां कहा जाता था । उनके पीछे कहीं-कहीं बोला भलक रही थी । दाईं और जंगल का आड़ा-तिग्छा किनारा था । ऊंचे मैदान पर जंगल जितनी दूर जाता जा रहा था । उतना ही अधिक बीहड़ और रहस्यमय लगता था । नीचे, बड़ी मड़क में शोड़ा हटकर बगीचों का हरा दुशाला ओढ़े रेप्योव्हा था ।

नयनाभिराम टीलों और जंगलों के बीच वसे इस छोटे से कस्बे को प्रभाव की युभ्र किरण पखार रही थीं और वहां ऐसी शांति व्याप्त थी कि मीन भग दूर मुर्गे की बांग मुनाई देती थी । इस दिव्य रमणीयता को किरण ने जो देखा, तो वस देखता ही रह गया । उसे यह कल्पनातीन प्रतीत हुआ कि इस कम्बे में, जिसकी सृष्टि ही मानो चिर शांति के लिए हुई थी, अभी-अभी ऐसी भयावह रक्त-वृष्टि हुई थी, जिसकी चपेट में जो आया वही संत्रस्त हो उठा था, और स्वयं किरील को भी इस ग्नन-वृष्टि में नहाना पड़ा था ।

लगाम हीली छोड़े वह काठी पर निच्चल बैठा था । उसके सामने फैला विस्तार उतना असीम था और पिछले तीन दिनों में जिन घटनाओं में वह भाग लेता रहा था, उनका महत्व उतना अपार था कि इनके मम्मुख उसे अपना अस्तित्व धूल के एक कण सा लग रहा था । इस क्षण उसे इस बात की स्पष्ट चेतना थी कि रूस में गृहयुद्ध की जो ज्वाला धधक रही है, उसमें स्वालीन्स्क के पास घटी यह घटना विस्मृति के गर्भ में ही समा जायेगी, कि जन-स्मृति में वह बैसे ही खो जायेगी, जैसे संमार के मानचित्र पर रेप्योव्हा कस्ता । परन्तु वह यह भी स्पष्ट-तया समझ रहा था कि यह घटना, जिसे विस्मृति के गर्भ में समाना बदा है, उन महसों घटनाओं का सहस्रांश अभिन्न भाग है, जिससे मिलकर उत्तिहास बनता है । यों सोचते हुए वह यह भी अनुभव कर रहा था कि अधिकांश लोगों के लिए रेप्योव्हा की जो घटना एक मामूली नीं घटना है, वही उसके लिए महसों गुना अधिक महत्वपूर्ण है, स्वयं उत्तिहास का माध्यात रूप है, और वह इस घटना के महत्व की पूरी गहराई को समझने में असमर्थ है, बैसे ही जैसे कि वह यहां टीले की ऊंचाई में उसके सामने फैले अंतहीन विस्तार को एक नज़र में नहीं देख सकता । उसे बग्वम एक पुरानी कहावत याद हो आईः युद्ध की बातें मुनना और है, युद्ध देखना और ।

धीरे-धीरे उसने रेप्योक्ता की ओर से आंखें मोड़ लीं। दीविच घोड़े पर उसके पास आ रहा था।

“कैसी शांति है !” किरील ने उससे कहा इस चेष्टा में कि रेप्योक्ता में उसने जो कुछ देखा था, उसकी ओर से ध्यान बंट जाये, लेकिन उसके विचार उसी में उलझे हुए थे।

“अनुपम दृश्य है ! और हर कदम के साथ मैं घर के पास पहुंचता जा रहा हूं,” दीविच ने उल्लासमय स्वर में कहा और खुद भी घोड़ा थाम पीछे नज़र दौड़ाई।

सड़क पर कुछ सैनिक कमर भुकाये, घुटनों पर जोर देते हुए टूटी कतार में चढ़ाई चढ़ रहे थे। यह एक छोटी सी टुकड़ी थी – लगभग पंद्रह सैनिक। अब यह ठीक-ठीक पता चल गया था कि ज़िले में कोई संगठित मोर्चा नहीं बना है, पर सूरा नदी पर मिरोनोव की हार के बाद उसकी रेजीमेंट के सिपाहियों के छोटे-छोटे दल बोल्गा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और रास्ते में गांवों पर हमले बोल रहे थे, किसानों को डरा-धमकाकर और छल-कपट से विद्रोह के लिए भड़का रहे थे। इसलिए दीविच की कम्पनी को कुछ टुकड़ियों में बांटा गया था और इन टुकड़ियों को आस-पास के इलाके में इन लुटेरों का सफाया करने का काम सौंपा गया था। इसके बाद कम्पनी को ख्वालीन्स्क में जमा होना था। इज्वेकोव और दीविच की कमान में मार्च कर रही यह प्रमुख टुकड़ी भी ख्वालीन्स्क की ओर बढ़ रही थी।

रेप्योक्ता से कोई तीन मील दूर जाकर टुकड़ी बड़ी सड़क से गांव की सड़क पर मुड़ गई। यहां रास्ते में कई खड़ु थे, जिनमें झाड़ियां और छोटे-छोटे पेड़ों के भुरमुट थे। रास्ता जहां जंगल से होकर गुज़रता था वहां बलूत वृक्षों की जमीन से बाहर उभरी जड़ों ने उसे ऊवड़-खाबड़ बना दिया था, जिससे वहां चलने में कठिनाई होती थी।

रात काटने के लिए जब पड़ाव डाला गया, तो कुछ सैनिक थकावट के मारे खाने का इंतज़ार किये बिना ही सो गये। इपात और नीकोन अलाव जला रहे थे। जिस गांव के पास पड़ाव था, वहां के लड़के पहले तो दूर से, और फिर हिम्मत करके अधिकाधिक पास आते हुए देख रहे थे कि यहां क्या हो रहा है। सबसे अधिक कौतूहल उन्हें बंदूकों के कोत से हो रहा था।

किरील सिर तले हाथ रखे धास पर लेटा हुआ था। बलूत की मटमैली टहनियों और चीड़ की चोटियों से संध्याकालीन आकाश पर नीरों का जाल विछा लगता था। निचाई की नम हवा में खुमियों की गध थी।

महमा डपात ने चौंककर अलाव जलाना छोड़ दिया।

“सुना?”

किरील ने कान लगाया, पर गांव में लौटी गायों के रंभाने के अलावा उमे और कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। इपात ने आंख मारी: “अभी बोलता है।”

वह खड़ा हो गया। मुंह पर हाथ रखकर वह अत्यंत ऊंचे स्वर में हुआने लगा। धीरे-धीरे स्वर नीचा आता जा रहा था और उतना ही अधिक गहराता जा रहा था, साथ ही अत्यंत अस्वाभाविक ढंग से मानो अपने आप मे समाता जा रहा था जैसे कि पेट में निगला जा रहा हो, और अंत में यह स्वर लोमहर्षक दहाड़ में बदल गया। ऐसी आवाज़ निकालने के जतन मे इपात का चेहरा लाल सुर्ख हो गया, आंखों मे खून उतर आया, उनके ढेले बाहर को निकले पड़ रहे थे और पुतलियों मे मानो चिनगारियां फूट रही थीं। कै करने जैसी घिनौनी आवाज़ के माथ उसने यह दहाड़ बंद की।

मो रहे मैनिक उछल खड़े हुए और गालियां देने लगे, दूसरे हंसने लगे। एक लड़का बड़े उत्साह से चिल्लाया:

“अरे, वाप रे! सचमुच भेड़िया बोल पड़ा!”

इपात ने उंगली हिलाकर उसे धमकाया और फिर अपने साथियों को चुप रहने का डगारा किया।

क्षण भर बाद जंगल मे कही दूर से हुआने की आवाज़ आई, जो ठीक उतने ही ऊंचे स्वर से आरम्भ हुई, जितने ऊंचे स्वर में इपात बोला था। और उसी भाँति जंगल में दहाड़ गूंजी, जो और भी अधिक घिनौनी आवाज़ में बंद हुई, मानो जानवर ने अपनी अंतड़ियां ही उगल दी हों।

“बूढ़ी बोली है,” एक लड़के ने पुराने जानकार के अंदाज में कहा।

“हाँ, वही है,” दूसरों ने भी हासी भरी।

“लगता है, बहुत हैं यहां भेड़िये ?” किरील ने पूछा।

“कोई गिनती नहीं ! सोते के पास पूरा झोल है।”

“दूर है सोता ?” इपात ने बड़ी उत्सुकता से पूछा।

वह कभी किरील की ओर देखता, कभी लड़कों की ओर, फिर उधर जंगल की ओर जहां मानो अभी भी भेड़िये की आवाज़ गूंजती लग रही थी, और उसके बाद फिर से लड़कों और किरील की ओर। अलाव जलाना तो वह भूल ही गया था, और उसके चेहरे पर एक साथ ही एकाग्रता और अन्यमनस्कता के परस्परविरोधी भाव आ गये थे। पुराने जानकार लड़के ने जवाब दिया :

“पास ही है। जंगल के अंदर जाते ही थोड़ी दूर पर वेरियों के झाड़ हैं, उन्हें पार करते ही सोता है, सारे मैदान में फैला हुआ है। वस वहीं भेड़िये का भट है।”

“कामरेड कमिसार, इजाजत हो, तो कल सुबह ही हंकवा लगा दें,” इंपात ने उतावली से कहा। “पूरा झोल मार लेंगे। इस साल के पिछ्ले तो बड़े हो गये होंगे। हो सकता है पिछ्ले साल के भी मां के पीछे फिरते हों। मैं लड़कपन से ही भेड़ियों का शिकार करता आया हूँ।”

यह प्रस्ताव सुनते ही सब सैनिक जोश में आ गये। सब एकसाथ यह कहने लगे कि भेड़िये के पूरे झोल को मारना तो वायें हाथ का खेल है, वस अच्छी तरह यह सोच लेना चाहिए कि शिकारियों को कहां-कहां खड़ा किया जाये और ज्यादा से ज्यादा हंकवैयों को जमा कर लेना चाहिए। पता चला कि अकेला इपात ही नहीं, और भी कई लोग भेड़ियों का शिकार करते रहे हैं, कुछ ऐसे भी थे जो साफ़ डींग हांक रहे थे, सो तुरन्त ही वहस छिड़ गई और भेड़ियों के शिकार के किस्से सुनाये जाने लगे।

“क्यों, बहुत सारी भेड़ें मारी गईं तुम्हारे गांव की ?” किरील ने फिर से लड़कों से पूछा।

“अरे-ए, पूछो मत ! भेड़ें, वत्तखें तो क्या ! बसंत से जव ढोरों को चरने के लिए छोड़ने लगे, तो कमबख्तों ने गैया ही मार डाली। बाद में वस सींग और दो खुर मिले। हड्डियां तक भी ले गये।”

“तो मार क्यों नहीं डालते ?”

“ डंडों से मारें क्या ? ”

“ क्या गांव में बंदूकें नहीं हैं ? ” दीविच ने भोलेपन से पूछा और किरील की ओर देखा, जो हौले से हँस पड़ा था।

“ श्री । पर वसंत में सब ले गये, छर्रेवाली बंदूकें भी, राइफिलें भी । चपानी वलवे के वाद । ”

“ तुम्हारे यहां क्या चपान थे ? ”

“ नहीं, हम तो सोवियत हैं, ” कई लड़कों ने एकसाथ कहा।

“ हमारे यहां चपान नहीं, अज्याम हैं, ” जानकार लड़के ने कहा, और उसके सब दोस्त इस मजाक पर मुस्करा दिये।

“ सच, कामरेड कमिसार, सुवह घेरा डालने की इजाजत दे दी-जिये, ” इपात ने फिर से अधीरता से कहा। “ मैं हुआं-हुआं करके पता लगा आऊंगा कि उनकी मांद कहां है । ”

दीविच की ओर देखने पर किरील ने पाया कि कमांडर भी शिकार में किस्मत आजमाना चाहता है, सैनिकों की भाँति वह भी कमिसार की सहमति की प्रतीक्षा में प्रश्नभरी नज़रों में उसकी ओर देख रहा था।

“ नहीं, अभी हमें शिकार की वात भुलानी होगी, ” किरील ऐसे बोला ताकि सब सुन सकें। “ हमारे सिर पर ऐसा काम है, जिसे टाला नहीं जा सकता। शिकार करने लगे तो देर हो जायेगी। लड़ाई खत्म कर लें, फिर जी भरके शिकार करेंगे । ”

“ ओफ़को ! ” इपात ने हाथ झटका और जल्दी से एक ओर को जाते हुए अपनी चहकती आवाज में बोला : “ घड़ी भर में सफाया कर देते सबका ! मीधा-सादा काम है। न कहीं झंडियां-वंडियां लगानी हैं, न आड़ में वैठकर भालू की वाट जोहनी है । ”

काफी देर तक पड़ाव में इपात की चहकती आवाज और सैनिकों के अफ़सोस भरे स्वर गूंजते रहे। वे शिकार का मज़ा पाने की इस सम्भावना से उत्तेजित थे और उन्हें लग रहा था कि यह विरला मौका व्यर्थ ही खोया जा रहा है।

रात चैन से ही बीती। सिर्फ़ दो वार सन्नाटे को चीरती विनौनी आवाज आई, जो शाम की आवाज से भी अधिक भयावह थी। तब किरील की आंख खुली थी और अंधेरे में उसने एक सैनिक को सिर उठाते देखा था, जो बायद बेचैन था, सो नहीं पा रहा था।

सुबह की हाजिरी से पहले किरील का ध्यान फौरन इस बात की ओर गया कि इपात गायब है। पर तभी एक के बाद एक दो संदेश-वाहक सैनिक अपनी-अपनी टुकड़ी की रपट लाये। आस-पास के इलाके में कहीं भी दुश्मन नहीं था, गांवों में अमन-चैन था और टुकड़ियां वेरोकटोक आगे बढ़ रही थीं।

रपट सुनकर इज्वेकोव और दीविच अपने सैनिकों के पास गये, और तभी इपात दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसका हुलिया देखने लायक था: टोपी कान पर खिसक आई थी, पेटी का बकलस बगल में सरक गया था, कालर के दोनों वटन गायब थे और साफ़ दिख रहा था कि उसके बूटों में पानी भर गया है।

“यहीं बगल में ही है। ये जो भोज के पेड़ हैं न, वस इनके पीछे वेरियों के झाड़ हैं, आगे बलूत के झुरमुट हैं और उनके पीछे तरज्जमीन पर चीड़ उग रहे हैं, शुरू में थोड़े-थोड़े, आगे घने हैं। वस वहीं है भट ...”

“ठहरो-ठहरो। हाजिरी में मौजूद थे?” किरील ने उसे टोका।

“बिल्कुल। जब मेरा नाम ले रहे थे, वस तभी आ पहुंचा,” इपात ने अपने कसूर के अहसास से और साथ ही चालाकी से मुस्कराते हुए जवाब दिया।

“बड़े तेज़ हो। तुम्हें पड़ाव से जाने की इजाज़त किसने दी थी?”

“पर, कामरेड कमिसार, मैं गया कहां था? पास ही तो, वो तो वस यही समझो कि सुबह जंगल हो आया।”

“ठीक है। लेकिन अगली बार ...”

“पर ऐसा बढ़िया मौका है! सारा झोल हमारी मुट्ठी में है। हाथ से निकल गया, तो बड़ा अफ़सोस होगा। कामरेड कमिसार, हैं?”

इपात किरील की ओर अनुनय भरी नज़रों से देख रहा था, वह कुछ करने को मरा जा रहा था।

किरील ने कभी भेड़ियों का शिकार नहीं किया था। हाँ, जब वह उत्तर में निर्वासित था, तो वहां शरद के ऐसे ही गुलाबी दिनों में कई बार किसानों के साथ ओलोनेत्स प्रदेश के जंगलों में गया था। सुनहरे जंगलों की उन सैरों की यादें बड़ी मधुर थीं, जब वह दांतों में

सीटी दवाये पीं-पीं करता और जवाब में पंख फड़फड़ाती जंगली मुर्गियां चहक उठती। किरील ने जंगल की ओर नज़र दौड़ाई। आसमान पर वादल छाये हुए थे, लेकिन हवा नहीं चल रही थी, और भोज वृक्षों की कोमल झूलती टहनियों के पीले पड़ गये सिरे सोने जैसे चमक रहे थे।

“वहां क्या दलदल है?” उसने पूछा।

“नहीं, नहीं, कैसा दलदल,” इपात चट से बोला। वह ताड़ गया था कि बात बन रही है। “दलदल कैसा! वस ज़रा पसीजी जमीन है!”

“पसीजी जमीन पर तुम घुटनों तक गीले कैसे हो आये?”

“घुटनाडुवान झुसियों के लिए डुवान नहीं है,” दीविच मुस्कराया।

“मैं कोई डूवा थोड़े ही! वस ज़रा पांव उलटा पड़ गया था। वहां सोता फैला हुआ है, गड्ढों में पानी भरा हुआ है, मैंने देखा नहीं, वस उसमें पांव पड़ गया।”

“तुम्हारे इन भेड़ियों की बजह से देर हो जायेगी हमें,” किरील ने ऊपर से नाराजगी दिखाते हुए कहा और दीविच की ओर नज़र घुमाई।

“नहीं, हम पीछे नहीं छूटनेवाले,” दीविच ने विश्वासपूर्वक कहा। “हमारा रास्ता सबसे सीधा है। सभी टुकड़ियों से पहले ख्वालीन्स्क पहुंच जायेगे।”

“अच्छा जाओ, करो इंतज़ाम,” किरील ने इपात की ओर हाथ हिलाया, पर साथ ही उसे चेता भी दिया। “हां, देखो, सारे काम में दो घंटे से ज्यादा न लगें।”

“आप वेफ़िक्र रहिये, अभी चुटकी बजाते काम होता है!” इपात की वाले खिल गई। कभी टोपी उतारता, कभी उसे सिर पर कमता, वह पाम ही खड़े सैनिकों की ओर लपका।

पर हंकारे का इंतज़ाम करना इतना आसान नहीं था। कोई भी मिपाही हांकना नहीं चाहता था, सभी चाहते थे कि उन्हें शिकारियों की कतार में छड़ा किया जाये।

गांव के किसान भी अड़ गये। एक किसान से कहा गया कि, भले आदमी, अगर तेरी गाय को भेड़ियों ने मार डाला, तो तेरा ही तुक्मान होगा, इस पर उसने इतमीनान में थूका और फिर जवाब दिया:

“मेरी गाय को तो मार चुके हैं।”

सौदेवाजी होने लगी कि कौन जाये।

“जिसके पास ज्यादा ढोर हैं, वही जाये,” गरीब किसान कह रहे थे।

“कैसे भोंदू हो,” इपात चिल्ला रहा था। “कुलक का एकाध ढोर-डंगर कम भी हो गया, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिसके पास एक ही गाय है, उसके लिए क्या बचेगा?”

“खाते-पीते घरों से ही काम के लिए पहले बुलाने का हुक्म है, वही हांकने भी पहले जायें।”

किसी ने कहा कि पुराने जमाने में हंकवैयों को शराब दी जाती थी। इस पर सैनिक बौखला उठे: वे खुद बड़े शौक से पी लेंगे, और सच पूछो तो किमानों को उन्हें शराब पिलानी चाहिए, क्योंकि वे उन्हें भेड़ियों से निजात दिलायेंगे। किसानों के यहां घर की बनी शराब के पीपे भरे पड़े होंगे!

बस लड़के ही थे, जो सब के सब हंकावा लगाने को उतावले हो रहे थे, पर यहां भी कहा-सुनी और यहां तक कि रोने-धोने के बिना काम नहीं चला क्योंकि कुछ लड़कों को तो शिकारी ले चलने को तैयार थे, पर कुछ को छोटी उम्र की बजह से मना कर रहे थे।

आखिर दोनों दल तैयार हो गये—हाथों में डंडे उठाये लगभग तीस हंकवैये और चौदह शिकारी। इपात गम्भीरता से उन्हें समझाने लगा:

“हां तो, काम ऐसे होगा ...”

सबने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसने शिकारियों को उनकी चौकियों पर खड़ा करने का जिम्मा लिया, और नीकोन को हांकने का काम सौंपा।

भोज वृक्षों का भुरमुट पार करके दोनों दल अलग-अलग हो गये। शिकारी बाई ओर को चले, हंकवैये दाई ओर को। सब एक दूसरे के पीछे जरा भी खटका न करने की कोशिश करते हुए चल रहे थे।

किरील इपात के पीछे-पीछे चल रहा था। वेरियों के भाड़ के पास पहुंचकर किसी-किसी ने भुककर वेरियां तोड़नी चाहीं। पर इपात ने पीछे मुड़कर गुस्से में मुक्का दिखाया। अब वे बलूत के छोटे पेड़ों के

बीच से गुजर रहे थे, उनके आगे कमर तक ऊंचे चीड़ के पेड़ थे। बड़ी मावधानी से उनकी टहनियां हटाकर उनके बीच से वे बढ़ने लगे। फिर तर जमीन आ गई, बूटों से छपछप होने लगी। इपात वार-वार पीछे मुड़ता और धूरता, उसके निश्चव्द हिलते होंठों से यह स्पष्ट था कि वह ज़रा सी भी आहट करनेवालों को क्या चुनी-चुनी बातें कह रहा है।

एक वृक्षहीन म्यल पर, जहां केवल सरपत उग रहे थे, इपात सहमा रुक गया, उंगली के इशारे से उसने किरील को अपने पास बुलाया और घाम के बीच रुके गेराए पानी के दर्पण दिखाये।

“पिल्लों ने पानी पीने के लिए कुइयां खोदी हैं,” उसने किरील के कान में कहा। “किनारों पर नाखूनों के निशान देख रहे हैं?”

अपनी लंबी गर्दन पर सिर को एक ओर को भुक़ाये थोड़ी देर तक वह मन्नाटे में कान लगाये रहा।

“अभी आवाज़ लगाते हैं, देखते हैं कहाँ हैं,” वह फुसफुसाया।

एक बार फिर पिछली घाम की ही भाँति उसने मुंह पर हथेली गधी और हुआने लगा। धीरे-धीरे यह अतुलनीय आवाज़ जंगल के पेड़ों और झाड़ियों के बीच के रिक्त म्यान भरने लगी, अंततः पूरे जंगल में फैलकर विखर गई, पेड़ों की ऊंची चोटियों के ऊपर विलीन हो गई। देर तक इस मनहूम आवाज़ का कोई जवाब नहीं आया। फिर प्रतिव्वनि की भाँति जंगल में दूर कही जानवर हुआने लगा और उसकी विनौनी लंबी आवाज़ आसमान को उठने लगी। यह मादा की आवाज़ थी।

नेकिन अजीब वात थी—शिकारियों के हिमाव से आवाज़ जिधर से आनी चाहिए थी, आई उससे उलटी दिशा से: मादा शिकारियों की पीठ पीछे थी, हंकवैयों के धेरे से बाहर। इपात तनकर खड़ा हो गया, गौर में मुनने लगा, और यह अनुमान लगाने लगा कि मामला सुधारा जा सकता है कि नहीं, पर तुरन्त ही समझ गया कि अगर मादा अपने माथ्र बच्चों को भी ने गई है, तो फिर कुछ वात नहीं बन सकती।

महमा सामने मे जवान भेड़ियों के कुत्तों की तरह भौंकने की सी आवाज़ आई, जो मानो मां को जवाब देने में एक दूसरे से होड़ लगा रहे थे।

“यहाँ हैं!” इपात प्रायः खुलकर बोल पड़ा।

अपनी खुशी छिपाना उसके बस के बाहर था, उसके चेहरे पर भट्ट से रंग चढ़ आया और वह जल्दी-जल्दी अपने साथियों की ओर सिर हिलाने लगा कि सब ठीक होगा।

जवान भेड़िये हुआते हुए जोर-जोर से भाँक रहे थे, और तेजी से शिकारियों की ओर आ रहे थे, सो कई लोग वरखस कंधे से बंदूक उतारकर उनका निशाना लगाने को तैयार हो गये।

“शिकार पाने जा रहे हैं: मां शिकार लाई है,” इपात ने फुस-फुसाते हुए समझाया।

तभी किरील ने बंदूक का घोड़ा चढ़ाया। लोहे के टकराने की खटक ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन जंगल की प्राकृतिक ध्वनियों के लिए इतनी अस्वाभाविक थी कि भेड़िये एकाएक चुप हो गये।

इपात ने गुस्से से लाल-पीले होते हुए दोषी की ओर देखा। किरील हतप्रभ मुंह खोले खड़ा था, और उसके माथे पर पसीने की बूँदें चमक रही थीं। क्षण भर को लगा कि इपात की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। फिर उसने अपने को कावू में पा लिया और जल्दी-जल्दी, परन्तु अत्यंत सतर्कता के साथ शिकारियों को चौकियों पर खड़ा करने लगा।

शिकारी झाड़-झंखाड़ भरी दो पुरानी पगड़ंडियों पर एक कतार में खड़े थे, जहां पगड़ंडियां मिलती थीं, वहां इपात ने किरील को खड़ा किया और उसके पास ही दीविच को। यह अचूक जगह थी: पिल्लों के पंजों के निशानों से पता चलता था कि वे हमेशा इधर से आते-जाते थे।

किरील चीड़ के एक छोटे से पेड़ के पीछे छिपा खड़ा था। उसकी झवरीली टहनियों में उसने झरोखा पा लिया था, जहां से अपने हिस्से को देख सकता था। इस झांके में से वह सामने कहीं-कहीं उग रहे बलूतों के मोटे तनों, बेरियों की झाड़ियों और खम्भों की भाँति गुल्लों के ऊपर उठते सुनहरे चीड़ों को देख रहा था। फर वृक्ष यहां प्रायः नहीं थे, पर एक फर वृक्ष, जो आदम-कद से बड़ा नहीं था, सड़ी हुई खुत्थी के पास गिरा पड़ा था, न जाने क्यों किरील का ध्यान इसपर लगा रहा।

उसकी भेंप मिट गई थी, फिर भी कभी-कभी उसे इपात की

गुन्ने भरी नज़र याद हो आती और मन इस अप्रिय विचार से परेगान हो उठता कि अगर कहीं हँकावा विफल रहा तो सारा दोप उसी पर मढ़ा जायेगा, क्योंकि उमी ने घोड़ा चढ़ाकर खटका किया था।

वह बंदूक हाथ में उठाये-उठाये थक गया, सो उसे नीचे सरका दिया। अभी तक मन्नाटा किमी भी तरह भंग नहीं हुआ था। पीली-पीली चित्तियों वाली एक चिड़िया ने पास ही के चीड़ के तने पर बेल की भाँति चढ़ने हुए उसका निरीक्षण किया। वह चहकी और गिरे पड़े फ़र बृक्ष पर आ वैठी, और फिर जंगल के अंदर को उड़ गई। उसके पीछे ऐसे ही फुर्तीने पछियों का पूरा झुंड का उड़ चला—न जाने कहां में वे निकल आये थे। किरील को भीग गये पांवों में ठंड लगने लगी थी, उसने इधर-उधर नजर दौड़ाई कि कहीं वैठने की जगह है या नहीं।

महमा दूर कही दागी गई गोली ने सन्नाटे को चीर दिया। गोली छूटने की आवाज मानो दो आवाजों में बट गई—आह और सीटी में, आह एक के बाद दूसरे पेड़ से टकराती दौड़ चली, जबकि सीटी की आवाज मीधी आमसान में उड़ गई।

फिर धीरे-धीरे मानो जंगल की गहराई में समाती हुई और फिर उसके शिखरों को उठनी हुई चीखें आने लगी, जो मानव कंठ से निकली नहीं लगती थी। आगम में इमें लड़कों की चिल्ल-पों और किसानों की जोगदार लो-हो, लो-हो मुनी जा सकती थी। पर चीखें, सीटियां, ननों पर डंडों की ठकाठक—सब आवाजें बड़ी तेजी से एक कर्णभेदी घोर में मिलती जा रही थीं।

मभी हँकवैये एकमाथ शिकारियों की ओर बढ़ चले।

एक गोली मानो सकेन के तौर पर छूटी, तुरन्त ही किरील ने अपनी बंदूक उठा ली, अपने भाँके पर झुक गया और आंखें गड़ाकर महमा मानो नई उग आई झाड़ियों को देखने लगा। एक-एक टहनी, एक-एक पनी अमाधारणतया स्पष्ट हो गई। पेड़-पौधों की स्तव्य निश्चलता का हवा को चीरने कोलाहल से मानो कोई मेल ही नहीं वैठ रहा था। लगता था जैसे एक माथ ही मारा जंगल उखाड़ा जा रहा हो, और जमीन में मे श्रीची जा रही जड़ें और खुद जमीन भी कराह रही है, चीख-पुकार रही हैं।

शिकारियों की कतार में एक गोली चली।

कराह क्षण भर को क्षीण पड़ गई , पर तुरन्त ही और भी अधिक तीखी हो गई। किरील महसूस कर रहा था कि उसकी एक-एक मांस-पेशी तन गई है। यकायक उसका सारा शरीर सुन्न हो गया : दाईं ओर को जहां से गोली चलने की आवाज़ आई थी , धड़ाधड़ गोलियां चलने लगीं।

लगता था मानो बच्चे बौद्धे पत्तों पर कोड़े मार रहे हों। हर चोट मानो किरील को सटकार जाती। वह बंदूक के कुन्दे को कंधे में ज़ोर से गड़ाये जा रहा था और आंखें फाड़-फाड़कर सामने देखे जा रहा था , पलकें झपकाते हुए भी डर रहा था , जिससे आंखों में भर आये पानी से पलकों में जलन हो रही थी।

तभी गिरे हुए फर वृक्ष के पीछे , जिसकी ओर पहले ही किरील का ध्यान गया था , पेड़ की चोटी के ऐन तले सफेद सा धब्बा दिखा। सहसा मानो किरील वहरा हो गया। पल भर में ही न हंकवैयों का कोलाहल रहा , न बंदूकों की ठायं-ठायं – सारा संसार इस धब्बे में सीमित होकर रह गया।

बड़े से माथे के दोनों ओर छोटे-छोटे कानों वाला थूथन काली लाख सी चमकती आंखों से पगड़ंडी की ओर देख रहा था। ऊंचे उठे कंधों में सिर को दबाये भेड़िया संभल-संभलकर बढ़ रहा था।

अचानक उसने छलांग भरी , उसका लचकीला शरीर फर वृक्ष के ऊपर फैल गया , मानो भेड़िये ने अपने शरीर को वृक्ष के पार उड़ेल दिया।

किरील ने निशाना इस क्षण से पहले ही साध लिया था , पर उंगली ने लिवलिवी छलांग लगने के क्षण पर ही दबाई। बंदूक की ठायं के साथ ही भेड़िये का चीत्कार गूंजा। छलांग भरते हुए ही उसने पिछली टांग की ओर सिर फेंका , मानो अपना पीछा करनेवाले को काट रहा हो। फिर वह गिर पड़ा। दो बार उसने अपने पुट्ठे पर दांत मारे और उसकी घरघराती सांस के साथ बाल उड़े। अगली टांगें जल्दी-जल्दी चलाते हुए और घायल पुट्ठे को घसीटते हुए वह किरील से बाईं ओर को रेंगने लगा। कभी-कभी वह पिल्ले की भाँति किकिया उठता।

किरील देख रहा था कि घायल भेड़िया हाथ से निकल सकता है , और दूसरी बार गोली दागने को तैयार था। लेकिन जब तक भेड़िया

पगड़ंडी पार कर रहा था , गोली चलाना खतरे से खाली न था , क्योंकि विन्कुल पास ही कही दीविच अपने स्थान पर खड़ा था । इस क्षणिक हिचकिचाहट का लाभ उठाकर भेड़िया शिकारियों की लाइन पार कर गया , धेरे से बाहर निकल गया । वह भाड़ियों में छिप गया ।

गोली दागने के तुरन्त बाद ही किरील की सभी इन्द्रियां फिर से नश्त्रिय हो उठीं । अब गोलियां नहीं चल रही थीं , हंकवैयों का होहल्ला भी कम हो रहा था । अपनी चौकी छोड़कर वह भेड़िये के पीछे लपका । पत्तियों के पीछे उसे भेड़िया दिवार्ड दिया और उसकी गुरुर्हट सुनाई दी । भेड़िया अगली टांगें सामने फैलाये बैठा था । उसकी पीठ के काले बाल खड़े हुए थे । उसकी लटकती जामुनी जीभ और मुंह पर रोयें चिपके हुए थे ।

तभी कहीं गोली चली और किरील ने भी निशाना साधे बिना ही गोली दाग दी । भेड़िये का सिर भुका और वह मानो पसर गया ।

बेल खत्म हो गया था , पर किरील हिले-डुले बिना खड़ा था ।

अपनी चौकी छोड़कर किरील ने नियमों का उल्लंघन किया था । दीविच धायल भेड़िये को देख सकता था और उसके पास जाते किरील में अनजान गोली चला सकता था । यह काफ़ी बड़ा खतरा था । इसे नुग्न ही गोली दागकर टाला जा सकता था , हालांकि जल्दी करने की कोई जस्तरत नहीं थी , क्योंकि भेड़िया बैठ गया था और उसमें इनना दम नहीं रहा था कि दूर निकल जाता । साथ ही किरील के गोली चलाने से दूसरे भेड़िये , जो शायद अन्य चौकियों पर आ निकलते , डग्कर भाग जा सकते थे । परं इस खतरे के साथ-साथ कि दीविच किरील को देखे बिना गोली चला सकता है , किरील के मन में यह डर भी उठा था कि कोई और भेड़िये का काम तमाम कर सकता है और तब शिकार उसका होगा । किरील को गोली छोड़नी ही थी !

अब जवकि भेड़िया माग जा चुका था , किरील विजली की तरह दिमाग में कौंधे इन सब विचारों की बारीकी में जा रहा था । और अब कहीं जाकर महसा वह यह समझा था कि इन सब विचारों के अनावा उसने इस अचेतन डर से भी गोली चलाई थी कि धायल जानवर न्यून्वार हो उठा है । और यह मानने ही कि उसे इस बात का डर रहा था , वह शर्मिंदा हो उठा , और उसे लगा वह पसीने से तर हो गया है ।

“क्यों? कर दिया काम तमाम?” उसे दीविच की आवाज सुनाई दी।

इस आवाज में इतना हर्षमय गर्व था, कि सहसा किरील आशंकित हो उठा: घायल जानवर को दीविच ने ही नहीं मारा? दीविच ने ही तो पहले गोली चलाई थी?

“आपके हाथ लगा?” जवाब देने के बजाय उसने पूछा; वह अभी तक ज्यों का त्यों खड़ा था।

“ज़रूर!” दीविच ने वैसे ही सर्व कहा, और किरील को पास ही भाड़ी की खड़खड़ सुनाई दी।

तब वह अपने शिकार की ओर दौड़ पड़ा। उसकां कलेजा बल्लियों उछल रहा था। भेड़िये का कान पकड़कर उसने उसका धड़ी भर का सिर उठाया और ज़मीन पर दे फेंका।

“उफ, शैतान की औलाद!” किरील फूला न समा रहा था। कभी वह भेड़िये के नरम, खाली पेट पर ठोकर मारता और कभी उसकी गरदन के सख्त बालों पर हाथ फेरता।

भाड़ियों के पीछे से दीविच प्रकट हुआ – फुर्तीला, चेहरा खिला हुआ। भेड़िये की पिछली टांग उठाकर उसने उसे उलटा-पलटा।

“पुढ़े में लगी गोली? और मैंने अपने को एक बार में ही ढेर कर दिया – कंधे में मारा। सुना था आपने?”

“पर मेरे साथ हुआ यह,” किरील झट से बोला और बड़े जोश से विस्तारपूर्वक यह बताने लगा कि कैसे जिस क्षण उसने गोली दागी, ठीक उसी क्षण भेड़िये ने भी छलांग भरी, कैसे भेड़िया निकले जा रहा था और उसे दूसरी गोली से उसका काम तमाम करना पड़ा। बस यह नहीं बताया कि उसने बैठे हुए भेड़िये पर गोली चलाई थी।

उनकी आवाजें सुनकर कुछ हंकवैये उधर आ गये और कौतूहलवश शिकार को धेरकर खड़े हो गये। उनमें से एक के गाल पर खरोंच आ गई थी और कमीज का वाजू फट गया था। उसने गाल पर उंगली फेरी और खून दिखाते हुए बोला:

“मुझे टहनियों ने छील मारा। खाली शराब से आपको छुट्टी ना मिलेगी।”

“खुश होना चाहिए कि इन शैतानों का सफाया कर दिया,” किरील ने हँसकर कहा और भेड़िये को ज़ोर से ठोकर मारी।

“किसी को खुशी मिले, किसी को कुछ और,” बाजू के फटे मिर्गों को मटाते हुए हंकवैये ने कहा और फिर आंखें भींचकर किरील की ओर देखा: “भेड़िया तो हाथ से निकल चला था न? लैन से दूर जाके मारा ...”

“हाथ से कहां निकला?” किरील ने गुस्से से उसे टोका और फिर से सारी वात बताने लगा। उसका जोश ठंडा नहीं पड़ रहा था, बल्कि बढ़ता ही जा रहा था।

हंकवैयों ने चीड़ का छोटा सा पेड़ तोड़ा, उसकी टहनियां साफ़ करके लंबा डंडा बनाया और उसे भेड़िये की बंधी हुई टांगों के बीच डालकर कंधों पर उठा लिया। किरील उनके पीछे-पीछे चला। विजेता की भाँति वह भेड़िये की जमीन से टकराती काली नाक को देखे जा रहा था और जंगल में से आते जा रहे हंकवैयों को अपने शानदार पहले बार की कहानी खूब चुस्कियां लेकर सुनाता जा रहा था, पर दूसरे बार के बारे में चुप्पी साधे था।

शिकारियों ने कुल चार दो साला भेड़िये मारे थे। उनका ढेर लगा दिया गया। भेड़िये हूबहू एक दूसरे जैसे थे, जैसे कि जुड़वें ही हो सकते हैं। उनकी खाल प्रायः जाड़ों के रंग की हो चुकी थी—पीली-मुरझड़ सी, पीठ और पंजों पर काले-काले चिकत्ते, पेट और बगलों पर सफेद रोयें। उनकी आंखें कसकर मुंदी हुई थीं, मानो संसार छोड़ते हुए चारों के चारों उसे न देखने की कोशिश करते रहे हों।

ढेर के डर्द-गिर्द घेरा बनाकर खड़े शिकारियों और हंकवैयों ने जब यह पता लगा लिया कि किसने कैसे अपना शिकार मारा, तभी किसी ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा:

“इपात का क्या हुआ? वह क्या खाली हाथ है?”

उधर-उधर देखा: इपात का कहीं पता न था। वे उसे पुकारते लगे, पर कोई जवाब नहीं मिला। तब यह बहस होने लगी कि इपात खुद कहां खड़ा हुआ था। किसी को ढंग से कुछ पता न था, क्योंकि वही यह शिकारियों को उनकी चौकियों पर खड़ा करता रहा था, और खुद कहां खड़ा हुआ था, किसी ने यह जानने की कोशिश न की थी। जिन शिकारी को उमने मवसे बाद में चौकी पर खड़ा किया था, उसे भी यह याद नहीं था कि इपात किधर गया था: लगता था दाई

ओर को गया था , पर हो सकता है वाई ओर गया हो । यह बहस भी छिड़ी कि जब हंकवैये बढ़ने लगे , तो शिकारियों की कतार में सबसे पहले गोली किसने चलाई थी । हर कोई कह रहा था कि पहले किसी और ने गोली चलाई थी ।

“पर आप लोग यों अंधाधुंध गोलियां क्यों चलाने लगे ?” दीविच ने पूछा । “इतनी गोलियां बेकार कर दों – पूरी पलटन के लड़ने के लिए काफ़ी होतीं । वाह रे , शिकारियो !”

“हमने सोचा , कामरेड कमांडर , कि कोई वचकर न निकलने पाये , सो बस दबादब गोलियां चलाने लगे ।”

तभी भयभीत नीकोन आगे आया , और बोला कि उसके ख्याल में सबसे पहले गोली इपात ने ही चलाई थी ।

“मेरे इशारे के बाद जब हम हाँकने लगे , तो थोड़ी देर बाद ही मैंने ठायं की आवाज सुनी , साथ ही जैसे सीटी सी बजी । मैंने सोचा इपात ही है , उसी की बंदूक यों सीटी छोड़ती है । परले रोज़ वह मुझसे कह भी रहा था कि बंदूक का गला बैठा हुआ है , नाली में बाल है । उसने गोली चलाई , और फिर सब लगे गोलियां छोड़ने । इपात उधर सिरे पर था ।”

इस सारी बातचीत से किरील इतना चिंतित हो उठा कि उसके मन में न विजय की भावना का , न निशाना चूकते-चूकते बचने की भेंप और न ही अपने क्षणिक भय पर लज्जा का ही नामोनिशान रह गया । अब मानो पहली बार वह पूरी तरह से यह समझा कि वही सारे शिकार के लिए और इपात के साथ जो कुछ भी हो उसके लिए भी उत्तरदायी है , बल्कि अकेले इपात के लिए ही नहीं , दीविच से लेकर गांव के छोकरों तक के लिए , जो मज्जा लेने की खातिर हंकवैयों के साथ हो लिये थे , सबके लिए वही उत्तरदायी था ।

कुछ सैनिकों को सारी लाइन देखने के लिए भेजकर , जहां शिकारी खड़े थे , किरील ने नीकोन को अपने साथ लिया और उधर चला , जहां उनके ख्याल में इपात खड़ा हुआ था । उन्होंने वे सारी झाड़ियां-वाड़ियां छान मारीं , जहां शिकारी छिप सकता था , उन्होंने आवाजों लगाई , दूर से आती साथियों की आवाजों को कान लगाकर सुनते रहे , और आखिर वापस लौट आये । दूसरे सब लोग भी लौट आये थे – इपात कहीं नहीं मिला था ।

हक्कैयों ने गिकार कंधों पर उठाये और सब लोग उनके पीछे हो लिये।

राम्ते में किरील ने दीविच से कहा :

“क्या यह मुमकिन है कि अनजाने में डपात को गोली लग गई हो? वह तो पुगना गिकारी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता!”

“मुझे कुछ और ही स्थाल आ रहा है,” दीविच ने जवाब दिया।
“कहीं डपात हमें गांव में तो नहीं मिलेगा?”

किरील भौचक्का सा रुक गया।

“कहीं डपात शर्म के मारे तो नहीं भाग गया? कहता था लड़कपन में भेड़ियों का गिकार करता आया है, उसी ने सबको शिकार के लिए तैयार किया, और गिकार उसी के हाथों से निकल गया!”

“नहीं, यह तो कुछ बात नहीं बनती,” किरील ने पूरे निश्चय में कहा, पर फिर भी सोचने लगा, और ज्यों-ज्यों वे पड़ाव के पास पहुंचते जा रहे थे, त्यों-त्यों उसके मन में यह आशा बढ़ रही थी कि गायद दीविच की बात ही सही हो।

परन्तु गाव पहुंचकर निराशा उनके हाथ लगी: डपात नहीं लौटा था। शीघ्र ही यह खबर फैल गई कि सैनिकों ने भेड़ियों के भोल को मार डाला है, और साथ ही किसानों को एक गिकारी के लापता होने की बात भी पता चली। डपात को ढूँढ़े विना वे कूच नहीं कर सकते थे, मो किरील ने दीविच से सलाह-मशविरा करके फिर से कुछ सैनिकों को जंगल में भेजा।

दोपहर हो चली थी। किरील दिन के खाने की प्रतीक्षा में खुली खिड़की के पास बैठा था। छप्पर तले पड़े भेड़ियों के पास शरारतें कर रहे लड़कों की आवाजें आ रही थीं, और जानवरों की गंध पाकर कुने बेनहाशा भौंक रहे थे। शरद के गुलाबी दिनों में जैसा कि प्रायः होता है, सुबह से आसमान पर छाये वादल दोपहर होते न होते छंट गये और सुहावनी धूप निकल आई, जिससे धरती पर कोई छाया नहीं पड़ गयी थी।

उसी क्षण किरील को जंगल में निकलकर गांव की ओर आते तीन पथिक दिखे। तीनों अगल-बगल धीरे-धीरे चले आ रहे थे। एक के हाथ में पोटली थी, वाकी दो कंधों पर भोले उठाये थे। जब वे कुछ

पास आ गये, तो यह दिखाई देने लगा कि उनके पीछे एक और आदमी है, जो इन तीनों की पीठ पीछे छिपा हुआ है। फिर यह भी दिखने लगा कि पोटली उठाये आदमी अपने खाली हाथ से छाती से कुछ दबाये हुए हैं और उसे इसमें कठिनाई हो रही है, क्योंकि वह एक ओर को भुका-भुका चल रहा है।

गांव के पास ही एक गड्ढे से बचकर निकलते हुए तीनों अलग-अलग हुए, और किरील ने देखा कि उनके कोई पांच कदम पीछे चलता चौथा आदमी बंदूक ताने हुए है। किरील उछलकर खड़ा हुआ और धड़ खिड़की से बाहर निकाला – चौथा आदमी इपात था।

बंदियों पर अपनी पीली आंख गड़ाये इपात भारी कदम उठाता चल रहा था और उसकी बंदूक कदमों की ताल पर हिल रही थी।

किरील घर के अलिंद पर आ खड़ा हुआ। किसान और सैनिक अहाते के खुले फाटक के पास जमा हो गये और चुपचाप नवागंतुकों की प्रतीक्षा करने लगे। लड़के एक दूसरे को धकेलते गली से अहाते में दौड़ आये।

इपात तीनों को अहाते में ले आया और फिर फौजी ढंग से आगे बढ़कर उसने बंदूक नीची की। उसकी खुली कमीज में से पसीने से गीली छाती नज़र आ रही थी, जो उसके संवलाये ताम्रवण चेहरे की तुलना में विल्कुल सफेद लग रही थी। सारे अहाते में उसकी रपट गूंजी।

“कामरेड कमिसार! कुल गिनती तीन आदमी मैंने जंगल में गिरफ्तार किये हैं। एक भागने की कोशिश में मेरी गोली से घायल हुआ है।”

दो बंदी अधेड़ उम्र के थे। उनके दहियल चेहरे उतरे हुए थे और वे काफ़ी थके-मांदे लगते थे, रुकते ही उन्होंने अपने कंधों का बोझा उतारा – एक ने किरमिच का भोला और दूसरे ने रस्सी से बंधी गठरी। तीसरे ने भी अपनी पोटली नीचे रखी, वह मुश्किल से भुका था और फिर तुरन्त ही उसने खून से रंगे कपड़े में लिपटी वांह पकड़ ली थी। इस घायल हाथ को थोड़ा ऊपर उठाकर उसने दूसरे हाथ से अपनी टोपी उतारी, पसीने से तर एकदम गंजे सिर पर हाथ फेरा और नाक पर खिसक आई ऐनक ठीक की।

जैसे ही उसने टोपी उतारी और अलिंद पर खड़े कमिसार को देखने के लिए ऐनक के पीछे नज़र ऊपर उठाई, तत्क्षण किरील की भौंहें नन गई, और उसने ठिककर चौखट पर कंधा टिका लिया।

गंजा आदमी लोहे के पतले फ्रेम वाली अपनी ऐनक के पीछे से उमकी ओर देखता जा रहा था, उसके चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं आया था, वस उसने फिर से अपनी घायल बांह को स्वस्थ हाथ पर टिका लिया था।

“इनके लिए पहरा तैनात कर दो,” किरील ने धीरे से आदेश दिया। “और तलाजी लो।”

२८

इपात ने इज्वेकोव को जो घटना सुनाई वह इस प्रकार थी।

गिकारियों की कतार में अंतिम चौकी पर खड़ा होकर इपात उस और व्यान देने लगा, जिधर से पिल्लों के भौंकने के जवाब में मादा भेड़िये की आवाज आई थी। उसका अनुमान था कि मां बच्चों की आवाज सुनकर आयेगी, और यह बात सही निकली। जिस तरह पिल्लों का भौंकना सहमा बंद हुआ था, उससे मां को कुछ शक हो गया था और वह बड़ी मतर्कता से दुबक-दुबककर भट की ओर बढ़ रही थी, पर गिकारियों की लाइन के पास आ निकली। जैसे ही हंकवैयों का हल्ला ढुआ, वह पीछे लपकी और उसी बक्त इपात ने उसे देख लिया और गोली दाग दी। इस उम्मीद में कि वह बूढ़े भेड़िये को मार पायेगा, उसने घेरे की परवाह न करके अपनी चौकी छोड़ दी। जिस ओर उसने गोली छोड़ी थी, वहां भाड़ी पर उसे खून के निशान दिखे और वह घायल भेड़िये के पीछे दौड़ा। चौकी से दूर जाते हुए खून के निशान कम होने जा रहे थे और आखिर विल्कुल गायब हो गये। लेकिन इपात हथपूर्वक भेड़िये को ढूँढ़ता जा रहा था। हंकवैयों के हो-हल्ले के बाद जंगल यांत हो चुका था, पर वह बीहड़ जंगल में बढ़ता जा रहा था। आखिर हेजल की झाड़ियों के घने झुरमुट में उसे एक धब्बा सा दिखा, जिसे भेड़िया मम्भकर वह गोली दागने ही लगा था। पर यह धब्बा भोला निकला, जिसके पास ही गठरी और पोटली रखी हुई थीं, और उनके

पीछे लोग खुद गठरी से बने छिपे बैठे थे। इपात ने उन्हें बाहर निकलने और अपना-अपना सामान उठाने को कहा। बंदूक कसकर पकड़के वह उन्हें जंगल में ले चला, उनकी सारी आपत्तियों का एक ही, सदियों से परखा हुआ जवाब देता जाता : “वहां पहुंचकर सब पता चल जायेगा !” जब तक उसने यह हिसाब लगाया कि किस दिशा में जाना चाहिए, काफ़ी समय बीत गया। जब वे जंगल में एक खड़ के पास से गुजर रहे थे, तो एक आदमी उसमें कूदा। इपात ने गोली चलाई, जो उसकी कलई पर लगी, और फिर से गोली चलाने की धमकी देकर उसे खड़ में से निकलने पर विवश किया। उसने भगोड़े को गठरी में से वनियान निकालकर हाथ पर पट्टी बांधने दी, और फिर गांव तक आते हुए सारे रास्ते कोई गड़बड़ी नहीं हुई—सूरज निकल आने से इपात को पता चल गया था कि किधर जाना चाहिए।

कैदियों को कोठार में बंद करने से पहले किरील ने उनसे यह पूछने को कहा कि वे कहां से आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि तीनों ख्वालीन्स्क नगर से बोल्ना के पार जा रहे हैं। इपात से यह सुनकर किरील ने कैदियों को वापस ख्वालीन्स्क ले जाने का फैसला किया, पर पहले यह पता लगाने की सोची कि वे इस यात्रा पर निकले क्यों। उसने इन तीनों आदमियों में से सबसे पहले उस आदमी को उसके पास लाने का आदेश दिया, जो यह कहे कि वह ख्वालीन्स्क का पुराना निवासी है। दीविच को अपने मन की बात बताये बिना उसने कमांडर को वहां उपस्थित रहने को कहा।

धीर-गम्भीर से लगते दण्डियल व्यक्ति को अंदर लाया गया, खासे फटीचर कोट के नीचे वह मफ्लर डाले था। उसने किरील को बताया कि वह ख्वालीन्स्क का ही रहनेवाला है, बोल्ना के पार मालीय इर्गीज में उसके रिश्तेदार रहते हैं, और वह उन्हीं के पास जा रहा है। यह पूछने पर कि वे लोग जंगल में क्यों छिपे हुए थे, उसने जवाब दिया कि तीनों हो-हल्ले और गोलियां चलने से डर गये थे, सोचा कि जब तक सब शांत नहीं हो जाता, तब तक छिपकर बैठे रहें, और जंगल से इसलिए जा रहे थे कि उधर से रास्ता छोटा पड़ता है। किरील ने यह जानना चाहा कि उसके हमसफर कौन हैं और बूढ़ा उन्हें कब से जानता है। इस पर उसने कहा कि वे ख्वालीन्स्क में नये लोग हैं,

पर वह उन्हें जानता है, और उनमें से एक उसका किरायेदार है।

“जो धायल है वह?” किरील ने पूछा।

नहीं, धायल आदमी को बूढ़ा खास अच्छी तरह नहीं जानता था। उसका कुलनाम बोद्किन है, ख्वालीन्स्क में कोई दो साल पहले आ वसा है, वैसे पेंजा का रहनेवाला है, उसके पास अपना बाग है, जो उसने यहां आकर खरीदा था।

“मतलब क्रांति के बाद ख्वालीन्स्क में आ वसा?”

“हां, लगता तो यही है। हो सकता है लड़ाई के दिनों में आया हो।”

“अच्छा, आप तो अपने रिश्तेदारों के यहां जा रहे थे पर आपके माथियों के भी क्या वहां कोई सम्बन्धी हैं?”

बूढ़े के गव्वदों में उनका साथ संयोगवश ही हो गया था: वह और उसका किरायेदार डर्जिज जा रहे थे, क्योंकि वहां आस-पास लड़ाई नहीं हो रही थी, और बोद्किन इस उम्मीद में उनके साथ हो लिया था कि बोला पार से मधुमक्खियों के दो-तीन छत्ते ले आयेगा – उस ओर की मधुमक्खियां मशहूर थीं। बोद्किन को वह जानता इसलिए था कि वह उसके पास ऐनक का फ्रेम बदलवाने आया था (बूढ़ा ऐसे छोटे-मोटे काम किया करता था)।

“पहले उसकी ऐनक सुनहरी थी?” किरील ने पूछा।

“जहां तक मुझे याद है फ्रेम सोने का था।”

“आपका किरायेदार कौन है?”

बूढ़े का किरायेदार आर्थोडोक्स ईसाई धर्म का अनुयायी था, जो सेराफीम मठ में मठवासी होने आया था, पर अभी उसे वहां जगह नहीं मिली थी। मठ में जगह की कमी थी, लोग बहुत आ रहे थे, और मठ छोटा भी था। इस आदमी का कुलनाम था – मेझ्कोव।

“मरातोव का रहनेवाला है?”

“जी हां।”

“नाम क्या मेरकूरी अव्वेयेविच है?”

दीविच बड़े व्यान में बातचीत सुन रहा था, और इस क्षण उसके लिए यह कहना कठिन था कि कौन अधिक आश्चर्यचकित है – यह मवाल भुनकर बूढ़ा या सकारात्मक उन्नर पाकर इज्वेकोव।

किरील जड़वत बैठा था, मानो उसके विचार कहीं दूर भटक गये थे और अब उसके सामने जो था, उस पर उन्हें लाने के लिए उसे बहुत जतन करना पड़ रहा था। फिर उसने बूढ़े को ले जाने का आदेश दिया और दीविच से कहा :

“मैंने सोचा था इस तिकड़ी में मेरा एक पुराना परिचित होगा, पर निकल दो आये हैं। अजीव बात है।”

“क्या अजीब नाम है, मेरकूरी?”

“पुराने रूसी नाम मेरकूल का ही दूसरा रूप है... अच्छा, देखते हैं,” और किरील फिर से अपने विचारों में डूब गया।

वोद्किन को अंदर लाया गया। अपना घायल हाथ छाती से सटाये वह डगमगा रहा था, उसका धड़ आगे-पीछे झूल रहा था।

“क्या मैं डाक्टर को हाथ दिखा सकता हूँ? घाव परेशान कर रहा है,” बेंच पर बैठते हुए उसने कहा।

किरील बड़ी देर तक गौर से उसे देखता रहा। इस आदमी की उम्र पचास-साठ के बीच थी। उसका सिर विचित्र था—दोनों ओर से दबा हुआ, माथा आगे को निकला हुआ, और गुद्दी पर, जो हूबहू माथे जैसी थी, गुमटे जैसा उभार। पीली सी वरौनियों के बक्रों के बीच जड़ी उसकी आंखों में एकाग्रता और असंतोष था।

“चिकित्सा सहायक पट्टी वांध देगा,” काफ़ी देर चुप रहने के बाद किरील ने जवाब दिया। “आपको जब पकड़ा गया, तो भागे क्यों थे?”

“मैंने सोचा बदमाशों के हाथ पड़ गया हूँ।”

“तो डरकर भागे थे?”

“हाँ। सुना है किसी मिरोनोव के सिपाही पास के ज़िले से इधर आकर लूट-पाट कर रहे हैं।”

“जब चारों ओर ऐसा खौफ़ फैला हुआ है, तो आपने सफर पर निकलने की हिम्मत कैसे की?”

“जरूरत थी इसलिए। उस ओर कुछ छत्ते मिलने की उम्मीद थी। मैं मधुमक्खियां पालता हूँ।”

“अच्छा, मधुमक्खियां पालते हैं? बहुत दिनों से?”

“नहीं, ज्यादा दिन नहीं हुए। बुढ़ापे में कुछ तो करना चाहिए।”

“पहले क्या करते थे ?”

“नरोच्चात में पैरवी करता था।”

“हुं, तो अदालत में थे ?”

“दीवानी मामलों की पैरवी करता था।”

“सिर्फ दीवानी मामलों की ?” थोड़ी देर रुककर किरील ने जानना चाहा।

“मिर्फ दीवानी मामलों की।”

“आपके पास कोई दस्तावेज है ?”

“आपको दिया नहीं गया ? अभी तलाशी के वक्त सिपाहियों ने ले लिया था।”

“पासपोर्ट ?”

“जी हां, पासपोर्ट।”

“क्या लिखा है उसमें ?”

“आप खुद देख लेते। कोई खास बात नहीं। जन्म पेंजा में हुआ। गिहायग – नरोच्चात, पेशा – अर्जीनवीस। जब मुझे पासपोर्ट मिला था, तो मैं अर्जीनवीस था, सो यही लिखा हुआ है।”

“मतलब ख्वालीन्स्क से पहले नरोच्चात में रहते थे ?”

“लगभग सारी उम्र वहाँ रहा हुं।”

“सरातोव में नहीं रहे ?”

“नहीं सरातोव तो नहीं गया। सिम्बीर्स्क, समारा जाना पड़ा था। हां, पेंजा में रहा। एक बार मास्को भी गया था। त्रेत्याकोव गैलरी देखी थी। चित्रकला का शौक है।”

“कुलनाम क्या है आपका ?”

“वोद्किन। डवान डवानोविच वोद्किन।”

“एक ही कुलनाम है ?”

“क्या मतलब ?” वह हैरान हुआ।

“मेरा मतलब है, कुछ लोगों के दोहरे कुलनाम होते हैं। एक ही व्यक्ति के दो-दो कुलनाम।”

“हां, हां ! होते हैं। ख्वालीन्स्क का ही एक है, आधा कुलनाम मेरे जैसा ही है उसका – पेत्रोव-वोद्किन। सुना है आपने ? मशहूर चित्रकार है।”

“देखा,” किरील थोड़ा उठ गया, “कितनी अच्छी मिसाल दी है! आधा नहीं, तकरीबन पूरा ही मिलता है।”

“मिलता कैसे है?” वोद्किन ने आहत स्वर में कहा।

“उसका दूसरा कुलनाम भी ‘प’ से शुरू होता है!”

किरील अपने स्वर में विजय का भाव मुश्किल से दबा पा रहा था। वोद्किन ने दायां हाथ सूखे खून से सख्त पड़ गई पट्टी पर रखा और फिर से उसका धड़ आगे-पीछे भूलने लगा।

“दर्द हो रहा है?” उसकी उंगलियों को गौर से देखते हुए किरील ने पूछा।

दीविच वेचैन सा खिड़की की ओर मुड़ गया।

“हाँ,” वोद्किन ने धीरज से उत्तर दिया, पर तुरन्त ही और अधिक आहत स्वर में बोला: “मेरी समझ में नहीं आता, कामरेड कमिसार, आप जानना क्या चाहते हैं। सोवियत नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता। पता नहीं किस बात के लिए गिरफ्तार कर लिया, और ऊपर से डाक्टरी मदद भी नहीं दे रहे। यह कानून के खिलाफ है।”

“हाँ-हाँ, कानून आप खूब जानते हैं!” किरील चिल्ला उठा। “घबराइये नहीं, आपकी मरहमपट्टी कर दी जायेगी। और कानून का भी पालन होगा, पर उस कानून का नहीं, जिसका पालन आप करते थे।”

“यह मेरे लिए कोई उलाहना नहीं है। मेरी कोई खास हस्ती नहीं थी, तो भी जो सच्चे थे उनकी रक्षा को मैं सदा तत्पर रहता था।”

“हाँ, रक्षा करना आप खूब जानते थे,” किरील ने हामी भरी, उसकी आंखें अभी भी वोद्किन के हाथ पर लगी हुई थीं। “तब तो आपकी पकड़ कहीं अधिक मज़बूत थी। आप तब नाखून वढ़ाया करते थे न, खूब पालिश हुए नाखून?”

वोद्किन ने धड़ भुलाना बंद कर दिया और सिर हिलाया।

“आप मुझे कोई दूसरा आदमी ज़ाहिर करना चाहते हैं। या शायद सचमुच ही मुझे कोई और आदमी समझ वैठे हैं?”

“नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको वही समझ रहा हूं, जो आप असलियत में हैं।”

वोद्किन ने मुस्कराते हुए और मानो कुछ सोचते हुए अपनी मैली उंगलियों पर नज़र डाली।

“आजकल तो देहातियों की तरह सब काम खुद ही करने पड़ते हैं। पहले तो हाथ साफ़ होते थे।”

“खैर साफ़-वाफ़ तो खास कभी नहीं रहे।”

“पता नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप...”

“हां, वैसे पहले आपकी हर बात में नफ़ासत थी। ऐनक सुनहरी थी।”

“सुनहरी ऐनक मेरे पास कभी नहीं थी।”

“यह कैसे हो सकता है! जब आपने छोटे से शहर स्वालीन्स्क में बसने की सोची, तो आपको सब कुछ बदलना पड़ा – कपड़ों से लेकर पासपोर्ट तक। पर नई ऐनक खरीदने की फुरसत नहीं मिली। शायद जल्दी में थे। और यह जो फ्रेम अब आपका है – यह स्वालीन्स्क का है। हां, ऐनक तो देर-सवेर बदली जा सकती है, पर सिर तो नहीं बदला जा सकता। यही तो मुसीबत है।”

धाव की भूलकर वोद्किन ने हैरत दिखाने के लिए दोनों हाथ उठाये, पर तुरन्त ही पट्टी बाला हाथ छाती पर दबा लिया।

“लगता है कामरेड कमिसार, आप सचमुच मेरी बावत गलत-फहमी में हैं।”

स्टूल को ठोकर मारकर किरील उठ खड़ा हुआ, भिंचे दांतों में से उसने हवा खींची, मानो अभी चीख पड़ेगा। परं चीखने के बजाय वह त्रिल्कुल साफ़-साफ़, और पहले से भी अधिक शांत स्वर में बोला:

“हमारी जीवनियां आपस में अच्छी तरह गुंथी हैं, हालांकि देखा जाये तो उनमें... कोई समानता नहीं है। आपने मेरी जीवनी की भूमिका लिखने की कोशिश की थी, और अब मैं आपकी जीवनी का उपसंहार लिखूँगा।” वह क्षण भर को चुप रहा और फिर मानो एक-एक अक्षर टाइप करता हुआ बोला: “राजनीतिक पुलिस के लेफ्टिनेंट कर्नल पोलोनेन्मेव।”

“हे भगवान, कैसी भयंकर गलती है,” वोद्किन बुद्बुदाया और अपने स्वस्थ हाथ से उसने चेहरा ढांप लिया।

दीविच मारा समय कष्टदायी तनाव में बैठा किसी अप्रत्याशित अंत की प्रतीक्षा करता रहा था। अब उसने जोर से उसांस छोड़ी और किरील की ओर हाथ बढ़ाये।

“कोई गलती नहीं है,” इज्वेकोव ने उससे कहा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके स्वर में अजीब निश्चिंतता थी। “इस आदमी को बनना खूब आता है। पूरा ऐक्टर है। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ: इसी ने कभी मुझे ओलोनेत्स प्रदेश भेजा था।”

“अगर आपको यकीन है कि यह वही आदमी है, तो ... मुझे अप पर हैरानी होती है,” दीविच जल्दी-जल्दी बोला। “क्यों आप यह तमाशा कर रहे हैं? कोई मजा आ रहा है क्या इसमें?”

“नहीं, मजा तो क्या आना है,” किरील हौले से हँस दिया। “उल्टे घिन होती है... पर सच मानो, जब यह सोचता हूँ कि ये साहब लोग अभी थोड़े दिन पहले तक क्या कुछ करते रहे हैं, और अब भी कहीं-कहीं कर रहे हैं तो ... वाकई मजा भी आने लग सकता है!”

पोलोतेन्सेव ने चेहरे से हाथ हटाया। चेहरे का भाव ज़रा भी नहीं बदला था, वस हल्की पीली सी भौंहें ऐनक के ऊपर उठ गई थीं। वह अपनी निराशा भरी आवाज में मानो मिश्री घोलते हुए बोला:

“आपकी यह भयानक गलती मेरे लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। मैं यह भली भांति समझता हूँ, और यही कारण है कि मेरे लिए हिम्मत बनाये रखना और भी अधिक ज़रूरी है, भले ही यह असम्भव प्रतीत होता हो। परन्तु यदि आप सचमुच मुझे... राजनीतिक पुलिस का अफसर समझ रहे हैं, तो ... वे लोग तो दरिंदे थे, जल्लाद थे! आप कैसे ... क्षमा कीजिये, मैं आपको कामरेड कहता रहा था, पर अब जबकि आपने विना किसी प्रमाण के मुझ पर ऐसा आरोप लगाया है... (वह मानो नाक से खोखली हँसी हँसा।) हो सकता है, समय बीतने पर महानुभाव और माननीय महानुभाव जैसा कोई सम्बोधन ढूँढ लिया जायेगा। शायद न्यायी महोदय या निर्भान्त महोदय, या कुछ और, ही-ही! सो निर्भान्त महोदय, आपको तो यह शोभा नहीं देता कि आप जघन्य अतीत के उदाहरणों का अनुसरण करें, उन दरिंदों के उदाहरण का, जो असहाय लोगों को सताते थे ...”

“नहीं रहा गया न!” किरील चिल्ला पड़ा, पोलोतेन्सेव के इस प्रचण्ड वाक्प्रवाह को उसने ठहाका मारकर रोका। “पुरानी आदत बोल पड़ी! याद है मुझे, खूब अच्छी तरह याद है; आप कटाक्ष

करने में खूब तेज़ थे। खूब तीखे व्यंग्य करते थे, उफ़, क्या वाकपटुता थी! इसने भी आपका राज उतना ही खोला है, जितना आपकी गुमटे वाली खोपड़ी ने!"

"यह सब कपोल कल्पना के रूप में रोचक लग सकता है," पोलोतेन्सेव ने शांत स्वर में आपत्ति की, "पर यह सब बचकाना है। विल्कुल परोक्ष, कानून की दृष्टि से निराधार गिनाव्य है। कोई सीधा प्रमाण नहीं। और विश्वास मानिये कोई मिलेगा भी नहीं।"

"मिल जायेगा, जब हम आपको आपके निवास स्थान पर पहुंचायेंगे, वेगक, नरोब्वात नहीं, सरातोव में। नरोब्वात आपको बोद्धकिन के रूप में ठुकरा देगा, पर सरातोव पोलोतेन्सेव के रूप में स्वीकार करेगा।"

"इससे कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि मुझे खामखाह में तकलीफ़ सहनी पड़ेगी।"

"जी नहीं, खामखाह में विल्कुल नहीं, रक्ती भरी भी खामखाह नहीं," किरील ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा।

इपात और उसके साथ तीन दूसरे सैनिक कैदियों की खुली पोटलियां उठाये अंदर आये। दस्तावेज़, पैसे, एक इस्पात की ओर एक चांदी की घड़ी, जिसके साथ ज़ंजीर पर चावी बंधी हुई थी—ये सब चीज़ों इपात ने मेज पर रखीं, फिर नीकोन के हाथ से टीन की गोल डिविया नी, जिसे वह श्रद्धामित्रित भय के साथ उठाये हुए था, और उसी भाव में दूसरी चीज़ों से परे रख दी।

"तनावी में हथियार नहीं मिले, पर इसमें बहुत बड़ी ताकत बंद है," डिविया पर नाखून से ठकठक करके उसने कहा, और सैनिकों की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा।

किरील डिविया अपनी ओर सरकाना चाहता था, पर उसका हाथ उमपर ठिक गया और उसने इपात की ओर प्रश्नभरी नजर उठाई। इपात ने निचला होंठ फुलाकर सिर पीछे को झटका, मानो यह कहने हुए कि खुद देख लीजिये, कहा न छोटी-मोटी चीज़ नहीं है।

यह मामूली डिविया थी, जिसके ढकने पर स्टर्जन मछली बनी थी और चाँगों ओर वेरे में लिखा था: अस्त्राखान की नमकीन स्टर्जन। पर डिविया बहुत बजनी थी। किरील ने एक सिरे से उसका ढकना उठाया और झट से बंद कर दिया।

“किसके पास मिली ?” उसने पूछा ।

“इसके अंदर,” फटे तकिये की ओर इशारा करते हुए नीकोन ने उत्तेजित स्वर में कहा ।

“जिससे आपने जवाब-तलब नहीं किया है, उसी का है यह, इपात ने बात स्पष्ट की ।

किरील ने सिर से पोलोतेन्सेव की ओर इशारा किया ।

“इपात, तुम इसे लाये हो, तुम्हारे पर ही इसका जिम्मा होगा तुम्हें यह हुक्म दे रहा हूँ: चौकस रहना और अपनी आंख के तारे की तरह इसकी संभाल करना ।”

“अपनी आंख तो मुझे दुगनी प्यारी है: एक ही तो है ...”

जैसे ही पोलोतेन्सेव को ले जाया गया और कमरे में रह गये नीकोन दूसरे सैनिकों की मदद से कैदियों की चीजें फर्श पर फैलाने लगा, दीविच ने डिविया की ओर आंख मारी:

“क्या है – शैतान का खिलौना ?”

किरील ने सैनिकों को पास बुलाया। सब उसे धेरकर खड़े हो गये। उसने ढकना उठाया, डिविया पर हथेली रखी और उलटा दी

सारी हथेली सोने के सिक्कों से भर गई, ऊपर के सिक्के में पर फिसल गये। उसने हौले से सिक्कों के नीचे से हाथ हटा लिया जब तक ढेरी मेज पर फैलती रही, हवा में सोने की खनखनाहट तैरती रही।

“अम्मा री अम्मा! हजारों!” नीकोन ने दांतों तले उंगली दबा ली

“पूरा खजाना है!” दूसरा सैनिक बोला।

“यह है मेरकूरी, व्यापार का देवता – मर्करी,” दीविच बुद्बुद रहा था।

सब फटी-फटी आंखों से सोने के ढेर को देखे जा रहे थे, अकेले किरील ही खोया-खोया सा बारी-बारी से सबको देख रहा था। फिर वह खिड़की के पास गया, थोड़ी देर वहां खड़े रहकर मेज के पास लौट आया। मुस्कराते हुए उसने दीविच से कहा:

“आप कभी यह अनुमान नहीं लगा सकते कि इस वक्त मुझे क्या कुछ याद आ रहा है। अब मैं बहुत सी बातें समझ पा रहा हूँ बहुत कुछ ...”

और उसने उंगलियों से सिक्कों को छुआ, और वे हल्की सी ब्लन्डनाहट के साथ मेज पर और अधिक फैल गये।

“अम्मा री अम्मा!” नीकोन फिर से फुसफुसाया।

तीसरे कैदी को जब अंदर लाया गया, तो वह विल्कुल दुख का मारा लगा। उसका शरीर उसके सूट में धंसा हुआ था, हालांकि यह माफ दिखता था कि सूट उसका अपना ही है, और यह भी कि सूट का म्वामी कभी खूब चुनकर कपड़े सिलवाया करता था। उसने हजामत न जाने क्वसे नहीं कराई थी, और सिर तथा दाढ़ी के बाल उलझे-पुलझे थे, जिनसे उसके निस्तेज, कातर चेहरे पर घबराहट का भाव और भी बढ़ गया था। किन्तु घनी भौंहों तले आंखों में विचित्र, शांतिमय हर्ष की चमक थी, मानो इस व्यक्ति को उचित ही उस न्याय पर हर्ष हो रहा हो, जो इसने पा लिया है और जिसमें इसे कोई संदेह नहीं है।

अपनी इस विशिष्ट दृष्टि से इज्वेकोव की ओर देखते हुए वह बैंच पर बैठ गया, मेज पर रखे सोने का मानो उसके लिए अस्तित्व ही नहीं था।

“मेझेकोव, मेरकूरी अब्देयेविच?”

“जी हां।”

“मगतोव छोड़े वहूत दिन हो गये?”

“तीन हफ्ते।”

“यहां किसी से मिलने आये हैं, या सदा के लिए?”

“मोर्चा तो सदा के लिए ही था।”

“अपना शहर क्यों छोड़ा?”

“मठवामी होने की कामना थी। पर पहुंचने पर पता चला कि जगह नहीं है। जिस कोठरी का मुझे वायदा किया गया था, वह खाली नहीं थी, सो मैं शहर में कमरा लेकर रहने लगा।”

“जगता है कमरा पसंद नहीं आया?”

“आपका मतलब है मैं फिर से क्यों दूसरी जगह को चल पड़ा? बैंचेनी के काग्ज। खबर आई थी कि मोर्चा ल्कालीन्स्क के पास आ रहा है। मैं बुझापे में एकांत चाहता था और डर रहा था कि मेरी यह इच्छा पूरी न हो पायेगी।”

“वोल्ला के पार आपकी इच्छा कौन पूरी करेगा ? कज्जाक ?”

“कज्जाक क्यों ?” मेरकूरी अद्वेयेविच ने ऐसे स्वर में पूछा, मानो नतमस्तक हो रहा हो। “मैंने तो सोचा तक न था।”

“पर वोल्ला के पार तो कज्जाक हैं।”

“लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा था। मुझे मालीय इर्गीज का प्रलोभन दिया गया था कि वहां तक मोर्चा नहीं पहुंचेगा। शांत जगह है। हालांकि मुझे खास पसन्द नहीं।”

“ऐसी क्या बात है ?”

“वहां ज्यादातर पुरातनपंथी रहते हैं। मेरा मकान मालिक भी पुरातनी है। सो अब पछतावा हो रहा है कि बातों में आ गया : मकान मालिक ने ही मुझे चलने को राजी किया था।”

किरील ने सिर से सोने की ओर इशारा किया :

“आपका अपना है ?”

“जी हां,” मेरकूरी अद्वेयेविच ने हामी भरी ; वह न केवल सोने की ओर देख नहीं रहा था, बल्कि उसने मुँह और भी परे मोड़ लिया था, फिर भी उसे इस बात में ज़रा भी संदेह नहीं था कि सोने की बावत ही पूछा जा रहा है।

“सोवियत सत्ता से छिपा रखा था ?”

“छिपायी वह चीज जा सकती है, जिसे कोई ढूँढ़ रहा हो। मुझ से किसी ने इसके बारे में नहीं पूछा था। सो छिपाया हुआ नहीं, बचाया हुआ है।”

“आत्मा के उद्धार के लिए ?”

“मठ को भेट करना चाहता था।”

एक सैनिक जो सारा वक्त भौंहें सिकोड़े मेरकूरी अद्वेयेविच को देखता रहा था, सहसा बोल पड़ा :

“तो किर किया क्यों नहीं ? भेट कर देता, तो कोठरी भी फौरन मिल जाती।”

मेश्कोव ने सिर झुकाकर यह बात सुन ली।

“हमें आपको अदालत को सौंपना होगा।”

“जैसी आपकी मर्जी।”

“सिक्के अभी गिनकर पंचनामा बना देंगे, उसपर आप हस्ताक्षर करेंगे।”

“जैसी आपकी मर्जी़,” भावहीन स्वर में मेश्कोव ने फिर कहा।

उसने बस आंखें मूँद ली थी और बेंच के ऐन सिरे पर बैसे ही निश्चल बैठा हुआ था, मानो पल भर को बैठा हो और अभी उठकर चल देगा। यह कहना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा है, निस्संदेह पैसों के बारे में भी वह सोचता रहा होगा, विशेषतः जब सोने के सिक्कों की मधुर खनक कमरे में गूँजने लगीः किरील और दीविच एक-एक करके सिक्के गिनने और उनकी ढेरियां बनाने लगे थे। पैसों के बारे में सोचे बिना वह नहीं रह सकता था, क्योंकि उनके बारे में विचार सदा उसके अन्य सभी विचारों से जुड़ा होता था: कभी उनके आगे रहता, कभी पीछे, लेकिन आगे या पीछे चलनेवाली परछाई की भाँति सदा साथ रहता। वह सदा वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करता रहता था। अतीत में आदमी के पास जितना अधिक धन होता था, उतना ही अधिक उसके पास और आता जाता था। धन में स्वतःवृद्धि का गुण था। कभी पहला सोने का सिक्का पाना ही सबसे कठिन रहा था। उसके बाद का हर सिक्का अधिकाधिक आसानी से प्राप्त होता गया था, जैसा कि रूसों ने कभी कहा था (इस बात में उससे पूर्णतया सहमत होने के लिए मेश्कोव को रूसों की रचनाएं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी)। अब आदमी के पास जितना अधिक धन होता था, उतना ही कम रह जाता था, क्योंकि उससे उतना ही अधिक छीन लिया जाता था।

और अब मेश्कोव से उसके सोने के अंतिम सिक्के छीन लिये गये थे। ये सचमुच ही उसके अंतिम सिक्के थे। वह चुपके-चुपके उन्हें छिपाता रहा था, जबकि वह अपनी प्रायः सारी सम्पदा से हाथ धो बैठा था। उसने उन्हें सबसे छिपाकर रखा था। अगर वह सबसे, पवित्र आत्मा तक से कुछ न कुछ छिपाकर न रखता, तो यह उसके स्वभाव के पूर्णतया विपरीत होता। इन सोने के सिक्कों के बारे में उसने न अपनी पत्नी को, न लीज़ा को, न अपने पादरी को और न ही उस विशेष को कुछ बताया था, जिसने उसे मठवासी होने का आशीर्वाद दिया था। वित्त-विभाग में भी वह उनके बारे में चुप्पी साथे रहा था, हालांकि जब रागोजिन ने उससे पूछा था कि उसके पास मोना तो नहीं बचा है, तो उसके हाथ-पांव सुन्न हो गये थे। अगर

मनुष्य के लिए अपने कर्मों को अपने से ही छिपा सकना सम्भव होता, तो वह अपने आप को भी इस डिविया के बारे में न बताता, ताकि कहीं दुर्बलता के क्षण में अपना यह रहस्य किसी के सामने खोल न दे। सोने के सिक्कों से भरी इस डिविया को उसने अपने बिस्तर में छिपा रखा था और घर से चलते बक्त सिरहाने में उसे रख लिया था। उसने सिक्कों के बीच रुई ठूंस-ठूंसकर भर दी थी, कि कहीं वे खनक न उठें। सोते हुए वह अपना गाल इस डिविया पर रखता था और यह टीन की डिविया उसके लिए रोयों से भी अधिक मुलायम थी। जब वह सोता होता, तो सोने के सिक्के उसके कान में मानो फुसफुसाते: हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। और अब उसका रहस्य नहीं रहा था! गिनती खत्म हो गई थी।

हाँ, गिनती खत्म हो गई थी। दीविच पंचनामा लिखने लगा। किरील ने पेंसिल के टुकड़े से मेज के पटरे पर गिनती लिखी, गुणा की और कहा:

“कुल पांच हजार छह सौ चालीस रुबल। ठीक है?”

“नहीं,” मेरकूरी अद्वेयेविच ने हौले से जवाब दिया, “ठीक नहीं है। गिनती गलत है।”

“क्या मतलब?”

“गिनती ठीक नहीं की। डिविया में से निकालने की जरूरत ही नहीं थी। डिविया के घेरे में उन्नीस सिक्के आते हैं। हर ढेरी में दस-दस रुबल के तीस सिक्के थे, यानी एक ढेरी में तीन सौ। तीन सौ गुणा उन्नीस हुए पूरे पांच हजार सात सौ, पांच हजार छह सौ चालीस नहीं। हाँ, अगर छह सिक्के... तलाशी में कहीं खो नहीं गये तो।”

“ओफ़ क भाड़ में जाये यह सब! छह सिक्के! चलिये, अपने आप गिनिये!” किरील चिल्लाया, उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया।

मेरकूरी अद्वेयेविच मेज के पास खिसक आया। सिक्कों की ढेरियों पर नजर डालते हुए उसके गले में जैसे कुछ फंस गया और वह बड़ी देर तक खांसता रहा। फिर वह मानो अपने आप से बातें करने लगा:

“अगर मेज सपाट होती, तो यह देखना ज़रा भी मुश्किल नहीं था कि हर ढेरी में सौ रुबल हैं या नहीं। पर मेज के पटरे ऊचे-नीचे

हैं। यह देखिये, यह ढेरी दूसरों से अलग लग रही है। है यह नीची जगह पर, लेकिन एक सिक्का इसमें फ़ालतू है। और इसमें भी। इजाजत हो तो गिनूं।”

“गिनिये।”

मेझकोव ने ढेरी अपनी ओर सरकाई, उसे उंगलियों से दबाया और मिक्के खनखनाते हुए एक कतार में ढह गये। उसने बाईं हथेली मेज़ के सिरे के नीचे रखी। दायें हाथ की तर्जनी और विचली उंगली से दो-दो सिक्के पकड़कर वह ऐसी फुर्ती से उन्हें बाईं हथेली में गिराने लगा कि देखनेवाले विस्मित रह गये।

“ग्यारह,” वह बोला और टन से फ़ालतू सिक्का एक ओर को फेंक दिया।

वह जरा भी चूके विना गलत गिनी ढेरियां ढूँढ रहा था। उन्हें अलग करके वह गिनता और फ़ालतू सिक्के अलग फेंकता। आखिर छह सिक्के निकल आये और सौ की ढेरी पूरी हो गई। उसकी उंगलियों में मानो जवानी आ गई थी।

“देखो तो कैसे मशीन की तरह उंगलियां चलाता है,” उसकी दबता पर विमुग्ध नीकोन बोला।

मेरकूरी अव्देयेविच मानो सहसा होश में आ गया और उसने भौंहें तानकर नीकोन की ओर देखा। उसकी दृष्टि में अब उस शांतिमय हर्ष का नामोनिशान तक न रहा था, जो यहां आने के समय था। उसकी आंखें धूंधली पड़ गई थीं और समझदारी का भाव मानो पन भर में ही जाता रहा था।

मब चुपचाप मेझकोव की ओर देख रहे थे। धीरे-धीरे वह मेज़ में परे मुड़ गया, अचानक उसके कंधे हिलने लगे और वह बेंच पर झुक गया।

“दिल टूट गया,” सैनिक बोला, “वड़ा दुख हो रहा है अपने बिनौनों से जुदा होते ...”

“गिनती ठीक है कि नहीं?” डज्वेकोव ने तीखी, प्रायः क्रोध भरी आवाज में पूछा।

भिसकी भरकर मेझकोव इतने धीमे से बोला कि आवाज मुश्किल में मुनाई देती थी:

“ठीक है, पर आपकी नहीं, मेरी। पूरे सत्तावन सौ। जितने थे। हे भगवान, जितने थे !”

उसने सिर पकड़ लिया और फूट-फूटकर रोने लगा।

दीविच ने पंचनामे में रकम लिखी। वे सिक्के डिविया में रखने लगे, ठीक से रख नहीं पा रहे थे क्योंकि जल्दी में थे—इन सब अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बहुत अधिक समय बीत गया था। मेश्कोव को पंचनामे पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। उसने अपने पर कावू पा लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के हस्ताक्षर कर दिये।

उसे जब झोपड़ी से बाहर ले जाया जा रहा था, तो किरील ने एक और सवाल पूछा :

“अपने धायल साथी को आप सरातोव में जानते थे ?”

मेश्कोव रुक गया।

“मैं सिर्फ अपने लिए जवाबदेह हूं, और किसी के लिए नहीं।”

“बेशक हर कोई अपने किये का जवाब देगा। पर मैं सोचता हूं अगर आप उसका नाम बता दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा।”

मेश्कोव ज़रा असमंजस में था।

“उसने खुद नहीं बताया।”

“शायद उसके पास अपनी असलियत छिपाने का कारण है। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, उससे नहीं।”

मेश्कोव फिर थोड़ी देर चुप रहा।

“वह मेरा कोई सम्बन्धी नहीं,” अभी भी फिरकते हुए वह बोला। “पर मैं चुगली क्यों खाऊं? गलती हो गई तो पाप लगेगा।”

“पर आप गलती मत कीजिये।”

“ठीक है, मैं सच्चाई से नहीं डरता। ठीक-ठीक तो पता नहीं कि उसका ओहदा क्या है। जहां तक मुझे याद पड़ता है वह राजनीतिक पुलिस में लेफ्टिनेंट कर्नल था।”

“पोलोतेन्सेव ?”

“हाँ, पोलोतेन्सेव,” मेरकूरी अच्छेविच ने तुरन्त ही पुष्टि की और आंखें भुकाकर जल्दी से बाहर निकल गया।

किरील और दीविच ने एक दूसरे की ओर देखा।

आखिर उन्होंने कूच किया। दिन ढल रहा था। टुकड़ी के आगे-

आगे कंदी चल रहे थे। सबसे आखिर में भेड़ियों से लदी घोड़ागाड़ी थी। कुत्ते अपने रोंगटे खड़े किये, वेतहाशा भौंकते गांव के बाहर तक टुकड़ी के पीछे-पीछे आये।

इपात घोड़ों पर सबार कमांडर और कमिसार के बगल में ही चल रहा था। वह देख रहा था कि वे लोग बातें नहीं करना चाहते, सो खुद भी चुपचाप चलता जा रहा था।

दीविच एक नई दृष्टि से इधर-उधर देख रहा था, उस व्यक्ति की भाँति जो लम्बे अरसे के बाद अपने जन्म स्थान पर लौटा हो, और समय के साथ आये परिवर्तनों के पीछे वहां के जाने-पहचाने दृश्य भाँप रहा हो। वह आदतन अपने लड़कपन की कोई सरल सी धून गुनगुना रहा था। जब-जब वे जंगल से बाहर निकल आते, तो उसे घोड़े पर बैठे दूर तक राम्ता दिखाई देता, और टीलों के बीच कोई मोड़ जब वह पहचान लेता, तो देर तक उसके चेहरे पर विचारमण मुस्कान बनी रहती। मैंपल वृक्षों से, जो ढलान पर खूब अच्छी तरह उगते हैं, टीले नहरदार लग रहे थे। अब गांव जल्दी-जल्दी आने लगे और रास्ता अधिक चौड़ा होता जा रहा था, जिससे शहर की निकटता का आभास होता था।

किरील आंखें मूंदे काढ़ी में डोल रहा था। उसे भपकी नहीं आ रही थी, पर यह भी मन नहीं था कि कोई उससे बात करे। रेप्योव्का की घटनाएं अब उसकी स्मृति में धूंधली पड़ गई थीं, उनका स्थान अतीत के माथ ऐसी अप्रत्यागित, अनोखी दो भेंटों ने ले लिया था, जो किमी विलक्षण संयोग से एक साथ ही हुई थी। दोनों ही भेंटें उसे चढ़ती जवानी के दिनों की यादें दिलाती थीं, और दोनों में से प्रत्येक उसके विचारों को देर तक उलझाये रखने के लिए पर्याप्त थी। पग्न्तु माथ ही पोलोतेन्सेव का रहस्योद्घाटन, मेश्कोव का सोना, मड़क पर पड़ी युवती की लाग, तावूतों पर कागज के बेलवूटों को नहगती हवा, अपने पुट्ठे पर दांत मारता भेड़िया, गोली से उड़ा दिया गया जूविन्स्की और शुन्निकोव की हत्या, भगोड़े नीकोन को मिली माफ़ी और जीवन को बदलने की दार्यनिक बातें करता इपात—ये मव किमी अदृश्य भूत्र से एक दूसरे से बंधे हुए थे, इनमें कोई अन्योन्य सम्बन्ध था। ये मव बातें एक दूसरे में ऐसे गुंथी हुई थीं, जैसे बैत मे

बुनी टोकरी , और किसी एक बात पर , एक घटना पर विचार करते ही , दूसरी , तीसरी घटनाएं भी मस्तिष्क में आप से आप उभर आती थीं , वैसे ही जैसे टोकरी में से दूसरे बेंतों को छेड़े बिना एक बेंत नहीं निकाला जा सकता । किरील यह देख रहा था कि इन थोड़े से दिनों में उसने उन सब बाधाओं को पार कर लिया है , जो उसके मार्ग में खड़ी की गई थीं , और सभी समस्याओं का सही हल ढूँढ़ा है । यही नहीं , उसका यह विश्वास अब सदा से अधिक दृढ़ था कि वह इन से भी बड़ी बाधाओं को पार कर लेगा , और शायद संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है , जो उसका संकल्प , उसका मनोवल तोड़ सके । उसने अपने आप से पूछा कि क्या वह अपने काम से संतुष्ट है , और उत्तर दिया कि उसे संतोष होना चाहिए । और जब उसने यों उत्तर दिया , तो तुरन्त ही एक नया सवाल उठा : फिर वह उदास क्यों है ? और इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था , वह बार-बार यह प्रश्न दोहराता , पर उसका मस्तिष्क इसका कोई उत्तर न दे पाता , वस उसका मन उदास था । उसके सामने निरन्तर उन लोगों की सूरतें मंडरा रही थीं , जिन्हें उसने कुछ समय पहले देखा था , जिनके भाग्य का फ़ैसला किया था , और वह फिर से अपने आप से पूछता , कि उसने कोई गलती तो नहीं की , और फिर से उसके इस विश्वास की पुष्टि होती कि नहीं , कोई गलती नहीं की । लेकिन उदासी थी कि जाती ही न थी ।

बगल में चलते इपात की अफ़सोसभरी उसांस सुनकर उसने आंखें खोलीं ।

“क्या बात है इपात ?” मुस्कराते हुए उसने पूछा । “उदास हो रहे हो ?”

“सपने में दिखाई देगा कैसे मैं उसके पीछे दौड़ा था ! भगवान कसम !”

“किसके पीछे ?”

“भेड़िये के पीछे । मरा पड़ा होगा कहीं जंगल में । ऐसी बढ़िया खाल हाथ से निकल गई । सब इन कमवख्तों की वजह से , बेड़ा गरक हो इनका !”

उसने कैदियों की ओर मुक्का दिखाया ।

“अगर हमारे यहां पदक होते , तो इन कमवख्तों के लिए मैं तुम्हें पदक दिलवाता ,” किरील ने कहा ।

“मेरे लिए भेड़िया पदकों-वदकों से ज्यादा कीमती है। मेरे भोले में दो जार्ज पदक * पड़े हैं।”

पल भर को वह चुप रहा, फिर अपनी तेज़ नज़र किरील पर ढाली, मानो उसके विचार बूझना चाहता हो।

“कामरेड कमिसार, आप मुझे एक परचा लिख दीजिये कि मैंने मज़दूरों-किसानों की फौज की सेवा की है। मैं उसे जड़ाकर कमरे में टांग दूंगा, ताकि सारे गांव वाले देखें। (उसने आंख मारी।) और आपको भेड़िये के लिए भी मुझे इनाम देना है। कामरेड कमांडर को भी। मैंने आपको विल्कुल अचूक जगह पर खड़ा किया था। यह भी हुनर का काम है।”

“अगर हिसाब ही करना चाहते हो, तो मेरे भेड़िये की खाल ले लो,” किरील फिर से मुस्कराया और एड़ लगाकर दीविच के पास चला गया।

“कैसा लग रहा है, वसीली दनीलोविच ?”

“वहुत खूब !” दीविच ने जवाब दिया और सहसा वह रकाव पर जोर डालकर यों उठ सा गया कि घोड़े की चाल टूट गई, और वह दुलकी चाल से दौड़ने की तैयारी में जमने लगा।

“वो टीले पर सड़क देख रहे हैं ?” दीविच ने बोलना जारी रखा। हाथ बढ़ाकर उसने ऊंचे टीलों की ओर इशारा किया, जिन पर उगे घने पेड़ डूबते सूरज की किरणों में काकरेजी लग रहे थे। “वो देखिये, चीड़ कुंदनी हो रहे हैं। वहां से कोई दो फलांग आगे निचान है, फिर टीले और उनके बीच निचाई में पुरातन पंथियों के मठ हैं, स्त्रियों और पुरुषों के मठ पास-पास ही। वहां से बोला की ओर थोड़ा और बढ़ें, तो कस्वा शुरू होता है। और उस कस्बे में ... ”

“क्या है कस्बे में ?”

“मेरा घर,” कुछ लजाते हुए दीविच ने हौले से बात पूरी की।

उसके साथ बात छेड़ते समय इज्वेकोव को उम्मीद थी कि वह अवश्य ही यह जानना चाहेगा कि ये मेश्कोव और पोलोतेन्सेव कौन

* जार के जमाने में सैनिकों को वीरता के लिए दिया जानेवाला पदक। — स०

हैं, और वह उसे अपने अतीत के बारे में बताने को तैयार था। लेकिन लगता था दीविच को उन लोगों में कोई रुचि नहीं रह गई थी, जिन्हें गार्ड टुकड़ी के आगे-आगे ले चल रहे थे। इज्वेकोव के जीवन के साथ उनका कोई सम्बन्ध न रहा होता, तो उसे दीविच की यह उदासीनता इतनी न चुभती: जारखाही सेना का भूतपूर्व अफ़सर क्रांति के शत्रुओं से लड़ने को तैयार हो गया था और अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभा रहा था; इससे अधिक उससे कुछ आशा करना मूर्खता होती। परन्तु वहां झोपड़ी में सोने के सिक्कों की ओर इशारा करते हुए इज्वेकोव ने स्वयं अपने अतीत की चर्चा छेड़ी थी, यह कहकर कि मेश्कोव के सोने से उसे अतीत की कितनी बातें समझ में आ गई हैं। किरील की इस तत्परता को नज़रदाज़ करके दीविच ने मानो यह कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का निजी जीवन उसका अपना मसला है। किरील को यह उसकी रुखाई लगी और इससे उसके दिल को ठेस पहुंची।

“सो, बस ख्वालीन्स्क आनेवाला है?”

“दुलकी चाल से बीस मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे।”

“यहां तो शांति ही होगी—लुटेरे शहर के पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे।”

“हां। शायद ही किसी से सामना हो। दूसरी टुकड़ियों का पता नहीं। वे भी मुमकिन हैं किसी मुठभेड़ के बिना पहुंच जायें।”

“आप संतुष्ट हैं?”

“संतोष की खास बात क्या है? कोई खास लड़ाई तो अभी तक हुई नहीं।”

“आप खास लड़ाई चाहते हैं? इस बात पर संतुष्ट हैं कि हमारे साथ हैं?”

“लाल सेना में? मुझे ये सैनिक अच्छे लगते हैं... और ये कमिसार।”

दीविच की ठोड़ी का गङ्गा फैल गया और प्रायः अदृश्य हो गया: स्नेह-स्निग्ध मुस्कान से वह किरील को देख रहा था।

“मुझे एक तरह से इसका अहसास ही है,” उसने आगे कहा। “साफ़-साफ़ समझा नहीं सकता कि अच्छा क्यों लगता है। यों कहिये कि इसकी कोई दार्शनिक व्याख्या नहीं कर सकता।”

“आजकल दर्शन कोई अमूर्त बात नहीं है, हमारे काम ही दर्शन हैं। आप एक कर्ता के नाते राजनीति को समझ लीजिये। तब सब स्पष्ट हो जायेगा।”

“यों तो मुझे सब स्पष्ट है,” वैसे ही स्नेहपूर्वक मुस्कराते हुए दीविच ने कहा। “मैं सोचता हूँ मैंने अपने लिए सब फँसला कर लिया हूँ, जैसे होना चाहिए।”

किरील को इस क्षण दीविच अत्यंत सरल हृदय और निश्चल लगा। वह भी उतने ही प्रफुल्ल स्वर में बोले विना न रह सका:

“छोड़िये भी! आप तो बस खुश हैं कि घर पहुँच गये।”

“पांच साल बाद! और कैसे थे ये पांच साल! बाप रे बाप!” वडे उत्साह से दीविच ने कहा और तभी सकुचाते हुए, मानो किशोर की भाँति बोला: “किरील निकोलायेविच, थोड़ा बक्त निकालकर मां मेरे मिलने चलेंगे, हैं?”

“नहीं, नहीं, मैं खामखाह बीच में आऊंगा...”

“जरा भी नहीं, सच मानिये! बहुत अच्छी हैं मेरी मां, देख लेना!”

“नहीं, मैं आपकी जगह कमान संभालूंगा, चला लूंगा काम और आप...”

किरील ने दीविच के उत्तेजित चेहरे पर नज़रें गडाई और फिर महसा बोला:

“चाहें, तो अभी आगे-आगे घर चले जाइये, सुवह आ जाना? तब तक मेरे स्वाल में सारी कम्पनी जमा हो जायेगी।”

“सच?” दीविच ने मानो डरते-डरते पूछा।

उसने थोड़े की लगाम खींची और किरील की ओर झुका। उसकी आँखें चमक रही थीं, पर वह दुकिधा में था – अपने कानों पर विच्वास करे या न करे।

“मुझे कम्पनी मौंपते डर लगता है?” किरील हँसा। “अगर लड़ाई में आपको कुछ हो जाता, तो नियम से मैं ही कमान संभालता। अब तो कोई लड़ाई नहीं हो रही। जाइये। फिर कभी मौका आने पर मैं जाऊंगा, आप अकेले रहेंगे। और हाँ, आपको मुझे एक छुट्टी भी देनी है। याद है, जर्मन के लिए? अभी मैंने वह छुट्टी ली नहीं है... अच्छा?!”

और किरील ने दीविच की ओर हाथ बढ़ाया।

दीविच ने टुकड़ी को रुकने का आदेश दिया और कहा कि वह कमान कमिसार को सौंप रहा है, खुद अगले दिन सुबह आठ बजे हाजिर होगा।

उसने इज्वेकोव से हाथ मिलाया, घोड़े को दो बार जोर से एड़ लगाई और काठी में उछलता हुआ दुलकी चाल से टुकड़ी से आगे निकल गया।

शीघ्र ही वह जंगल में मुड़ा। सूने रास्ते पर नीची टहनियों से बचने के लिए बार-बार सिर भुकाते हुए दुलकी चाल से ही उसने पहाड़ी पार की और निचाई में उतरा। यहां कहीं-कहीं रास्ता इतना खुला था कि वह घोड़े को सरपट दौड़ा सकता था, लेकिन जब वह टीलों तक पहुंचा, तो रास्ता पगड़ंडी में बदल गया, जिसके ऊपर मेपल की आपस में गुंथी टहनियों से मेहराब बना हुआ था। दीविच घोड़े से उतरा और लगाम पकड़कर चलने लगा।

टीले के ऊपर से उसे नीचे फैला बाग दिखाई दिया, जहां सांभ का भुट्पुटा फैल गया था। सेव के पेड़ों के बीच दो-तीन जगहों पर धुआं उठ रहा था। यहां मठवासियों की सबसे दूर की कोठरियां थीं। वरसों पहले दीविच यहां अपने हमजोलियों के साथ गानेवाली चिड़ियां पकड़ने आया करता था।

घोड़े की सवारी से थकी टांगों को सीधे करते हुए वह तेज़-तेज़ चल रहा था। कुछ कदम आगे झाड़ियों में ज़ोर की खड़खड़ हुई और तुरन्त ही शांत हो गई। घोड़ा भड़का, और उसने लगाम को भटका दिया। दीविच ने अपने रिवालवर का होलस्टर खोला। अत्यंत अप्रिय, बीभत्स आवाज उसके कानों में पड़ी और फिर जंगल भूलता हुआ सा उसके चारों ओर धूम गया। “नहीं! ऐसा नहीं हो सकता!” वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज पर उसका बस न रहा था ...

... उसी क्षण उसे पत्तियों के पीछे आसमान में उठता बाज दिखा। नीचे से काले-काले विशाल तिकोनों जैसे दिख रहे पंखों को निश्चब्द हिलाते हुए पक्षी ऊपर उठ रहा था और अपना छोटा सा सिर टेढ़ा किये चमकीले बटन जैसी आंख से पगड़ंडी पर तिरछी नज़र डाल रहा था। थोड़ी दूर चलने पर दीविच को पैरों तले विखरे पड़े रोयें दिखे

और आगे ढेर सारे चितकवरे पर, जिन्हें देखते ही वह समझ गया कि वे जंगली मुर्गे के हैं। और कोई मौका होता तो वह ज़रूर रुककर झाड़ियों में आहत शिकार को ढूँढ़ता, पर अब उसने अपने कदम भी धीमे नहीं किये। उसके मस्तिष्क में वस यह विचार कौंधा कि पहले भी कर्भ उसने इस पगड़ंडी पर जंगली मुर्गे पर झपटे ऐसे ही बाज़ को देखा है।

वह मेपल के जंगल में से निकला, उछलकर काठी में बैठ गया और निचाई में यहां-वहां बनी मठवासियों की कोठरियों और छोटे रंगिन गिरजे पर एक नजर डाले बिना ही उन्हें पार कर गया। जैसे ही कस्ता दिव्याई दिया, उसने ढलान पर घोड़े को सरपट दौड़ाया।

एक जैसे ही लकड़ी के मकानों और उनके सामने के बगीचों के लंबी कतार के अंत में रुपहला पाप्लर वृक्ष सिर उठाये खड़ा था, उसके निचली डाल पहले की ही भाँति उजले रंग के मकान की छत को अपनी ओंचे छिपाये थी।

दीविच ने घोड़े को रोका। उसका दिल जोर-जोर से धड़क रहा था, मानो वह सारे रास्ते सांस लिये बिना ही दौड़ता आया हो। उसने घर तक घोड़े पर न जाने का फ़ैसला किया और उसे पड़ोस के बगीचे की बाड़ से बांध दिया।

फाटक खुला पड़ा था। वह अहाते में धुसा। बड़े दरवाजे के सामने वरामदे पर अंगूर की बेल घनी फैल गई थी और छत पर चढ़ गयी थी। चिमनी में से हल्का-हल्का धुआं उठ रहा था। सारे अहाते में चैरों के पेड़ उग रहे थे, उनकी बूची टहनियां जमीन तक लटक रही थीं। फाटक से घर तक पगड़ंडी पर बिछे पटरे गल-सड़ गये थे और अब पैर तने चरमराते नहीं थे। कुएं की लकड़ी की जगत एक ओर को भुल गई थी। कुत्ते के खोखे में टूटी बांहों वाली चीनी मिट्टी की गुड़ियां पड़ी हुई थीं।

दीविच दबे पांव घर के अंदर चला गया। रसोई में समोवा कर्ण पर रखा हुआ था, जलती छिपटियों से उसकी टीन की चिमन में मूँ-मूँ हो रही थी। जले टीन के छेदों में से आग की लपटें बेलवूट जैमी नग रही थी। घर में सब कुछ बिलौनों जैसा छोटा हो गया नगता था, और जब दीविच उस कमरे में जाने लगा, जिसे वह बचपन में ही हाँन कहता आया था, तो उसे मिर भुकाना पड़ा। सभी चीज़ें

उसे प्यारी थीं, परिचित थीं, फिर भी उन्हें नये सिर से पहचानना पड़ रहा था: सारे घर पर बीते दिनों की धूल जमी लगती थी, जैसे बुझे अलाव पर राख।

लकड़ी की अलमारी पर छोटी सी ढिबरी जल रही थी। पहले मां सोते समय इसे अपने बिस्तर के पास रखा करती थीं। दीविच ने सोने के कमरे में भाँककर देखा। पलंग पर वही सफेद चादर बिछी हुई थी। वह हाँल में लौट आया और लैम्प को फ़ोटुओं के पास सरकाया।

उसे अपना अजीब सा चिकना चेहरा दिखा, वह छात्रों की वर्दी पहने था, उसकी उंगलियों के बीच सिगरेट थी। जब वह युद्धबंदी रहा था, तो सिगरेट पीने की आदत छूट गई थी। छात्र की वर्दी उसने मास्को में अपनी मकान मालकिन के पास छोड़ दी थी। आज के दीविच और सिगरेट पकड़े उस किशोर के बीच हजारों साल का फ़ासला था। सामने ही बहन का अनजान फ़ोटो था, वह मुंह फुलाये आदमी की बांह में बांह डाले खड़ी थी, इस आदमी की शक्ति पास्तुखोब से बहुत मिलती थी।

रसोई में किसी के कदमों की आहट हुई। दीविच ने मुड़कर देखा। उसकी छाती ऐसी पीड़ा से दबी जा रही थी, जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। फुंदनों वाले लाखी पर्दों को हटाकर छोटी सी औरत दरवाजे से उसकी ओर देख रही थी। वह डरी नहीं, वस जरा हैरान होकर उसने सिर उठाया, और दीविच पहचान गया कि यह उसकी मास्को वाली मकान मालकिन ही है, जिसके पास वह सेना में जाते हुए अपनी छात्रों की वर्दी छोड़ गया था।

“अरे, बेटा, तू लौट आया?” उस औरत ने अभी भी पर्दा पकड़े हुए पूछा, पर्दे के फुंदने हिल रहे थे।

“मां कहां हैं?” दीविच बड़ी मुश्किल से बोल पाया।

“तू उससे मिला नहीं, बेटा?”

“कहां? मैं उनसे कहां मिल सकता था?”

“उसे तो जैसे ही तेरी चिट्ठी मिली कि तू सरातोब में अस्पताल में है तभी से वह तेरे पास जाने की तैयारी करने लगी। पर जहाज पर जगह ही नहीं मिल रही थी उसे। अभी हफ्ता भर हुआ वह घोड़ागड़ी पर गई है।”

“उसने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया ?”

“वह तो , बेटा , तेरा इंतजार करते-करते थक गई । ”

“और वहन ?”

“उसकी तो कव की शादी हो चुकी । ”

“इससे ?” दीविच ने फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए पूछा ।

“हां , इससे । पास्तुखोव भी तो ख्वालीन्स्क का रहनेवाला है । ”

दीविच ने असंतुष्ट पास्तुखोव को देखा , जो अपनी रूपवती पत्नी की बांह में बांह डाले खड़ा था । पत्नी के चेहरे पर उसकी अद्वितीय मुस्कान खेल रही थी – उजली और साथ ही दोषी भावना का हल्का सा पुट लिये ।

“यह मेरी वहन नहीं है । यह तो आस्या है । आप मुझे धोखा दे रही हैं । ”

“मैं धोखा क्यों देने लगी , बेटा ? यह देखो तुम्हारा कोट , जो तुम मेरे पास छोड़ गये थे । लो पहनकर देखो । ”

“आप भूठ बोलती हैं , भूठ !” असहनीय पीड़ा के साथ दीविच चिल्लाया । “मां ! कहां हो , मां ? ! ”

“तुम चिल्लाओ मत । मुझे यह बताओ , ताकि मैं तुम्हारी मां को बता सकूँ कि उसका बेटा कव से लाल सेना में भरती हो गया है ? ”

वह लपककर उस औरत को अपने रास्ते से हटाना चाहता था , पर उसने सहसा अपने मुँह के सामने पर्दे बद कर दिये और छिप गई । वहां छिपी-छिपी वह भरी में से एक आंख से देख रही थी , और पर्दे के फुंदन उसकी दबी-दबी हँसी से हिल रहे थे ।

दीविच खिड़की में से कूदकर बरामदे में आ गया , अंगूर की बेल के जाले को तोड़कर अहाते से बाहर भागा ।

उसने घोड़े को खोला और लगाम उसकी गर्दन पर डाली । सड़क अंधेरी थी , पर पारदर्शी , मानो बोतल के कांच की बनी हो । उसने रकाव में पैर रखा ही था कि घोड़ा दौड़ चला । वह किसी तरह घोड़े पर चढ़ ही नहीं पा रहा था , व्यर्थ ही दायें पांव पर जोर देकर उचकने की कोशिश कर रहा था , उसे लग रहा था कि उसके हाथ सुन्न पड़ते जा रहे हैं , और काठी , जो उसने पकड़ रखी थी , फिसलती आ रही

है, और सामने से आती तपी हवा उसका दम घोटे जा रही थी, घोटे जा रही थी।

“नहीं, नहीं, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई... इज्वेकोव मेरी राह देख रहा है। अभी आता हूं, अभी!” भिंचे दांतों से वह बुदबुदा रहा था, और इस डर से उसके प्राण सूखे जा रहे थे कि काठी उसके हाथ से अभी छूटी कि छूटी—उसका शरीर अब जमीन पर चिसट्टा जा रहा था।

फिर उसकी उंगलियां हौले से खुल गई, वह गिर पड़ा और घोड़े ने उसे ऐसी दानवीय शक्ति से दुलत्ती मारी कि वह होश में आ गया...

वह पगड़ंडी पर अकेला पड़ा हुआ था, मेपल के मेहराब तले। घोड़ा नहीं था। उसने पत्तियों के बीच से आसमान की ओर देखा और सोचा कि बाज़ उड़ गया है। उसी क्षण छाती को चीरती हूक उठी और वह कराह पड़ा:

“ओह, दुःस्वप्न ... कैसा दुःस्वप्न है यह ... गुड़े !”

चिपचिपे हाथ से उसने अपना बदन टटोला। रिवाल्वर का होल-स्टर खाली था। वह रेंगने लगा, उसकी सांस उखड़ रही थी, वह ढलान तक पहुंच गया। निढाल होकर वह लुढ़क गया, उसका सिर नीचे हो गया, पैर ऊपर। ढलान पर रोड़ी सरसर करती नीचे गिरी। सेव का बाग और उसमें बनी मठवासियों की छोटी-छोटी कोठरियां उसे औंधी दिखीं, मानो पानी में उनका प्रतिविम्ब देख रहा हो। यहीं पर वरसों पहले वह अपने हमजोलियों के साथ गानेवाली चिड़ियां पकड़ा करता था।

“मां !” उसके मुंह से फटी-फटी आवाज निकली। “हे भगवान, मां !”

उसके गले में खून भर आया। उसका दम घुट गया और वह फिर वेहोश हो गया।

२६

“मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विश्वास और सम्मान के योग्य समझा,” पास्तुखोव ने अपनी मुखौटे जैसी

मुम्कान के साथ कहा, “पर मैं संयोगवश ही आपके नगर में आ पहुंचा हूं, और ऐसे काम में नगर का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए ग्रायद ही उचित हो।”

“यह आप क्या कहते हैं, अलेक्सान्द्र व्लादीमिरोविच,” भावभीने म्बर में उस व्यक्ति ने आपत्ति की, जिसकी दाढ़ी और जतन से कंधी किये वाल उन ऊंची हस्तियों की याद दिलाते थे, जिनकी निधन मूचनाएँ ‘नीवा’* में छपती थीं। “यह आप क्या कहते हैं, अलेक्सान्द्र व्लादीमिरोविच!”

जनरल मामोन्टोव के पास भेजे जा रहे प्रतिनिधिमण्डल में शामिल होने का अनुरोध करने पास्तुखोव के पास आये कोज्लोव नगर के दो और नेताओं ने विरोध में कंधे विचकाये।

“अलेक्सान्द्र व्लादीमिरोविच, आप हमारे नगर के नहीं, सारे मध्य रूस के प्रतिनिधि हैं।”

“सच मानिये!” निधन सूचनाओं वाली हस्ती ने बड़े जोश में समर्थन किया। “आपके नाम से हमारे सैनिक अफ़सर भी परिचित हैं। प्रगतिशील सैनिक अफ़सर तो निस्संदेह आपको जानते हैं! हो सकता है, आपका नाम सुनकर स्वयं जनरल के हृदय में वे श्रेष्ठ भावनाएँ जाग पड़ें, जो सैनिक परिस्थितियों के कारण सुप्तावस्था में हैं।”

“जिन्हें जनरल ने कम से कम अपने मुक्ति अभियान में प्रकट नहीं किया है,” दूसरे नेता ने कटाक्ष किया।

“और जो हमारी एकमात्र आशा हैं,” तीसरे नेता ने उसांस छोड़ते हुए कहा। “सो हम आपसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, हमारे प्रस्ताव को ठुकराइये नहीं।”

पास्तुखोव ने आम्या की ओर प्रश्नमूचक दृष्टि से देखा।

वह यहीं इसी कमरे में बैठी थी, जिसमें धूल भरे चौक की ओर छज्जा था। मदा की भाँति इस समय भी अधिक उत्तेजित होने के कारण

* १८७० में १८१५ तक मेंट पीटर्सवर्ग से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका। — म०

उसका रूप अत्यंत सम्मोहक हो उठा था ; बरौनियां और भी अधिक पीछे को मुड़ी लगती थीं , पलकों तले ओस जैसा निर्मल आंसू चमक रहा था ।

चारों पुरुष उसे घेरे खड़े थे , अत्यंत विनम्रता से उसके बोलने की प्रतीक्षा करते ।

“मेरे विचार में , साशा , अगर कुछ हित हो सकता है ... थोड़ा सा भी हित ! इन दुष्टों ने तो प्रलय मचा रखी है ! कोई तो इन्हें रोके ... जनरल ही सही !”

“वे शयनकक्षों में घुस आते हैं ,” ऊंची हस्ती के मुंह से निकला , “अंतरीय तक उठा ले जाते हैं !”

“पर देखिये , साहबानो , मैं प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किसी हालत में नहीं करूंगा ,” पास्तुखोव ने हाथ हिलाते हुए कहा ।

“नहीं , नहीं , अलेक्सान्द्र व्लादीमिरोविच ! नेतृत्व हमारे नगर के सुप्रसिद्ध शिक्षक करेंगे । देखिये , वह भी पहले इन्कार कर रहे थे । लेकिन फिर ... नागरिक दायित्व समझकर ... आपसे हम बस प्रति-निधिमण्डल का सदस्य होने का अनुरोध कर रहे हैं । केवल सदस्य होने का ! बस आपका समर्थन प्राप्त हो !”

“भुंड में चलने को मैं तैयार हूं ,” पास्तुखोव ने कृपालु होते हुए मजाक किया ।

सब साभार मुस्करा उठे , पर वह फिर से औपचारिक स्वर में बोला :

“और हां साहबानो , देखिये कोई याचना-पत्र न हो । मैं इसके खिलाफ़ हूं । लिखित में कुछ न हो ! और न कोई स्तुतियां हों , न धियाना !”

“नहीं , नहीं । सिर्फ़ मुंह ज्वानी । हम आग्रहपूर्वक अनुरोध करेंगे , बल्कि मैं तो कहूंगा , मांग करेंगे , क्यों श्रीमान , ठीक है न ? — कि हमारे नगर को , प्रजा को इस लूट-पाट से बचाया जाये । तुरन्त बंद की जाये यह लूट-पाट !”

“और यह सारी हिंसा !” आस्या ने घिन से कहा , और छोटी उंगली परे को किये अपना हाथ कनपटी पर रखा ।

“मुझे कोई आपत्ति नहीं है,” पास्तुखोव ने फिर से कहा।

“अनेकमान्द्र ब्लादीमिरोविच, आप वस तैयार रहना। जैसे ही जनरल प्रतिनिधिमण्डल से मिलने का समय देंगे, हम आपको खबर कर देंगे।”

मुलाकाती विदा होने लगे, लेकिन उनमें जो सबसे जवान था, वही, जिन्हे जनरल के मुक्ति अभियान के बारे में कटाक्ष किया था, खड़ा रहा।

“जरा एक मिनट ... एक निजी काम है ...”

“मैं जाती हूं छोड़ने,” आस्था ने कहा और पति को नौजवान के माथ अकेले छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। नौजवान बैचैनी में दरवाजा बंद होने का इंतजार करता खड़ा रहा।

“आप शायद ... कवि हैं? कविता दिखाना चाहते हैं?” पास्तुखोव ने महानुभूति दिखाते हुए पूछा।

“नहीं, नहीं। वैसे तो मैं अखबार में काम करता हूं। मुझे भी प्रतिनिधिमण्डल में गामिल होने पर राजी किया गया है। पर साफ़-साफ़ कहूं, तो ... मैं यह जानना चाहता था कि अगर ... वे लौट आये, तब आप क्या करेंगे?”

“वॉल्यूमिक?”

“जी हां।”

पास्तुखोव वेभिभक इस फूंक-फूंककर कदम रखनेवाले नौजवान को देख रहा था, मानो वह कोई अव्ययन योग्य जीव हो। इस जीव का एक कान छोटा था और दूसरा खासा बड़ा, जिसकी लोलकी नीचे को खिंची हुई थी और गर्दन से जुड़ी हुई थी, लगता था जैसे वह खास तौर पर दूसरों की बातों पर कान देने के लिए बना हो, और पास्तुखोव के दिमाग में एक नया फ़िकरा आया “वाह रे कान फ़ाड़कर सुनने-वाले!”

“वहूत मुमकिन है कि तम्होव की तरह यहां भी ये ज्यादा दिन न टिकें। और एक कामचलाऊ प्रशासन के अलावा इनकी यहां कोई मना न बने। और फिर वे लोग लौट आयेंगे।”

“आपके म्याल में ऐसा हो सकता है?”

“विल्कुल। वे लौट आयेंगे और उन्हें यह पता चलेगा कि हम लोग जनरल से मिलने गये थे।”

“पर हम तो जनता के हितार्थ जा रहे हैं,” पास्तुखोव ने कोई सफाई ढूँढ़ने की कोशिश की और जीव के अध्ययन की ओर से उसका ध्यान हट गया।

“अजी हां, कहते फिरना जनता के हितार्थ! कौन सुनेगा?!”

पास्तुखोव ने चेहरे पर हाथ फेरकर मानो चिंता की छाप पोंछी और मस्तिष्क में सहसा कौंधी बात कह डाली:

“पता है, सबसे बढ़िया बात क्या होगी? पागलखाने में छिप जाया जाये। जी हां! एक बोरी आटे की खरीद ली जाये और पागल-खाने में छिप जाया जाये। एक बोरी काफी देर चलेगी। विल्कुल सही बात है, पागलों के बीच छिप जाया जाये! विल्कुल सही बात है।” पास्तुखोव बार-बार कहने लगा, मानो उसे स्वयं ही यह विश्वास होता जा रहा हो कि उसने बड़े पते की बात कही है।

“आप ऐसा करने की सलाह मुझे दे रहे हैं या खुद अपनी सलाह पर अमल करेंगे?”

पास्तुखोव ने बड़े ज़ोर से मेहमान से हाथ मिलाया, उसे बाहर तक छोड़ आया और मन ही मन हँसने लगा।

“हरामजादा!” अंदर आकर वह बुद्बुदाया।

फिर वह छज्जे पर चला गया।

चौक के दूसरी ओर भूतपूर्व वाणिज्य विद्यालय की इंटों की इमारत के सामने से कज्जाक सरपट घोड़े दौड़ाते जा रहे थे। उनकी काठियों के पीछे गठरियां बंधी हुई थीं। कोड़े चमकाते, सीटियां बजाते और गला फाड़कर चिल्लाते हुए वे धूल के बादल उड़ाते जा रहे थे। उनमें से कुछ घोड़े के पुटों पर उछलती लूट के माल की गठरियां कसकर पकड़े हुए थे। एक कज्जाक की गठरी में से छींट का टुकड़ा निकल गया था और घोड़े के पीछे आसमानी सांप की तरह लहरा रहा था।

“साशा, साशा! सिर फिर गया है क्या!” आस्या दौड़ती आई और उसे अंदर खींचकर धम से छज्जे का दरवाज़ा बंद कर दिया। “वे गोली मार सकते हैं! यों एकदम खुली जगह पर खड़े हो गये!”

“ शैतान जाने क्या हो रहा यह सब ! ” पास्तुखोव ने भल्लाते हुए कहा और कमरे में चक्कर काटने लगा ...

जब से मामोन्तोव के सिपाही शहर में घुस आये थे और लूट-पाट मचाने लगे थे, वह भयभीत था और साथ ही उसे इस बात का अजीब कौतूहल भी था कि उसके और उसके परिवार के जीवन में क्या परिवर्तन आयेगा। किसी अनवृक्ष बात की, ऐसी बात की जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उद्धिङ्गता भरी प्रतीक्षा उसे क्रिस्मस से पहले बच्चों की अवस्था की याद दिलाती थी, लेकिन कौतूहल पर भय हावी था, क्योंकि वह जानता था कि खून की नदियां वह रही हैं, और वे उसके नये पड़ाव के पास आती जा रही हैं।

यह घर, जिसमें पास्तुखोव परिवार दो सप्ताह से रह रहा था, एक छोटे से व्यापारी का था, जिसका बेटा नगर के थियेटर का मैनजर था। थियेटर से मदद मांगने का विचार अनास्तासिया गेर्मानोव्ना के मन में आया था, और यह अच्छा विचार निकला : मैनेजर ने नाटककार का नाम मुन रखा था और पास्तुखोव पर अहसान करने का अवसर पाकर उसके अहं की तुष्टि होती थी। इसके परिणामस्वरूप उन्हें नगर की बड़ी सड़क के पास ही दो खासे अच्छे कमरे रहने को मिल गये।

धीरे-धीरे वे इस नये जीवन की एकरसता के आदी हो रहे थे। उन्हें इस बात का पूरा अहसास था कि उन्हें यह चैन संयोगवश ही मिला है और इस संयोग की ही भाँति क्षणभंगुर है, फिर भी वे भविष्य की ओर से आंखें मूंदे इस चैन का आनन्द ले रहे थे। सरातोव की ही भाँति कोज्जनोव में भी वे संयोगवश ही आ पहुंचे थे, किन्तु अब यह संयोग उन्हें इतना परेशान नहीं करता था, क्योंकि अब वे अपनी जिंदगी के आखिरी फँसले के एक कदम और पास आ गये थे, और इस बात में उन्हें कोई संदेह न था कि देर-सवेर यह फँसला होना ही है।

अल्योशा को यह नई जगह इतनी अच्छी नहीं लगती थी, जितना दोगोगोमीनोव का घर, और वह उदास रहता था। जिंदगी के ढर्रे में उसे कुछ भी अनिवार्य नहीं लगता था, और सभी बच्चों की भाँति उसके लिए भी कोई बात संयोगवश हो या किसी नियम के अनुसार — वह

एकसमान ही स्वाभाविक थी, उसे होना था, सो हो गई। अल्योशा सोचता था कि उसके माता-पिता बोल्ला टट पर सरातोव नगर में गये थे, क्योंकि उन्हें दोरोगोमीलोव के घर रहना था, और वहां से चलकर सीधे नाना-नानी के पास इसलिए नहीं पहुंचे कि उन्हें पहले कोज्ज्लोव में थियेटर के मैनेजर के यहां कुछ दिन रहना था। थियेटर मैनेजर के अहाते के बजाय दोरोगोमीलोव के बाग में खेलना उसे ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन उसके लिए सरातोव और कोज्ज्लोव में उसके खेल एकसमान ही थे, उससे पहले पीटर्स्वर्ग के उसके खेलों की ही भाँति स्वाभाविक। ओल्ला अदामोन्ना उसके साथ थी, और पापा-अम्मा भी, उसे खाना खिलाया जाता था, चिलमची या कपड़े धोने के टब में विठाकर नहलाया जाता था, उसके नाखून काटे जाते थे और डांटा जाता था—मतलब उसकी ज़िंदगी चल रही थी, कभी उसे ज्यादा मज़ा आता, कभी कम, पर जीवन में संयोगवश कुछ नहीं घटता था, वह अपने नियमों के अनुसार चलती ज़िंदगी ही थी।

पास्तुखोव और आस्या के लिए पिछ्ले दो बरसों की ज़िंदगी नियम का उल्लंघन ही थी, क्योंकि उसकी सामान्यतया स्वीकृत व्यवस्था निरंतर भंग हो रही थी। कुछ आकस्मिकताएं उनके लिए सहनीय थीं, कुछ यातना भोगने के समान। पुरन्तु यह बात भी कि उन्हें अल्योशा को गुसलखाने के बड़े टब की जगह चिलमची या कपड़े धोने के टब में नहलाना पड़ता था इस बात का प्रतीक थी कि अटल व्यवस्था ढह रही है।

वे दोनों अच्छी तरह यह समझते थे कि ज़ीवन के हास्यमय पहलुओं को ढूँढ़ते रहने से जीना कुछ आसान हो जाता है। और वे हँसी-मजाक करने की कोशिश करते थे।

उन दोनों में से कोई भी पहले इस इलाके में नहीं रहा था। लेमोन्तोव की कविता 'खजांचिन' से ही वे तम्बोव के बारे में जानते थे, और वे इस नगर के साथ म्यात्लेव * की कविता 'श्रीमती कुर्द्युकोवा' को जोड़ते थे। कोज्ज्लोव में तम्बोव का बातावरण उनकी कल्पना में

* म्यात्लेव — १६ वीं सदी का मामूली रूसी कवि। — सं०

इस बात से ही बन जाता था कि यह शहर घोड़ों की नुमायशों के लिए मशहूर था। आस्या को बहुत सी कविताएं याद थीं और वह बड़े मौके से श्रीमती कुर्द्युकोवा के अनर्गल भावोदगार सुना देती थी और पास्तुखोव ठहाका मारते हुए उन्हें दोहराता था :

फिर से जाग उठीं स्मृतियां ,
मेरे जीवन की वे घड़ियां ,
वे मोहक कुंज , वे विहार
जहां किया प्यार का इज़हार
कुर्द्युकोव ने पहली बार ।

एक दिन शाम को देर से वे छज्जे पर बैठे छोटे से निद्रामग्न शहर की खामोशी का आनन्द ले रहे थे और अपने विचारों के शांत प्रवाह में वहते जा रहे थे। तारों भरी रात में विचारों का ऐसा शांत प्रवाह होता है, जब यादें आशाओं से धुल-मिल जाती हैं, और यह स्पष्ट नहीं होता कि सुखद भविष्य के स्वप्न देखे जायें, या वर्तमान को ही पूर्णतः सुखद मान लिया जाये।

“देखो, तारा गिरा,” आस्या ने कहा। “तुमने कोई मन्त्र मांगी ?”

“नहीं, कोई नहीं। तुमने ?”

“मैंने भी नहीं। मुझे हमेशा सोचने में देर हो जाती है।”

काफ़ी देर तक वे चुप रहे।

“आखिर धूल वैठ गई,” पास्तुखोव बोला। “पियोनी फूलों की सुगंध आ रही है न ? क्या अभी भी कहीं उग रहे हैं ?”

“हाँ, सचमुच,” आस्या ने झूठ बोला। “वैसे पियोनी की बहार तो कव की निकल चुकी।”

“अजीव गंध है। एक साथ ही गुलाब और घोड़े के पसीने की।”

“तुम्हारी नाक अजीव है। तुम सदा हर गंध सुंदर और धिनौनी में बांट देने हो।”

“मैं गंध को बांटना नहीं, उसका पूरा योग देखता हूँ। गंध अविभाज्य है, वैसे ही जैसे भावना। जो अपनी भावना को उसके घटकों में विभाजित करना चाहता है, वह या तो उसे खो बैठता है, या अपनी प्रकृति में ही उस भावना से बंचित होता है। भावना में अच्छाई

और बुराई सदा साथ होती हैं। पियोनी की गंध से गुलाब या दूसरी की गंध अलग कर दो तो वह पियोनी की गंध नहीं जायेगी।”

“तुम्हारे प्रति मेरी भावना में कोई बुराई नहीं है।”

पास्तुखोब ने आस्या का घुटना सहलाया।

“तुम एक भौतिक नारी हो। तुम्हारा अस्तित्व मूलतः भौतिक है, दैहिक है। इसीलिए तुममें सत्त्वों की ही प्रमुखता है। तारों भाँति। उनके केवल सत्त्व होते हैं, गुण नहीं। तारे न अच्छे होते न बुरे।”

वह हँस पड़ा।

“हे भगवान्, क्या वकवास कर रहा हूँ मैं।”

आस्या की ओर भुक्कर उसने अलसाये अंदाज में उसकी देखभाँत आंखें चूमीं।

फिर से वे काफ़ी देर तक निश्चल वैठे रहे, आखिर आस्या बोली, मानो उनकी वातचीत रुकी ही न हो:

“पता है, यह भी म्यात्लेब ने ही लिखा था: ‘कितने सुंदर कितने कोमल थे गुलाब’।”

“जरा सोचो तो तुर्गेनिव को यह पंक्ति भा गई। आगे क्या है आस्या ने सुनाया:

कितने सुंदर, कितने कोमल थे गुलाब
मेरे वगीचे में। कैसे सहलाते थे मेरी नजरें,
की थीं कैसे मिन्नतें मैंने सर्द हवाओं से,
न बुझायें उनकी लौ अपनी ठंडी सांसों से।

“कैसी थी वह जिंदगी?” आस्या ने अचम्पे से कहा। “जीते रहे होंगे लोग और कैसे थे वे लोग कि ऐसी कविता लिखी गई।”

“वह भी ऐसी तुक में!” पास्तुखोब ने कहा। “अगर कॉमर्ट गीव्हामान ने यह कविता गम्भीरता से पढ़ी होती, तो ‘आवकुत्ता’* में लोग हँसी से लोट-पोट हो जाते।”

* एक साहित्यिक क्लब। — सं०

“अविभाज्य भावना!” आस्या ने उसांस छोड़ी। “तुम्हारा ‘कुत्ता’ हर चीज़ को नोच डालता है। और हर कोई उससे डरता है कि कहीं उसका मज़ाक न उड़ जाये। कला में कोई सम्पूर्ण भावना रही ही नहीं। तुम्हारे ‘कुत्ते’ को यह हास्यास्पद लगता है कि हम तारों को निहार रहे हैं। यह हास्यास्पद है कि हमें म्यात्लेव की कविताएं याद आती हैं। यह हास्यास्पद है कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उसके लिए मब कुछ हास्यास्पद है।”

पास्तुखोव ने कुछ जवाब नहीं दिया, वस हैले से हंस दिया। छज्जे की लोहे की रेलिंग पर नाखूनों से पटपट करते हुए वह मानो यह मुझा रहा था कि बात यही छोड़ दी जाये। पर फिर बोलने लगा।

“मैं कभी भी इस बात पर अंत तक विचार नहीं कर पाया हूं कि कला है क्या? मैंने अपना सारा जीवन इसे अर्पित किया है, पर नहीं जानता कि यह क्या बला है। सुविधा के लिए यह मान लेता हूं कि मेरे लिए मब स्पष्ट है। नहीं तो कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। अंत तक समझ लो, तो फिर त्रुटिहीन होना चाहोगे। पर कला त्रुटिहीन होती नहीं। कला में आदमी विज्ञान से या आदर्श के अन्य किसी भी विषय में अधिक गोते खाता है, त्रुटियां करता है।”

“कोई बात नहीं, प्रिय, तुम्हारी त्रुटियां भी अनुपम हैं।”

उन्हें किमी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। आवाज गिरजे की ओर से आ रही थी, जो ऊंची छाया की भाँति आकाश को दो भागों में बांटे हुए था। फिर आवाज चौक पर आ गई, ऊंची होती गई, और तारों की झिलमिल रोशनी में दोनों ने एक साथ एक काली आङ्कुति देखी, जो सीधे उनके घर की ओर आ रही थी।

“दौड़ क्यों रहा है? चलो, अंदर चलें,” आस्या फुसफुसाई।

“ठहरो। हो सकता है उमे किसी ने लूट लिया हो?”

पर वे छज्जे से चले गये और कमरे में कान लगाये खड़े रहे। फाटक चरमगया, दरवाजे पर जोर से भड़भड़ हुईं।

“माचिस कहां है? कोई हमारे यहां आया है,” पास्तुखोव ने मेज टटोलने हुए कहा।

वे लैम्प जला भी न पाये थे कि उनका युवा संरक्षक, थियेटर का मैनेजर दिन पर हाथ रखे ऊपर दौड़ा आया।

“नीचे चलिये ! पिता जी के पास ! सबको एकसाथ बताता हूँ !”

उसकी सांस फूली हुई थी। सीढ़ियां उतरते समय उससे रहा न गया — खबर उसके लिए बोझ बन रही थी, और आतंक भरे एक शब्द में ही उसने बोझ हल्का किया :

“सफेद गार्ड !”

बुझती दियासलाई से पास्तुखोव की उंगलियां जलीं। वे अंधेरे में थम गये।

“चलिये, चलिये !” मैनेजर कह रहा था।

नीचे पहुँचकर उसने खिड़कियों पर अच्छी तरह पर्दे कर दिये और सबको बैठने को कहा। उसकी मां जी ढीली-ढाली औरत थीं, जिन्हें कुछ कम सुनाई देता था। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और वह बेचैनी से इंतजार कर रही थीं कि आगे क्या होगा। वास्कट पहने, बांहें चढ़ाये उसके पिता जी ने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में गूथकर हाथ मोटी सी सचिन्त्र पत्रिका पर रख लिये। पत्रिका के चित्रों को देखते हुए आखिर उन्होंने रूमानिया की रानी एलिज़ावेथ — कार्मेन सिल्वा के पुस्तकालय के चित्र पर नज़र टिका ली।

“दोन कज्ज़ाकों ने तम्बोव पर कब्ज़ा कर लिया है। रास्ता कट गया है !” थियेटर जैसी तैयारियां खत्म हो जाने पर मैनेजर ने मनहूस खबर सुनाई।

फिर उसने यह बताया कि एक अभिनेता शंटिंग इंजन पर तम्बोव से भागकर आया है। नगर में जब मामोन्तोव के कज्ज़ाकों ने कब्ज़ा कर लिया था, तो एक इंजन ड्राइवर टक्कर का खतरा उठाते हुए रेल की बाई लाइन पर यह शंटिंग इंजन दौड़ा लाया था। कटा हुआ रास्ता अभिनेता ने एक किसान की घोड़ागाड़ी पर पार किया और फिर मालगाड़ी पर बैठ गया। तम्बोव में आते ही कज्ज़ाक लूट-पाट करने लगे थे। बोल्शेविकों को पकड़-पकड़कर तार के खम्भों पर लटका रहे थे। गांवों में किसानों को सत्ता-सत्ताकर मार रहे थे, जैसे भूदासता के दिनों में सताया जाता था। हर जगह आग लगी हुई थी और मामोन्तोव के सिपाही आग बुझाने नहीं दे रहे थे।

“कौन हैं ये ?” मां जी ने पूछा।

“सफेद गार्ड !”

“कहां से आ टपके ये ?”

“जनरल लाया है उन्हें। सफ्रेद गार्डों का जनरल !”

“अच्छा, जनरल !” मां जी ने कहा और सलीब का निशान बनाया (पास्तुक्षोव ममभा नहीं - डर के मारे या आभार से)। “क्या हो गया है लोगों को ? भागते फिर रहे हैं वाक्ले से ।” पति की ओर नजर ढालकर मां जी ने कहा ।

“हमें इसमें क्या लेना-देना है ? हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है,” पिता जी ने पत्रिका पर नजरें गड़ाये हुए कहा ।

“हो सकता है कल वे यहां पहुंच जायें। रिसाला है,” बेटा बोला ।

“मम्भव है यही अंत हो ?” आस्या ने भिखकते-भिखकते कहा, उसके गाल गुलाबी हो गये थे ।

“किसका अंत ?.. मव इन विद्वानों की करती है ! देखो तो किननी किनावें हैं,” पिता जी ने कार्मन सिल्वा के पुस्तकालय की ओर मिर हिलाकर कहा ।

पास्तुक्षोव इस डगारे को पगेथ रूप से अपनी ओर किया गया कटाक्ष ममभ सकता था। उसने भी सीधे बैठकर आंखें नीची कर लीं और जवाब दिया :

“इस वर्वग्ना के लिए पुस्तकें दोषी नहीं हैं। विद्वान तो किसानों को कोडों में नहीं पिटवा रहे। पागलपन के लिए बुद्धि से जवाबदेही नहीं की जा सकती। पर आपका यह कहना सही है कि हमारा इससे कोई वाम्पा नहीं है। हमें वम चैन से बैठकर देखना होगा कि क्या होता है ।”

वह उठ खड़ा हुआ। उसके मुड़ौल बदन में राजसी शान थी। अपनी सूक्षियां उसे खुद अच्छी लग रही थीं।

“अगर चैन मे बैठा जा सकता है तो,” आस्या ने अपनी ओर मे जोड़ा और वह भी उठ खड़ी हुई ।

“बैठिये न ? मैं अभी ममोवार गग्म करती हूं, चाय-वाय बनाती हूं,” मां जी ने होठों पर उंगलियां फेरते हुए और कुर्सी में धीरे से मुड़ते हुए कहा (उनका बहुगप्त जिंदगी के सवालों की गिनती कम करके ही उनके लिए जीना आसान कर देता था) ।

लेकिन पास्तुखोव और आस्या अपने कमरे में लौट आये। पौफटने तक वे लेटे नहीं, यही सोचते रहे कि आगे क्या होगा और वारी-वारी से एक दूसरे को शांत और उद्धिग्न करते रहे। सिर्फ़ एक बार, जब उजाला हो रहा था, तो आस्या ने छज्जे की ओर देखकर मज्जाक किया:

“जो गंध तुम्हें पियोनी की लगी थी, वह उससे कहीं अधिक जटिल निकली। उसमें बारूद की भी गंध थी।”

“पर घोड़ों के बारे में तो मेरा कहना ठीक था: कज्जाकों की गंध आ रही थी।”

अगर हम मापोन्तोव की चढ़ाई को कोज्जलोव के साधारण निवासी की नज़रों से देखें (जिसने पहले तम्बोव पर सफ्रेद गाड़ों के कब्जे की अफवाहें सुनीं और फिर हमलावरों को अपने शहर की सड़कों पर देखा), तो विचित्र दृश्य पायेगे।

सोवियत सत्ता की स्थापना के क्षण से ही इन नगरों में और किसी का राज नहीं हुआ था। दक्षिणी इलाके, जहां न जाने कितनी बार सरकारें बदलती रही थीं, यहां से दूर थे, और लगता था कि मोर्चे पर लड़ रही लाल सेना यहां के नये जीवन की रक्षा भली भाँति कर रही है। यह इलाका पूरी तरह से रूसी इलाका था, और वह भी कोई सीमांत इलाका नहीं, बल्कि केन्द्रीय इलाकों से जुड़ा हुआ। सो यहां के सभी लोगों की नज़रों में वह राज्य की नींव का, उसकी एकीकृत राष्ट्रीय नाभि का ही अंश था, यानी यही रूस था, वह रूस जिसने सोवियतों की स्थापना की थी और अब उनकी रक्षा के लिए लड़ रहा था।

तम्बोव की पराजय का समाचार बज्रपात की भाँति था। आरम्भ में तो न कोज्जलोव के अधिकारी, न मज्जादूर लोग और न ही नगर के आम निवासी कुछ समझ पा रहे थे। कैसे सफ्रेद गाड़ों की पूरी की पूरी कोर मोर्चे से कोई डेढ़ सौ मील पीछे आ पहुंची? कैसे उसने एक ही बार में सरातोव और बलाशोव का रास्ता काट दिया? क्या उसका सामना किया गया? कहां? कब? और कैसे यह लड़ाई हारी गई?

एक दिन बाद तम्बोव से खररों की बाढ़ आई लेकिन बाढ़ के

पानी जैमी ही गंदलीः खबरें स्तम्भित ही कर रही थीं, इनसे समझ में कुछ नहीं आता था।

तम्बोव मोर्चे का हेडक्वार्टर ही सबसे पहले ये अफवाहें उड़ाने लगा था कि नगर की स्थिति निराशाजनक है। स्वयं कमांडेंट यह कहता फिरता था कि दुधनों की बीस रेजीमेंटें तम्बोव पर हमला करने आ रही हैं। नगर तक पहुंचने के रास्तों की प्रतिरक्षा का कोई प्रवन्ध नहीं किया गया था, नगर की सड़कों पर लड़ने की तैयारी भी नहीं की गई थी और न ही पीछे हटने का आदेश दिया गया था। इससे नगर के गैरिजन में घबराहट फैल गई, लोगों को विल्कुल कुछ समझ में ही न आता था कि करें तो क्या करें।

मामोन्तोव की फौजों के नगर में पहुंचने से एक दिन पहले सुबह-मुबह ही रेन गोदामों के आसपास और अहतों में मोटरगाड़ियां और घोड़ागाड़ियां जमा हो गईं। जो कुछ हाथ में आता, ज़रूरी, गैर ज़रूरी मव चीजें लादी जा रही थीं, कार्यालयों की टूटी कुर्सियां और अलमारियां तक। शीघ्र ही गाड़ियां दो कतारों में चल दी और नगरवासियों को पनायन का दृश्य देखने को मिला। नगर में भगदड़ मच गई। वस्तरवंद गाड़ियों की टुकड़ी के कमांडर ने यह फैसला किया कि भगदड़ वंद की जानी चाहिए, सो वह सोवियत स़ड़क के मकानों पर मशीनगनों में गोलियां चलवाने लगा। और फिर वस्तरवंद गाड़ी लेकर अपनी मर्जी में ही तम्बोव से मोर्झान्स्क चला गया।

कज्जाक स्टेगन पर आ धमके। सैनिक विद्यालय के छात्रों ने उन पर गोलीबारी की, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ। तम्बोव दुधन के कब्जे में आ गया। लाल सैनिक, जिन्हें उनकी चौकियों में हटाया नहीं गया था, आखिरी गोली तक लड़ते रहे और खेत रहे। अलग-अलग कम्युनिस्टों ने प्रतिरोध किया और वे भी मारे गये।

तम्बोव में अपना मार्च गेके बिना ही मामोन्तोव पश्चिम को मुड़ा और कोज्ज्ञोव को चल दिया।

प्रदेश के केन्द्र की परिजय के बाद आरम्भ में यहीं सब बातें कोज्ज्ञोव वालों को पता चली।

कोज्ज्ञोव नगर के अधिकारियों ने रक्षा का प्रवन्ध करने की कोशिश की। वे यह विद्याम दिला रहे थे कि उनके मत में उनके पास पर्याप्त

शक्ति है। बोल्शेविकों की एक टोली को मशीनगनों और तोपों के साथ नगर से बीस मील दूर की चौकी पर भेजा गया। निकीफोरोव्का स्टेशन के पास कज्जाकों के गश्ती दल दिखाई दिये। टोली उनसे जूझने लगी।

परन्तु साथ ही अधिकारीगण हिचकिचा रहे थे, वे यह निर्देश पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्या करें। उनकी सूचनाएं अंतर्विरोध भरी थीं और उनकी कार्रवाइयां उलझी-पुलझी। उन्होंने वैक का सारा पैसा मास्को भेज दिया था, मगर मूल्यवान वस्तुओं से लदे मालगाड़ी के लगभग सौ डिब्बों को शहर से भेज देने का फैसला नहीं कर पा रहे थे। वे केन्द्रीय अधिकारियों से यह पूछ रहे थे कि “नगर सोवियत के विभागों को नगर से हटायें कि नहीं, अगर हाँ, तो कौन-कौन से विभाग और उन्हें कहाँ भेजें?” और साथ ही कह रहे थे: “जहाँ तक नगर सोवियत के विभागों और उनके कर्मचारियों का सवाल है, तो वे निस्संदेह आखिरी क्षण तक काम करते रहेंगे”। उन्होंने यह रिपोर्ट भेजी थी कि “सभी कम्युनिस्टों और स्थानीय रक्षकों को चौकियों पर तैनात कर दिया गया है”। लेकिन इसी रिपोर्ट के प्रेषक ने यह भी स्वीकार किया था कि किसी को पता नहीं कि चौकियां कहाँ होनी चाहिए। “हम डटकर मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि, दुर्भाग्यवश, हमारे टोही यह पता नहीं लगा सके हैं कि शत्रु किस दिशा में बढ़ रहा है, उसकी संख्या कितनी है, कितने सैनिक कोज्जलोव पर हमला करने आ रहे हैं, यह सब हमें पता नहीं है... कृपया मोर्शन्स्क की स्थिति के बारे में बतायें, क्योंकि हमें यह पता चला है कि शत्रु ने अपनी कुछ टुकड़ियां मोर्शन्स्क और र्याख्स्क की ओर भेजी हैं”।

मुकाबला करना न केवल इसलिए ही असम्भव था कि टोही किसी काम के नहीं थे। केवल शत्रु ही बेचैनी नहीं फैला रहा था। नगर में भी इसके अनेक कारण थे।

वात यह थी कि जनतंत्र की क्रांतिकारी सैनिक परिषद के हेडक्वार्टर के विभाग से वार-वार यह पूछा गया था कि कोज्जलोव की प्रतिरक्षा की स्थिति कैसी है, क्या यह आशा है कि शत्रु को नगर में नहीं आने दिया जायेगा, लेकिन इन सब सवालों का नगर के अधिकारियों को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। हेडक्वार्टर के इस विभाग ने अपने सारे कागजात और दूसरा सामान पहले ही यहाँ से हटा लिया था और

विभाग के अधिकारी गाड़ी पर सवार थे, किसी भी क्षण चल देने को तैयार। दक्षिणी मोर्चे का हेडक्वार्टर पहले ही कोज्ज्लोव छोड़ चुका था और अब सेर्पुख्वोव में था। अधिकारियों की ही भाँति नगरवासियों को भी यह सब पता था, वे अपनी आंखों यह सब देख रहे थे।

ऐसे हालात में नगर के लिए मुकाबला करना कठिन था। तम्बोव पर कब्जे के चार दिन बाद कोज्ज्लोव भी जाता रहा।

मामोन्तोव के वरद-हस्त से तुरन्त ही एक अखवार निकाला गया। जनवादी होने का दिखावा करते हुए जनरल ने इसका नाम 'काली धरती का विचार'* रखने की इजाजत दे दी, जो जनवादी प्रकाशन के लिए भी खासा बीभत्स नाम था। अगले दिन अखवार के विशेषांक में यह घोषणा की गई: "... तीन दिन तक कज्जाकों का प्रतिरोध करने के पश्चात लाल सैनिकों और कम्युनिस्टों ने कोज्ज्लोव छोड़ दिया। जनरल देनीकिन की दोन कज्जाक रेजिमेंटों ने नगर में प्रवेश किया, जिनके कमांडर हैं जनरल मामोन्तोव। अधिकांश कम्युनिस्टों का सफाया कर दिया गया है, लाल सैनिकों ने हथियार डाल दिये, कुछ भाग गये और गेप का कज्जाक पीछा कर रहे हैं" ...

कोज्ज्लोव वालों के लिए अब तक मामोन्तोव का नगर में आना पुरानी बात हो चुका था। अब तो वे वस यह याद कर सकते थे कि इससे पहले दिन दोपहर के तीन बजे के करीब वोरोनेज नदी के पार से और तुर्मासोव मैदान की ओर से धोड़ों की टापें सुनाई दी थीं, और ठीक तीन बजे सफेद गाड़ों का जनरल, जिसे दोपहर के खाने के बाद काठी में सीधा बैठने में कठिनाई हो रही थी, अपने दल-बल के माथ यमस्काया सड़क पर प्रकट हुआ था; कैसे लोग अपने घरों के मामने चुपचाप खड़े थे; कैसे चौराहे पर कुछ लड़कियां फूल लिये आगे बढ़ आई थीं और दफ्तियल कज्जाक ने हाथ बढ़ाकर गुलदस्ता यों पकड़ लिया था मानो वह फूलों से जल जायेगा; कैसे शाम को गिरजे के घंटे धनाघन बजते रहे थे।

यह सब अब यादें बनकर रह गया था। क्योंकि जब दीवारों पर

* तम्बोव का इलाका रूस के काली मिट्टी वाले भाग में आता है, इसलिए ऐसा नाम रखा गया। — सं०

'काली धरती का विचार' चिपकाया जा रहा था, तब कोज्जलोव में दूसरी घटनाएं हो रही थीं, उसकी गलियों, सड़कों पर दूसरे दृश्य प्रस्तुत हो रहे थे।

यहूदियों का मुहल्ला लूटा जा रहा था, गोदाम और दुकानें लूटी जा रही थीं। साधारण लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों पर देवचित्र रख दिये थे—यह दिखाने के लिए कि ईसाई हैं, यहूदी नहीं। यहूदियों को पकड़कर कज्जाक उन पर तरह-तरह के अत्याचार करते और फिर तलवारों से उनके सिर काट डालते थे। लाशों से खून से भीगे कपड़े उतार लिये जाते और फिर उन्हें घसीटकर अहातों में डाल दिया जाता, जिनके सामने घुड़सवार सिपाही तैनात थे, ताकि लोग न देखें, न गिनती करें।

काम की कोई चीज़ कज्जाक नहीं छोड़ रहे थे, सब कुछ ढूँढ-ढूँढकर हथिया रहे थे। तहखानों में से शराब और शहद से भरे लकड़ी के गोल पीपे वे बाहर निकाल रहे थे, खा-पी रहे थे, बेलचों से घोड़ों को शहद खिला रहे थे। घोड़ों पर सवार होकर कपड़े बेचते फिर रहे थे। सभी दुकानों की तिजोरियां साफ़ कर रहे थे, लोगों के घोड़े छीन ले जा रहे थे।

स्टेशन पर धमाके हो रहे थे। स्टेशन की मीनार उड़ा दी गई। पुल ढह गये। एक दूसरे की ओर छोड़े गये इंजन टकराकर खड़ु में गिर पड़े। गाड़ियों में आग लगा दी गई, उनसे कड़वा धुआं उठ रहा था। खास टोलियां पटरियां बदलने की कैंचियां तोड़ने चल दीं।

नगर के पार्क में कज्जाकों का बैंड बज रहा था। नौजवान लौंडियां मामोन्तोव के सिपाहियों के साथ धूम रही थीं। भूतपूर्व जारशाही प्रशासन के टुच्चे अधिकारियों ने संदूकों में बंद अपने कोट निकालकर पहन लिये। गिरजे के पीछे से बढ़इयों की ठकाठक सुनाई दे रही थी: फांसी के तख्तों के लिए लट्टे छीले जा रहे थे।

उधर मामोन्तोव अपनी डिविजनों के कमांडरों—जनरल पोस्टोव्स्की, जनरल तोल्कूश्किन और जनरल कूचेरोव से मिल रहा था। नगर के अस्थाई प्रशासन के सदस्यों की नियुक्ति का अनुमोदन कर रहा था। घोड़े जब्त करने, नागरिक आबादी में से गश्ती दस्ते बनाने और उन्हें वांहों पर वांधने के लिए सफेद पट्टियां देने के आदेशों पर हस्ताक्षर

कर रहा था। गिरजों से नूटा गया माल—सोने की चीजें, देवचित्रों के नग-जड़े चौमुटे देख रहा था और वता रहा था कि क्या फौज की गाड़ियों में लादा जाये और क्या उसके अपने सामान के साथ रखा जाये।

नगर की बड़ी मड़क पर कोर की परेड हुई। एक के बाद एक कज्जाकों की टुकड़ियां घोड़े दौड़ाती गुजरीं, खड़खड़ करती तोपें गई, बन्धवद गाड़ियां और मणीनगरों से लदी लारियां धुआं छोड़ती निकलीं, और फिर पैदल कज्जाकों की टुकड़ी समारोही मार्च करती गई।

मामोन्तोव घोड़े पर बैठा परेड का निरीक्षण कर रहा था। नाल फ़ीते वाली टोपी तले उसका माथा दिखाई नहीं देता था। वह नीला ओवरकोट और विशाल काले दस्ताने पहने था, जिन पर बाहर की ओर जगी का काम था। उसने लगाम ऐसे पकड़ रखी थी कि दस्तानों पर जगी का काम सबको दिखाई दे। कभी-कभी वह भीड़ पर अहंकार भरी नज़र डालता, फिर तेजी से मुंह मोड़ लेता, रकावों में जरा उठ जाता और गुम्मे में काली मुट्ठी से मूँछे ऊपर को झटकता: भीड़ जोश नहीं दिखा रही थी।

इस स्वप्न में कोज्जनोव के आम निवासियों ने मामोन्तोव की चढ़ाई देखी और केवल इस ज्ञान के आधार पर ही वे घटनाओं को समझने की कोशिश कर सकते थे...

मामोन्तोव की चढ़ाई बृत्तम हो जाने के बाद घटनाओं का जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके आधार पर अगर हम देखें, तो गृहयुद्ध के दौरान इस चढ़ाई का अर्थ अधिक स्पष्ट हो जायेगा।

कोज्जनोव मे जाते हुए मामोन्तोव ने गिरजे के सामने चौक में खड़े होकर पूजा में भाग लिया। पूजा के समय गिरजे के घंटे जोरों से बजाये गये और बाद में जब भारी-भरकम लवादे ओढ़े पादरी उसके पान जमा हुए, तो उसने उनमें कहा कि वह मास्को पर चढ़ाई करने जा रहा है—“गजधानी का कम्युनिस्टों से उद्धार करने।”

कोज्जनोव पर कव्जा करने के बाद मामोन्तोव की कोर जिस तरह आगे बढ़ी उसमें यह पता चलता था कि मास्को पर चढ़ाई करने का दृम्याहम तो मामोन्तोव शायद न ही करे, पर इसका डरावा वह अवश्य दिखाना चाहता था। कोर गनेन्वर्ग डलाके में पावेलेत्स और तूला जानेवाली मड़कों की ओर बढ़ी।

मामोन्तोव ने सोच-समझकर मास्को पर चढ़ाई का डरावा दिखाया था। वह केवल डींग ही नहीं हांक रहा था, धूर्तता भी बरत रहा था। वह यह अच्छी तरह जानता था कि रिसाले से उसे एक बहुत बड़ा लाभ है, और वह यह कि वह जब चाहे अपनी दिशा बदल सकता है—ऐसे छोटे-छोटे नगर, जिनकी रक्षा का कोई खास प्रबन्ध नहीं है, जहां छोटी-छोटी गैरिजनें हैं, जिनके पास कोई खास हथियार भी नहीं हैं। लेकिन दो ऐसे कारक थे, जिनके कारण मामोन्तोव राजधानी की ओर बेरोकटोक नहीं बढ़ सकता था: एक तो यह कि समय बीतने के साथ-साथ हमलावरों से रक्षा का प्रबन्ध सुधरता जा रहा था, दूसरे, मास्को के आस-पास के औद्योगिक इलाकों में, जिनमें तूला तो क्रांति का शस्त्रागार ही था, विशाल संख्या में मज़दूर शत्रु से लोहा लेने को तैयार थे। मामोन्तोव पहले से ही जानता था कि उसे निकट भविष्य में अनिवार्यतः दक्षिण की ओर मुड़ना होगा और सफेद गार्डों के मोर्चे से मिलना होगा। अतः उसके लिए यह और भी अधिक आवश्यक था कि वह ऐसा जाहिर करे मानो उत्तर की ओर बढ़ रहा है, ताकि उसकी चाल को समझना मुश्किल हो और उन इलाकों में प्रतिरोध कमज़ोर पड़ जाये, जिधर वह सचमुच घुसना चाहता था।

उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने का दिखावा करते-करते वह सहसा दक्षिण-पश्चिम को मुड़ गया। रानेन्वर्ग के बाद उसने लेवेद्यान और येलेत्स पर हमला किया। फिर उसने अपनी दिशा एकदम बदल दी, जादोन्स्क से होते हुए कज़ाक सीधे दक्षिण-पूर्व की ओर, राजमार्ग पर बोरोनेज की ओर बढ़ने लगे।

मामोन्तोव की चढ़ाई के रास्ते में सोवियत नगरों का प्रतिरोध क्षीण नहीं हो रहा था, बल्कि बढ़ रहा था। चढ़ाई के बिल्कुल आरम्भ में तम्बोव में जहां दुश्मन का सामना प्रायः किया ही नहीं गया, वहीं अंत में बोरोनेज में उससे ऐसी टक्कर ली गई कि मामोन्तोव बोरोनेज पर पूरा कञ्चा नहीं कर पाया, नगर में बस एक दिन टिक पाया और हारते हुए उसे पीछे हटना पड़ा। बोरोनेज के पास लड़ाई के साथ मामोन्तोव की चढ़ाई का अंतिम चरण खत्म हो गया। मामोन्तोव अपनी कोर को वापस ले चला, और उसे अपनी चढ़ाई से बस यही नतीजा

हाथ लगा होता, पर तभी देनीकिन ने उसकी मदद को लैप्टिपनेंट जनरल इंजिन की तीसरी कैवेलरी कोर भेजी। दो हफ्ते बाद यह कोर अपने काले झंडे फहराती वोरोनेज में घुस आई और वह सब करने लगी, जो मामोन्तोव के बूते के बाहर सिद्ध हुआ था।

क्या कारण था कि कुछ नगरों में मामोन्तोव के कज्जाकों से टक्कर ली गई और कुछ नगर लड़ाई के बिना ही छोड़ दिये गये?

आरम्भ में मामोन्तोव को जो सफलता मिली थी वह उसकी चढ़ाई की आकस्मिकता का ही नतीजा नहीं थी। विश्वासघात का भी इसमें हाथ रहा था।

दक्षिणी मोर्चे की कमान ने इस आदेश को प्रायः नज़रंदाज ही कर दिया था कि सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी डलाकों में अच्छी तरह किलावंदी की जाये। तम्बोव और येलेत्स की प्रतिरक्षा का कोई प्रवन्ध ही नहीं किया गया था। सफेद गार्डों के टोही काम कर रहे थे। वे जानते थे कि तम्बोव की सैनिक टुकड़ियों और नागरिक कार्यालयों में देनीकिन के कज्जाकों को विश्वासघाती मिलेंगे।

तम्बोव में जब सैनिक विद्यालय के छात्रों ने तम्बोव रेलवे स्टेशन की रक्खा करने की कोशिश की थी, तो कज्जाक पूरे विश्वास से चिल्ला-चिल्लाकर उन्हें कह रहे थे: "हथियार डाल दो, तुम्हारी तोपें तो बेकार पड़ी हैं!" उनका कहना सच था: रात को ही भूतपूर्व जारशाही अफ़सरों ने सभी तोपों के घोड़े उतार लिये थे और डिविजन कमांडर ममेत मामोन्तोव में जा मिले थे। मोर्चे की आपरेटिव टुकड़ी राइफ़िल निरेड के कमांडर को सौंपी गई थी, पर वह भी तुरन्त सफेद गार्डों के पास चला गया। वस्तरवंद गाड़ियों की टुकड़ी का कमांडर दुश्मन में मामना करने के बजाय नगर में व्यवस्था स्थापित करने के बहाने नगर पर ही गोलियां चलवाने लगा। किलेवंद मोर्चे के कमांडेंट ने ही यह अफ़वाह फैलाई कि सफेद गार्डों की बीस रेजीमेंटें तम्बोव की ओर बढ़ रही हैं, जबकि वास्तव में उनकी संख्या ढाई हज़ार मैनिक यानी कुल तीन घुड़सवार रेजीमेंटें थीं। और लड़ाई के बिना ही नगर को दुश्मन के हवाले कर दिया गया।

नेवेश्चान में तम्बोव पर कञ्जे की खदान तीसरे दिन ही पहुंची, और कोज्नोव की ही भाँति अफ़वाहों के स्फूर्ति में। नगर में वचाव की

कोशिश की गई। राजेन्द्रुर्ग से पैदल सैनिकों और रिसाले की कुछ टुकड़ियां यहां भेजी गईं। परन्तु ये सब कोशिशें स्थानीय अधिकारी स्वयं ही कर रहे थे, दक्षिणी मोर्चे की कमान से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही थी, कमान तो कोज्जलोव को खतरा पैदा होते ही वहां से भाग खड़ी हुई थी। तम्बोव के संगठनों ने बाद में यह साफ़-साफ़ स्वीकार किया कि “स्थानीय कमान की ओर से रखे गये कई काम के सुझावों का दक्षिणी मोर्चे की कमान सख्त विरोध करती रही थी”।

सफेद गाड़ों ने पहले से ही विश्वासघातियों की टोह ले ली थी, उन्हें तैयार किया था और उनका लाभ उठाया था। यह सोवियतों के विरुद्ध और मामोन्तोव के पक्ष में एक सहायक शक्ति थी।

परन्तु समय बीतने के साथ-साथ मामोन्तोव की चालों की कारणरता घटती जा रही थी। एक तो आकस्मिकता अब कम पड़ गई थी, क्योंकि मामोन्तोव के सम्भाव्य रास्ते में पड़नेवाले सभी शहर ज़ोर-शोर से अपनी रक्षा की तैयारी करने लगे। दूसरे, विश्वासघात की सम्भावनाओं की ओर से स्थानीय अधिकारी भी चौकस हो गये।

इसके अलावा कुछ और कारक भी सक्रिय हो गये थे, जो सोवियतों के हित में थे और मामोन्तोव के विरुद्ध।

इन कारकों में सबसे पहला यह था कि दोन कज्जाकों का बड़ी तेजी से नैतिक पतन हो रहा था। लूट-पाट से मामोन्तोव के सिपाही इतने विगड़ गये कि वे अपने जनरल तक के आदेश मानने से इन्कार करने लगे; कोज्जलोव में ही मामोन्तोव ने लोगों को लूटने की सख्त मनाही का हुक्म जारी किया था, लेकिन कज्जाकों ने उसकी एक न सुनी। इस मनाही को मामोन्तोव का ढोंग मानना सही न होगा। वह खुद भी लूट का माल बटोर रहा था, पर यह भी देख रहा था कि उसके सिपाही लड़ाई के बजाय लूट-पाट में ही ज्यादा जोश दिखा रहे हैं। सभी डिविजनें अपने साथ लूट के माल से लदी गाड़ियों लिये चल रही थीं और इन गाड़ियों की कतारें सिपाहियों की कतारों से ज्यादा लम्बी थीं। नैतिक पतन के कारण सारी कोर की लड़ने की क्षमता बहुत कम हो गई थी।

मामोन्तोव की आरम्भिक सफलताओं को आगे जारी रखने के मार्ग में दूसरी बड़ी वाधा थी सोवियत आवादी का शत्रुतापूर्ण रुख।

मामोन्तोव को किसानों का समर्थन पाने की आगा थी, लेकिन उसकी आगाओं पर पानी फिर गया। किसान कज्जाकों का समर्थन नहीं कर रहे थे। कज्जाकों की लूट-पाट और यातनाओं को देखकर ग्रामीण आत्मादी प्रतिकानिकाएँ के उद्देश्यों के और भी अधिक विरुद्ध हो रही थीं।

इस बदली स्थिति का प्रभाव तब देखने में आया, जब मामोन्तोव दक्षिण की ओर मुड़ा।

जादोन्स्क के पास मामोन्तोव की कोर के बिचले दल का पहली बार गम्भीर मामना हुआ। जादोन्स्क में लामवन्दी कर ली गई थी और टुकड़िया बना दी गई थी। कुल डेढ़ हजार से अधिक लोगों की रेजीमेंट मराठिन कर ली गई थी। वोगेनेज मोर्चे की कमान ने प्रतिरक्षा की तैयारियों में दृढ़ता और सूझ-बूझ से काम लेते हुए जादोन्स्क रेजीमेंट के गठन में मदद की थी। इस रेजीमेंट की कुछ टुकड़ियों ने खून की आखिरी बूँद तक लड़ने का संकल्प दिखाया। लेकिन नगर के रक्षकों ने मैदान में लड़ने की कार्यनीति अपनाई, जिसके लिए खासे बड़े रिजर्व और बहुत से हथियारों की जस्तरत होती है। जादोन्स्क वालों के पास केवल आठ मरीनगने थी और चंडावल में कोई रिजर्व न था। उनकी दूर-दूर तक फैली टुकड़ियां घुड़सवार कज्जाकों को रोकने में असमर्थ थीं। जादोन्स्क में गलियों, मड़कों में लड़ने की कार्यनीति अधिक उपयुक्त होती, लेकिन वह अपनाई नहीं गई।

वोगेनेज में आन्मग्राहा की तैयारी खूब अच्छी तरह की गई थी और इसका ननीजा यह हुआ था कि नगर के रक्षक मामोन्तोव के कज्जाकों से नैनिक और मैनिक दोनों ही दृष्टियों से थ्रेप्ट स्थिति में थे। चार दिन तक वोगेनेज के पास लड़ाई होती रही और कज्जाकों की मरी कोशियों के बावजूद वे थोड़ी देर के लिए ही नगर के कुछ भागों पर कब्जा कर सके, जहां से मड़कों पर लड़ाई में वे खदेड़ दिये गये। इस नग्न मामोन्तोव की कोर और भी अधिक जल्दी से दक्षिणी मोर्चे की ओर हटी ...

नान मेना के चंडावल में मामोन्तोव के घुम आने के लिए दक्षिणी मोर्चे की कमान और जनतंत्र की क्रांतिकारी मैनिक पग्निपद के जो मद्दम्य दोपी थे, वे इसे मफ़्त गाड़ों की “नाममात्र की मफ़्तता”

बताने की कोशिश कर रहे थे। कहना न होगा कि चढ़ाई के शिकार हुए दस से अधिक नगरों को जो भारी क्षति पहुंची, स्त्रियों और बच्चों को जो यातनाएं उठानी पड़ीं, जो स्टेशन और रेल लाइनें वरवाद की गईं, गोदाम लूटे गये और सोविंयत अर्थव्यवस्था तहस-नहस की गई—इस सबमें “नाममात्र” का कुछ नहीं था। और आम जनता तथा लाल सेना की क्षति कज्ज़ाकों से लड़ते हुए मारे गये लोगों तक ही सीमित नहीं थी। मामोन्तोव की इस सर्वनाशी चढ़ाई का महत्व कम करने की इच्छा का एकमात्र कारण उन लोगों का खोटा मन ही हो सकता था, जिन्होंने सोवियतों के विरुद्ध देनीकिन के अभियान में एक तरह से उसकी मदद की थी।

दूसरी ओर, स्वयं प्रतिक्रियातिकारी और उनका यशगान करने को उतावले सफेद गार्डों और विदेशी समाचारपत्र ही इस चढ़ाई के महत्व को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे थे।

सफेद गार्ड मामोन्तोव की चढ़ाई को एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण रणनीतिक कार्रवाई समझ रहे थे। लेकिन इस रणनीति से देनीकिन के हाथ क्या लगा? मामोन्तोव की चढ़ाई से मोर्चे से लगे सभी प्रदेशों में आम जनता सफेद गार्डों के विरुद्ध हो गई। इससे लाल सेना में रिसाले के गठन में तेज़ी आई। उन दिनों ही बुद्योन्नी की कैवेलरी कोर सरातोव के दक्षिण-पश्चिम में सफेद गार्डों रिसाले से सफलतापूर्वक लोहा ले रही थी, और शीघ्र ही यह कोर बढ़कर प्रथम अश्वारोही सेना बनी। अंततः इस चढ़ाई से दक्षिणी मोर्चे की कमान में कमज़ोर कड़ियों का पता लगाने में मदद मिली, और इसके फलस्वरूप सैनिक कार्रवाइयों की ऐसी योजना बनी, जिससे देनीकिन का पूरी तरह सफाया किया जा सका।

मामोन्तोव की चढ़ाई का असली राजनीतिक और सैनिक महत्व यही था। इस चढ़ाई से देनीकिन की रणनीति का कमज़ोर पहलू उजागर हुआ और यह था उसकी राजनीतिक आधारहीनता। यह चढ़ाई देनीकिन की कार्यनीति के सार को ही व्यक्त करती थी, जिसे लेनिन ने जुलाई में लिखे अपने पत्र में दुस्साहस कहा था। यह सचमुच ही बौखलाहट फैलाने और तवाही की खातिर तवाही की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई थी।

.....

पान्तुखोब ने मामोन्तोब के पास जा रहे प्रतिनिधिमण्डल में शामिल होना स्वीकार तो कर लिया था, पर उसका मन डांवांडोल हो रहा था: यह एक राजनीतिक कदम था, और वह सदा राजनीति से किनारा करता आया था, क्योंकि राजनीति को ही मनुष्य के सभी दुखों का कारण मानता था। लेकिन एक तो आस्या ने इस कदम का समर्थन किया था, दूसरे, अब सोचने का बक्त नहीं रहा था। उसने अपना मवमे बढ़िया सूट पहना ही था और मनपसंद ओवरकोट तैयार किया ही था कि बुलावा आ गया: जनरल ने प्रतिनिधिमण्डल को फौरन हाजिर होने को कहा था।

आस्या ने पान्तुखोब को चूमा और चूमते हुए उसके पेट पर छोटा मा मलीव का निगान बनाया, ताकि वह देख न सके।

मामोन्तोब अपनी कोर के कमांडरों के साथ नगर के एकमात्र बड़े होटल — ग्रैंड होटल में ठहरा हुआ था, जो पैदल और घुड़सवार कज्जाकों से घिरा हुआ था। दरवाजे पर दो कज्जाक अफसर प्रतिनिधिमण्डल को लिवाने के लिए खड़े थे, उन्होंने यह संदेह प्रकट किया कि जनरल इतने अधिक प्रार्थियों में मिलना चाहेंगे कि नहीं — प्रतिनिधिमण्डल में कुल आठ लोग थे। लेकिन उनमें से कोई भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं था, उन्हें मानो इस बात का अफसोस था कि इस खतरनाक काम में हिस्सा लेने की हिम्मत जुटाने में उन्हें जो जतन करना पड़ा था, वह यो दहलीज़ तक आकर वापस चले जाने से वेकार जायेगा। वह ऊंची हम्मती बास तौर से परेशान हो उठी, जो पान्तुखोब को मनाने आई थी।

“पर, देखिये न! आप यह नामों की मूर्ची पढ़ देखिये! केवल विश्वसनीय हल्कों के ही प्रतिनिधि हैं। इससे कम तादाद में तो विल्कुल काम नहीं चल सकता।”

पान्तुखोब ने सभी प्रतिनिधियों का परिचय पाया और फिर प्रतिनिधिमण्डल के नेना के बगल में खड़ा हो गया। यह भारी-भरकम आदमी, जिसकी नीनी-नीनी आंखें धमा-याचना करती सी लगती थीं, पान्तुखोब को अच्छा लगा। वह काफ़ी धवग रहा था, और जब तक वे नोग अंदर निवाये जाने का इंतज़ार करते खड़े रहे, वह अपनी मफ़्द दाढ़ी खुजनाता रहा, कभी-कभी वह ठिठककर दाढ़ी पर हाथ फेरने लगता।

आखिर प्रतिनिधिमण्डल को ऊपर कर्नल के पास ले जाया गया, जो मामोन्तोव का एडिकांग था। उसने नामों की सूची देखी, पूछा कि प्रतिनिधिमण्डल का नेता कौन है, और फिर कुछ सोचकर यह कि पास्तुखोव कौन है।

पास्तुखोव ने एक पांव आगे बढ़ाकर सिर ज़रा भुकाया। कर्नल ने उसे घूरकर देखा, कुछ सोचता रहा, फिर अपनी लंबी महमेज़ें खनकाता और थिरकता हुआ वगल के कमरे में चला गया। क्षण भर बाद ही वह वहां से निकला और दरवाज़ा खुला छोड़कर बोला : “कमांडर बुला रहे हैं”। आठों लोग एक-एक करके उसके सामने से अंदर गये।

मामोन्तोव मेज़ के पीछे बैठा था, कागजों पर सिर भुकाये। उसके सिर के छोटे-छोटे बाल और खूब घनी, ऐंठी हुई मूँछें ही दिख रही थीं।

उसकी पीठ पीछे मेज से थोड़ी दूर ऊंचा तगड़ा कज्जाक तलवार की चांदी की मूठ पर हाथ रखे खड़ा था। प्रतिनिधिमण्डल मेज के सामने दूरी का ध्यान रखते हुए अर्धवृत्त बनाकर खड़ा हो गया और उसके पीछे दो कज्जाक। किसी ने भी आगंतुकों से बैठने को नहीं कहा।

सब के सब अपनी-अपनी जगह बुत बने खड़े थे, लेकिन मामोन्तोव पढ़ने में लगा हुआ था। सहसा उसने सिर उठाया और अपनी तीखी भेदती नज़र अर्धवृत्त के एक सिरे से दूसरे तक दौड़ाई, मानो सैनिकों की कतार की जांच कर रहा हो।

“किससे मिलने का सौभाग्य है?” बैठे-बैठे ही उसने पूछा।

“जनरल साहब!” प्रतिनिधिमण्डल के नेता ने गहरी सांस लेकर और सूत भर आगे बढ़ते हुए बोलना शुरू किया, पर मामोन्तोव ने उसे टोक दिया :

“क्रांति से पहले आप क्या थे?”

“राज्य पार्षद।”

“तो आपको पता होना चाहिए कि हमें ‘महामहिम’ कहा जाता है।”

पहले एक मूँछ और फिर दूसरी मूँछ को चुटकी में लेकर उसने उन्हें दायें-वायें ताव दिया, जिससे वे और भी अधिक ऐंठ गई, और कर्नल से कहा :

“मरके नाम बताइये, ताकि मुझे पता रहे।”

“मूची पेश कर दी गई है,” कर्नल ने दरवाजे से हटते हुए कहा।

“इधर दीजिये।”

कर्नल ने मेज पर कागज बढ़ाया। मामोन्तोव ने सिर झुकाया और ऐसे लहजे में पूछा मानो उसके अलावा कमरे में और कोई हो ही न:

“हैं कौन ये लोग?”

“तरह-तरह के लोग हैं,” कर्नल ने कहा, “बोल्शेविक तक।”

मामोन्तोव ने कागज परे फेंक दिया।

“क्या कहने हैं! मुझसे मिलने आये हैं? बोल्शेविकों का प्रति-निधिमण्डल ?!”

“इनमें एक जनाव पास्तुखोव हैं। वह बोल्शेविक हैं,” कर्नल को प्रत्यक्षतः यह बताते हुए मजा आ रहा था।

“कौन है? कौन है पास्तुखोव?” मामोन्तोव चिल्लाया और एक बार फिर उसने अर्धवृत्त पर अपनी दहकती नजर दौड़ाई।

“मैं हूं पास्तुखोव। लेकिन कर्नल साहब शायद मुझे कोई और आदमी समझ रहे हैं,” हिले-डुले विना और अपनी आवाज में बल डालते हुए पास्तुखोव ने कहा।

“यहां लिखा है साहित्यकार। आप ही हैं?” कर्नल ने पूछा।

“जी हां, मैं पीटर्सवर्ग का नाटककार हूं।”

“तो फिर मुकरते क्यों हैं? मैंने खुद बोल्शेविकों के अखबार में पढ़ा था कि आप मरातोव के भूमिगत दल में थे,” कर्नल ने कहा।

“यह गलतफहमी है, बल्कि भूठा लांछन ही,” पास्तुखोव मुश्किल में बोल पाया, उसे लग रहा था कि उसकी जवान को लकवा मार गया है।

“मेरे पास गलतफहमियां दूर करने का बक्त नहीं हैं!” मामोन्तोव फिर में चिल्लाया। “बंद कर दो इसे! मेरे पास आने की जुरत करता है! नाटककार कहीं का... मूअर का बच्चा!”

किमी ने पास्तुखोव का ओवरकोट खींचा, जो उसने बांह पर डाल रखा था। उसने मुड़कर देखा। कज्जाक ने उसकी बांह कमकर पकड़ ली थी। पास्तुखोव एक ओर को हट गया, वह कुछ कहना चाहता था, पर उसे बाहर ले जाया जा रहा था।

उसके कानों में आवाज़ पड़ी , और उसे लगा कि वह ऊँची हस्ती का भावभीता स्वर पहचान गया : “ ... महामहिम ... व्यापारी गण ... पादरी गण ... पुराने अधिकारी ... ” – और फिर मामोन्तोब की चीख उसे साफ़-साफ़ सुनाई दी : “ बोल्खेविक बन गये ! ”

फिर उसकी बोध शक्ति में एक विचित्र परिवर्तन आ गया : सब चीजें , सब घटनाएं एक दूसरे में घुल-मिल गई , मानो सब कुछ सपने में हो रहा हो , हाँ , वीच-वीच में कुछ विजली की तरह कौंधता हुआ स्पष्टतया दिखाई दे जाता ।

उसे गालों की उभरी-उभरी हड्डियों वाला एक कज्जाक दिखा , जो अपनी ताम्रवर्णी उंगलियों में एक कागज़ उलट-पुलट रहा था । इस कागज़ में पास्तुखोब की किस्मत का फ़ैसला था , पर उसे पता नहीं था कि उसमें क्या लिखा हुआ है । कज्जाक ने किसी से पूछा : “ कौन है वह उल्लू का पट्टा ? ” फिर काली लट वाले छोटे अफ़सर ने एक दूसरे अफ़सर से पूछा : “ वो सामने के मकान में क्या था ? ” “ लौंडियों का स्कूल । ” “ ओह , क्या दिन थे वे , स्कूल की वे लौंडियां ! ” तभी पास्तुखोब स्वयं अपने सामने एक दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ , वह भी पास्तुखोब ही था , लेकिन उससे विल्कुल अलग । यह दूसरा पास्तुखोब दो घुड़सवार कज्जाकों के बीच सड़क पर चल रहा था , हाथ में ओवररॉट उठाए और सड़क को देखता हुआ । इस लम्बी मास्को सड़क पर पास्तुखोब अक्सर स्टेशन के मोड़ तक धूमने जाया करता था , और अब इसे पहचान रहा था , लेकिन यह भी कोई दूसरी मास्को सड़क थी , जिस पर दूसरे पास्तुखोब को ले जाया जा रहा था । सामने से घोड़े दौड़ाते कज्जाक गाना गाते आ रहे थे । पास्तुखोब के पास आते ही एक कज्जाक ने काठी में एक ओर को झुककर सीटी बजाई । कर्णभेदी सीटी से पास्तुखोब को मानो शारीरिक वेदना हुई , उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हंटर दे मारा हो , और यह भ्रांति इतनी प्रवल थी कि उसने झट से सिर पर हाथ रखा । सहसा उसे एक सपाट दीवार और उस पर मनहूस खिड़कियों की कतार दिखी , उसे याद आया कि स्टेशन के मोड़ पर जेल थी , जिसकी छत तले ज़ंग लगा बोर्ड लटक रहा था : “ बंदी महल ” । उसे यह याद आया , क्योंकि पहली बार यह बोर्ड पढ़कर हैरान हुआ था कि बंदी और महल कितने

वेमेल गच्छ हैं, लेकिन दूसरे पास्तुखोब को जो अब जेल के फाटक के पास पहुंच रहा था, यह गच्छ याद करके न केवल हैरानी नहीं हुई, बल्कि उसे यह विश्वास लगता था कि उसके साथ जो कुछ घटा है, उसका अंत “बंदी महल” में ही हो सकता है।

वास्तविकता का पूरा बोध पास्तुखोब को तब होने लगा, जब उसे कोठरी में ढूमा गया। उसे ढूंसा ही गया था—न कोठरी में ले जाया गया था, न धकेला गया था, न फेंका गया था। उसने अपने आप को मानव शरीरों के ठोस समूह में पाया और तभी दमघोट बदबू से चांसने लगा। उसने तुरंत ही फ़ैमला किया कि नहीं, यह बदबू नहीं है, यह ऐसा पर्यावरण है, जिसमें ब्राण इंद्रिय विल्कुल काम नहीं करनी चाहिए। इस पर्यावरण का, इन बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव ऐसा था कि पास्तुखोब की त्वचा का रंग बदल गया—मुंह तक अपना हाथ लाने पर उसने यह देखा था। यह पर्यावरण त्वचा के रंग पर प्रभाव डालता था, इसमें हवा की कमी से मनुष्य का रंग मिट्टी जैसा हो जाता था।

उमी क्षण उसे स्पष्टतया आम्या का, अल्योशा का स्थाल आया और अब कहीं वह पूरी तरह समझ पाया कि उसके साथ क्या हुआ है। वह समझ गया कि आम्या और अल्योशा अब कभी भी उसे नहीं देख पायेंगे, क्योंकि उसका अंत हो गया है। वह यह समझ गया और आग्रह करते हुए पूछा: “क्यों, अच्छा नहीं लगता?” और बेहदा हँसी हँसा। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, वह देख रहा था कि उसके धैर्य की आगे और भी कठिन परीक्षा होगी।

हर उम स्थान पर, जहां लोग जमा होते हैं, उनमें से कुछ के बन और कुछ की दुर्बलता के आधार पर उनके परस्पर सम्बन्ध बन जाते हैं। वैसे ही इस कानकोठरी में, जहां मानव अस्तित्व असम्भव था, एक व्यवस्था बनी हुई थी, इसका अहमाभ पास्तुखोब को उमी क्षण हुआ, जब उसका शरीर मांस लेने की नई परिस्थितियों का आदी होने लगा। लोग उनने अधिक नहीं थे, जिनना कि आरम्भ में पास्तुखोब ने मोचा था, बल्कि यह कहना चाहिए कि कोठरी में उनने लोग नहीं आ सकते, जिनना बड़ा यह देहों का समूह पास्तुखोब को यहां यूंसे

जाने के वक्त लगा था। बाद में उसने गिना कि वह इस कोठरी में अड़तालीसवां था, जबकि कोठरी में दो मंजिला कतारों में सोने के लिए कुल बारह पटरे थे। यहां पर मज़दूर और नौकरी पेशा लोग थे, सफेद बालों वाले खड़े और भोली-भाली आंखों वाले किशोर थे; और पुराने कैदी, जिन्हें मामोन्तोव के कब्जे के पहले दिन छोड़ दिया गया था, पर फिर बंद कर दिया गया। भीड़ का एक हिस्सा दरवाजे के पास खड़ा था, दूसरा दल फर्श पर बैठा हुआ था और तीसरा पटरों पर लेटा हुआ था। एक निश्चित अवधि के बाद लेटे पड़े लोग पटरे खाली कर देते थे और भीड़ में खड़े हो जाते थे, फर्श पर बैठे लोग उनकी जगहों पर लेट जाते थे और खड़े लोगों में से कुछ फर्श पर बैठ जाते थे। देहों का यह भंवर ही वह व्यवस्था थी, जो पास्तुखोव ने देखी, इसके साथ ही तीन-चार लोग इस व्यवस्था पर नज़र रख रहे थे, खुद उन पर यह व्यवस्था लागू नहीं होती थी। वे पटरों पर लेटे-लेटे दूसरों पर हुक्म चला रहे थे, क्योंकि वे ही यहां सबसे बलवान थे।

पास्तुखोव को बैठने की जगह जल्दी नहीं मिली। बैठने की बारी को लेकर जब वहस छिड़ी, तो उसे वही जानी-पहचानी फटी-फटी आवाज सुनाई दी: “यह तो अभी ताजी हवा से आया है! खड़ा रहे अभी !”

पास्तुखोव को तो आरम्भ में खड़ा रहना ही बेहतर लगा था। उसकी इंद्रियों के क्षेत्र में जो कुछ आता था, उसका प्रेक्षण करने की उसकी उत्सुकता पल भर को भी उसके विचारों के मंथन को नहीं रोक सकती थी। उसके पर्यावरण की छोटी से छोटी वातें अनचाहे ही उसके मानस-पटल पर अंकित होती जा रही थीं, साथ ही वह अपने आप से एक के बाद एक सवाल पूछता जा रहा था, जिनका उस सब से कोई सम्बन्ध नहीं लगता था, जो उसकी आंखें देख रही थीं, कान सुन रहे थे और शरीर अनुभव कर रहा था।

अन्य सब प्रश्नों से अधिक जो प्रश्न उसके दिमाग में घूम रहा था, वह था: आखिर क्योंकर वह मारा जायेगा? उसने कुछ भी तो नहीं किया है! उसने वोल्शेविक गिने जाने का कोई वहाना तो दिया होता! मेत्सालोव वोल्शेविकों की अनुग्रह दृष्टि पाना चाहता था, सो उसने पास्तुखोव को वोल्शेविक बना दिया। पर उसने उसे केवल

सफेद गाड़ों की ही नजरों में लाल बना दिया था। लाल गाड़ों की नजरों में तो वह सदा सफेद गार्ड पंथी था और वही रहा। सफेद गाड़ों ने उमे लाल की हैसियत में “महल” में ठूंस दिया। क्या मेत्सलोव यही चाहता था? अच्छा, भाड़ में जाये मेत्सलोव! उसकी किस्मत उमे डम जाल में फँसाकर क्या करना चाहती थी? कहां है सच्चाई? किम बात में है सच्चाई? आखिर पास्तुखोव ने सच्चाई की अपनी समझ के खिलाफ़ तो कुछ नहीं किया था। तो फिर सच्चाई ने उसकी ओर मे मुँह क्यों मोड़ लिया?

पर क्या उसकी यह समझ गलत थी कि सच्चाई क्या है? क्या उसकी गलतियां सच्चाई के विरुद्ध अपराध थीं, और वह उसे उसकी गलतियों के लिए सजा दे रही है? क्या वह गलती करने की जुर्त नहीं कर सकता था? क्या उसे गलती करने का अधिकार नहीं था? हे कृपामिंदु, क्या उसे इस कालकोठरी में, इस सड़ाध में फिर से वे सवाल हल करने होंगे, जिनका हल वह छाव जीवन में ही पा चुका था? “क्यों, अच्छा नहीं लगता?” उसे फटी-फटी आवाज मुनाई देती है।

“करता हूं कोशिश, करता हूं कोशिश नया हल ढूँढने की,” पास्तुखोव सूज गये पांवो पर डोलते हुए मन ही मन कहता है।

... मैं इस संमार में आया, इसमें मेरी इच्छा का कोई सवाल नहीं था, मेरी उत्पन्न हो रही आन्म-चेतना के लिए यह एक आकस्मिक घटना थी। यहां दो नियम मुझे मिले, जिन पर मेरा कोई वश नहीं था: एक जैविक नियम था, जो मेरे शरीर के कोशों में विद्यमान था—“मैं जीना चाहता हूं!” और दूसरा सामाजिक-ऐतिहासिक नियम, जिसका यह अल्टीमेटम था: “या तो तुम अपने इच्छा बल को मेरे अधीन करके जियोगे, या फिर तुम्हारा अस्तित्व मिट जायेगा।” अगर मैं मानवजाति में अलग होकर जीने की भाँतता, तो पशु बन जाता। मुझे अपने जैमो के बीच ही जीना बदा है। मैंने यह बात स्वीकार कर ली, क्योंकि यह अनिवार्य है। मैंने वह सब स्वीकार कर लिया, जो उम क्षण विद्यमान था जब मैं अनचाहे ही डम संसार में आया। मैंने डम संसार को मुझ पर जबरदस्ती थोपे गये संसार के रूप में स्वीकार किया है।

उसके अंतःस्वर ने, जो अपरिचित और अप्रिय था, कुछ-कुछ उस स्वर जैसा ही था, जिसने पास्तुखोव की खिल्ली उड़ाई थी, उसके विचारों का क्रम तोड़ा: “तुमने संसार को इस कालकोठरी समेत स्वीकार किया है, जहां तुम्हें अब ढूंसा गया है?”

... मैं तो तब भी निर्दोष था, जब कीमती फ़र्नीचर से सजे कमरे में बैठकर नाटक लिखता था और अब भी, जबकि कालकोठरी में बंद हूं (पास्तुखोव ने अपने आपको जवाब दिया) । लेकिन कब मेरे साथ न्यायोचित व्यवहार हुआ? तब जबकि मुझे कीमती फ़र्नीचर वाले कमरे में रहने दिया गया या जब मुझे कालकोठरी में बंद कर दिया गया?

“अगर तुमने यह स्वीकार किया है कि संसार को ज़बरदस्ती तुम पर थोपा गया है तो फिर न्याय क्यों चाहते हो?” अप्रिय स्वर ने पूछा। “जब तुम आराम से रह रहे थे, तब तुमने न्याय नहीं चाहा। जब मुसीबत में पड़े तो न्याय याद आया। तो फिर तुम्हें यह मानना चाहिए कि जिन लोगों के लिए जीना दूभर है, उनका न्याय की मांग करना अधिक सही है, न कि उन लोगों द्वारा न्याय की ओर से आंखें मूँदना, जिनके लिए जीना आसान है।”

... मैंने कभी न्याय मांगने के किसी के अधिकार को गलत नहीं समझा। मैं सदा इन मांगों के उद्देश्य को उदात्त समझता था। हां, मेरा यह ख्याल था कि इन मांगों में न्याय के उद्देश्य के लिए सामाजिक व्यवस्था के महत्व को बहुत बढ़ाया-चढ़ाया जाता है। समाज कैसा भी क्यों न हो मनुष्य को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना होता है। हर समाज में संघर्ष ही करना है। कहां संघर्ष अधिक है, यह मैं नहीं जानता।

“तुम्हें अपने कीमती फ़र्नीचर वाले कमरे में बैठकर कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा। तुम्हारे अस्तित्व का ख्याल समाज की वह व्यवस्था रखती थी, जिसे तुमने ज़बरदस्ती थोपी गई व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया। यह ज़बरदस्ती तुम्हें मंजूर थी। लेकिन दूसरे लोग इस ज़बरदस्ती को स्वीकार नहीं कर सकते थे। ज़रा अपनी वातों पर ध्यान तो दो: तुम हर बक्त अपनी ही बात कर रहे हो: मैं, मैं, केवल मैं।”

... लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं कि मुझे जीना बदा है!

संसार मुझसे जो कुछ चाहता है, उसकी तुलना में मैं उससे बहुत कम की मांग करता हूँ।

“लेकिन तुम्हारी इन मांगों का आधार क्या है? जिस तरह इस संसार में आने में तुम्हारी इच्छा का कोई हाथ नहीं है, वैसे ही संसार की इच्छा का भी कोई हाथ नहीं है। तुम कुछ भी दिये विना ही पाना चाहते हो।”

... दिये विना कैसे? मेरी लेखन कला?

“तुमने स्वयं उसे अनुपम त्रुटि कहा है।”

... नहीं, यह मैंने नहीं कहा। यह आस्या ने कहा था। बेचारी आस्या! कितनी दुखी होगी वह मेरे मारे जाने पर! ओह, आस्या! कितनी गलतियां हुई हैं, कितनी त्रुटियां! अनुपम त्रुटियां? ओफक्, यह सब तो ढोंग ही है! क्या मैं जीवन भर यह नहीं मानता आया हूँ कि अन्य सभी विषयों से कहीं अधिक हद तक कला उन नियमों द्वारा भंचालित होती है, जो उसके प्रारूप - प्रकृति पर आधारित हैं? इस इमारत को लो। यह बेहूदी है, भोड़ी है, क्योंकि इसका सिर नहीं, कंधे नहीं, बगल नहीं। हर कोई यह देखता है, हर कोई यही कहेगा: यह इमारत बेहूदी है। ओह, अगर मनुष्य गलतियों के विना, त्रुटियों के विना जीवन बना सकता; कला के नियमों के अनुसार, प्रकृति की भाँति - सम्भवतया, तब हम सुखी समाज देख पाते।

“आहा,” फिर से अप्रिय अंतःस्वर सुनाई दिया, “अब तुम सुखी समाज चाहते हो! जवरदस्ती थोपे गये संसार को स्वीकार नहीं करते, बल्कि अपने इच्छा बल से उसे बनाना चाहते हो। ठीक है, चलो, चलो इसी गम्ते पर, हो सकता है, यह तुम्हें कोई मंजिल दिखा दे...”

“चलो, चलो बैठो! गे, नये आदमी, बैठ जा। थक गया होगा खड़े-खड़े!”

पास्तुखोब फौर्न यह समझ ही नहीं पाया कि उससे कहा जा रहा है। उसे भीड़ में से आगे ठेल दिया गया। मुश्किल से घुटने मोड़कर वह बैठा। धीरे-धीरे उसकी रगों को गहत पहुँचने लगी और वह ठोड़ी छानी पर टिकाकर झो गया।

इस नग्न वह भी देहों के भंवर में पड़ गया, दूसरे कैदियों जैमा ही उसका अम्लिन्व हो गया।

उसने कभी जेलों में पढ़ाई के बारे में सुना था: समय काटने के लिए और सोचने की शक्ति बनाये रखने के लिए कैदी एक दूसरे को विदेशी भाषाएं सिखाते थे, कई विषयों का अध्ययन करते थे। वह सोचने लगा कि वह किसी को क्या सिखा सकता है और तब उसने पाया कि उसके ज्ञान की विविधता के बावजूद किसी भी विषय का पूरा ज्ञान उसे नहीं है। कुछ विषय वह भूल चुका था, कुछ का उसने पूरी तरह अध्ययन नहीं किया था, कुछ के केवल निष्कर्ष उसे याद थे, और कुछ विषयों को उसने स्वयं पूरी तरह समझा ही नहीं था। भाषाएं वह केवल इस हद तक जानता था कि किसी फ्रांसीसी से शराब और खाने की या जर्मन से मौसम और महंगाई की बातें कर सकता था। बहरहाल ज्ञान प्रसार की अपनी अक्षमता पर उसे दुखी नहीं होना पड़ा: उससे कुछ सीखने की किसी की कोई इच्छा नहीं थी, और न ही उसमें इतनी ताकत थी कि कुछ पढ़ा सकता। कैदियों को न मुंह-हाथ धोने, न ताजी हवा में सांस लेने का मौका मिलता था और धीरे-धीरे वह इस गंदगी पर ध्यान न देना सीखने लगा, क्योंकि इस गंदगी से भी भयानक थी उसकी देह की टूटन, इस टूटन से भयानक थी भूख और भूख से अधिक भयानक थी अनिश्चितता। जिस तरह आरम्भ से उसकी द्वाण शक्ति क्षीण पड़ गई थी वैसे ही धीरे-धीरे उसकी दूसरी इंद्रियां क्षीण पड़ती जा रही थीं, बस कान ही हर बक्त खड़े रहते थे, दरवाजे के बाहर, “महल” के गलियारों में होनेवाली हर आहट को सुनते रहते थे।

एक दिन सुबह तड़के फर्श पर बेसुधी की नींद के बाद जब पास्तुखोब की आंख खुली, तो उसने एक मटमैले कीड़े को अपनी ओर बढ़ाते पाया। बेढ़व सा कीड़ा फर्श पर टांगें पसारे पड़े कैदियों की टांगों पर कभी फुदकता, कभी रेंगता उसकी ओर बढ़ रहा था। पास्तुखोब सिहर उठा। यह सोचकर उसे जुगृप्सा और भय हुआ कि वह असहाय सा फर्श पर पड़ा है और उसकी देह पर कीड़े-मकोड़े रेंग रहे हैं, जैसे कि वह कोई लाश हो। वह पहचान गया कि यह कीड़ा भींगुर है, उसी अण उसे याद हो आया कि घरों की दरारों में छिपे रहनेवाले इस कीड़े के साथ कैसी अच्छी-अच्छी कहानियां जुड़ी हुई हैं, पर वह अपनी घृणा को नहीं दबा पा रहा था। भींगुर फुदकता, रेंगता, पास आता

जा रहा था। यह न टिही थी, न तिलचट्ठा, बल्कि टिही और तिलचट्ठा दोनों ही। और इससे उसे देखकर और भी जोर से घिन हो रही थी। भीगुर पास्तुखोब पर फुदका। पास्तुखोब उछलकर खड़ा हो गया, कीड़े को भटक दिया और वच्चों जैसी भय और वीभत्सता की कष्टदायी भावना के साथ उसे कुचल दिया। बड़ी देर तक वह वूट से वह जगह ममलता रहा और किसी भी तरह अपनी घिन दूर नहीं कर पा रहा था।

उजाले और धुंधलके, दुपहरी और आधी रात के चक्र में समय वीत रहा था, लेकिन सभी घड़ियां विल्कुल एक जैसी थीं और पास्तुखोब के निए अभूतपूर्व यातना से भरी थीं, जिसे उसने देह और आत्मा के मंवर्प की संज्ञा दी। वह अंत की प्रतीक्षा कर रहा था और अब यह नहीं बता सकता था कि इस प्रतीक्षा में कितना समय वीत गया है। तभी एक दिन दरवाजे के बाहर सहसा शोर मचा।

पहले-पहल तो कुछ समझ में ही नहीं आता था—गलियारों से दवा-दवा शोर घुमड़ता आ रहा था, जिसके बीच धमाधम और ठकाठक बढ़ती जा रही थी। लेकिन दरवाजा खुलने से पहले ही कोठरी में कोई शूरी में बावला होता हुआ चिल्लाया:

“बोल्येविक !”

पटरों और फर्श से मव उछलकर खड़े हो गये और एक दूसरे को धकेन्तरे यों दरवाजे की ओर लपके कि तंग कोठरी के आदी इन नोगों के लिए भी यह धक्कम-धक्का असहनीय था। वे दरवाजे और पटरों पर मुक्के मारने लगे, चीखने लगे, और उनके इस शोर में बाहर का शोर दब गया। अधीरता में कैदियों के चेहरे बदल गये, उनमें कुछ कग्ने का मंकल्प दमकने लगा।

“खोलो, भाड़यो, खोलो! भाड़यो!” कोठरी में चीख-पुकार हो रही थी, और इस चीख में नई-नई आवाजें मिलती जा रही थीं, बेड़निहा मुक्के मारे जा रहे थे, जब तक कि अंततः दरवाजे की जगह गेयनी हो गई, उम्में मंगीने चमकों और उनके तले लाल तारों बानी टेपियां दिखीं।

तुरन्त ही शोर कम हो गया। क्योंकि मव छिटक गये, उन्हें अपनी आंखों पर विवाम नहीं हो रहा था, अण भर को कोठरी मानो खुली हो गई। और तभी पास्तुखोब को एक युवा स्वर मुनाई दिया:

“जिनको मामोन्तोव ने बंद किया है, वे बाहर निकलें !”

फिर से शोर होने लगा और फिर से वे एक दूसरे को धकेलने लगे। पास्तुखोव भी अपना पूरा ज़ोर लगाता हुआ उसे धकेलनेवालों को धकेलने लगा।

नीचे कहीं गलियारे में उसे कतार में खड़ा किया गया। उसे कुछ होश नहीं था कि कैसे वह मेज़ तक पहुंचा, जिसके पीछे कागजात देखते लाल सैनिक बैठे थे। उससे पूछा गया:

“आप कौन हैं?”

पास्तुखोव के कपड़े मैले-कुचैले हो गये थे, तो भी वह औरों से अलग लगता था। उसने जवाब दिया:

“थियेटर कर्मी।”

“अच्छा ! थियेटर !” मेज़ के पीछे बैठे सैनिक मुस्कराये और उसे एक पर्ची पकड़कर बोले: “जाइये !”

वह पर्ची हाथ में लिये अहते में जा रहा था, और उन लोगों को देख रहा था, जिनको उसके साथ छोड़ा जा रहा था, उनके चेहरे खुशी से बुद्धों जैसे हो रहे थे, और उसे लग रहा था कि उसके चेहरे पर भी ऐसा ही भाव है, और इससे वह अत्यंत उत्तेजित था।

फाटक के पास उसे रोका गया।

लाल सैनिक कुछ लोगों को पकड़कर ला रहे थे। उनमें सबसे आगे भारी-भारी कदम रखता, अपनी उलझी-पुलझी दाढ़ी खुजलाता एक बूढ़ा आ रहा था। उसने अपनी नीली-नीली, क्षमा-याचना करती आंखों से पास्तुखोव की ओर देखा, और पास्तुखोव पहचान गया कि वह मामोन्तोव के पास गये प्रतिनिधिमण्डल का नेता है।

पल भर को पास्तुखोव को लगा उसका दिमाग चकरा रहा है। उसे लगा वह पागल हो जायेगा। पर तभी उससे पर्ची मांगी गई, उसने पर्ची दी और फाटक से बाहर निकल आया। उसने नज़र ऊपर उठाई, ऊपर अथाह नीला आसमान था। वह लड़खड़ाता हुआ चला, पर फिर भी चलने में उसे बड़ा आनन्द आ रहा था।

चौराहे पर उसे एक आदमी और औरत दिखे, जो एक छोटी सी दुकान की खिड़की पर कुछ ठोक-पीट करने में मग्न थे। कमज़ोर घुटनों को ज़रा आराम देने के लिए वह रुका और दुकान की टूटी खिड़की से

अंदर झांकने लगा। दुकान खाली थी, पर खिड़की के दासे पर कुछ सीलवंद शीशियां रखी हुई थीं। उसका सिर मानो मीठे खुमार से चकरा रहा था और किसी से दो बातें करने, मज्जाक करने का उसका मन हो रहा था।

“क्या बेच रहे हैं?” उसने पूछा।

औरत ने उसकी ओर देखा, पर कुछ कहा नहीं, आदमी अपने काम में लगा रहा।

पास्तुखोव ने खिड़की से शीशी उठाई और पढ़ा: “होर्स-रेडिंग”। वह मुस्कराया और लेवल पर रूसी अक्षरों में छपा अनजान शब्द पढ़ने लगा। उसका बहुत मन हो रहा था कि कुछ मज्जाक करे, लेकिन उसका मस्तिष्क मानो अपनी सुखद रिक्तता से उबरना ही नहीं चाहता था। आखिर उसने वह शब्द पढ़ लिया और बोला:

“भई, वाह! देखो न पहले कितना लम्बा होता था, बोलते जाओ, बोलते जाओ: तम्बोव ... प्रदेश ... उपभोक्ता ... सहकारी ... संघ ... और अब एक मांस में ही: तम्प्रदेशउपसहसंघ। वस बात खत्म!”

आदमी ने हथौड़ी रखकर पूछा:

“वहां से आये हो क्या?” और सिर से जेल की ओर इशारा किया।

“हाँ!”

“दिखाई दे रहा है।”

“चाहिए तो ले लो,” औरत ने कहा।

पास्तुखोव ने हाथ हिलाकर लाचारी व्यक्त की: उसका ओवरकोट, जिसकी जेव में रेजगारी थी, जेल में ही रह गया था।

“ले लो; डमसे कोई बड़ी कमाई तो होनेवाली नहीं।”

उमके चेहरे पर भरारत भलकी, उसने शीशी जेव में डाली, और बोला: “भगवान तेरा भला करे, माई!” अपनी पहले जैसी ही उन्मुक्त चाल से वह चल दिया, सिर में वही सुखद रिक्तता बनी हुई थी और मन में फिर से अपनी कलात्मकता पर संतोष उभर रहा था।

ज्यों-ज्यों वह घर के पास पहुंच रहा था, त्यों-त्यों उसके कदम नेज होते जा रहे थे। वह लड़कों की तरह दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया।

आस्या के मुंह से चीख निकली और उसने कसकर पति के गले में बांहें डाल दीं। अल्योशा दूसरे कमरे से भागा आया, ठिठका और फिर लपककर पिता की टांग से चिपक गया। मां जैसी ही चमकती आंखों से पिता की ओर देखते हुए उसने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी:

“पापा, आपने दाढ़ी बढ़ा ली !”

पास्तुखोव चाहकर भी नहीं बोल पा रहा था। मां-बेटे के आलिंगनों और अपनी उत्तेजना से उसकी सांस रुकी जा रही थी।

अल्योशा का हाथ उसकी जेव में रखी शीशी पर पड़ा।

“पापा, यह क्या है? क्या है यह ?”

पास्तुखोव ने शीशी निकालकर आस्या को दे दी। आस्या की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक हाथ में शीशी पकड़े, दूसरा उसकी गर्दन में डाले वह उसकी आंखों में झांक रही थी और उनमें अपनी उस एकमात्र भावना का उत्तर ढूँढ़ रही थी, जिससे वह अभिभूत हो उठी थी। वह चाहता था कि आस्या शीशी का लेबल पढ़े और वे मिलकर हँसें। उसका मन मजाक करने को उतावला हो रहा था, पर उसके पहले शब्द कुछ इस भाँति ध्वनित हुए कि आस्या को, जो बड़े गम्भीर भाव से बकवास बोलने के उसके अंदाज़ को अच्छी तरह समझती थी, उसे भी अब वे गम्भीर शब्द ही लगे।

“कैदी को ईसा के नाम पर मिली है,” पास्तुखोव ने कहा।

आस्या ने गद्गद होकर शीशी छाती से लगा ली। और तब पास्तुखोव ने सहसा बड़े सहज भाव से ठहाका मारा। आस्या के हाथ से शीशी छीनकर उसने मेज पर फेंक दी और हँसते-हँसते ही बुदबुदाया:

“बाद में ... बाद में देखती रहना, क्या चटनी है यह !”

आस्या उसकी हँसी के जवाब में मुस्कराने की कोशिश कर रही थी, वह अभी भी कुछ नहीं समझ पा रही थी, और कुछ समझना भी नहीं चाहती थी, सिवाय अपने सुख की अनुभूति के।

ओला अदामोन्ना रूमाल से आंखें पोंछती, शर्माती हुई दरवाजे में से झांक रही थी: वह समझती थी कि ऐसा करना ठीक नहीं, पर पति-पत्नी के इस असाधारण मिलन को देखने की इच्छा दबा नहीं पा रही थी।

पास्तुखोव बड़े रोब से उसके पास गया और भुककर उसका हाथ

चूमा। उसके चेहरे पर लाली दौड़ गई, लटें हिलने लगीं। बाहर निकलकर उसने दरवाजा बंद कर दिया।

पास्तुखोब ने चिल्लाकर कहा :

“ओल्ला अदामोब्ला! भगवान के वास्ते जरा जल्दी से नहाने का डंज़ाम कर दीजिये। मां जी से पूछकर उनका हम्माम गरम कर दीजिये।”

आग्निर जब मन की तहों से उठी भावनाओं का बबंदर शांत हुआ, और मन्त्रिपक वेलगाम विचारों पर अपनी लगाम लगा सका, और पास्तुखोब जल्दी-जल्दी अपने बारे में कुछ बता पाया, और आस्या उसकी बातें मुनने का धीरज कर पाई—तब तक अल्योशा अपने खेल में मन्न हो गया था और ओल्ला अदामोब्ला धुआं छोड़ते स्टोब से जूझ रही थी।

चाय का गिलाम उठाये कमरे में ठहलते हुए पास्तुखोब की नजर पलग पर बिखरे पड़े पन्नों पर पड़ी।

“तुम पढ़ रही थी?”

“हाँ। मैं गेती जाती और पढ़ती जाती,” आस्या ने जवाब दिया। उसकी हल्की-हल्की, प्रायः अदृश्य सी मुस्कान इस बात के लिए मानो धमा मांग रही थी।

“क्या है यह?”

“मव वेतरतीव है। ‘युद्ध और शांति’ के डधर-डधर के पन्ने हैं। पर मुझे अच्छा लगा कि पन्ने यों वेतरतीव हैं। ऐसे पढ़के मन और भी उदाम होता है।”

वह पलंग पर बैठ गई और जल्दी-जल्दी पन्ने पलटने लगी।

“यहाँ एक जगह है...”

उसने ढूँढ़ा छोड़ दिया।

“इस बिचड़ी में मिनते के तो हैं नहीं।”

“क्या है उसमें?”

“उन हिम्मों में मे एक है, जो मुझे पहले उकताऊ लगा करते थे। मैं उन्हें मदा छोड़कर आगे पढ़ने लगती थी। पर अब मैं मोच में पड़ गई... वह हिम्मा, जहाँ इनिहाम की चर्चा है।”

“याद है मुझे। मैं भी वहाँ उसी बारे में मोचता रहा था।”

“सच ? हो सकता है उसी वक्त जब मैं पढ़ रही थी ... पता है , जहां लिखा है कि इतिहास को मनुष्य के इच्छा बल का परिणाम समझने का दृष्टिकोण पुराना पड़ चुका है।”

“हां, हां। यह कि इतिहास के अध्ययन में इस दृष्टिकोण को मानना और उसके साथ ही सांख्यिकी और राजनीतिक अर्थशास्त्र के नियमों को भी सच्चाई मानना असम्भव है, जिनका इस पुराने दृष्टिकोण के साथ कोई सामंजस्य ही नहीं बैठता।”

“तुम्हें यह सब याद है !”

पति के मुखर चिंतन पर आस्या सदा ही विमुग्ध सी उसे देखने लगती थी।

“तो, कैसा लगा तुम्हें यह सब ?”

आस्या कुछ सोचती हुई चुप रही।

“पहले तो मैं भी वैसे ही सोच रही थी, पर फिर मुझे लगने लगा कि यह ठीक नहीं।”

“ठीक नहीं ? तोलस्तोय का कहना ठीक नहीं ?”

“हां। मैं सोच रही थी कि अब तो इतिहास का नया दृष्टिकोण विजयी हो गया है। ठीक है न ? अब तो यह कहा जाता है कि इतिहास का अध्ययन उन सारे दूसरे विषयों से मेल खाता है, जिनके बारे में तोलस्तोय ने कहा है ... सांख्यिकी और प्रकृतिविज्ञान से ... है न ?”

वह फिर से चुप हो गई और उसकी आंखों में द्विविधा का भाव आ गया, मानो वह इस बात की दोषी थी कि उसने ऐसे अमूर्त विषय पर बात छेड़ी, पर साथ ही उसके विचार में यह बात अत्यंत आवश्यक थी, और उसे इस पर गर्व था।

“तो ?” पास्तुखोव ने फिर से उसे आगे बोलने को प्रेरित किया।

“मैं सोच रही थी कि जैसे पहले इतिहास की गलत व्याख्या करते हुए आदमी इतिहास के हाथों में कठपुतली था, वैसे ही अब सही व्याख्या करते हुए भी वह इतिहास के बश में ही है। इतिहास एक साधन के तौर पर उसे इस्तेमाल करता है। ठीक है कि नहीं ?” आस्या ने पूछा। उसके चेहरे पर द्विविधा का भाव बढ़ता जा रहा था।

पास्तुखोव ने चाय का धूंट भरा, कुर्सी उठाई और पत्नी के सामने बैठ गया। यह सब उसने बहुत ही धीरे-धीरे किया।

“ठीक है कि नहीं?” आस्या ने एक बार फिर पूछा। “मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी, सागा, हमारे बारे में। मैं रात-गत भर सो नहीं पाती थी, सो पढ़ती रहती थी। पर ये पन्ने मैंने बार-बार पढ़े। और मेरी अपनी धारणा वन गई है... हो सकता है, वह तोलस्तोय की धारणा के विपरीत न हो, पता नहीं। पर मेरे लिए यह उसकी धारणा से आगे है। मैंने सोचा, अगर हमारी नकेल इतिहास के हाथ में है, और हम उसके गिकार हैं, तो फिर हमारे लिए कीनसा रास्ता बचता है?”

पान्तुग्रोव उसकी आंखों में आंखें डाले देख रहा था और उसे कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आस्या के चेहरे पर दोष की विचित्र भावना के पीछे चतुर्गई छिपी है। इस चेहरे के हर हाव-भाव को वह अच्छी तरह पहचानता था। हल्के-हल्के मुस्कराते चेहरे पर कभी-कभी मानो मंकोच छलक उठता और उसकी रेखाओं में अवलापन के भाव के साथ कहीं प्रच्छन्न बल का आभास होता। यह अंतर्विरोध लिये चेहरा इस क्षण उसे और भी अधिक मुंदर लग रहा था।

“हम इतिहास की चाहे गलत व्याख्या करें, चाहे सही, हर हालत में अगर हमें इतिहास का गिकार ही होना है, तो क्या रास्ता है?” वह आग्रहपूर्वक कहती जा रही थी। “जो है उसे शिरोधार्य कर लें। वह यही रास्ता है। ठीक है कि नहीं?”

“कितनी चतुर औरत हो तुम,” उसने गम्भीर भाव से कहा, पर माथ ही कुछ ऐसे अदाज से कि वह इस प्रशंसा को मजाक समझ सकती थी, और यही वेहतर मानकर वह जोर में हँस पड़ी।

नेकिन पान्तुग्रोव ने उसकी हँसी का जवाब नहीं दिया और एक-एक शब्द पर जोर देते हुए कहने लगा:

“थोड़ी देर के लिए हम यह भूल जायें कि इतिहास के अन्ययन और हमारे मामने जो घटनाएं घट रही हैं उनके प्रवाह को गड़वड़ाना नहीं चाहिए, यह घटना-प्रवाह तो समय बीतने पर ही इतिहास का विषय बनेगा। अभी मैं यह मीन-मेघ नहीं निकालना चाहता कि इतिहास की कौन सी व्याख्या गलत है और कौन सी सही। मैं अपने अनुभवों से जी रहा हूँ। समझी? और जीवन में मुझे पहले कभी भी इतने अनुभव नहीं हुए हैं। यह वह इतिहास है जिसमें मैं कर्ता हूँ। समझ रही हो

मेरी बात ? और मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ : मैं इतिहास का शिकार नहीं बनना चाहता । कोई इच्छा नहीं है मेरी शिकार बनने की । किसी भी चीज़ का शिकार बनने की ! इसकी ऐसी की तैसी ! ”

पास्तुखोब खड़ा हो गया , पैर से कुर्सी सरकाकर फिर से चलने लगा ।

“ यह समझ पाना कोई कमाल नहीं है कि पीटर्सवर्ग में , सरातोब में , कोज्ज्वलोब में , और न जाने कहाँ-कहाँ , हमारे साथ , हमारे अल्योशा के साथ जो कुछ हो रहा है , वह इतिहास की गति है । कमाल तो यह समझ लेने में है कि इस गति की प्रेरक शक्ति क्या है । हमें वहाँ होना चाहिए जहाँ यह प्रेरक शक्ति निहित है । मामोन्तोब भी इतिहास है । पर इस इतिहास को मैं दूर से सलाम करता हूँ ! अगर हर हालत में मुझे घटनाओं के प्रवाह में बहना है , उसे स्वीकार करना है (मेरे ब्याल में तुम्हारा यह कहना विल्कुल सही है) , तो यह चुनना तो मेरे बस की बात है कि घटनाओं का प्रवाह निर्धारित करनेवाली शक्तियों में से किन शक्तियों के बश में मैं होना चाहता हूँ , किन्हें स्वीकार करना चाहता हूँ । शिकार बनूँ ? शहीदों की मौत मरना शिकार होना नहीं है , पराक्रम है । कालकोठरी में न जाने किस खातिर दम तोड़ना भी शिकार होना नहीं , बेवकूफ़ी है ! ”

वह कुछ झुँभलाता हुआ सा रुक गया :

“ देखा , मैं भाषण भी दे सकता हूँ । ”

उसकी नज़र अल्योशा पर पड़ी , जो चौखट से सटा खड़ा था और गर्व तथा भयमिथित भाव से पिता की ओर देख रहा था ।

“ क्या है ? ”

“ मुझे लगा आपने आवाज़ दी थी ... ”

“ आवाज़ दी थी ? ”

“ आप चिल्लाये थे : ‘ अल्योशा ! ’ ”

“ अभी मेरे पास नहीं आओ । पहले मैं नहा लूँ । जाओ , खेलो जाकर , ” पास्तुखोब ने ज़रा भावुक होते हुए कहा ।

आस्था की आंखें भीग आईं । उसकी भीगी-भीगी आंखें देखकर पास्तुखोब सदा पसीज जाता था , सो अब वह उसकी ओर न देखने की कोशिश कर रहा था , ताकि अपने विचारों का दृढ़ प्रवाह बनाये रख सके ।

“मगतोव के न्देशन पर दीविच से हुई वातचीत तुम्हें याद है? अब मैं यह देख रहा हूं कि दीविच का कहना सही है। उसके जैसे अगर मार्णे भी जायेंगे, तो उनका स्थान इतिहास में होगा, सच्चे इतिहास में (याद है, उसने यही कहा था?) , बल्कि इतिहास के धूरे पर नहीं। मैंग भी इतिहास के धूरे पर फेंके जाने का कोई इरादा नहीं है। क्योंकि मैं ग़दी की तरह फेंका जाऊँ?”

अगीर में नई शक्ति के संचार की अनुभूति से वह तनकर बड़ा हो गया, ठोड़ी आगे को बढ़ाई।

“क्या कहने हैं ग़दी के!” उसने डठलाते हुए कहा।

उमका समर्थन करते हुए पर साथ ही कुछ विचारमनता से आम्या ने मिर हिलाया।

“बड़ा प्यारा है... यह दीविच!” वह बोली।

पान्तुखोव रुक गया और आंखें भपकाता आम्या की ओर देखने लगा, उसके विचारों का कम टूट गया था। मेज़ के पास जाकर उसने एक बूंट में मारी चाय पी ली।

“तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है जब तुम्हारी कासनी आंखों पर कोई गीभता है। दीविच गद्गद होकर तुम्हें देखा करता था... बूढ़ा दोगो-गोमीलोव भी आहें भरना था...”

आम्या ने छोटी उंगली मे वाल कान के पीछे किये।

“हाय, कितना अच्छा लगता है जब तुम थोड़ी सी ईर्पा करने लगते हो!”

फिर मैं कुर्मी लेकर वह आम्या के सामने बैठ गया।

“मैंने अनिम फ़ैमला कर लिया है। समझ रही हो? मैंने यह फ़ैमला वहां किया है, दांते के नश्क की स्यानीय शाद्या में। मैंने यह तय किया था कि अगर ज़िंदा वच गया तो मवसे पहला काम जो करना वह यह कि डज्वेकोव को चिट्ठी लिखूंगा, माफ़ लिख दूंगा कि मैं उल्लू था। और दोगोगोमीलोव को भी। ताकि वे जान जायें कि मैं कोई म़फ़ेर गार्ड पंथी नहीं...”

उसने दृढ़तापूर्वक और यपथ ग्रहण करने के मे अंदाज में यह कहा। महमा आम्या की ओर भृककर वह नीची आवाज में बोला:

“वहां मेरे माथे एक वड़ी भयानक और वीभत्स वात हुई। सुनो...”

उसने सारी बात सुनाई और साथ ही इशारों से यह दिखाता भी गया कि कैसे भींगुर रेंगता, फुदकता उसकी ओर बढ़ रहा था और कैसे उसने उसे कुचल डाला। आस्या के चेहरे पर धिन के वही भाव प्रतिविम्बित हो रहे थे, जिनके साथ वह उस भुलाये न भूलनेवाले क्षण का अनुभव सुना रहा था।

“उस कीड़े में सबसे धिनौनी बात मुझे यह लगी कि वह न टिड़ी था और न तिलचट्ठा, बल्कि कोई दोगला कीड़ा। ऊपर से उसमें कुछ ऐसा आत्मसंतोष और घमंड का भाव था, मानो वह धिनौना कीड़ा अपने आपको वेहद खूबसूरत समझता हो। उसे देखकर आदमी थरथराये बिना नहीं रह सकता। बाद में मुझे बार-बार यह क्षण याद आता और हर बार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। थू !”

उसने हाथ रगड़े, उछलकर खड़ा हो गया और अपने कपड़े झटकने लगा। किताब के कुछ पन्ने फर्श पर जा गिरे। उसने पन्ने उठा लिये।

“दुनिया में इससे बढ़कर धिनौनी बात और कोई नहीं कि कोई दोगला हो। और तब मुझे यह ख्याल आया कि मेरी हालत और तो जैसी है सो है, धृणास्पद भी है।”

“साशा,” आस्या सचमुच ही भयभीत होकर चिल्लाई।

पास्तुखोव ने पन्ने ठीक से लगाने की कोशिश की, पर वे उसके हाथों में बिखर गये।

“मैंने यह कल्पना की कि मैं दूसरों की नज़रों में क्या हूं। कोई समझदार आदमी मुझे क्या समझता होगा। और तब मैंने फ़ैसला कर लिया... और जब मैंने फ़ैसला कर लिया, तो विश्वास मानो, उस कालकोठरी में अंत की प्रतीक्षा करते हुए भी मुझे लगा मैं आजाद हूं। समझ रही हो? गलत-फ़हमी की वजह से मारा जाना हास्यास्पद भी नहीं है। यह तो तुच्छ मौत है! मैंने निश्चय कर लिया और साफ़-साफ़ कल्पना भी करने लगा – अगर मुझे मरना ही है, तो मैं उन्हें चिल्लाकर कहूँगा: हां, हां, मैं बोल्शेविक हूं! बोल्शेविक – वेड़ा गरक जाये तुम्हारा! – और रोम-रोम से तुमसे नफरत करता हूं!”

दरवाजे पर फिर से अल्योशा का उत्तेजित चेहरा दिखा।

“पापा,” अल्योशा हौले से बोला, “क्या दूसरे भींगुर काटते हैं?”

“नहीं, दूसरे भींगुर नहीं काटते,” आस्या ने हल्के से मुस्कराकर जवाब दिया। “जाओ बेटा, हमें बात कर लेने दो।”

पति को गांत करने या शायद उसे कोई खतरनाक कदम उठाने में रोकने के डरादे से आस्या ने आगे को झुककर उसकी ओर हाथ बढ़ाये। लेकिन पास्तुखोब ने उसकी इस गति को नजरंदाज कर दिया, मानो डर रहा हो कि जो भवन वह अभी बनाने ही लगा है, वह उसके छूने से ढह जायेगा।

“और अब मैं कही नहीं भागूंगा।” उतावली में वह बोलने लगा। “बहुत हो गया! दीविच की बात समझ में आती है कि वह क्यों जर्मनों की कैद से भागा था। उसे घर जाना था। पर मुझे कहीं नहीं जाना। मैं घर पर हूं। हम-तुम घर पर हैं, समझती हो? जो हमारे घर का होगा, वही हमारा होगा। और हमें कुछ नहीं चाहिए!”

आस्या ने विनम्र आग्रह के साथ उसकी उंगलियां अपनी नरम हथेलियों में ले ही लीं, उसके हाथ परे किये और उसकी छाती से लग गई।

“पर प्रिय, मैं तुमसे विल्कुल सहमत हूं, हर बात में!”

पास्तुखोब ने अपने आप को छुड़ा लिया। वह अपने विचारों के भवन को पूरा करना चाहता था, देह और आत्मा के क्लेशकर संघर्ष में निवारण पाना चाहता था, और सबसे बड़ी बात यह विश्वास पा लेना चाहता था कि उसने किमी के परामर्श या दवाव से फँसला नहीं किया है, कि वह कुछ भी फँसला करने को स्वतंत्र है। उसे आपत्तियों में डर लग रहा था, पर माथ ही वह यह भी नहीं चाहता था कि आस्या तुरन्त ही उससे सहमत हो जाये। वह नहीं चाहता था कि इस फँसने में, जिसमें उनका माग जीवन बदला जाना था, पहल आस्या की हो।

आनंद उसने किनाब के पन्ने समेट दिये और उसके फटे मिरों पर आदर भाव में हाथ फेरते हुए बोला:

“तुम अगर यह मानती हो कि इतिहास की गति को गिरोधार्य कर लेना ही भी कुछ है, तो नोलम्नोय के ही मत का समर्थन करती हो। पर मैं उसमें महसूत नहीं हूं। अगर फँसला करना मेरे बग में है, तो इसका अर्थ है कि मैं अपने स्वतंत्र इच्छा बन से घटनाओं के विकास

में भाग लेता हूं। सब लोगों के स्वतंत्र इच्छा बलों का योग इतिहास की गति निर्धारित करनेवाली शक्तियों में से एक है। और इसका अर्थ है कि इतिहास एक हद तक मनुष्य के स्वतंत्र इच्छा बल का परिणाम है। मेरे स्वतंत्र इच्छा बल का परिणाम है।”

“यही तो मैं तुम्हें कहना चाहती थी,” उसका सिर वांहों में लेते हुए आस्या ने कहा। “वेशक तुम कुछ भी करने को आज्ञाद हो ... आवारा वेटे की तरह, जब वह वाप के घर लौट आया, वैसे ही हम भी वापस लौटने को आज्ञाद हैं सिर भुकाकर। भुके सिर तो काटे नहीं जाते।”

आस्या उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी, वह मुंह मोड़ना चाहता था, पर फिर सहसा वह अपने पुराने अंदाज में ठहाका मारकर हँस पड़ा। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। वे एक दूसरे से खुश थे और मानो जवान हो गये थे।

“तो सब कुछ वैसे ही हुआ, जैसे तुम चाहती थीं?” पास्तुखोब ने पूछा और हल्के से आंख मारी।

ओला अदामोन्ना ने अंदर झांका। उसके चेहरे पर वैसा ही खोया-खोया सा भाव था, जैसा त्योहार के दिन अचानक मेहमान आने पर होता है। उसने बताया कि मकान मालिक आये हैं – थियेटर का मैनेजर और मां जी।

“हम वस बधाई देने आये हैं, बधाई देने!” पास्तुखोब से हाथ मिलाते हुए थियेटर के मैनेजर ने कहा। “कितनी खुशी की बात है! कैसे हैं आप? भगवान कसम, बड़ी चिंता थी हमें आपकी। मां जी से पूछ लीजिये! सच, कितना दुखद अनुभव है!”

“क्या बताऊं,” अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ पास्तुखोब ने जवाब दिया। “मुझे याद नहीं पड़ता कौन से उपन्यास में स्टेन्डल* ने अपने नायक के बारे में लिखा है: ‘दुख ने उसकी आत्मा में कला का बोध जगाया।’ सो इससे भी कुछ लाभ हो सकता है...”

“उन्होंने मारा-पीटा तो नहीं आपको?” बालों तले से कान उघाड़ते हुए मां जी ने पूछा।

* स्टेन्डल (१७८३-१८४२) – लब्धप्रतिष्ठ फ्रांसीसी यथार्थवादी लेखक। – सं०

“भगवान की दया रही !” पास्तुखोब विनोदपूर्ण स्वर में चिल्लाया।
मा जी ने मलीब का निशान बनाया।

“माफ़ कीजिये, मुझे थियेटर जाना है,” मैनेजर ने कहा। “हम एक प्रगम्भितान तैयार कर रहे हैं। इतना जोश है सबमें—पूछिये मत, भगवान कसम !”

“क्या तैयार कर रहे हैं?”

“प्रगम्भितान !”

“किसने लिखा है?”

“किसी ने नहीं। हमारी मण्डली खुद तैयार कर रही। गीत-मणित वर्गीग्रह सब।”

“ठहरिये,” पास्तुखोब ने मैनेजर की बांह पकड़ते हुए सख्ती से कहा। “ठहरिये ... मैं आपके लिए प्रगम्भितान लिखूँगा। उसका नाम होगा ‘मुक्ति’।”

महामनस्कता भरी दृष्टि से उसने धीरे-धीरे सबकी ओर देखा।

“अनेकमान्द्र ब्नादीमिरोविच ! हम तो ... हम तो आपके ... सारी मण्डली आपके कदम चूमेगी !”

मैनेजर दरवाजे की ओर लपका, दौड़ते-दौड़ते भी उत्साह में कुछ बोलता गया।

“क्या कहता है, है?” मां जी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था।

“कहता है मैरे कदम चूमेगा,” पास्तुखोब ने मां जी के कान में चिल्लाकर कहा।

“अच्छा-आ ! ठीक ही तो है, भैया। हम तो यही समझ बैठे थे कि अब तुम न लौटोगे ... मैंने तुम्हारे लिए हमाम गरम करा दिया है।”

पास्तुखोब ने उसे निपटा लिया।

“वहूत-वहूत शुक्रिया, मां जी !”

“नहा लो, भैया ! भगवान तुम्हें मेहत दे।”

“आज मानी मैल उतार डानूँगा,” पत्नी के साथ अकेले रह जाने पर पास्तुखोब ने जोग में उसांस भगते हुए कहा।

वे छुँजे पर गये। उसने निर्जन चौराहे के एक सिरे से दूसरे तक नज़र ढौड़ाई।

“कैसा दिन है! और सड़क की धूल की गंध कितनी प्यारी है, खट्टी-खट्टी! ओह, आस्या, आस्या!”

एक बार फिर उसने अपने विशाल वक्ष को फुलाते हुए गहरी सांस ली।

३०

‘अक्तूबर’ गनबोट पर आकर भी रागोजिन बाहरी तौर पर बदला न था, और इससे वह दूसरे नौसैनिकों से बिल्कुल अलग लगता था, लेकिन सब इसे स्वाभाविक ही समझते थे और स्वयं रागोजिन भी इस बात को कोई महत्व नहीं देता था कि वह मल्लाहों जैसा नहीं दिखता। पहले की ही भाँति वह गले के वाई और बटनों की पट्टी वाला रूसी कुर्ता और कोट पहने रहता। सिर पर गोल चपटी टोपी कसी होती, जिसके नीचे से कभी-कभी कनपटी पर बालों की लट नजर आती। हां चलता वह नौसैनिकों से भी ज्यादा झूमकर। वह अब चलते हुए पहले से भी अधिक डोलता था, शायद इसलिए कि वित्तीय आंकड़ों से निराशाजनक द्वंद्व खत्म करके वह बोला की खुली हवाओं में आ गया था और जवान हो गया लगता था।

स्कैड्रन में सब उसकी ऊँची, भुके से कंधों की आकृति के शीघ्र ही आदी हो गये। वह अक्सर नौसैनिकों के बीच आता-जाता रहता था, हालांकि शुरू-शुरू में उसे हेडकवार्टर की केविनों में देर तक बैठना पड़ता था: उसे नौसैनिक बेड़े के कामकाज से परिचित होना था और बदलती परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक काम भी बदलना था।

अगस्त में सरातोव के दक्षिण-पश्चिम की ओर सोवियत सेनाओं का अभियान आरम्भ होने से कुछ दिन पहले ही रागोजिन बेड़े पर पहुंचा था। वह न सैनिक था और न कभी जहाजी ही रहा था। उसे बस एक ही हथियार चलाना आता था, जिससे रूस के मजदूर अच्छी तरह परिचित थे, यह था - रिवाल्वर। इस विश्वास के साथ कि अगर पार्टी ने उसे किसी स्थान पर नियुक्त किया है, तो वह अपनी जगह पर ही है, उसने स्कैड्रन कमिसार का काम संभाला। उसे इस बात में जरा भी संदेह नहीं था कि यह काम उसके बस का है, सिर्फ वक्त चाहिए था काम को समझने के लिए।

उसके अधीन जो पोत थे, उनपर वाल्टिक वेडे के नौसैनिक थे, काम्पियन और अजोव सागरों के जहाज़ी भी नज़र आते थे, रूस के उत्तरी इलाकों के और बोल्ना के मल्लाह भी इनमें थे। नाविकों की इस जमात को जहाजों पर काम करने का वरसों का अनुभव था, इनमें से ज्यादातर लड़ाइयां लड़ चुके थे और लगता था कि प्रकृति ने इन्हें खाम तौर पर जहाजों पर काम करने के लिए बनाया है।

नौसैनिक वेडे के नियम इन भाँति-भाँति के लोगों में समानता नाते थे, माथ ही वाल्टिक के नौसैनिकों को सब अपने लिए आदर्श मानते थे। इन नौसैनिकों को दोहरा यश प्राप्त था—वे वाल्टिक सागर में जर्मन वेडे से भी लड़ चुके थे और पेत्रोग्राद के कांतिकारी मोर्चे पर भी, जहां मुविख्यात युद्धपोत 'अवरोरा' ने सारे रूस में प्रतिघटनित हुआ ऋंति का पहला गोला दागा था। हर कोई वाल्टिक के नौसैनिकों जैसा बनना अपना कर्तव्य समझता था—युद्ध में उनके जैसी ही निर्भीकता दिखाना चाहता था, अवकाश के क्षणों में उनकी ही भाँति हंसोड होना चाहता था। यहां तक कि गोल टोपी भी सब उनकी तरह ही पहनने लगे थे—एक ओर को खिमकाकर नहीं बल्कि सीधे, भौंहों के समानांतर जिससे नौसैनिक इनने जावाज़ तो नहीं लगते थे, पर विल्कुल अडिग प्रतीत होते थे।

बोन्ना-कामा वेडे के उत्तरी दल में गनदोटों के अलावा ऐसे जहाज थे, जिन पर भागी तोसें लगी हुई थीं, अनेक सहायक जहाज थे—मरम्मत कर्नेवाले और अस्पताल के, मोटरवोटें और एयरोस्टैट थे, मैरीनों और मुरगे विछानेवालों की टुकड़ियां थीं। इन छोटे-वेडे, अलग-अलग गों के पोतों का वेडा नदी के पाट पर कई मील तक फैला हुआ था, निमनियों में निकलता धुआं आसमान पर काले, भूरे, सुरमर्द धन्दे फैला रहा था, इंजन फुफकारते, धुकधुक करते चल रहे थे, लगगे की जंजीरे खनक ग्ही थीं, सिगनलर अपनी भंडियां जल्दी-जल्दी हिला रहे थे। मोटरवोट पर बैठकर वेडे के हेडक्वार्टर को जाते हुए गगोजिन जब आगे की कुछ स्कैवेंड्रों के पास से गुजरा तो यह दृश्य देखकर वह विम्बय विमुग्ध रह गया। पहली बार वह लाल मोर्चे की शक्ति को इनने प्रत्यक्ष रूप में देख रहा था, उस सैन्यवल के ठोस रूप में उसे मानो अपने अधिकारों के लिए मैदान में कूदी जनता की महानता के माझात दर्शन हुआ।

रागोजिन ने धूप से गर्म हुआ पानी चुल्लू में लिया, एक धूंट भरा और माथे पर हाथ फेरा, जो पानी से भी ठंडा न हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी उत्तेजना कैसे शांत करे, उसने मोटर चालक से चिल्लाकर कहा :

“सिगरेट पी लें?” हालांकि तम्बाकू की आदत कव की छूट चुकी थी ...

जिस क्षण स्क्वैड्रन के हेडकवार्टर में आक्रमण करने के आदेश का लिफ्टफ़ाफ़ा खोला गया और सिन्नलर ने भंडियों से डिजाइन बनाते हुए सब पोतों को स्क्वैड्रन के कमांडर का यह आदेश दिया कि वे एक कतार में उसका अनुसरण करें, उस क्षण से रागोजिन एक बार भी अपनी केविन में नहीं गया। वह तोपों के पास मौन, गम्भीर नौसैनिकों के बीच खड़ा रहा, डेक पर या कमान ब्रिज पर खड़ा वाइनोकुलर लगाये देखता रहा और हर पल के साथ उसका उत्साह और तनाव बढ़ता रहा। उसे पूरा विश्वास था कि पहली ही लड़ाई निर्णायिक होगी, और तटों पर छाई शांति, ऊषा की कोमल लाली, गांवों में किसी-किसी घर की चिमनी से उठता धुआं यह सब उसे विचित्र लग रहा था। चरागाहों वाले तट के ऊपर सूरज का पूरा गोला निकल आया और तुरन्त ही सामने का ऊंचा तट जी उठा। भेड़ों के रेवड़ और बैलों के भुंड धूल के बादल उठाते टीलों पर चढ़ रहे थे। यह सेना के मवेशी थे और इन्हें हांका जाना इस बात का संकेत था कि थल पर भी जहाज़ी बेड़े के साथ-साथ हमला शुरू हो रहा है। तट पर उठते धूल के बादल मानो गनवोटों के धुएं का आह्वान कर रहे थे: कंधे से कंधा मिलाये बढ़े चलो !

पर इन धूल के बादलों की ओर शत्रु का ध्यान आकर्षित हुआ। तीन-तीन हवाई जहाजों की दो टुकड़ियां तेज़ी से स्क्वैड्रन की ओर बढ़ती आईं। पहले तो हवाई जहाज़ निरभ्र आकाश में छोटे-छोटे चिढ़ों जैसे दिखे और फिर बढ़ते-बढ़ते विशाल गिर्दों जैसे हो गये, उनके इंजन कर्णभेदी शोर कर रहे थे। आगे के तीन हवाई जहाज़ तट के ऊपर उड़ते गये, पिछले तीन नदी के पाट के ऊपर। एक के बाद एक पहले बम फटे और पंखों की भाँति मिट्टी ऊपर उछली। जानवर इधर-उधर भागे - उनके ऊपर धूल का अभेद्य बादल उठा।

मन्त्रिङ्गन की नीन डंची विमानभेदी तोपें आग उगलने लगी। पोत अपनी चाल बदलते हुए डधर-उधर होने लगे। वर्मों के फटने से बोल्मा में विल्नौरी मतून उठते और बौछार में विश्वर जाते। गनवोटें ऊंची-नीची लहरों पर डोलने लगीं।

‘अक्तूबर’ के कुछ नौसैनिक, जिनकी ड्यूटी इंजन रूम में थी, ऊपर डेक पर आ गये। सब यह देख रहे थे कि कैसे हवाई जहाज मुड़कर पीछे से पोतों पर हमला करने आ रहे हैं। इस बार छहों हवाई जहाज नदी के ऊपर उड़े। अब वम अधिक घने गिर रहे थे, लेकिन उस बीच पोत एक दूसरे से काफी दूर-दूर हो गये थे। विमानभेदी तोपों की गोलावारी तेज हो गई थी, आसमान में फटते गोले आतिश-बाजी के तारों जैसे लगते। हवाई जहाजों को अधिक ऊंचे जाना पड़ा, पर उन्होंने फिर से चक्कर लगाया और फिर से लौट आये।

एक वम तेज भीटी के साथ हवा को चीरता हुआ ‘अक्तूबर’ के पास ही नदी में गिरा। डेक पर सफेद भाग की दीवार ढही, धमाके के प्रत्युत्तर में पोत के गर्भ में से कराह निकली, पोतचालक की केविन में चूर-चूर होते शीशे की खनक आई।

गलही में एक जवान नौसैनिक पानी में जा गिरा। दबूसे से एक रस्सा उसकी ओर फेंका गया। वह विल्टी की तरह हाथ-पांव चलाता हुआ डेक पर चढ़ गया। उसके कपड़ों से पानी चू रहा था, कमीज और पतलून उसकी लचकीली देह से चिपक गये थे। दूर जाते हवाई जहाजों को मुक्का दिखाते हुए वह चिल्लाया:

“मजा चमाऊंगा तुम्हें भी!” और उसने इतने ज़ोर से गाली दी कि मारे डेक पर मुनाई दी।

स्वाध्योव इंजन रूम में निकल आया था और जब वम गिरा तो वह गगोजिन के पीछे मृद्गा था। तेल से सने, पीले चेहरे से पानी पोंछते हुए अपनी गहरी आवाज में वह बोला:

“एंटेंट का दिनी सलाम!”

गगोजिन ने भी रूमान से गुह्यी पोंछते हुए (उस पर पीछे से बौछार हुई थी) यांत म्बर में कहा:

“मित्र-गान्ध्र हैं!”

“चिड़ियां फ़ामीमी हैं क्या?”

“नर्निल के जनन है, ” गगोज़िन ने धीरे-धीरे बोलने हुए जवाब दिया, और फिर सहसा स्त्राशनोव की ओर मुड़कर पूछा: “तुम्हारी ड्यूटी क्या यहां है?”

“हमारी दोनों पालियां अपनी-अपनी जगह हैं, ” एक ओर को देखता हुआ वह बोला।

रागोज़िन ने कुछ नहीं कहा।

जब तक हवाई हमला चलता रहा वह विमानभेदी तोपों के पास ही बना रहा, तोपचियों के अनजाने काम को बड़े गौर से देखता रहा। उसे डर था कि कहीं ऐसा कोई महत्वपूर्ण क्षण न निकल जाये, जिसमें उसकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। उसका सारा ध्यान इस एक बात पर केंद्रित हो गया, अभूतपूर्व एकाग्रचित्तता के इन क्षणों में उसकी इंद्रियां, उसका मस्तिष्क और कुछ भी अनुभव करने, सोचने में अक्षम थे। जब हवाई जहाज़ क्षितिज के पीछे छिप गये, तब कहीं जाकर उसे सिर से पांव तक रोम-रोम से मानो यह अहसास हुआ कि ये क्षण सचमुच कितने कठिन थे। अगर एक भी बम किसी पोत पर गिर पड़ता तो क्षति बहुत भारी होती। वह हैरान था कि तोपों ने हवाई जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वे बड़े आराम से चले गये। वह नहीं जानता था कि क्या जवाब दे—क्या तोपें अच्छी तरह चली थीं और जो कुछ हुआ था उसे क्या लड़ाई कहा जा सकता था? लेकिन नौसैनिक चुपचाप पोत को ठीक-ठाक करने में लगे हुए थे, और वह भी अर्थपूर्ण मौन साधे यह दिखावा कर रहा था कि शत्रु के साथ ऐसी मुठभेड़ें उसके लिए नई बात नहीं हैं।

आगे भेजी गई गनवोट ‘जोखिमी’ शत्रु के तट के पास पहुंच गई। नाव पर बैठकर कुछ टोही तट पर उतरे। वे एक टूटे-फूटे मकान की छत पर चढ़ गये।

उनके सामने धूप से भूलसी धास का मैदान दूर-दूर तक फैला हुआ था। मैदान के बीच से हल्की सी ढलान तट तक चली गई थी। उसके दाईं ओर दक्षिण को मुंह किये लेटे पैदल सैनिकों की लाइन दिख रही थी। वाई ओर दूर कहीं टीलों की कतार चली गई थी। धूप ऐसी चुंथियाती थी कि तुरन्त ही यह कहना मुश्किल था कि कहां टीलों के शिखर हैं और कहां उनकी मरीचिका। फिर वाइनोकुलर में टीलों

पर फैले कुछ बिंदुओं के डर्द-गिर्द लोगों की हलचल दिखने लगी।

और महसा उन्हें सफेद गाड़ों की तोपें साफ़ दिखीं, मानो वे ज़मीन में से उभर आईं।

टोही छत से कूदे, दौड़कर गनवोट पर गये। तट के ऊचे कगारों की आड़ में गनवोट पूरी रफ़तार से आगे बढ़ चली, पर अभी स्कैडन हेडक्वार्टर को नौसैनिकों द्वारा प्राप्त सूचना भेजी ही गई थी कि सफेद गाड़ पोतों पर गोलावारी करने लगे।

गनवोटें नदी के बहाव में आगे चलने लगीं, इस इरादे से कि सफेद गाड़ों पर पीछे से हमला करें। उनकी जवाबी गोलावारी तेज़ होती जा रही थी। दूसरे पोत भी उनकी मदद को आ रहे थे। बेड़े में भी तोपें चलाई जाने लगीं। गनवोटों की छोटी तोपों की दनादन में बेड़े की बड़ी समुद्री तोपों की भारी आहें मिलने लगीं। पानी में बुलबुलों की भाँति एयरोस्टेटों के पतंगों जैसे गुब्बारे ऊपर उठे। पारदर्गी आकाश में चमकते बादलों जैसे गुब्बारों से तोपों का निशाना ठीक करने के मंकेत दिये जाने लगे।

नदी का लंबा मोड़ पार करके 'अक्तूबर' गनवोट जब आगे पहुंची तो उसे पहाड़ी दर्ते जैसी धंसान दिखी, जिसका एक सिरा नदी में था और दूसरा दूर स्तेपी में टीलों तक चला गया था। इस दर्ते में मेरे गनवोट से देनीजिन की निरंतर गोले वरसाती तोपें साफ़ दिखने लगीं।

गगोजिन की आंखों के सामने चकाचौंध करती स्पष्टता लिए वह मजीव नियाना था, जिसे उन्हें नप्ट करना था। स्तेपी पर फैली औंग धूप में मुनहगी मी लगती धुंध में वह तोपों से निकलती आग साफ़ देख रहा था, पोतों के गोलों के फटने से धूल के सतून उठ रहे थे, मानो कोई विशाल फावड़े से मिट्टी खोद-खोदकर हवा में फेंक रहा हो।

'अक्तूबर' पोत की चार इंची तोप धंसान में साधी गई, जो शत्रु की पीठ की ओर खुलते गलियारे जैसी थी। आदेश दिया गया औंग तोप चली। गनवोट कांप उठी।

गगोजिन डेक की रेलिंग पर कोहनियां टिकाये वाइनोकुलर में देख रहा था। इस धूण यदि वह अपने आप को देख सकता तो उसे आश्चर्य होता कि उसका शरीर कितना तना हुआ है। टांगें फैलाये वह आगे को भुका हुआ था औंग उसके धड़ के बोझ तले लोहे की

रेलिंग भुक रही थी, जिस पर वह कोहनियां टिकाये था। शरीर की एक-एक मांसपेशी के इस तनाव से ही वह उस असाधारण भावना को दबाये रख पा रहा था, जो उसके मन में पहली बार उठ रही थी। यह प्रचण्ड क्रोध था, जो उसे उधर बढ़ने का आह्वान दे रहा था, जहां जमीन फट रही थी, सुनहरी धूल में उड़ रही थी। वह आंखें गड़ाये इस सुनहरी धूल से उठती धुंध को देखे जा रहा था और पोत से दुश्मन के तोपखानों पर दागे जा रहे हर गोले के साथ अपना क्रोध उनपर उंडेल रहा था।

सहसा पोतों से गोलावारी कम होने लगी। ‘अक्तूबर’ से गोले दागने विल्कुल ही बंद कर दिये गये। रागोज़िन ने वाइनोकुलर से आंखें हटाई, लपककर त्रिज की ओर गया।

“क्या बात है? चुप क्यों हो गये?”

तोपों की गरज के बाद उसकी आवाज़ चिड़ियों की चहक जैसी लगी।

“पैदल और नौसैनिक दल धावा बोलने जा रहे हैं,” ऊपर त्रिज पर खड़े कमांडर ने चिल्लाकर कहा।

रागोज़िन ने तट की ओर देखा।

पानी और ऊंचे कगार के बीच की पट्टी पर पतले फ़ीते की भाँति नौसैनिक दौड़ते जा रहे थे। एक के बाद एक बे धंसान की ढलवां दीवारों के बीच गायब होते जा रहे थे। लोगों के कुछ झुंड मशीनगनों में आगे जुते और पीछे से धकेलते उन्हें ले जा रहे थे।

रागोज़िन ने फिर से आंखों पर वाइनोकुलर लगाया। टीलों पर धूल धीरे-धीरे बैठने लगी। वहां तोपों से आग अब कम निकल रही थी। एक टीले पर धुएं का गोला उठा, तेजी से बढ़ता गया और पल भर बाद स्तेपी में धमाका गूंजा। डेक पर कोई चिल्लाया:

“तोपें उड़ा रहे हैं!”

रागोज़िन ने देखा कि सफेद गार्डों की चौकियों के विल्कुल पास ही नौसैनिक एक दूसरे को पकड़ते हुए और ढलान पर फिसलते हुए ऊपर चढ़ रहे थे। सबसे आगे वाली टुकड़ी ऊपर चढ़कर खड़ी हो गई। धंसान की तली से मशीनगनों ऊपर खींची जाने लगीं। अधिकाधिक नौसैनिक ऊपर पहुंचते जा रहे थे, स्तेपी में उनकी कतारें लंबी होती

जा रही थी। मरीनगन की पहली तड़ातड़ हुई। फिर हवा दूर कहीं चलनी वड़कों से कम्पायमान हो उठी।

“चल दिये ! चल दिये !” अधीरता से कोई चिल्लाया।

डेक पर जमा हो गये नौसैनिकों में दसियों आवाजें एक साथ चिल्लाईँ:

“मारो मालों को ! मारो !”

गणेशन ने बाइनोकुलर टीलों की ओर धुमाया। स्त्रेपी में घोड़े तोपों को दौड़ाने ले जा रहे थे। प्रायः उसी क्षण टीलों के शिवरों पर नाल पैदल मैनिक हमला बोलते नजर आये। सामने से पड़ती धूप में उनकी कतार बाड़ के डंडों जैसी लग रही थी। नौसैनिकों का दस्ता भागने सफेद गाड़ों का गम्भा काटने लपका।

गणेशन ने त्रिज की ओर सिर उठाया।

“तोड़ दी उनकी नाइन ! तोड़ दी,” कमांडर उसमें चिल्लाकर कह रहा था और जाने क्यों दोनों हाथ हिला रहा था।

गणेशन ने जल्दी से डेक पर जमा नौसैनिकों पर नजर दौड़ाई। हमने, चिल्लाने, गालिया देने वे लट पर देख रहे थे और हाथ हिला रहे थे। उनके चेहरे उम गर्व और सादगी भरे सुख से दमक रहे थे, जो सफलता में होता है।

महमा अपने विल्कुल सामने ही राणोजिन को फिर से स्वाध्योव दिखा। उमके मृह पर धूप पड़ रही थी और इसलिए वह तेल से और भी अधिक चमक रहा था। मल्लाह गहरे संतोष से मुस्करा रहा था।

“बम युद्ध करना ही मुश्किल होता है,” वह बोला।

गणेशन की भाँहें तन गईं।

“तुम क्या मेरे पीछे-पीछे किर रहे हो ?”

“मैं यहां... यायद डेक पर कुछ ठीक करने की ज़रूरत पड़ जाये...”

“तुम क्या मेरी दाई हो, मेरा ब्याल रख रहे हो ? मुझे तुम्हारा ब्याल रखना है न कि तुम्हें मेंगा !”

“मैंने क्या किया है ? मैं तो मवकी तरह ही...”

“नहीं, मवकी तरह नहीं...” महमा धमकी भरी आवाज में गणेशन ने उमे टोका। “मुझे चंवगढ़ार नहीं चाहिए। मैं कोई जनरल नहीं कि मेरे पीछे-पीछे चला करो...”

वह तेजी से मुड़ गया और चल दिया। उसे कुछ खिसियाहट सी हो रही थी, उसे लग रहा था जैसे वह किसी का देनदार है। सैनिकों ने देनीकिन के तोपखाने को खदेड़ दिया था, नौसैनिक और पैदल सैनिक सफ्रेद गार्डों का पीछा कर रहे थे, और वह बस खड़ा-खड़ा वाइनोकुलर से देख रहा था। यह तो सचमुच की लड़ाई थी और उन्हें इसमें सफलता भी मिली थी। पर रागोजिन ने इस सफलता के लिए क्या किया था? उसे लड़ाइयों में क्या करना चाहिए? वाइनोकुलर लगाये देखता रहे?

“चंवरढार!” वह गुस्से में बड़बड़ाया और कंधे की पेटी से लटकते बाइनोकुलर को एक ओर को झटककर ब्रिज की सीढ़ियां चढ़ने लगा।

आखिरी सीढ़ी के ऊपर उसकी टोपी दिखाई ही दी थी कि स्क्वैड्रन कमांडर—अधेड़ उम्र का थुलथुल नौसैनिक अफ़सर बोला:

“हो गया शुरू, प्योत्र पेत्रोविच, शुरू हो गया काम!”

बायां हाथ उसने टोपी की ओर उठाया, मानो टोपी उतारने लगा हो, पर हाथ छुआया ही, और दायें हाथ से चेहरे के सामने सलीब का निशान बनाया नहीं, बस बनाने का इशारा सा ही किया।

“हे भगवान, तेरा ही आसरा है।”

कमांडर औपचारिक और साथ ही जिज्ञासा भरी दृष्टि से रागोजिन की ओर देख रहा था। रागोजिन ने अपनी अस्त-व्यस्त मूँछों पर ताव दिया। उसे इस पुराने चलन पर कोई आपत्ति नहीं थी: काम ठीक चल रहा है, तो सलीब का निशान बनाने में क्या हर्ज है?

“ध्वजवाहक पोत से अभी-अभी रेडियो संदेश मिला है,” मानो रपट देते हुए, पर साथ ही जैसे खबर सुनाते हुए कमांडर ने कहा। “सारे मोर्चे पर हमला हो रहा है। हमारी स्क्वैड्रन को पूरी रफ़तार से आगे बढ़ना है—तटों पर दुश्मन का सफ़ाया करते हुए।”

“पैदल सैनिकों से दूर न निकल जायें,” अनुभवी सैनिक के अंदाज में रागोजिन बोला।

“हमारे पास आंखें किसलिए हैं, प्योत्र पेत्रोविच? आंखें सबसे बढ़कर हैं।”

उसने रागोजिन के बाइनोकुलर पर आदर भाव के साथ नाखून

मेरे पदापट की। उसे यह अच्छा लग रहा था कि कमिसार फ़ालतू वात नहीं करता और नौसैनिकों पर कुछ-कुछ पितृ भाव से हुक्म चलाने की उम्मी आदत पर आपत्ति नहीं करता।

“तो आगे बढ़ेंगे?”

“हाँ, प्योव्र पेट्रोविच, आगे बढ़ेंगे। मैं अभी हुक्म देता हूँ।”

.. इस दिन सर्वोच्च कमान की योजना के अनुसार दक्षिणी मोर्चे की मोर्कियन मेनाओं के प्रहारक दल ने बड़े पैमाने पर अपना अभियान शुरू किया, जो आगम्भ में तो सफल रहा, किन्तु अंततः लाल सेनाओं को पीछे हटना पड़ा।

मफेद कज्जाक मेनाओं पर दक्षिणी मोर्चे का प्रहार विफल रहा—कुप्यान्स्क की दिशा में लड़ रहे सहायक सेना दल के लिए यह बात दो हफ्ते बाद घट्ट हो गई तथा त्सरीत्सिन की ओर बढ़ रही सेनाओं के लिए तीन हफ्ते बाद। महायक सेना दल की केंद्रीय टुकड़ियां सफेद गाड़ों के डलाके में काफ़ी दूर तक घुस गई, बलूयकी और कुप्यान्स्क नगरों पर कठ्ठा कर लिया, लेकिन लड़ाइयों में कमज़ोर पड़ गई बाजुओं की टुकड़ियां काफ़ी पीछे छूट गई और यह खतरा पैदा हो गया कि पूरा सेना दल घिर जायेगा। छुरों के कुवान कज्जाकों और दोन कज्जाकों के गिमानों में बाजुओं के लिए जो खतरा पैदा हुआ था उसे दूर करने के प्रयास असफल रहे और सारे सेना दल को आरम्भिक स्थिति पर लौटना पड़ा, बाद में वहां से भी पीछे हटना पड़ा। त्सरी-न्हिन की दिशा में हुई लड़ाइयों में शुरू-शुरू में लाल टुकड़ियों को काफ़ी सफलता मिली, लेकिन इस सेना दल की टुकड़ियां विशाल मोर्चे पर शीघ्र ही उधर-उधर विश्वर गई और सेना दल अपना कार्यभार नहीं निभा सका। न्हिनिम्न के पास तक पहुँच गई सेना पर ब्रांगेल के गिमाने के दल ने हमला किया। यह सेना गेसे जोरदार हमले का मामना न कर सकी और इसे नगर में उत्तर की ओर हटना पड़ा।

नवापि इस अभियान में क्रांति के ब्वज तले एकजुट हुए सैनिकों की लड़ने की अमाधारण क्षमता के उदाहरण देखने को मिले।

प्रमुख दिशा में विदेष शूर्वीगता दिखाई गई, जहाँ पैदल मैनिक नाल गिमाने और बोल्या-कामा बेड़े के माथ मिलकर लड़े।

वहां वृद्धोन्नी की कमान में कैवेलरी कोर में गठित डिविजनों

ने आस-पास के देहातों से निरंतर सैनिक भरती करते हुए, और धोलेते हुए सफेद कप्जाकों के विशाल रिसाले से हुई घमासान लड़ाइय में विजय पाई। इस कोर ने कामेनोचेनोव्स्काया के पास जनरल सुतूलो के दोन रिसाले को धूल चटाई और तीन दिन बाद सेरेब्रयाकोव पास शत्रु पर जबरदस्त हमला किया। मोर्चे के कभी एक भाग पर और कभी दूसरे भाग पर इस कोर के तेज हमले मानो निकट भविष्य की प्रथम अश्वारोही सेना की आश्चर्यजनक सफलताओं के पूर्वाभ्यास थे।

त्सरीत्सिन की ओर बढ़ रही सेना के बायें बाजू को बोला दक्षिण की ओर बढ़ रहे सोवियत नदी बेड़े का समर्थन प्राप्त था। इस अभियान में रूसी नौसैनिकों ने अश्रुतपूर्व निडरता और आत्मवलिदा की भावना दिखाई।

रागोजिन की यह भावना बहुत शीघ्र ही जाती रही कि बलड़ाई में पूरी तरह से भाग नहीं ले रहा है। उल्टे, अब उसके लियह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि यहां स्कैडन में ही उसकी आवश्यकता है, जहां उसे लोगों के संकल्प को एक करके निश्चित करने में लगाने के लिए अधिकाधिक जतन करना पड़ रहा था। विभिन्न कार्रवाइयां अधिक लंबी और जटिल होती जा रही थीं: कभी नौसैनिक दस्ते तट पर उतारे जाते, कभी हमला कर रहे पैदल सैनिकों की आक्रमण के लिए गोलावारी की जाती, कभी शत्रु के चंडावल में टोह लेने वाले लिए सैनिक भेजे जाते। साथ ही पोतों को पहुंची क्षति की नदी पर ही मरम्मत की जा रही थी, अस्पताल में धायलों की संख्या बढ़ रही थी, गोला-बारूद कम होता जा रहा था, अनेक सैनिक वीरगति की प्राप्त हो रहे थे।

एक ऐसा क्षण आया था जब रागोजिन सहसा यह समझ गया कि पोतों पर उसके दायित्व का सार क्या है, अभी तक वह इन पूरी तरह समझे विना ही आवश्यकता के अनुसार निभाता आया था। उसका दायित्व यह था कि उसके अधीन सैनिक हर काम को पूरे जोग के साथ करें।

निकोलायेव्स्काया स्लोवोदा पर कप्जा करते समय एक अजी घटना हुई थी। नौसैनिकों का एक दस्ता शहर की सड़कों पर पहुंच गया था और 'अक्तूबर' गनवोट से भागते सफेद गाड़ी पर गोला-

वर्नमाये जा रहे थे, तभी एक गलत व्यास वाले गोले से तोप फट गई।

तोपची टुकड़ी का कमांडर मारा गया। वह जवान नौसैनिक था, जो बदा तोप को “रेडी” रखता था और इसी लिए साथियों ने उसका नाम ही ‘रेडी’ रख छोड़ा था। उसके हंसमुख स्वभाव के लिए सब उसे चाहते थे। दो तोपचियों के चेहरे इस धमाके से झुलस गये और स्कैडन कमांडर अपने त्रिज में गिर पड़ा था, उसे हल्का सा सदमा पहुंचा था।

जहाज को घुमाकर दबूसे की तोप से गोले दागने का हुक्म दिया गया। लेकिन तोपची अपने साथी की मौत से डर गये थे और यह मोत्तने हुए कि शायद इम किंवद्द के सभी गोले खराब हों, तोप चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे।

हफ्ते भर मे चल रही लड़ाइयों के दौरान रागोजिन तोपचियों का काम देखता रहा था। दबूसे पर जाकर उसने नौसैनिकों को पीछे हटने को कहा, खुद तोप में गोला डाला और छोड़ा। तीन गोले छोड़कर उसने मुँह मोड़ा। तोपची गुनाहगार से उसके पीछे खड़े थे। उसने कहा:

“चलो, जवानो, अब चलाओ तोप। सब ठीक है। गोले खराब नहीं हैं।”

नौसैनिक तोप की ओर लपके, पलक झपकते ही उन्होंने निशाना माध निया और इनने जनन मे गोले वरसाने लगे कि तोप की नाल तप गई।

एक ओर को हट जाने पर ही रागोजिन को यह अहसास हुआ कि उसकी कमीज वदन मे चिपक गई है, और उसे लगा कि खुद उसने तोप नहीं चलाई थी, बल्कि उसमें जी रहे किसी दूसरे व्यक्ति ने, जिसका कहना उसे हर बात में वेफिभक्क मानना चाहिए।

वाद मे इन मानाहों के अनुभवों पर गौर करते हुए रागोजिन ने यह पाया था कि उन दिनों जिस तनाव की स्थिति में वह था, वह ऐसा तनाव नहीं था, जो थोड़ा विश्राम कर लेने से कम पड़ जाता है, बल्कि ऐसा तनाव था, जिसे उसमे भी अधिक शक्तिशाली नये तनाव की ही मदद मे महा जा सकता है।

परन्तु मात्र ही उन्हों दिनों दो ऐसी बातें भी हुई थीं, जो देखने में तो मामूली लगती थीं, पर गगोजिन के मन मे घर कर गई थीं और उसे तनावपूर्ण वास्तविकता मे दूर व्याकुलता भरी ऐसी दुनिया में

ले गई थीं, जो प्रायः अवास्तविक ही लगती थी। यह कुछ ऐसा था जैसे कि रागोज्जिन अरसे से ऐसे घर में रहता रहा था जिसकी खिड़कियों पर पर्दे पड़े हुए थे और वह इस घर का इतना आदी हो गया था कि वह काफी बड़ा लगता था, पर फिर सहसा एक पर्दा खुल गया और अप्रत्याशित ही उसने नीला विस्तार देखा, जल में प्रतिविम्बित होते वृक्ष देखे। वहां बाहर रोशनी घर के अंदर की रोशनी से विल्कुल भिन्न थी। फिर पर्दा दुबारा से बंद हो गया, आंखें फिर से घर की आदी हो गई, और घर पहले की ही भाँति बड़ा लगने लगा। लेकिन उसके स्मृति-पटल पर एक दूसरी दूरी का, वृक्षों भरे विस्तार का, उस भिन्न रोशनी का चित्र अंकित हो गया था।

पहली लड़ाई के बाद की रात को ही 'जोखिमी' के कमिसार ने गनवोट पर स्थिति की रपट देते हुए कहा था कि नौसैनिक अपने साथ पोत पर एक लड़के को ले आये हैं, अब उसे कहीं उतार देना चाहिए क्योंकि वह इधर-उधर तांक-भांक करता रहता है, उसे कहीं कुछ हो गया, तो बुरा होगा।

“कहां से आया है पोत पर?” रागोज्जिन ने भी मानो यों ही पूछा।

“सरातोव से ही है।”

“बड़ा है?”

“नहीं, छोटा सा ही है। ज्यादा से ज्यादा वारह साल का होगा।”

“नाम क्या है?”

“सब मुन्ना ही कहते हैं उसे।”

रागोज्जिन ने बेंच के सिरे पर हाथ टिकाये, मानो बैठने लगा हो, पर बैठा नहीं, बल्कि तेजी से सीधा खड़ा हो गया और कमिसार से नज़रें चुराता हुआ रुखाई से बोला:

“अपने पोत के दल के नाम भी नहीं जानते हो?”

कमिसार हँस दिया:

“यह छोकरा भी क्या मेरे दल का है?”

“तुम्हारा पोत क्या सराय है?”

“ठीक है, मैं उसे उतार दूंगा,” कमिसार ने यों कहा मानो यह मामला कोई खास मानी न रखता हो।

रागोजिन कठोर चेहरा बनाये कुछ देर चुप खड़ा रहा।

“लड़के को उतार दोगे ताकि वह तट पर भूखा मरे? नहीं भई, यह बहशियत है। ऐसे ही तो बच्चे आवारा हो जाते हैं... तुम उसे अप्पताल के पोत पर भेज दो। वहां कम से कम उसे खाना तो मिलेगा... और खतरा भी डृतना नहीं होगा।”

लड़के के बारे में विचार रागोजिन की दूसरी चिंताओं पर अधिक देर तक नहीं रहा, पर यह विचार एक भटके के समान था, मानो किसी ने उसके कधे पकड़कर उसे एकदम धुमा दिया हो। आवारा लड़का ‘जोन्मिमी’ गन्दोट पर ही आया था, जिसके साथ बान्या की श्रोज की याद जुड़ी हुई थी, और इस संयोग से उसके मन पर मानो नश्तर मा चला, मिल गये और फिर खो गये बेटे की चिंता फिर से ताजी हो गई। रागोजिन अपने आपको यह विश्वास कर्त्ता नहीं दिलाना चाहता था कि उसे एक बार फिर से बान्या की कुछ खबर मिल गई है। लेकिन उसके हृदय के किसी कोमलतम कोने में एक दूसरे जीवन की भावना बम गई, वह जीवन इस सब से सर्वथा भिन्न था, जिसमें अब रागोजिन डूबा हुआ था, और इस कल्पित जीवन का अस्तित्व कष्टदायक था, किसी अनवृभ प्यास की भाँति।

घटनाओं की प्रचण्डता में मन की यह कसक दब गई। इन घटनाओं का मामना करने के लिए रागोजिन को उस कवच का सहारा लेना पड़ा, जो मनुष्य का तत्रिका तत्र ऐसे हालात में आत्मरक्षा के लिए बनाता है, जब हर वक्त सामने खतरा मुंह बाए खड़ा होता है और उसकी ओर ध्यान न देने की आवश्यकता होती है। रागोजिन को यह अहमाम था कि उसके पास ऐसा कवच है और वह उसके लिए बोझिल नहीं था। नथापि ऐसे एक क्षण में जब वह अपनी इस अभेद्यता पर प्रमन्न था, उसे इस पर गर्व हो रहा था—तोप के साथ हुई घटना के बाद ही, जब वह गोले छोड़ रहा था और यह प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई गोला खगड़ निकल आयेगा और तोप फट जायेगी—इस घटना के बाद ही बेटे की याद का तेज नश्तर एक बार फिर उसके कलेजे पर चला।

अवैद्यन बीकोव मूतोर की ओर बढ़ रही थी, जो बोल्ना के निचले भाग में नग्वृजों के लिए मशहूर है। मुवह शांत मुहावनी थी,

या शायद निकोलायेव्स्काया स्लोवोदा और कमीशिन की लड़ाइयों के गर्जन के बाद इतनी शांत लग रही थी। यहां बायां तट अन्य स्थानों से अधिक ऊंचा था और तट के निश्चल वेद वृक्षों और हरी-हरी धास की जल में हरी परछाई पड़ रही थी। बीकोव की ओर भेजे गये टोहियों की सूचनाओं की प्रतीक्षा में पोत तट पर फैले तरवूजों के खेतों के सामने रुके हुए थे।

तरवूजों से लदी नावें, जिनकी डांडे लड़के संभाले हुए थे, गनबोटों के बिल्कुल पास आ गई। नदी में दूर तक लड़कों की पतली आवाजें और नौसैनिकों की हँसी गूंज रही थी। ज़ोरों में सौदेवाज़ी हो रही थी। लड़के नावों से तरवूज ऊपर फेंक रहे थे और गनबोटों से लड़कों को नमक की पुड़ियाएं, माचिसें, रोटियां और सिगरेटें फेंकी जा रही थीं। नौसैनिक तरवूज खा-खाकर वड़ी मस्ती से छिलके नदी में फेंक रहे थे और वे वहां लहरों पर नाच रहे थे।

रागोजिन देर तक नदी के जल को देखता रहा, उसके मन में वैसी ही सुखद विस्मय की भावना उठ रही थी, जैसी किसी नगरवासी के मन में उठती है, जब वह अचानक सिर ऊपर उठाने पर आकाश के विस्तार में तैरते हल्के-फुल्के वादलों के टुकड़े देखता है। हां, यहां आकाश और जल की सुखद शाश्वत शांति व्याप्त थी, और लड़कों की आवाजें इस शांति में यौवन का हर्ष भर रही थीं, और हरे-भरे तटों में ऐसा मोहक आकर्षण था, जैसा मनुष्य के लिए केवल धरती में ही हो सकता है। बोल्गा में तैरते तरवूजों के छिलके, सुहावनी सुवह और उसकी शांति में खनकती आवाजें—इस सबने रागोजिन के मन में फिर से बेटे के बारे में विचार जगा दिये। वह यह कल्पना करने लगा कि कैसे वह बेटे के साथ जियेगा, कि वह जीवन उसके अब तक के जीवन से विल्कुल भिन्न होगा और इस वर्तमान से भी वह पूरी तरह अलग होगा। अभी तक जो कवच गर्जन से उसे बचाये हुए था, वह अनवूझ सहजता से शांति द्वारा भेदा जा रहा था, और हृदय में फिर से पीड़ा समा रही थी।

दूर कहीं छूटे तोप के गोले से चारों ओर का विस्तार जाग उठा, फिर दूसरा गोला छूटा। भयभीत लड़के उछलते हुए, तरवूजों के ढेरों को फांदते हुए डांडों की ओर लपके। नौसैनिकों ने लगों से भारी नावों

को गनबोटों में परे धकेला। डांडों की घिरनियां चरमराने लगीं, जन्दी-जन्दी और गहरी चलाई जा रही डांडों तले पानी की थपथप होने लगी। और नभी नदी की ऐन सतह पर छर्रेवाला गोला फटा।

गगोजिन ने देखा कि कैसे पल भर को लड़कों ने अपने सिर कंधों में दुवका लिये और फिर लड़के भारी डांड बेतहाशा चलाने लगे।

वह मन ही मन गालियां देता ब्रिज की ओर भागा। नहीं, वह अपने हृदय के लेशमात्र को भी सपनों में नहीं खोने दे सकता था! यह शानि, यह स्वप्निल प्रभात, ये स्नेहिल तट—सब कुछ मरीचिका था। उम धन्ती पर, जो बाहुद के गर्जन के राज में थी, न हंसी गृज मकनी थी न वाल-स्वर। तोपची तोपों के पास खड़े हो गये, पहिये पानी पर जोर में छपछप करने लगे और सिग्नलर झंडियों से चिनाजनक मंदेश भेजने लगा ...

कुछ नौमैनिकों के लिए त्सरीत्सिन का अभियान समारोही मार्च था, और कुछ के लिए घमासान लड़ाइयों का अनवरत क्रम। जैसा कि हर युद्ध में होता है, सेना की कुछ टुकड़ियां निर्णायक बार करती हैं और शत्रु के बार भेलती हैं, और दूसरी टुकड़ियों के हिम्मे में छोटी-मोटी मुठभेड़े या सफलता के तैयार परिणाम आते हैं, ऐसे ही बोल्ना बेड़े के हजारों नौमैनिक एक भारी लड़ाई के बाद दूसरी अधिक भागी लड़ाई लड़ रहे थे, और हजारों दूसरे एक आसान लड़ाई में दूसरी आसान लड़ाई तक बढ़ रहे थे, या उन्हें विलकूल ही नहीं लड़ना पड़ रहा था, और वे खुश थे कि शत्रु उनसे टकराने से बचता हुआ भाग रहा है।

दुयोक्ता के पास जिस नौमैनिक दस्ते और छापामारों ने देनीकिन की फौजों पर हमला किया था उन्हें अपनी सफलता की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उन्हें मफेद गाड़ों की तेज गोलावारी का सामना करना पड़ा था। नौमैनिक दम्ता मीधे मफेद गाड़ों के तोपघाने के चडावल में उत्तरा था, उमकी रक्षा कर रहे पैदल सिपाहियों को खदेड़कर उसने नौपघाने का मफाया किया था और दुयोक्ता की ओर मुड़कर वस्ती में धूम गया था। उम लड़ाई में भाग लेनेवालों के लिए यह शत्रु को चकमा देने की चतुरगाई भगी कार्यवाई थी, जिसके लिए अमाधारण नाहर्म की आवश्यकता थी और वहाँतों को अपनी जान पर खेलना

पड़ा था। जिन पोतों के नौसैनिकों ने इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, उनके लिए दुबोक्का पर कब्जा नौसैनिक दस्तों की ऐसी ही सफलताओं में से एक सफलता थी।

परन्तु बड़े के सभी नौसैनिकों में त्सरीत्सिन के लिए लड़ाई के बारे में कोई मतभेद नहीं था, जिसमें उन सबको हिस्सा लेना पड़ा था और जिसके साथ उनके अभियान का दुर्भाग्यपूर्ण अंत हुआ था।

त्सरीत्सिन के लिए तीन दिन तक चली लड़ाई नगर पर बोले गये धावे और जहाजों से की गई तूफानी गोलावारी के साथ आरम्भ हुई। देनीकिन की फौजों की कुछ जगहों पर लगातार हार हुई थी और उन्हें पीछे हटना पड़ा था, इससे तब लगता था कि शत्रु की शक्ति क्षीण पड़ गई है। काफी दूर से ही पोतों पर से नगर में जगह-जगह लगी आग दिखाई दे रही थी: सफेद गार्ड नगर को छोड़ने की तैयारी में जो कुछ अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, वह सब जला रहे थे। जंगी बड़े और पैदल सेना की संयुक्त कार्रवाइयां इस अभियान में अभी तक सफल रही थीं, अब त्सरीत्सिन के पास ये संयुक्त कार्रवाइयां इतने बड़े पैमाने पर होनी थीं, जितनी पहले कभी बोला पर नहीं हुई थीं। इस सब से लगता था कि जीत निश्चित है। लेकिन घटनाओं ने दूसरी ही करबट ली।

सफेद गार्डों की तटवर्ती मोर्चेबन्दी पर नौसैनिकों के दस्ते ने पोतों की गोलावारी की मदद से कब्जा कर लिया। नौसैनिकों ने फ़ांसीसी कारखाने पर हमला करके उस पर भी कब्जा कर लिया।

दाईं ओर खंडकों के बाहरी धेरे के पास लाल सेना की एक सबसे अच्छी पैदल डिविजन लड़ रही थी। ब्रांगेल ने प्रतिरक्षा की तैयारी करते हुए प्रायः तीन कैवेलरी कोरों को एक दल में जमा कर लिया था। डिविजन पर बाजू से रिसाले का जवाबी हमला हुआ। रिसाले की संख्या पैदलों से कहीं अधिक थी। उधर नौसैनिक अपनी सफलता के जोश में अलग-थलग ही फ़ांसीसी कारखाने से नगर की ओर बढ़ते रहे थे और त्सरीत्सिन में घुस गये थे। डिविजन को पीछे हटना पड़ा। तब सफेद गार्डों ने अपने रिसाले को नौसैनिकों के विरुद्ध बढ़ाया और नगर से पीछे हटने का उनका रास्ता काट दिया। डटकर सामना करते हुए अधिकांश नौसैनिक खेत रहे।

अब यह स्पष्ट होता जा रहा था कि सफेद गार्ड वेहतर स्थिति में है। उनके पास विश्वाल रेलवे जंक्शन था, रिसाला था, जो तेज़ी में अपनी चालें बदल सकता था और उनके टोही अच्छी तरह काम कर रहे थे। लेकिन लड़ाई ठंडी नहीं पड़ रही थी।

बेडे से गोलावारी करके सफेद गार्डों को रोका गया। लाल सेना की टुकड़ियां वागम्बार हमले कर रही थीं। देनीकिन के सेनापतियों ने अपनी मारी शक्ति उनके खिलाफ़ लगा दी। उन्होंने टैकों और हवाई जहाजों को भी लड़ाई में लगाया। देनीकिन की सहायता के लिए इंगलैंड और फ्रांस में भेजे गये हथियारों को यहां इस्तेमाल करने का अच्छा मौका मिला: हवाई जहाज दिन में बारह-बारह बार हमले करते थे, मैकड़ों बम गिराते थे, खास तौर पर नदी पर।

चारे ओर युद्ध का गर्जन हो रहा था। बेड़ों से गोलों की बौछार या बहुत ही बड़ी तोपों से दागे गये गोलों की आवाजें ही गोलों, बमों की घमाघम में अलग से सुनाई देती थीं। पोत सफेद गार्डों के विल्कुल पास आ गये थे और उनपर जवरदस्त गोलावारी हो रही थी।

'अक्तूबर' के डेक से रागोजिन ने 'जोखिमी' पोत को खराब होने देखा: एक के बाद एक दो गोले उसके रसोईघर और डेक पर गिरे। मोटग्वोटें धायलों को उतारने दौड़ीं। गोलों से क्षत-विक्षत डेक से धूआ उठने लगा। 'अक्तूबर' से सहायता का प्रस्ताव भेजा गया। 'जोखिमी' में जवाब आया: "गुकिया, खुद संभाल लेंगे। दुश्मन को मारने रहो।"

शीघ्र ही 'अक्तूबर' की गलही की तोप चुप हो गई। जहाज को धूमाने में ममय नाट करने के बजाय दबूसे की तोप को यहां ले आने का फँसना किया गया। लेकिन बोल्टों को ज़ंग लगा हुआ था और नट चावी में हिल ही नहीं रहे थे। मैकेनिक उन्हें काटने को आये।

गगोजिन म्बाझनोब को हश्चौड़ा चलाते देख रहा था—वह वस धारीदार बनियान पहने था। विश्वाल कंधे तले उसका पखौड़ा गोले की नग्न धूम रहा था।

"देखो तो, किनना नाकतबर है यैतान!" विमुग्ध भाव से उसे देखने हुए गगोजिन ने मोन्त्रा। और गोलों के साथ वह भी इस काम में मरना था, नट में हो रही गोलावारी की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था,

तोपों की धमाघम नहीं सुन रहा था, कान इसके आदी हो चुके थे: 'अक्तूबर' से लगभग तीन हजार गोले छोड़े जा चुके थे, और बहुत सी दूसरी गनवोटें भी उससे पीछे नहीं थीं।

आखिर जब तोप को अगले डेक पर ले जाकर लगा दिया गया और उससे गोले छोड़े जाने लगे, तो रागोजिन ने स्त्राश्नोव की पीठ थपथपाई। उसने वनियान की ऊपर चढ़ाई बांह से माथा पोंछा, चारों ओर उठते धुएं पर नजर दौड़ाई और मानो तारीफ करते हुए कुछ कहा।

"क्या कहा?" रागोजिन समझा नहीं।

स्त्राश्नोव ने फिर वही शब्द दोहराया। रागोजिन उसकी उत्तरी बोली का यह शब्द नहीं जानता था, लेकिन वह समझ रहा था कि किसी भी भाषा में ऐसा शब्द नहीं है, जिससे लगातार तीन दिनों से हो रहे इन धमाकों और बंदूकों की ठां-ठां के इस उन्माद को व्यक्त किया जा सके। सो उसने भी प्रशंसा के उसी भाव से सिर हिला दिया।

तीसरे दिन दुपहर ढले स्क्वैड्रन को यह आदेश मिला कि तट पर लड़ रहे नौसैनिकों की मदद के लिए हर पोत से जुझारू टुकड़ियां भेजी जायें। 'अक्तूबर' पर आवश्यकता से अधिक लोगों ने तट पर जाने की इच्छा व्यक्त की। रागोजिन उन लोगों को एक ओर करता जा रहा था, जिनकी, उसके विचार में, पोत पर ज्यादा ज़रूरत थी। स्त्राश्नोव भी जाना चाहता था, पर रागोजिन ने उसे पोत पर रहने का हुक्म दिया। लेकिन जब मोटरबोटों से बालंटियरों को तट पर उतारा गया और नौसैनिक कतार में लगने लगे, तो रागोजिन को उनमें एक भी मकाय जवान दिखा, जो सबसे लम्बे जवान से भी ऊंचा था। नाविकों की जैकट और चमड़े की टोपी पहने स्त्राश्नोव एक ओर को देख रहा था और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था कि कोई उसे कुछ नहीं कह सकता। रागोजिन ने उसे न देखने का बहाना किया।

इन नौसैनिकों को प्रायः पचास-पचास की दो पलटनों में बांटा गया और तुरन्त ही मोर्चे की लाइन पर भेज दिया गया। रागोजिन अपनी पलटन के साथ उस जगह पहुंचा, जो फ़ांसीसी कारखाने पर कब्ज़ा करनेवाले नौसैनिकों में से बचे-खुचों के हाथ में थी। इस उजाड़ मैदान पर कूड़ा-करकट विखरा हुआ था, जल्दी-जल्दी खोदी गई खंदकों

वनी हुई थी। यह मैदान स्तेपी से थोड़ा ऊंचा था। स्तेपी में नौसैनिक ट्रेडी-मेट्री लाइन में नेटे हुए थे।

पोतों से यत्र पर गोले छोड़े जा रहे थे और उनसे उठती धूल की वजह से सफेद गार्डों की चौकियां दिखाई नहीं दे रही थीं। यहां इतना ओर नहीं था, जितना पोत पर, लेकिन रागोजिन को लग रहा था कि यहां पर भी उसे और इस गांत जमीन को भी वैसे ही धचके लग रहे थे, जैसे पोत पर।

वह एक गड्ढे में लेटा हुआ था, जो आगे से मिट्टी के ढेर से सुरक्षित था, पर अगल-बगल में खुला था। वह दाईं ओर ऐसे ही एक ढेर पर नजर लगाये हुए था, जिसपर से टुकड़ी का कमांडर धावा बोलने का मकान दैनेवाला था।

मूर्ज वादलों के पीछे छिप रहा था और ढूबते सूरज की किरणों में वादल लाल मुर्ढ़ी हो रहे थे, जो अगले दिन तेज़ हवा चलने की निशानी है। धर्मती पर हर चीज़ में सूर्यास्त प्रतिविम्बित हो रहा था, खद्दकों की मिट्टी में भी लाली आ गई थी। रागोजिन ने जमीन पर विच्छरण पड़े दर्जन भर अंग्रेज़ी फील्ड बैग गिने, जो सफेद गार्ड भागते हुए फेंक गये थे।

जैसे ही तोपों ने गोले वरसाने वाल किये, उसी वक्त रागोजिन ने एक ऊंचे कद के आदमी को मिट्टी के ढेर पर चढ़ते और फिर एक झटके में मीधे खड़े होकर हाथ ऊपर उठाते देखा। रागोजिन भी गड्ढे में निकलकर ऐसे ढेर पर चढ़ गया, ऐसे ही हाथ ऊपर उठाकर ढेर में कूदा और आगे बढ़ चला।

वाकी लोग भी उठने लगे, और रागोजिन ने देखा कि उनकी लाइन इतनी विग्नी नहीं है, जितनी नेटे हुए उसे लगी थी। वह देख रहा था कि मैनिक मणीनगने माथ खींच रहे हैं कि नहीं (पोत से उतरने में पहले 'मक्खीम' मणीनगनों को पहियों पर लगा दिया गया था), और उसने पाया कि मणीनगने खींचते मैनिक भी औरों से पीछे नहीं रह रहे हैं। वह यह देख रहा था कि उसकी पलटन दाईं ओर की पलटन में पीछे तो नहीं छूट रही, और निश्चिंत हुआ कि नौमैनिक एक लाइन में दौड़ रहे हैं। उसने देखा कि वह पिस्तौल का थोड़ा चढ़ाना तो नहीं भूला और आश्वस्त हो गया, थोड़ा चढ़ा हुआ

था। उसने आंखें गड़ाकर देखा कि कोई बंदूक पर संगीन चढ़ाना तो नहीं भूल गया और उसे लगा कि सैनिकों के दौड़ने से उछलती संगीनों की कतार अभेद्य है।

ये सब सवाल अपने आप से पूछते हुए और इनका जवाब देते हुए वह मैदान में आगे देखता जा रहा था, जो डूबते सूरज के मंद-मंद प्रकाश में शांत फैला हुआ था।

शीघ्र ही उसे नौसैनिकों की आगे बढ़ रही लाइन के बगल से थोड़ा एक ओर को धूल का लाल-पीला बादल दिखा। फिर उसे दाँई ओर से लाइन में दिया जा रहा आदेश सुनाई दिया। पहले तो आदेश के शब्द उसकी समझ में नहीं आये, फिर उसके कानों में चीखें पड़ीं: “लेटो! रिसाले पर फ़ायर!” वह भी वाई ओर को चिल्लाया:

“लेटो! रिसाले पर फ़ायर!..”

धूल से थोड़ा आगे उसे लम्बी लाइन में फैले छोटे से घोड़े दिखे, जो जल्दी-जल्दी कदम बढ़ा रहे थे। घुड़सवार तलवारें भाँज रहे थे, जो उनके सिरों के ऊपर सुनहरे धागों सी कभी चमक उठतीं, कभी बुझ जातीं। कज्जाक लावे की भाँति स्तेपी पर बढ़ रहे थे, हर पल निकट ही निकट आते जा रहे थे।

एकसाथ बंदूकें चलीं और फिर मशीनगनें एक दूसरी का मुकाबला करती तड़ातड़ गोलियां वरसाने लगीं।

कज्जाकों की कतारें टूटने लगीं। ठोस दीवार जैसा उनका व्यूह अब किसी जगह घोड़ों के भुंडों में और कहीं विरली लाइनों में बदल गया। पर अभी भी लावा उमड़ता आ रहा था और घोड़ों की टापें जमीन से रागोजिन के शरीर में प्रतिघनित हो रही थीं, मानो उसका हृदय छाती में नहीं, जमीन में धड़क रहा हो।

गोलियों की नई बौछार से रिसाला अलग-अलग भुंडों में और अधिक सिमट गया, कुछ घुड़सवार तितर-वितर हो गये। कहीं घोड़े आगे निकल गये, कहीं पीछे रह गये।

रागोजिन अब आगे के घोड़ों के रंग देख पा रहा था। घोड़े अपने थूथने ऊपर उठा रहे थे और उनके पीछे घुड़सवार भुके हुए थे। सहसा मशीनगनों की तड़ातड़ तेज़ चीख में बदल गई, और यह दिखाई देने लगा कि कैसे यहां-वहां कज्जाक काठियों से गिर रहे हैं और उनके

बौन्नलाये हुए घोड़े घुड़सवारों के विना ही दौड़े जाते हैं या खुद भी दृढ़ जाते हैं।

फिर रागोजिन को विल्कुल पास ही घोड़ों की लौह टाप सुनाई दी, पर विल्कुल उधर से नहीं, जिधर से उसे इसका इंतजार था। अन्यतं भयभीत होकर उसने मुड़कर देखा और अपना रिवाल्वर वार्ड ओर घुमाया।

कुछ टूटे-फूटे छप्परों के पीछे से मैदान पार करते हुए उन्मत्त घुड़सवार उसकी पलटन के सामने पहुंच गये। भारी-भरकम घोड़ों पर सवार लगभग सौ लोग थे, और उनके आगे-आगे खुली जैकट और गोल टोपी पहने नौसैनिक तलवार भाँजता आ रहा था। सब्जा घोड़ा मिर झटक रहा था। नौसैनिक की टोपी के रिवन सिर के पीछे लहरा रहे थे और लंबी जैकट के पल्ले घुटनों पर फड़फड़ा रहे थे। वह रकावों पर जोर डालकर थोड़ा उठा। उसका मुंह खुला हुआ था। उसके पीछे आते सौ घुड़सवार “हुर्रा” चिल्ला रहे थे।

रागोजिन ने अभी तक नौसैनिक घुड़सवारों के बारे में सुना ही था, जो पैदल टुकड़ियों के साथ मिलकर लड़ते थे, पर वह पहली बार उन्हें देख रहा था। वे अपने भारी घोड़ों पर सच्चे घुड़सवारों की तरह दौड़े जा रहे थे, पर उन्हें देखकर यह लगता था, मानो वे दुश्मन से गुत्थम-गुत्था होने जा रहे हों। हवा से और उनके उछलते सुडौल शरीरों में मव कुछ लहरा रहा था।

इस टुकड़ी का एक सिरे का घुड़सवार रागोजिन के विल्कुल पास में गुज़रा। रागोजिन ने नौसैनिक का चेहरा देखा, जो जड़ हंसी से विकृत था, और उसका विचित्र आदेश मुना:

“वायें चक्का घुमाओ, भाड़यो! मेरे पीछे!” चेहरे पर जड़ ठहाके का भाव निए नौसैनिक चिल्ला रहा था। “चलो!.. मारो सालों को...”

“ओ-ओ-ओ!” आगे बढ़ गये घुड़सवारों के पीछे आवाज आ रही थी, “ओ-ओ-ओ!”

गोलियां चलनी बंद हो गई। गोलियों से तितर-वितर हुआ रिसाला जल्दी-जल्दी पीछे मुड़ने लगा और चाल तेज़ करता दौड़ने लगा। घुड़सवार नौसैनिक कज्जाकों के सिर पर जा चढ़े थे और अब हवा में तलवारें चमक रही थीं।

इसी क्षण पलटने फिर हमला बोलने को उठीं।

रागोजिन को सारा समय यह महसूस हो रहा था कि सफेद गार्डों की हार में कुछ देर ही हो रही है, पर हार निश्चित है, और अब वस आखिरी जतन करने की ज़रूरत है, ताकि उनका प्रतिरोध तोड़ दिया जाये और शहर पर कब्ज़ा कर लिया जाये।

घुड़सवार नौसैनिकों को देखकर उसकी इस भावना की पुष्टि हुई। मुड़कर अपनी पलटन को देखते हुए रागोजिन ने यह पाया कि उसके सैनिक भी घुड़सवारों की ही भाँति उन्मत्त हैं, वैसे ही आंधी की तरह दौड़ रहे हैं, और उनकी ही भाँति एक अखण्ड समूह हैं।

नौसैनिक रागोजिन के पीछे दौड़ रहे थे—किसी की टोपी के रिबन हवा में बल खा रहे थे, किसी की टोपी खो गई थी और वह नंगे सिर था, किसी की कमीज़ का कालर फ़ड़फ़ड़ा रहा था, कोई धारीदार बनिधान पहने था—गोताखोरों की तरह तर, कोई चमड़े की खुली जैकट पहने था, किसी की छाती पर कारतूसों की पेटियों से गुणा का निशान बना हुआ था।

“ऐसे लोग अगर लड़ने जाते हैं, तो जीतकर ही आते हैं,” रागोजिन ने सोचा, “और जीत वस यहाँ आगे है!”

आखिर उन्हें मैदान के पार कुछ खंदकें दिखीं, यह सफेद गार्डों की चौकियां थीं। रागोजिन को लाइन में उठती गरज सुनाई दी: नौसैनिक “हुर्रा” चिल्ला रहे थे।

तभी दाईं ओर फिर उसे पास ही नौसैनिक घुड़सवार दिखे, जो अब मैदान में अलग-अलग दौड़े आ रहे थे, और उनके पीछे थी कज्जाकों के लावे की नई लहर, जो वहीं से उठ रही थी, जहाँ अभी-अभी अस्त-व्यस्त रिसाला जान बचाने को भागा था।

और तब खंदकों से लाल सैनिकों पर गोलियां बरसाई जाने लगीं।

रागोजिन ठोकर खाकर औंधे मुंह गिर पड़ा। वह उठना चाहता था, पर किसी ने मानो अपने भारी बूट से उसे जमीन पर दबा रखा था।

“छोड़ भी,” वह चिल्लाया, पर उसके मुंह पर मिट्टी चिपक गई और खुद उसे भी घुटी-घुटी आवाज़ ही सुनाई दी।

सिर घुमाकर वह गुस्से से मिट्टी थूकने लगा।

उम्मे कोई बीम कदम दूर घोड़े पर वही नौसैनिक दौड़ा जा रहा था, जो घुड़सवारों को हमले में ले गया था।

गगोजिन ने उसे पहचाना ही था कि नौसैनिक ने पूरे ज्ओर से लगाम खीची, पीठ के बल घोड़े पर गिरा, पर तभी लगाम हाथ से छोड़ दी, और घोड़े ने उसे जमीन पर झटक दिया। घुड़सवार का एक पांव क्षण भर को रकाव में फँसा रहा, फिर निकल गया।

घोड़ा सरकम के घोड़े की भाँति चिरागपा हो गया और अगली टारे हवा में फेकने लगा। उसके पुट्ठे डूबते सूरज की किरणों में लाल हो रहे थे और लगता था मानो वह सीधे आसमान में चढ़ता जा रहा हो। गगोजिन को सहसा वह इतना छोटा लगा कि एक कागज पर समा सकता था। फिर वह दुबारा से बड़ा हो गया और स्तोपी में भाग गया।

गगोजिन के कानों में पड़ती चीख-पुकार में सबसे स्पष्ट थी: “कमिसार!.. कमिसार!..”

उम्मे सिर और घुमाया – यह देखने के लिए कि किसने उसे अपने वृट मे यों जमीन पर दबा रखा है।

अपनी आंखों के सामने ही उसे एक परिचित सा चेहरा दिखा, जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था – गालों की हड्डियां उभरी हुई, नथुने फूले हुए और भारी-भरकम ठोड़ी। यह आदमी खीसें निपोरता हुआ उम्मे के कान में चिल्ला रहा था:

“कहां नहीं? कहां?”

गगोजिन समझा नहीं कि इस आदमी को क्या चाहिए, पर तभी उम्मे याद आया कि यह स्त्राण्डोव है, और न जाने क्यों वह खुश हो गया। वह भी जवाब में चिल्लाना चाहता था, पर चिल्ला नहीं पाया, वम मुश्किल में घुरवुराया:

“मैं अपने आप,” और उठने लगा।

कंधे और हँसली में ऐसी पीड़ा हुई, जैसी उसने पहले कभी भी अनुभव न की थी, और उम्मे पड़े रहना पड़ा।

“क्या अपने आप? हुं, अपने आप...” स्त्राण्डोव गुस्से में बड़-बड़ाया और गगोजिन को पलटते हुए उम्मे की पीठ और घुटनों तले हाथ ढेने लगा।

फिर स्वाश्नोव ने उसे बच्चे की तरह उठा लिया और दौड़ने लगा। रागोजिन को रह-रहकर उठती तीव्र पीड़ा के अलावा और कुछ महसूस नहीं हो रहा था और इस पीड़ा से वह बेसुध हो रहा था। स्वाश्नोव अपने कदम तेज़ करता जा रहा था, धायल के बोझ से भुका जा रहा था और डर रहा था कि मैदान पार करने से पहले ही कहीं कज्जाक न आ धमकें। घोड़ों की टापें अब पहली बार से अधिक जोर से सुनाई दे रही थीं, एक बार फिर से गोलियों की बौछार हुई ...

नदी के किनारे पर ही स्वाश्नोव को स्टैचर लिये कुछ लोग मिले। रागोजिन को स्टैचर पर लिटाकर मोटरबोट से उसने उसे 'अक्तूबर' पर पहुंचाया।

लेकिन पोत के निचले डेक पर गोला गिरा था और वहां मरम्मत का काम चल रहा था। मिस्त्रियों का बजरा पोत से आ लगा था। इसे बजरे पर एक केबिन खाली थी, रागोजिन को वहीं ले जाकर लिटाया गया। पोत के डाक्टर ने धायल को देखकर बताया कि बाईं हाँसली चूरचूर हो गई है, एक तंत्रिका केंद्र पर चोट पहुंची है और आपरेशन की ज़रूरत है। इसके बाद स्कैडर कमांडर रागोजिन के पास आया।

"सो, भाई मेरे, अब आपको अस्पताल भेजना होगा," कमांडर ने सहानुभूति दिखाते हुए पर साथ ही सख्ती से कहा, जैसे कि मरीजों से बात की जाती है।

यहां लेटे हुए रागोजिन को दर्द इतना परेशान नहीं कर रहा था। हौले से उसने जवाब दिया:

"कामरेड कमांडर, मैं आपके मातहत नहीं हूं।"

"भाई मेरे, हम पांच साल से लगातार लड़ रहे हैं। और आप मातहती की बात करते हैं!"

"खैर ... मैं यहीं रहूंगा।"

"नहीं, भाई मेरे। भेजना मुमकिन है तो ऐसा करना मेरा फर्ज है। वहां डाक्टर आपको टटोल-वटोल लेंगे कि क्या हुआ है।"

"कैसे है ... तट पर?"

"तट पर क्यों? अस्पताल वाले जहाज पर डाक्टर देखेंगे।"

"मेरा मतलब, तट पर लड़ाई कैसे ..."

“लडाई चल रही है। उसकी फिक्र हम करेंगे। अभी जब तक हमने गोलावारी शुरू नहीं की, आपको अस्पताल भेजे देते हैं।”

“कैसी गोलावारी?”

“आड़ देने के लिए। पीछे हट रही फौजों को आड़ देंगे।”

गगोजिन टकटकी लगाये कमांडर की ओर देखे जा रहा था। उसकी आख्ये चमक रही थी। प्रत्यक्षतः उसे बुधार चढ़ रहा था। उसने मिन उठाया, पर तुरंत ही गिरा दिया। भौंहें सिकोड़कर उसने पुछा:

“पीछे हटेंगे? स्वाध्नोव! क्या है यह... पीछे हटेंगे?”

स्वाध्नोव केविन के दग्वाजे में से भाँक रहा था। अब वह अंदर आ गया।

“कोई बात नहीं, लेटे रहो,” उसने फुसफुसाकर कहा, “सब ठीक है।”

गगोजिन कगहते हुए चीखा.

“क्या मुझे लोगिया मुना रहा है?! दाई!..”

फिर वह घान हो गया और खोखली सी आवाज में बोला:

“उनना तो मह मकना हैं. जब पीछे हट रहे हैं, तो फिर ठीक क्या है?”

“क्यों?” स्वाध्नोव ने बुग मानते हुए कहा। “सरातोव से उनको पीछे हटा दिया? बोला पार नहीं करने दी? वे तो एल्टोन भीन के पास उगल के मफेद गाड़ों से हाथ मिलाने चले थे। पर हमने उनकी उगलियां काट दी...”

“मुनाये जाओ लोगिया!” गगोजिन ने उसांस भरी और आंखें मृद नी।

कमाइर ने बाहर निकलते हुए स्वाध्नोव से फुसफुसाकर कहा:

“अर्द्दनियों को बुला लाओ। दायें डेक से नाव में उतारना होगा।”

डाकटर यह देखता रहा कि कैमे धायल को ले जाया जा रहा है, फिर विग्नी के गम्मे से लटकने जानीदार पालने में स्टैचर रखा गया। नौमैनिक डेक पर जमा हो गये थे। भाप छोड़ी गई और रस्मा धीरे-धीरे तल गया। स्वाध्नोव नजर रखे था कि कहीं स्टैचर पालने में दब न जाये। गगोजिन को अपने ऊपर भुका स्वाध्नोव दिखा तो

उसने दायां हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाया। स्त्राश्नोव ने हौले से उसका हाथ दबाया।

“देखा,” वह बोला।

“किया क्या जाये” रागोजिन ने जवाब दिया।

“खैर कोई बात नहीं,” स्त्राश्नोव ने ढाढ़स दिया।

रस्सा और भी खिंच गया, पालना ऊपर उठ गया और स्त्राश्नोव उसे रेलिंग की ओर बढ़ाने लगा।

“हौले-हौले ऊपर लो,” उसने धीरे से कहा और नौसैनिकों ने क्वार्टर डेक तक उसके शब्द पहुंचा दिये।

जब वह पालने को रेलिंग के पार धकेलने ही बाला था, तभी उसने झुटपुटे में देखा कि रागोजिन और कुछ कहना चाहता है। उसने पल भर को रस्सा पकड़ लिया।

“तुम यहां मदद करते रहना,” रागोजिन ने जल्दी-जल्दी कहा, “जहाज़ की मरम्मत करने में...”

“बोला वाले को मछली पकड़ना सिखाओगे,” स्त्राश्नोव ने हँसकर कहा।

“अफसोस कि तुम बोला के नहीं हो!..”

“ऊपर लो!” स्त्राश्नोव ने जोर से हुक्म दिया।

उसने पालने को रेलिंग से परे धकेल दिया, फिर पालना नीचे जाने लगा। जहाज़ की बगल की परछाई में रागोजिन ऊपर से विल्कुल काला लग रहा था। स्त्राश्नोव ने चिल्लाकर कहा:

“हम उत्तर वाले भी मछली पकड़ने में बोला वालों से कम नहीं हैं। फिर मिलेंगे, प्योत्र पेत्रोविच! जल्दी-जल्दी ठीक होना!”

“जल्दी-जल्दी ठीक हो जाओ, कामरेड कमिसार,” रेलिंग पर भुक्कार नीचे अंधेरे में देखते हुए नौसैनिकों ने कहा।

कोई दो मिनट बाद मोटरबोट चली। चककर काटती हुई वह ‘अक्तूबर’ पोत से परे हट गई और नदी के बीचोंबीच चल दी। उसकी पीली-पीली वत्ती अभी पानी पर दिखाई दे ही रही थी, जब सफ्रेद गार्डों को उत्तर की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पोतों की तोपों से गोले बरसाये जाने लगे।

नीजा और अनातोली मिखाइलोविच का विवाह मध्य सितम्बर में हुआ।

मध्या ममय वर्षा हो रही थी, जब दो घोड़ागाड़ियां कजान गिरजे के पास आकर रुकी और लीजा अपने हिम धबल परिधान का दामन ममेटनी फाटक में घुसी (यह पोशाक लीजा ने अपने पहले विवाह की पोशाक से ही बनाई थी)। पल भर को जंगले के पीछे से उसे बोल्ना का फौलादी पाट दिखा। हर साल पतभड़ में वह बोल्ना को इमी स्प में देखती आई थी, कुछ आठ्चर्य के साथ उसके मन में यह विचार आया कि पहले वाली लीजा का जीवन भी इसी तरह अनवरत चलना जा रहा है। इसी आठ्चर्य की भावना के साथ कि वह वही पहले वाली लीजा है, उसने गिरजे की दहलीज लांघी।

गिरजे के बीचोंबीच पाठ मंच के पीछे कुछ पतली-पतली मोमवत्तियां जल रही थीं, कोनों में अंधेरा ही था। लगता था कि इस अंधेरे में ही वह रहस्यमय अनुष्ठान होगा, जिसके लिए लीजा यहां आई है, जबकि प्रकाश में विल्कुल साधारण सा ही कुछ होगा।

वीत्या विवाह पहली बार देख रहा था। माँ का चेहरा कांतिमय था और अनातोली मिखाइलोविच का रोबीला (शायद यह दिखाने के लिए कि वह अब वीत्या का पिता है, मात्र अनातोली मिखाइलोविच नहीं) – इसमें वीत्या को इस बात में कोई संदेह न रहा था कि यह रस्म अवश्य ही महत्वपूर्ण है। पर जब अनातोली मिखाइलोविच और माँ के मिंगे के ऊपर मुकुट पकड़े गये और वे दोनों हाथ में हाथ डालकर पाठ मंच की परिक्रमा करने लगे, तो वीत्या को इसमें बड़ा मज़ा आया। नगों में जड़े मुनहरी मुकुट तले अनातोली मिखाइलोविच विल्कुल जार निकोलाई* जैसा लगता था। वीत्या ही-ही करके हौले से हँसा। किमी ने उसे टॉका। उसने सिर बुमाया और थोड़ी दूर अपने जैसे ही गो लड़कों को छड़े देखा, वे गली से अंदर चले आये थे और अनातोली

* निकोलाई द्वितीय - रस्म का अंतिम सम्राट (ग्रासनकाल १८६८-१८६९)। - मं०

मिखाइलोविच को ताकते हुए खीसें निपोर रहे थे। वीत्या पीछे हटने लगा, बड़ों के बीच से रास्ता बनाता हुआ निकल गया और फिर मुंह पर हाथ रखकर हँसने लगा।

जब वह जी भरकर हँस चुका, तो उसने देखा कि वह ठंडे स्तम्भ से सटा खड़ा है। वह परे हट गया।

भुटपुटे में स्तम्भ पर से एक वृद्ध उसकी ओर देख रहा था, उसका विवस्त्र शरीर टखनों तक लंबी सफेद दाढ़ी से ढका हुआ था। उसकी नज़र दहकती सी और भूखी थी। वीत्या और परे हट गया। उसे लग रहा था कि उसने बुरा काम किया है। सहसा मुकुट तले खड़े अनातोली मिखाइलोविच और इस भूखी नज़र वाले विवस्त्र वृद्ध के बीच विरोधाभास उसे परेशान करने लगा। जब तक विवाह की रस्म चलती रही, वह इस परेशानी में ही खड़ा रहा — मुङ्ड-मुङ्डकर संत की ओर देखता हुआ।

कुल जमा विवाह वीत्या को अच्छा लगा। गिरजे जाते हुए भी और वहां से आते हुए भी उसने घोड़ागाड़ी की सवारी की। गिरजे में भी और घर पर भी रौनक थी। मेहमानों में ऐसे लोग भी थे जिन्हें वीत्या नहीं जानता था, अनातोली मिखाइलोविच ने उन्हें निमंत्रित किया था। दावत खाते हुए जल्दी ही सब मस्ती में आ गये और क्रिया पदों के बिना, टूटे-टूटे वाक्यों में बातें करने लगे:

“लाओ, अभी हम इसे ... इसके साथ ...”

“वाह ! .. कमाल है ...”

“क्या है इसमें ?”

“अच्छा, पिपरमिंट ! तब तो बाक़ई !”

“नींबू की भी ... क्या ज़ोर देती है !”

“नहीं, पिपरमिंट के मुकावले में कुछ नहीं ! ..”

सहसा मानो हवा के तेज़ झोंके से पत्ते खड़खड़ा उठे — सब एक साथ बोलने लगे:

“सुनिये ! — नहीं, अभी मैं। — ठहरिये ! — एक मिनट ! — रुको भी न, ऐसे तो हम कभी भी ... — और मैं क्या ? .. मैं भी तो यही ... अरे, नहीं ... बोलने तो दो ... ऐसे नहीं चलेगा ! .. हां, यही तो बात है !”

फिर झोंका निकल गया, पत्ते शांत हो गये। मेहमान पलकों भपकाने

नगे , हूँ-हां करने लगे , और उनके भारी सिर झुकने लगे । जो वाक् कला में निपुण थे , वे अपने गूढ़ विचार व्यक्त करने लगे ।

“जग इम बात पर ध्यान दीजिये ,” वहस का जवाब देते हुए ओज्जोविशिन कह रहा था । वह अपना महिलाओं जैसा हाथ थोड़ा नचा रहा था । “एक तरह के कृत्यों पर प्रतिवंध लगाकर हम सदा उनके विपरीत कृत्यों को प्रोत्साहन देते हैं । शत्रुता रखना मना है , तो इनका अर्थ है प्रेम करना चाहिए । कूरता की निंदा करते हुए हम दयालुता का प्रोत्साहन देते हैं । अब कल्पना कीजिये कि बात इससे उनट हो गई : हम दयालुता पर अंकुश लगाने लगे । तो क्या होगा ? ”

“वर्वर्णता ! ” एक मेहमान झट से बोल पड़ा , अपना भारी सिर उमने ऊपर उठाया और तुरन्त ही छाती पर गिरा लिया ।

“दयालुता पर अंकुश कौन लग रहा है ? ” विद्यार्थी ने पूछा (उसे भी बुला लिया गया था , क्योंकि वह लीजा को कैलशियम के टीके लगाना था) । “जन चिकित्सा सेवा को लीजिये , जिसे ... ”

“यह भी क्या दयालुता है ,” लीजा ने मजाक करते हुए उसे टोका । “इतनी बड़ी सूई घोंपते हैं ! ”

वह अपने विवाह के परिधान में प्यारी लग रही थी और यह जानती थी । उसे यह थोड़ा बुरा लग रहा था कि मेहमानों को सर्व चढ़ गया है और वे इधर-इधर की बातें करने लगे हैं , जिनसे ओज्जोविशिन का ध्यान उसकी ओर से हटता है ; मेहमान यह भूल गये नगते हैं कि यह विवाह की दावत है और यहां सब कुछ सुखद होना चाहिए । उसे लग रहा था कि उसका वेटा ही दूसरों से अधिक उसकी ओर ध्यान दे रहा है और खुश हो रहा है । उसने वेटे के गिलास में चुकंदर का रम डाला ।

“यह तुम्हें मेरे लिए , अपने लिए और अनातोली मिखाइलोविच के लिए पीना है । ”

वह मुझी-मुझी देख रही थी कि कैसे वीत्या जल्दी-जल्दी धूंट भर रहा है , उसका चेहरा लान होता जा रहा है और वह हर्ष-विभोर मां की ओर देख रहा है ।

नहीं , जो भी हो था यह विवाह का उत्सव ही । वेशक वग्धी के वजाय थोड़ागाढ़ी पर गिरजे गये थे , थैम्पेन की जगह चुकंदर का

रस पी रहे थे, गीत-संगीत नहीं था और नये कपड़े भी नहीं सिले थे। कमरे की हर वस्तु पर भव्यता की तो नहीं, पर हाँ उल्लास की छाप थी, कम से कम लीज्ञा की नज़रों में ऐसा ही था।

शीघ्र ही मेहमान चले गये, उस समय से पहले-पहले, जिसके बाद सड़कों पर निकलना मना था। घर में जल्दी-जल्दी हो रही सफाई की खनक गूंजने लगी।

सब ठीक-ठाक करके ओज्जनोविशिन लीज्ञा के बगल में सोफ़े पर बैठ गया। उसने लीज्ञा का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। अपनी वफाभरी नज़रों से, जिनमें चालाकी की हल्की सी भलक थी, वह कह रहा था कि अब उन दोनों की मनोकामना पूरी हो गई है, कि वे अब एक परिवार हैं, उनका अपना घर है, घोंसला है, मांद है, जिसमें वे संसार के तूफानों के थपेड़ों से बच सकते हैं।

“कितना धनवान हूं मैं! सब कुछ जो तुम्हारा है वह अब मेरा है। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं,” थोड़ी देर चुप बैठे रहने के बाद वह बोला।

“यह तो कव से तुम्हारा है,” लीज्ञा ने उत्तर दिया।

“अब यह सचमुच मेरा है, पूरी तरह। पुराने ज़माने में जैसे व्यापारी घरानों में कहा जाता था, पता है? बोये हुए और पक रहे और खलियान में रखे हुए अनाज समेत ...”

दरवाजे के बाहर किसी के खांसने की आवाज आई। ओज्जनोविशिन उठा।

उनका बूढ़ा पड़ोसी मत्वेई गलियारे में पांव बदलता खड़ा था, दस्तक देने में भिभक रहा था। पता चला कि कोई आदमी आया है, येलिजावेता मेरकर्येन्का से मिलना चाहता है, मत्वेई ने उससे कहा भी है कि ठीक वक्त नहीं - अभी-अभी शादी हुई है, पर वह अपनी बात पर अड़ा हुआ है। शायद मेहमानों में से कोई लौटा है? नहीं, कोई अनजान आदमी है, जो अपना नाम नहीं बता रहा।

फुसफुसाहट सुनकर लीज्ञा बाहर आई, तुरन्त ही चिंतित हो उठी और कहा कि उस आदमी को अंदर आने दें।

मिनट भर बाद ओज्जनोविशिन अजनवी को लेकर अंदर आया।

यह छोटे से कद का अनिश्चित आयु का आदमी था, सिर पर सफेद बालों की एक पट्टी थी, दाढ़ी उसने शायद अरसे से नहीं बनाई

थी। वह सकोची स्वभाव का लगता था। अपने स्ट्रा हैट के किनारों को मसोमते हुए उसने कमरे में गौर से नज़र दौड़ाई और अपने कोट के बटनों पर उंगलियां फेरकर देखा कि सब बंद हैं न। शायद उसे यह फ़िक्र थी कि कहीं उसकी वेशभूषा उसके लिए वाधक न हो।

“आजा है?” उसने हौले से पूछा और फिर से कमरे की दीवारों पर नज़र दौड़ाई।

“क्या चाहते हैं आप?” लीज़ा ने भी अनचाहे ही उसी की भाँति हौले से पूछा।

“आप येलिज़ावेता मेरकूर्येव्ना हैं?”

“हां, हां, वताड़ये क्या बात है।”

“आपके पिता को दिये वचन को अपना कर्तव्य मानते हुए मैंने आपको ढूँढ़ने की जल्दी की... क्षमा कीजिये, गलत घड़ी पर पहुंचा हूं।”

“आप पिता जी के पास से आये हैं?”

“अगर आप मेरकूरी अब्देयेविच की बेटी हैं, तो मैं...”

“मैं मेरकूरी अब्देयेविच मेड्कोव की बेटी हूं। आप उनके पास से आये हैं? स्वालीन्स्क से?”

“नहीं, मैं यहीं का हूं।”

“पर आप वहां थे... आप स्वालीन्स्क से आये हैं?”

“कुछ ऐसा संयोग हुआ कि आपके पिता जी से मेरी भेंट हुई, जिसकी न मुझे आगा थी, न उन्हें ही...”

“आप पिता जी से मिले हैं?.. क्या हुआ पिता जी को?” लीज़ा ने जोर से पूछा, उसका भयभीत हो उठा मन उसे आगे धकेल रहा था, पर वह लड़खड़ाकर एक कदम पीछे ही हटी और उसने पति का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह स्पष्टतया देख रही थी कि यह छोटे में कद का भलमानम कोई बुरा समाचार लाया है, जानती थी कि वह कामकाजी पत्रों की अपनी भापा में अभी यह कुसमाचार सुनायेगा, उसका अंग-अंग डम मदमे को सहने को तैयार हो रहा था, और मानो केवल पति का हाथ ही, जिसे वह अधिक ही अधिक जोर से दबाये जा रही थी, हिम्मत जुटाने में उसकी मदद कर सकता था।

“आप मेरकूरी अब्देयेविच मेरस्वालीन्स्क में नहीं मिले? तो कहां मिले?” ओझनोविशिन ने लीज़ा का हाथ सहलाते हुए पूछा।

“जैसा कि मैं वता चुका हूं मैं यहीं का रहनेवाला हूं, और नगर छोड़कर जाने की मेरी कभी कोई इच्छा नहीं रही। परन्तु कुछ परिस्थितियोंवश कुछ दिन पहले मुझे जाना पड़ा... बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि मुझे ले जाया गया—अधिक दूर तो नहीं, और सौभाग्यवश शीघ्र ही छोड़ भी दिया गया।”

“आप मेरकूरी अद्येविच के बारे में वताना चाहते थे,” ओज्ञोविशिन ने कहा।

“ठीक कहते हैं। मैं यह वता रहा था कि कैसे उनसे मेरी भेट हुई। दुर्भाग्यवश मुझे बड़ी धार पर ले जाया गया था। जानते हैं आप वहां क्या है?”

“बड़ी धार पर?” ओज्ञोविशिन ने पलटकर पूछा, हालांकि पूछने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि तुरन्त ही उसके कंधे भुक गये और भयभीत दृष्टि से उसने लीज्ञा की ओर देखा।

“क्या है वहां?” लीज्ञा ने पूछा, हालांकि वह भी समझ रही थी कि चर्चा किस बात की है, पर मानो अभी भी यह स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि सब समझ रही है।

“बजरे पर,” अजनवी ने अपनी बात स्पष्ट की। “मुझे बजरे पर रखा गया था। और चूंकि गलतफ़हमी पूरी तरह साफ़ हो गई, इसलिए आज छोड़ दिया गया। मुझे पोक्रोक्स्क में छोड़ा गया, वहां से नाव पर मैं सरातोव आया और तुरन्त ही समय गंवाये विना आपके पास हाज़िर हुआ। अपने बचन का कर्तव्य निभाने...”

“पिता जी वहां हैं?” लीज्ञा ने चौंककर सिर ऊपर उठाते हुए पूछा, लगा मानो वह सहसा अधिक लंबी हो गई हो।

“क्षमा कीजिये, अत्यंत खेद के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि इस समय मेरकूरी अद्येविच बजरे पर हैं...”

लीज्ञा पति से सट गई। लीज्ञा को लिपटाकर वह उसे सोफ़े तक ले गया और वह वहां बैठ गई।

“निस्संदेह आप मुझे क्षमा कर देंगे, मैं अपना बचन निभाने आया हूं, और आपके पिता के हित में, जिनके साथ मैं पिछले दिनों बंद था। उन्होंने बार-बार मुझसे अनुरोध किया था और मैंने आपको संदेश देने का बचन दिया था, क्योंकि उनके लिए इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में एक-एक मिनट मूल्यवान है।”

“कैमा मिनट? किसलिए?” लीजा अब मचमुच ही नहीं समझी थी।

“आपके पिता जी बुरी संगत में फँस गये हैं। और जैसा कि आही शब्दों से मैं समझ पाया हूँ, उन्हें स्वालीन्स्क से नदी के रास्ते लाया गया है। स्वयं मेरकूरी अव्देयेविच ने मुझे इस बारे में कुछ बताया। यहां लाकर उन्हें नदी पर छोड़ दिया गया, दूसरे शब्दों वजरे पर रखा गया है, क्योंकि वजरे की जेल ही सबसे निकट जिस संगत में वह फँस गये थे, वह वैसे तो एक ही आदमी की पर जैसा कि मेरकूरी अव्देयेविच ने मुझे बताया, वह आदमी व बुरा है। धमा कीजिये, वह भूतपूर्व राजनीतिक पुलिस का अफ़ है। और उसका नाम भी शायद मशहूर है—पोलोतेन्सेव।”

“हे भगवान्!” ओज्ञोविशिन के मुंह से निकला।

“जैसा कि वजरे पर पता चला है यहां पहुँचने के कुछ दिन पोलोतेन्सेव” (इतना कहकर इस आदमी ने ऐसा मुंह बनाया, कि मुँकराना चाहता हो) “परलोक सिधार गया... ही-ही, जहां दृश्य है, न मुख।”

“आप पिता जी की बात करिये!” सहसा लीजा ने स्वर्वार्थ उभे टोका।

वह पल भर को हिचकिचाया, पर फिर अपनी उसी आडम्बर धौनी में बोलने लगा:

“पोलोतेन्सेव के मामले का सूत्र खुलने के सम्बन्ध में आपके पिता जी अपने भाग्य पर अत्यंत चिंतित हैं।”

“पिता जी का राजनीतिक पुलिस से कोई वास्ता नहीं है सकता लीजा ने गुम्मे में कहा।

“जी, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता, हमें-आपको कोई सन्ही हो सकता। उन्हें देखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपने अपने स्कानों के अनुसार केवल प्रभु की प्रार्थनाओं में ही मन्त्र नहीं है, और किसी बात से उनका कोई सम्बन्ध नहीं। परन्तु वर्तमान मय में, जैसा कि मेरा अपना अनुभव कहता है, भाग्य की अविनिया कार्यगत है।”

“क्या?” ओज्ञोविशिन ने पूछा।

“भाग्य की अंधी शक्तियां। और मेरकूरी अब्देयेविच आपसे बिनती करते हैं कि आप उनकी सहायता का पूरा-पूरा प्रयत्न करें, क्योंकि किसी भी क्षण उनके भाग्य का निश्चय हो सकता है, यहां तक कि ...”

यह कहते-कहते अजनवी ने सहमी नज़रों से मुड़कर देखा।

वीत्या दबे पांव दूसरे कमरे में से निकल आया था और गुस्से तथा चुनौती भरी नज़रों से उसे देखता वहां खड़ा था।

“नाना जी जिंदा हैं?” बहुत ही रुखाई से उसने पूछा।

“हाँ,” भलमानस ने जवाब दिया, वह मानो वीत्या की नज़रों से सकपका गया था। “इतना निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आज सुबह जब मुझे छोड़ा गया था, उस समय मेरकूरी अब्देयेविच बजरे पर थे।”

“जानता हूँ नदी पर वह बजरा,” वीत्या ने दृढ़तापूर्वक कहा। “जब हम आर्सेनी रोमानोविच के साथ मछली पकड़ने गये थे, तो देखा था। नदी की बड़ी धार में लंगर डाले हैं। आर्सेनी रोमानोविच ने बताया था कि वहां प्रतिक्रियारी बंद हैं। हमारे नाना तो ऐसे नहीं हैं! चलो मां, नाव लेकर चलते हैं!”

“चुप रहो, वीत्या, जाओ यहां से,” ओज्जनोविशिन ने कहा, पर लीज़ा ने जल्दी से बेटे की ओर हाथ बढ़ाये।

“आओ मेरे पास।”

उसने वीत्या को सटा लिया।

“सो मैंने अपना वचन पूरा कर दिया है,” आगंतुक ने अपना हैट दिल पर रखते हुए और विनम्रतापूर्वक विदाई लेने को तैयार होते हुए कहा। “अपनी ओर से मैं आपको यहीं परामर्श दूँगा कि ज़रा भी देर न करें।”

“पता नहीं, कैसे आपका शुक्रिया अदा करें,” ओज्जनोविशिन ने कहा। “हालांकि शुक्रिया की बात ही ... आप समझते हैं न? ऐसी खबर है ...”

“बिल्कुल! मैं तो स्वयं असमंजस में था कि कैसे आपको व्यर्थ की पीड़ा पहुँचाये विच्चा तैयार करूँ।”

“तैयार करें? किस बात के लिए?” लीज़ा सहसा चिल्लाई और सोफ़े से उठने को हुई।

“धर्मा कीजिये ! तैयार करने से मेरा अभिप्राय था आपको अपने पिना की गद्दा के लिए कदम उठाने की ओर ले जाना। मेरा कोई स्वार्य नहीं, मैं तो वम मेरकूरी अव्देयेविच का आदर करता हूँ। उन्होंने अपनी विनम्रता मेरे मेंग हृदय जीत लिया है। गुणवान् व्यक्ति हैं ! मैं उन्हें वहूँ पहले मेरे जानता हूँ।”

उमने मुँह पर उंगली रखी :

“हमारी आपस की बात है : मेरकूरी अव्देयेविच जब दुकान चलाते थे, मैं आपके पास बाली दुकान में काम करता था। सो अब मुझे याद आता है कि मैंने आपको भी, येनिजावेता मेरकूर्येव्ना, तब देखा था। और मैं कामना करता हूँ कि आप सफल हों, पिता की सहायता करने में।”

उमने एक बार फिर अपना स्ट्रा हैट छाती से सटाया और सिर झुकाया। बीच्या के मामने वह अलग से भुका।

ओज्जोविधिन उसे छोड़ने गया और घोर न करने की कोशिश करते हुए अंदर लौट आया।

नीजा वैसे ही बैठी थी, जैसे वह उसे छोड़कर गया था। बेटे को बाहों में भरे एकाग्रता से अपने सामने कुछ देखती हुई वह बैठी थी। विवाह की अपनी मफेद पोशाक में वह धीर-गम्भीर लग रही थी। ओज्जोविधिन उसके मामने बैठ गया। कुछ देर तक कोई हिला-डुला नहीं। फिर ओज्जोविधिन नीजा से नज़र मिलाने की कोशिश करता हुआ आगे को भुका।

“बड़ी मुश्किल होगी अगर मेरकूरी अव्देयेविच ... पोलोतेन्सेव के मामले में फँसे हुए हैं,” उमने चिंतित स्वर में कहा।

नीजा ने शून्य में लगी अपनी फटी-फटी आँखें तुरन्त उमकी ओर बुमार्द।

“क्या फर्क पड़ता है, फँसे हुए हैं या नहीं ?”

“ऐसा मम्पक कानूनी दृष्टि मेरे दोष को और बढ़ाता है।”

“पर हमारा काम क्या उनका दोष देखना है ?” नीजा ने हैरान होकर पूछा।

“नहीं, नीजा,” ओज्जोविधिन बोला। वह अपने शब्दों के प्रभाव को अब शीघ्रानशीघ्र मृदु स्वर से दूर कर देना चाहता था। “मैं दोष

की बात नहीं कर रहा। तुम्हारी तरह मुझे भी पूरा विश्वास है कि मेरकूरी अन्देयेविच का कोई दोष नहीं है। मैं तो वाधाओं की बात कर रहा हूँ, जो उन्हें छुड़वाने के हमारे जतनों के रास्ते में आ सकती है।”

“यह सोचने की क्या ज़रूरत है कि क्या वाधाएं आ सकती हैं? यह सोचना चाहिए कि कैसे जल्दी से जल्दी मदद की जाये।”

“बिल्कुल ठीक कहती हो! पर सही रास्ता ढूँढ़ने का मतलब ही है उन बाधाओं का अनुमान लगा लेना, जो रास्ते में आ सकती हैं... ताकि उन्हें लांघा जा सके। ठीक है न?”

“मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि मुझे बजरे का सीधा रास्ता पता है!” बीत्या उतावली से बोला, वह हैरान था कि वे उसकी बात क्यों नहीं समझ रहे। “आर्सेनी रोमानोविच एक नाव बाले को जानते हैं। मत्वेई दादा को भी पता है। नाव ले लेते हैं और मैं आपको...”

मां ने उसका सिर अपनी छाती से सटाकर उसकी बात बीच में ही काट दी।

“तुम्हें रागोजिन का स्वाल नहीं आया?” उसने पति से पूछा और उसके चेहरे पर उत्तर ढूँढ़ने लगी।

बीत्या मां के हाथों से निकला और उछलकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वह उसे अपनी ओर खींचती वह खुशी से चिल्लाया:

“मां, मुझे रागोजिन का स्वाल आया था, भगवान कसम! मैं पाल्लिक के साथ उनके पास गया था। और हमने जो कहा था, उन्होंने सब कुछ वैसे ही किया। आर्सेनी रोमानोविच के लिए। प्योत्र पेत्रोविच झटपट सब कुछ कर देंगे: वह तो नाना जी को जानते हैं!”

“नहीं, बावले, अभी तुम बड़ों की सलाह देने लायक नहीं हुए,” ओज्जोविशिन ने ऐसी मुस्कान के साथ कहा कि क्षण भर को लीज़ा का ध्यान अपने प्रश्न से हटकर लड़के की ओर चला जाये।

जिस क्षण से ओज्जोविशिन यह समझ गया था कि अप्रत्याशित आगंतुक क्या समाचार लाया है, उसी क्षण से वह रागोजिन के बारे में सोच रहा था। उसी क्षण वह समझ गया था कि तुरन्त ही मेश्कोव की मदद के लिए दौड़-धूप शुरू होगी, कि यह सारी दौड़-धूप उसी को करनी होगी, कि यह दौड़-धूप खतरे से खाली नहीं होगी और शायद इससे कुछ होने का भी नहीं, कि दौड़-धूप चाहे कितनी ही खतरनाक

और निर्गमक क्यों न हो . वह उससे कल्पी नहीं काट सकता और उसे उमका जिम्मा लेना ही होगा । उमे डर था कि इस घटना का लीजा के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा , जो अभी पूरी तरह सुधरा नहीं था , और उमनिए उमे और भी अधिक कोशिश करनी होगी , ताकि लीजा के मन में मामले के अच्छे अंत की आशा बनी रहे । परन्तु उसे इस बात का भी कम डर नहीं था कि अगर मेष्ठोव पर पोलोतेन्सेव के साथ मम्बर्क च्युने का आगोप है , तो मेष्ठोव के लिए उसके जतन अधिकारियों की नज़रों में पोलोतेन्सेव के लिए जतनों का रूप ले सकते हैं । साथ ही वह यह भी महसूस कर रहा था कि अब वह समय आ गया है जब उमे भलाई का बदला भलाई से चुकाना चाहिए , उसके जेल जाने पर लीजा और मेष्ठोव ने उसके लिए जो चिंता दिखाई थी , उसका अहमान चुकाना चाहिए । उसे लग रहा था कि यह उसकी नेकी की जांच की घड़ी है । परन्तु वह यह भी स्पष्टतया समझ रहा था कि वह किन्तु निम्नहाय है । उसे विश्वास था कि एक भूतपूर्व अधिकारी के नामे , जिस पर एक बार अपना अतीत छिपाने की कोशिश करने का मद्देह किया जा चुका है , अब यह आशा करना मूर्खता होगी कि नये अधिकारी उसके लिए कुछ करेंगे या उसकी बात पर ध्यान देंगे । और वह पहले मे ही अपने आप को यह यकीन दिला रहा था कि उसकी दौड़-धूप का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा । ऐसे कठिन मामले में जो लोग महायाता कर मकने थे , उनमें से केवल एक को वह जानता था । यह आडमी था रागोजिन । लेकिन रागोजिन का स्वाल आते ही उमकी मृति में उनकी अंतिम भेंट का दृश्य उभरा , जब तरवूज के छिनके मे ओज्जोविशिन का पांव फिल गया था । रागोजिन उसकी मृति में कठोर और अनस्य था , कैसे उसने ओज्जोविशिन की हँसी उड़ाने हुए कहा था : “मेरी मेवा करना आसान नहीं । मैं दूसरों की मेवाएं स्वीकार नहीं करता ” । माथ ही ओज्जोविशिन को यह याद आये बिना भी नहीं रह सकता था कि रागोजिन के पास जाते हुए उमका मन कैसे डांवांडोल हो रहा था , कैसे वह डर रहा था कि अभिनेत्रागार में कागज चुराने का उसका राज खुल जायेगा । जब से उमने वह कागज चुराया था और उमे बोला में फेंक दिया था , उसे दिन-गत यह भय मनाना रहता था कि कहीं और भी ऐसा ही कोई

कागज निकल आया तो ? आखिर सारा अतीत तो नष्ट नहीं हो सकता था , कहीं पर तो वह छिपा हुआ है और सहसा कहीं से उसकी झलक दिखाई दे गई तो ? तब क्या होगा ? एक बकील के नाते वह कानून के प्रति अतिसंवेदनशील था , और पहले वह जिस तरह दूसरों के मामलों में बाल की खाल खींचा करता था , वही आदत अब स्वयं उसके खिलाफ हो रही थी , उसे चैन नहीं लेने दे रही थी । यह सोचकर ही उसका दिल दहलता था कि उसे फिर से रागेज़िन का सामना करना होगा ।

अपने लिए , अपनी पत्नी के लिए और उस जीवन के लिए , जिसे आरम्भ करने की उसकी आशा अभी-अभी पूरी होने ही लगी थी , और जिस पर पहली घड़ी में ही ऐसी घोर परीक्षा आ पड़ी थी , इस सबके लिए उसका डर , उसके विचार , उसके सदेह कल्पनातीत गति से उसके हृदय और मस्तिष्क में तब धूम गये थे , जब वह बिन बुलाये मेहमान की अलंकृत भाषा में कही गयी बातें सुन रहा था , और अब जबकि लीज़ा अपने उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी , तब भी ये सब बातें उसकी कल्पना में और भी अधिक तेज़ी से धूम रही थीं ।

सहसा वीत्या मां के हाथों से निकल गया , पर झटके से नहीं , बल्कि हौले से और परेशान सा बोला :

“मां , मैं भूल ही गया था : प्योत्र पेत्रोविच तो यहां हैं नहीं । पाल्विक ने मुझे बताया था कि वह अब बेड़े पर कमिसार हैं और चले गये हैं । हो सकता है पाल्विक ने भूठ बोला हो , हैं ?” उसने हताश स्वर में अपनी बात काटी , लेकिन फिर हौले से बोला : “पर वह कह रहा था कि प्योत्र पेत्रोविच सारे बेड़े के साथ गये हैं ... ”

“अगर यह सच है तो बहुत ही बुरी बात है ,” ओज्जोविशिन ने जल्दी-जल्दी कहा ।

लेकिन उसके यह कहने से पहले ही लीज़ा ने पति के चेहरे पर अपने प्रश्न का उत्तर पढ़ लिया था । वह उसके विचारों और भावनाओं के सारे क्रम को तो नहीं समझ पाई थी , लेकिन जो बात उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी , वह जान गई थी : उसने देखा था कि वह लीज़ा के पिता के लिए दौड़-धूप करने से डर रहा है और यह स्वीकार करने में उसे शर्म आ रही है ।

लीजा के चेहरे पर धीरे-धीरे कटु मुस्कान आई।

“यह है मेंग अनाज – बोया हुआ और पका हुआ और खलियान में च्वा हुआ,” भिर हिलाते हुए और पति की आंखों में सीधे देखते हुए उमने कहा।

वह यह उलाहना नहीं सका, लीजा की ओर लपका, वह अपने बेटे से निपटी जा रही थी, बेटे से उसके हाथ छुड़ाते हुए वह उन्हें जन्दी-जन्दी चूमने लगा और बुदबुदाने लगा:

“हताग मन होओ... हम पूरी कोशिश करेंगे, जरूर छुड़ा लेंगे... दूसरा आदमी ढूँढ़ लेंगे, जो हमारी मदद करेगा...”

लीजा बोली:

“मैंने ऐसा आदमी ढूँढ़ लिया है।”

वह छिककर जग पीछे हटा। लीजा की शांत नजर से उसे लगा कि लीजा ने उसे बच्चा दिया है। उसने फौरन पूछा:

“कौन?”

“इज्वेकोव।”

जाने कितने बरसों बाद लीजा के मुंह से यह नाम निकला था और अजीव शांत स्वर में उमने यह नाम लिया था।

ओज्जोविशिन स्वड़ा हो गया। उसकी कोई पुरानी स्मृति जाग पड़ी, जिसमें यह नाम लीजा के माथ जुड़ा हुआ था – लीजा के चेहरे पर बालमुलभ मकोव या शायद भय ही था, और उसका विचित्र आकर्षण जिसमें वह कभी उसकी ओर खिंचा था – सड़क पर, या शायद जन अभियोकना के कमरे में, या स्कूल छात्राओं के नृत्य उत्सव में – उसे याद नहीं था। हां, इतना उसे तुरन्त याद हो आया कि इज्वेकोव का नाम प्योत्र गगोजिन के नाम से जुड़ा हुआ है, उस मनहूस मामले से जुड़ा हुआ है, जो अब इज्वेकोव से सामना होने पर ढूसरे पहलू से उभर भक्ता था।

“यह तो बहुत अच्छा विचार है, लीजा,” ओज्जोविशिन ने उन्माह दिवाने हुए कहा, पर कमरे में टहलने लगा, ताकि लीजा अपनी प्रायः भावगृन्ध दृष्टि से उसके चेहरे के भाव न पढ़ती रहे और माथ ही वह स्वयं लीजा की इननी अस्वाभाविक निश्चिंतता को न देख पाये. जो उसे परेशान करने लगी थी।

“बहुत ही अच्छा विचार है! हमें यहीं से शुरू करना चाहिए—इज्वेकोव के पास जाना चाहिए!”

“मैं अकेली जाऊँगी,” लीज़ा ने कहा।

“मां, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा,” वीत्या फिर से बीच में बोल पड़ा। “मैं इज्वेकोव को जानता हूँ। जब हम आर्सेनी रोमानोविच के साथ मछली पकड़ने...”

“ओफ़, तुम और तुम्हारा आर्सेनी रोमानोविच,” ओज्जनोविशिन ने उसे टोका, “तुम यह टांग अड़ाना बंद करो! क्या कर सकता है तुम्हारा यह बाबा!”

“कोई बाबा-बाबा नहीं,” वीत्या को बुरा लगा। “वह तो गिरजे भी नहीं जाते। हाँ!”

“चलो, मैं तुम्हारा बिस्तर लगा दूँ। तुम्हारा सोने का वक्त कब का हो चुका है,” लीज़ा ने कहा और वीत्या को पकड़कर ले गई।

ओज्जनोविशिन अपने छोटे-छोटे कदमों से कमरा नापता जा रहा था। उसके विचार अब पहले से कुछ धीरे, पर उसी दिशा में धूम रहे थे कि इस मुसीबत में वह कितना असहाय है, कि अभी वह अपने घोंसले का पहला तिनका भी न रखने पाया था कि उसके सिर पर इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी। हाँ, ओज्जनोविशिन विवाह के बाद के पहले घंटों की विल्कुल दूसरी ही कल्पना करता आया था। और पौ फटने पर भी जब उसने अपनी लाल-लाल आंखों से खिड़की में देखा, तो रात के अंधेरे की ही भाँति उसे कुछ नहीं दिखा, क्योंकि रात ठंडी रही थी और खिड़की के शीशों पर पानी सा आ गया था।

सुबह ओज्जनोविशिन लीज़ा को छोड़ने जाने को तैयार हुआ, पर वह अकेली जाना चाहती थी। उसने विदा करते हुए लीज़ा का चुम्बन लिया और उसके होंठों को निरुत्तर पाकर उसे ठेस पहुँची।

लीज़ा की योजना सीधी-सादी थी: वह वहाँ जा रही थी, जहाँ इज्वेकोव था—उसके काम की जगह पर, उस आदमी से बात करने, जो ऊंचे ओहदे पर था, एक प्रार्थी के रूप में बात करने। वह उस किरील के पास नहीं जा रही थी, जिससे कभी उसे प्यार था। वह नगर सोवियत के सेक्रेटरी के पास जा रही थी, उस कामरेड इज्वेकोव

के पान . जिसका नाम उसने अख्वार में पढ़ा था , जब वह नौ साल के बाद अपने नगर में लौटा था ।

तब उमने अपने आप से कहा था कि उसे उससे नहीं मिलना है । मन मे उमके नाम के एक-एक अक्षर को अलग-अलग करते और फिर जोड़ते हुए , आंखें कड़वा जाने तक उसे पढ़ते हुए , और दिल की धड़कन के माथ नाम के एक-एक अक्षर को छाती में गूंजते सुनते हुए नीजा इम नाम की पंक्ति पर आंखें गड़ाये जड़वत बैठी रही थी , और अपने आप को यह विश्वास दिलाती रही थी कि वह इज्वेकोव , जो उसे प्रिय था , अब नहीं रहा है , इसलिए वह उससे नहीं मिल सकती , और वह इज्वेकोव , जिसके बारे में अख्वार में खबर छपी थी , उससे उसका कोई नाना नहीं है , इसलिए उससे मिलने का कोई कारण ही नहीं है ।

अब उमके पास जाते हुए भी वह उस दिन की ही भाँति अपने आप को यकीन दिला रही थी कि नगर सोवियत के सेक्रेटरी के पास जा रही है , किरील के पास नहीं । लेकिन ठीक वैसे ही , जैसा कि तब हुआ था , जब वह अख्वार में बार-बार यह नाम पढ़ रही थी , और उमका हृदय यह स्वीकार नहीं कर रहा था कि यह वही पहले बाला नहीं , बल्कि कोई दूसरा इज्वेकोव है , जिसकी उसे कोई जरूरत नहीं है । वैसे ही अब भी उमका हृदय यह नहीं मान रहा था कि वह पहले बाले किरील के पास नहीं जा रही , बल्कि किसी अनजान सेक्रेटरी किरील के पास जा रही है , जिससे उसे मदद चाहिए ।

अगर उसे सेक्रेटरी इज्वेकोव में उम किरील को ही पाने की उम्मीद न होती , जो उसमें नीजा को देख सकता था और उनके पुराने सम्बन्धों की बातिर उमका अनुग्रोध पूरा कर सकता था , तो फिर वह किसी दूसरे सेक्रेटरी के पास , या नगर सोवियत के अध्यक्ष के पास , या किसी भी दूसरे अधिकारी के पास अपनी प्रार्थना लेकर क्यों न जाती ? लेकिन वह किरील के पास ही जा रही थी , पर फिर भी मन ही मन यह कहती जा रही थी कि किरील के पास नहीं , नगर सोवियत के सेक्रेटरी के पास एक प्रार्थी के नाने जा रही है ।

जब वह नगर सोवियत में पहुंची , तो उसे बताया गया कि इज्वेकोव मुवह ही कही बाहर से नौटा है , घर गया है , और दफ्तर पता नहीं कब आयेगा ।

फिर से बाहर आकर लीज्जा बगीचे के पास खड़ी हो गई। वस्तुल की पत्तियां अभी पीली नहीं पड़ी थीं, हाँ उनकी हरियाली भी गर्मियों जैसी नहीं रही थी और वे सूखी-सूखी थीं। हवा से पत्तियों में मर्मर नहीं हो रही थी, बल्कि सूखी खड़खड़ सुनाई दे रही थी। लीज्जा ने एक टहनी तोड़ ली और नाखूनों से पत्तियां तोड़-तोड़कर जमीन पर फेंकने लगी। सहसा, जैसे कि बचपन में वह किया करती थी, हर पत्ती के साथ वह बारी-बारी मन ही मन बूझने लगी: यहाँ इज्वेकोव का इंजार करूँ या उसके घर जाऊँ। जल्दी-जल्दी उसने सारी पत्तियां तोड़ डालीं और आखिरी पत्ती के साथ आया 'घर जाऊँ'!

पत्तियों से कुछ भी निकलता वह हर हालत में ही उसके घर जाती। पर अब चूंकि पत्तियों से भी उसके मन की बात निकली थी, सो उसने सोचा यह शुभ लक्षण है। आखिर नगर सोवियत का सेक्रेटरी तो घर पर भी सेक्रेटरी ही रहता है। और अगर लीज्जा उसके घर जायेगी, तो उसका यह अर्थ नहीं होगा कि वह किरील के पास गई है।

वह बापस नगर सोवियत में गई और कामरेड इज्वेकोव के घर का पता पूछा। उसे पता नहीं दिया गया।

फिर से वह बाहर सड़क पर आ गई। उसकी स्थिति किसी निद्राचारी जैसी थी, जिसकी किसी लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा बाधाओं से टकराकर और भी अधिक प्रवल हो उठती है। उसने यह सोचा कि इज्वेकोव मां के साथ ही रहता होगा, नहीं तो वेरा निकान्द्रोव्ना बता देंगी कि उनका बेटा कहाँ रहता है। सो, उसे तुरन्त ही वेरा निकान्द्रोव्ना के यहाँ जाना चाहिए। यह सोचकर उसका हौसला बढ़ा कि वह किरील के यहाँ नहीं, वेरा निकान्द्रोव्ना के यहाँ जा रही है। अजीब बात है उसे पहले यह ख्याल क्यों नहीं आया कि सबसे पहले वेरा निकान्द्रोव्ना से ही मिलना चाहिए, वह तो फौरन सब कुछ समझ जायेंगी और जरूर अपने बेटे पर जोर डालेंगी कि वह लीज्जा की मदद करे। वेरा निकान्द्रोव्ना यह तो भूली नहीं होंगी कि कैसे नौ साल पहले जब किरील को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो लीज्जा ने उनके साथ दौड़-धूप की थी।

अब उसके सामने एक नई बाधा थी: उसे पता नहीं था कि वेरा निकान्द्रोव्ना कहाँ रहती हैं। वह पुराने पते पर जा सकती थी। वहुत

पहले, जब लीजा के बच्चा होनेवाला था, एक बार उसने वेरा निकान्द्रोव्ना ने मिलने की सोची थी और आनोच्का पारावुकिना से उनका पता भी नहीं लिया था। तब वह गई नहीं थी, जाने क्यों डर गई थी, पर इनना उमेर याद था कि वेरा निकान्द्रोव्ना सोल्दात्स्काया स्नोवोद्का में कही पढ़ानी है! अरे हाँ, आनोच्का! वेशक वेरा निकान्द्रोव्ना की चहेती आनोच्का को उनका पता मालूम होगा।

आनोच्का के घर तो लीजा कई बार अपने बेटे को ढूँढती-ढूँढती गई थी। वह नगर मोवियत से ज्यादा दूर नहीं रहती थी। उससे वेरा निकान्द्रोव्ना का पता पूछने का फ़ैसला करने से पहले ही लीजा के पांव उसके घर की ओर बढ़ चले थे: उसके कदम उसके निर्णयों की पुर्वकल्पना कर रहे थे।

गम्मे में उसे पाल्निक मिला। वह खाली टोकरी भुलाता वाजार जा रहा था—खाने का बंदोबस्त करने, जैसा कि उसने लीजा को बताया।

“आनोच्का तो गिर्मल पर गई हुई है,” उसने जवाब दिया, “यायद गत को ही आयेगी।”

“वह क्या पूरी अभिनेत्री बन गई है?”

“अजी हाँ! वह तो बम रिहर्सल ही करती रहती है, यह भी कोई अभिनेत्री है?”

वेरा निकान्द्रोव्ना का पता उसे अच्छी तरह याद था, पर इज्वेकोव कहा रहता था, यह उसे मालूम नहीं था। उसने इतना और जोड़ा कि इज्वेकोव को ढूँढ़ना बेकार है, वह तो मोर्चे पर गया हुआ है। यह मुनक्कर लीजा कुछ डरी, पर साथ ही यह भी स्याल आया कि नगर मोवियत में उसे भूठमूठ थोड़े ही कहा गया होगा कि वह लौट आया है।

वह ट्राम के म्टाप की ओर दौड़ ही चली—समय बीतता जा रहा था, और हर पल इनना कीमती था, जिनना यायद जीवन में कभी नहीं रहा था ...

इज्वेकोव घर पर था। कपड़े बदलते हुए वह मां को अपने अभियान की कुछ बातें मुनाना जा रहा था, पर उन बातों पर चुप्पी साधे हुए था, जो उसके मन्त्रिक में बार-बार आ रही थीं और जो वेरा निकान्द्रोव्ना को भी परेशान कर सकती थीं।

“देखो न,” बंद दरवाजे के पीछे से वह चिल्ला रहा था, जबकि मां मेज पर बर्तन लगा रही थी, “देखो न. हुआ क्या! दीविच को सुबह आठ बजे लौटना था। पर वह लौटा नहीं। नौ बजे मैंने एक सैनिक को उसका घर ढूँढ़ने भेजा। दस बजे वह घोड़ा दौड़ाता वापस आया और बोला कि दीविच न शाम को और न सुबह ही घर पहुंचा था।”

“किसने बताया उसे?” वेरा निकान्द्रोन्ना ने पूछा। वह उस वेदना से अभिभूत थी, जो उसके बेटे को सहनी पड़ी थी और जो अब उसके मन में भी उठ रही थी।

“सैनिक को? क्या मतलब किसने? मां ने! मां ने जिससे मिलने को वह कब से तरस रहा था।”

“तोवा, तोवा! ज़रा सोचो तो, बेचारी मां!”

किरील पेटी कसता बाहर निकला। नहा-धोकर और दाढ़ी बनाकर स्कूल की वर्दी जैसी यह नई फौजी वर्दी पहने वह विल्कुल जवान लग रहा था।

“मैं तो बाद में कायरता ही दिखाने लगा था,” उसने हौले से कहा।

“बाद में कब?”

“मुझे लग रहा था मैं उसकी मां के पास जाने का साहस नहीं जुटा पाऊंगा।”

“मां के पास जाये विना कैसे रह सकते थे!...”

“यही तो! पर एक और बात थी...”

अपनी बात अधूरी छोड़कर वह खुली खिड़की के पास चला गया और चुप हो गया।

“बैठो, सब तैयार है।”

“हां,” वह मां की ओर मुड़ा, “मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि आगे क्या हुआ। कुछ सैनिकों को लेकर मैं उस रास्ते पर चला, जिस रास्ते पर दीविच को शहर आना था। जब हम मठों तक पहुंचे, तो वहां मिलीशिया वाले मौजूद थे। सुबह तड़के बाग के चौकीदार मठवासी को वह मिला था। पता चला कि मठवासियों ने शाम को गोली चलने की आवाज़ सुनी थी, पर जंगल में जाते उन्हें डर लगा। हमें उसके पास ले जाया गया। पगड़ंडी जहां बाग में निकलती थी,

वही वह डलान पर पड़ा हुआ था, सिर नीचे की ओर था। खून से उसका दम धुट गया, छाती में घाव हुआ था।"

"कैसे जानिम थे!" बेरा निकान्द्रोब्ना ने कहा और हाथ गल पर रखा, जैसे महिलाएं सहज भाव से करती हैं।

"वह शायद ज्यादा देर नहीं जिया। जहां वह मिला था, वहां में कोई तीन कदम दूर ही उसे गोली मारी गई थी, मेपल के भुरमुट में। पगड़ी पर खून के निशान दिखाई दे रहे थे। सैनिकों और मिली-शिया के मिपाहियों ने पहाड़ी धेर ली और दोपहर तक हत्यारे पकड़े गये। कुल चार थे वे हरामजादे। उनके पास से दीविच का रिवाल्वर और घोड़ा मिला। उन्होंने बताया कि वे रात को मठ लूटने के इरादे में जंगल के मिरे पर छिपे हुए थे, पर तभी दीविच आ निकला। उन्होंने उस पर गोली चला दी।"

"तो यह संयोग मात्र था!" बेरा निकान्द्रोब्ना स्तब्ध हुई, मानो यह बेतुका संयोग ही दीविच की मृत्यु में उसे सबसे अधिक भयानक लगा।

"हाँ," किरील ने दुखी मन से हामी भरी, "पर यह ऐसा संयोग था, जिसकी पहले से कल्पना की जा सकती थी।"

वह फिर मेरुप हो गया। कंधे झुकाकर उसने सिर लटका लिया। बेरा निकान्द्रोब्ना ने कभी उसे ऐसे करते नहीं देखा था।

"मैंने चाय ढान दी है। ठंडी हो रही है।"

"मुझे इमका अनुमान लगा लेना चाहिए था।"

"किस बात का?"

"यह अनुमान लगा लेना चाहिए था कि ऐसी दुर्घटना की मम्भावना है।"

"पर कैसे, जबकि तुम खुद कहते हो कि ऐसे हालात थे।"

"हाँ, हाँ, हालात थे। जबकि चारों ओर लुटेरों, हत्यारों के गिरेह धूम रहे थे, जबकि हम उन्हें पकड़ने निकले थे! मुझे क्या हक था कि मैं दीविच को अकेना जाने देता?"

"पर... वह तो खुद... और फिर वह तुम्हारे अधीन तो नहीं था? तुम उसे मना तो नहीं कर सकते थे न?"

"हाँ, तो उसे जाने देने का भी मुझे कोई हक नहीं था। और

मैंने उसे खुद सुझाया। मैंने ही तो उसे जाने की राय दी थी। उसे एक तरह से भेजा था।"

"पर किरील, तुम तो उसका भला चाहते थे!" वेरा निकान्द्रोव्ना ने सहानुभूति के साथ बेटे की आंखों में झांकते हुए कहा।

"यही तो बात है, भला चाहता था," वह चिल्लाया, तेजी से कुर्सी से उठा और फिर से खिड़की के पास चला गया। "वाद में मैं उसकी माँ से यह कहने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाया कि मैं उसका भला चाहता था?! मैं उसके बेटे को खुश करना चाहता था। क्यों मुझे उसके पास जाते शर्म आ रही थी, कलेजा कांप रहा था? मैं उसके बेटे को खुश करना चाहता था, भावुक हो गया था। और वह मारा गया। क्या यह मेरा कसूर नहीं कि वह मारा गया? तुम्हारा क्या स्वाल है?"

"मेरा स्वाल है... तुम बेकार अपना दिल जला रहे हो। तुम ऐसे संयोग का... ऐसे दुखद संयोग का जिम्मा नहीं ले सकते। इस बात के लिए अपने आप को वुरा-भला नहीं कह सकते कि भला काम करना चाहते थे।"

"भला काम, जिसके कारण भला आदमी मारा गया, है न? जानता हूँ मैं ऐसा भला! सनक में किया गया भला! सोचे-समझे बिना, बिना किसी मतलब के किया गया भला! बस यों ही—क्योंकि अच्छा लगता है! खुद को अच्छा लगता है। ताकि लोग तुम्हारे बारे में सोचें कि देखो कितना अच्छा आदमी है। लो, मैं बड़ा अच्छा आदमी बन गया हूँ। मुझे उसका भला करके खुशी थी। पर वह तो रहा नहीं, माँ! और कैसा आदमी नहीं रहा, माँ!.. काश, तुम्हें पता होता!"

खिड़की के दासे पर झुककर उसने सिर बाहर निकाला और गहरी सांस ली—हवा में सुवह की ताज़गी अभी बनी हुई थी।

कुछ देर रुककर वेरा निकान्द्रोव्ना ने कहा:

"अगर आदमी हमेशा यह सोचने लगे कि उसके भले काम का क्या नतीजा हो सकता है, तो फिर नेक इरादे कभी जन्म ही न लें। तुमने दीविच से अपनी पहली भेंट के बारे में जो बताया था वह मुझे याद है। अगर दीविच तब सोचने-विचारने लगता, तो शायद इस नतीजे पर पहुँचता कि मोर्चे पर तुम्हारे पराजयवादी प्रचार के लिए

उसे तुम्हे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। पर उसने ऐसा नहीं किया।"

किंगिल ने कुछ जवाब नहीं दिया। वेरा निकान्द्रोव्ना भी कुछ दें चुप रही और फिर उसने पूछा:

"दीविच की मां तुमसे कैसे मिलीं? तुमने उनकी कुछ मदद की?"

किंगिल मेज के पास लौट आया। उसकी आँखों में धीरे-धीरे अफमोम भरी और कोमल मुस्कान छा गई।

"यह क्या पूछ रही हो, मां? मां कैसे मिली! तुम खुद कौन हो, मां?"

"हा," वेरा निकान्द्रोव्ना ने आँखें नीची कर ली, "इसमें पूछने को है ही क्या..."

वे प्रायः चुप ही बैठे थे, कभी-कभार एकाध शब्द बोल लेते, नभी दरवाजे पर दम्तक हुई। वच्चों की तरह फिफकते हुए कोई दरवाजा खोल रहा था। वेरा निकान्द्रोव्ना यह सोचकर उठी कि शायद मूँह का कोई वच्चा होगा। पर फिर एकाएक दरवाजा पूरा खुल गया।

"वेरा निकान्द्रोव्ना, आप?" लीजा ने ज़ोर से पूछा, उसकी आँखें किंगिल पर लगी हुई थीं और वह उस पर से नज़र हटा नहीं पा रही थी, नेकिन अपने घरीर की सारी गति से यह जाहिर कर रही थी कि वेरा निकान्द्रोव्ना के पास जाना चाहती है।

उसका चेहरा एकदम पीला था और उस पर ज़बरदस्ती लाई गई विनम्र मुस्कान उसमें जान नहीं डाल रही थी, बल्कि उसे और भी अधिक वेजान कर रही थी, जिससे यह मुस्कान वेतुकी लग रही थी। पहले गव्व, जिनके लिए वह शायद तैयार होती आई थी, घबकती आवाज में, प्रायः चीखते हुए उसने कहे, पर फिर जब बोली, तो आवाज बुझी-बुझी थी:

"माझ कीजिये, मैं यों..."

"नीजा?.. येनिजावेता मेंग्कूर्येव्ना?" वेरा निकान्द्रोव्ना ने उसकी वात काटी और खुद भी किंगिल की ओर नज़र घुमाई।

यह नाम मुनकर वह खड़ा हो गया और अब कहीं समझा कि यह क्यों कौन है।

"... मैं यों बिन बुनाये चली आई," लीजा ने अपनी वात पूरी की। उसकी आँखें अभी भी किंगिल पर लगी हुई थीं।

वह उसकी ओर ऐसे देख रही थी जैसे कोई उस व्यक्ति की ओर देखता है, जिसे उसने अपनी आशा के अनुकूल ही पाया हो और इसी बात पर हैरान हो कि लंबे वियोग के बावजूद वह पहले जैसा ही रहा है और समय उसको बदलने में असमर्थ है। न केवल किरील की दृष्टि में निहित उसका अंतस्सार और उसके चेहरे के अविस्मरणीय सीधे नक्श ही लीजा के लिए बिल्कुल पहले जैसे थे, बल्कि अपनी इस वेशभूषा में – फ़ौजी कमीज़ पहने और चमड़े की पेटी कसे, वह बाहरी तौर पर भी अपने अतीत का हूँवहूँ प्रतिविम्ब लगता था।

किरील भी लीजा की ओर देख रहा था। वह उसके लिए हर बात में नई थी, लेकिन यह नवीकृत भवन की नवीनता थी, जिसके पीछे बीता समय और भी अधिक स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है।

उसने ही आगे बढ़कर लीजा से हाथ मिलाया।

“मुझे वेरा निकान्द्रोव्ना से मिलना है,” लीजा ने कहा। किरील की सख्त उंगलियों की गर्माहट में उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ ठंडा है।

“तो क्या मैं बाहर चला जाऊँ?” वह मुस्कराया।

“नहीं। मुझे... आपसे भी काम है,” लीजा ने कहा और मारे घबराहट के उसकी आंखें डबडवा आईं।

“तो फिर मुझे जाना चाहिए?” वेरा निकान्द्रोव्ना हँसी।

उसने लीजा से हाथ मिलाया और उसका हाथ पकड़े-पकड़े ही उसे मेज़ तक ले आई।

अब वह बातचीत शुरू हुई, जिससे पहले क्षणों का संकोच दूर करने में मदद मिल सकती थी – यह कि लीजा कमज़ोर हो गई है, उसकी सेहत ठीक नहीं है; कि वेरा निकान्द्रोव्ना ने उसे दो बार थियेटर में देखा था, पर यह बहुत पहले की बात है, और तब लीजा की सेहत अच्छी थी; कि अब तो उसका बेटा बड़ा हो गया है और किरील उससे नदी पर मिला था, मछली पकड़ते समय – बड़ा प्यारा लड़का है, बिल्कुल मां पर गया है; क्या यह सच है कि लीजा ने फिर से शादी कर ली है, कौन है वह (वेशक यह वेरा निकान्द्रोव्ना ने ही पूछा)।

“मेरे साथ ही काम करते हैं,” लीजा ने जवाब दिया, “नोटरी हैं, नहीं, उसके सहायक,” उसने तुरन्त स्पष्ट किया।

“अब आपका कुलनाम क्या है ?”

“पहले वाला ... जैसे बेटे का है।”

“और पति का कुलनाम क्या है ?”

“ओज्जोविशिन ।”

“ओज्जोविशिन ?” वेरा निकान्द्रोव्ना ने पूछा और फिर कुछ सोचते हुए नाम दोहराया : “ओज्जोविशिन ,” और उठकर दूसरे कमरे की ओर चल दी ।

“नहीं, नहीं, आप जाइये नहीं,” लीजा ने उसे रोका, “मैं चाहती हूं कि आप भी ...”

“अभी आती हूं मैं ...”

इस तरह लीजा किरील के साथ अकेली रह गई ।

पल भर को ही मौन रहा, और इस पल ने लीजा को आशंकित कर दिया । वे दोनों अपने अतीत के बारे में सोच रहे थे, दोनों एक बार फिर इसे अत्यंत स्पष्टता से देख रहे थे, और लीजा यह महसूस कर रही थी कि वह कभी भी इस अतीत की चर्चा छेड़ने का साहस नहीं कर पायेगी, जो किसी चमत्कार से इस पल में फिर से जीवित हो उठा था । किरील ने सवाल पूछकर उसकी मदद की, उसका सवाल इतना सीधा-सीधा था और साथ ही इतने विनम्र स्वर में पूछा गया था कि वह तुग्न्त ही अतीत से वर्तमान में लौट आई :

“आपको मुझसे कोई जरूरी काम है न ?”

“माफ़ कीजिये, मैंने यह दुस्साहस किया । पर यह अकेले मेरे लिए जरूरी नहीं है । आप इन्कार नहीं करेंगे, नहीं न ?”

“माफ़ी मांगने की क्या बात है !”

“केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं । मैं पिता जी के लिए मदद मांग रही हूं ।”

वह रुक गई, इस उम्मीद में कि वह कुछ पूछेगा । पर वह चुप था और लीजा को लगा कि वह सोच में पड़ गया है ।

“मुझे पता चला है कि पिता जी को गिरफ्तार किया गया है, कि वे जेल में हैं । वज्रे पर । आप जानते हैं न वड़ी धार पर जेल है ?”

वह चूप था ।

“मैं भी क्या पूछ रही हूं । वेश्यक आप जानते हैं !” उसने कहा -

अपने भोलेपन पर शर्मिदा और उसकी चुप्पी पर हैरान होते हुए। “मुझे पता नहीं कि पिता जी कब से इस बजरे पर हैं।”

वह फिर से रुकी। उसके देखते-देखते किरील में कुछ अनवूभ परिवर्तन आ रहा था। परन्तु यह परिवर्तन विल्कुल स्पष्ट था—अभी क्षण भर पूर्व जिस पहले वाले किरील को वह देख रही थी, उसका अब कहीं पता न था। उसने किरील के चेहरे पर पड़े बल देखे, भौंहों के बीच में बल विशेषतः गहरा था। उसने तुरन्त ही अपने आप से कहा कि ऐसा ही होना था: वह अनजान अधिकारी से, सेक्रेटरी से ही तो मिलने आई है, किरील से नहीं।

“मुझे पता नहीं कि पिता जी को कब गिरफ्तार किया गया,” उसने अधिक दृढ़ स्वर में कहा। “मुझे कल शाम को एक आदमी ने यह बताया, जिसे रिहा किया गया है।”

“मतलब आपको यह पता नहीं कि किस अपराध के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है,” सिर थोड़ा घुमाकर और खिड़की की ओर देखते हुए आखिर किरील बोला।

“मुझे कुछ पता नहीं कि उनका क्या अपराध हो सकता है। मैं तो यह भी नहीं जानती कि उन्हें कहां गिरफ्तार किया जा सकता था। अगस्त के शुरू में मैंने उन्हें खालीन्स्क रवाना किया था। तब से उनकी कोई खबर नहीं मिली, उन्होंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी। वह वहां पहुंचे भी थे कि नहीं? मैं नहीं जानती... सोच भी नहीं सकती कि उनके साथ क्या हुआ! ज़रूर ही कोई भारी गलती हुई है!”

“गलती से कोई बजरे पर नहीं पहुंचता,” पहले की ही भाँति बाहर देखते हुए किरील ने कहा।

“ओह, आजकल के समय में! लेकिन असल वात तो यह नहीं। माना कि आपका कहना ठीक है, माना कि यह गलती नहीं है। पर अब वह जहां हैं, वहां गलती से कुछ भी होने का बहुत खतरा है। यह तो आप मानते हैं। और मेरा यह फर्ज है... हमारा... आप ही उनकी मदद कर सकते हैं! मैं आपके पांव पड़ती हूं!”

भिखकते हुए वह उसकी ओर बढ़ने को हुई, जैसे कि इस तरह अपने अनुरोध की गम्भीरता पर बल देना चाहती हो। वह और भी

अधिक वेगाना होना जा रहा था, और इससे लीज़ा की आशा बुझ रही थी, उसे लग रहा था कि उसकी भावनाएं शब्द मात्र बनकर रह रही हैं।

“ किसी की मदद की मोर्चने से पहले उसका अपराध पता होना चाहिए। और अपराध तय करना अदालत का काम है। इसमें क्या किया जा सकता है? ”

“ यह तो पता नगाया जा सकता है कि कोई अपराध है या नहीं। हो सकता है कोई अपराध हो ही न? मुझे तो नहीं बतायेंगे, पर आपको जरूर बता देंगे। अगर आप पूछ ही देंगे, तो यही बहुत बड़ी मदद होगी। ”

वह फिर मेरे चूप रहा। तब लीज़ा कुछ विसियाती हुई बोली:

“ आपको तो उन्हें बताना ही होगा। आप अधिकारी हैं। इसीलिए मैं आपके पास आई हूं। ”

किरील ने तेजी से अपनी पांडुर आंखें उसकी आंखों में डालीं और पूछा

“ केवल इसी आधार पर आप मेरे पास आई हैं? ”

लीज़ा को एक बार फिर उसमें वही किरील दिखा – उसकी आंखों की इम भेदती पांडुरना में, उसके किशोरमुलभ विश्वास से भरे स्वर में। वह कुछ न कह पाई, इम नज़र को सहने में ही उसे अपना सारा मनोवृत्त लगाना पड़ रहा था।

“ वह स्वालीन्क क्यों गये थे? ”

“ यह उनकी पुगनी मनोकामना थी। वह वहां अपने अंतिम दिन ”

“ वहां उनके मित्र हैं? ”

“ नहीं, उल्टे वह तो एकांत चाहते थे। मठ में वरना चाहते थे वह, मठवासी बनने को। ”

ये अनिम शब्द कहने हुए उसके गाल जलने लगे, जाने क्यों वह शर्मिदा थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार कोंधा और वह महसा चूनीनी भरे स्वर में बोली:

“ मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें इसीलिए गिरफ्तार किया गया है। पूरा विश्वास है! क्योंकि वह मठ में रहना चाहते थे। लेकिन

किसी के मत के लिए उसे सज्जा देना तो कूरता है! वह बूढ़े हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। और वह... वह उन लोगों में से नहीं, जिन्हें बदला जा सकता है। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उनकी अपनी कमज़ोरियां हैं, अपनी सनकें हैं। पर वह ईमानदार आदमी हैं। उनसे उनके अन्तःकरण की स्वतंत्रता तो नहीं छीनी जा सकती।”

“हो सकता है, आप उन्हें बहुत अच्छी तरह न जानती हों,” किरील ने मानो यों ही कहा।

लीज़ा के दिमाग में सहसा जो बात आई थी, उस पर न केवल किरील को, बल्कि अपने आपको भी यकीन दिलाते हुए वह तेज़ी से बोलती गई थी और अब उसकी सांस जल्दी-जल्दी चल रही थी।

“पर आप तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानते!” उलाहना के स्वर में उसने कहा।

“कुछ हद तक तो जानता हूँ... कम से कम आपके प्रति उनके रुख से ही। आपके जीवन में उनकी भूमिका से ही।”

“मेरा जीवन!” तीखे विरोध के साथ लीज़ा बोली। “इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, औरों से अधिक जिम्मेदार हूँ। पर यह तो स्वाभाविक ही है कि मेरे बाप ने मुझे पाला, किसी दूसरे ने नहीं, कि उसने मुझे अपने ढंग से पाला-पोसा। वह मेरे भाग्य के लिए उत्तरदायी हैं? मानती हूँ। कभी थे उत्तरदायी। पर किसके सम्मुख? मैं उनसे जवाबदेही नहीं करूँगी। क्या आप... क्या आप उनका न्याय करना चाहते हैं?”

“मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं किसी का न्याय नहीं कर सकता। इसीलिए मदद भी नहीं कर सकता। और अगर आप भी उनका न्याय नहीं करना चाहतीं, तो यह जाने विना कि उनका अपराध क्या है, आप उन्हें सच्चा कैसे ठहरा सकती हैं? आखिर यह तो नहीं माना जा सकता कि उन्हें मठ में जाने की बजह से गिरफ़्तार किया गया है।”

“मैं अपने भाग्य के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराती। मेरे मन में उनके लिए कोई दुर्भाव नहीं है। वह मुसीबत में हैं। वह मेरे पिता हैं।”

वह चीखी:

“मेरे पिता हैं—समझते हैं कि नहीं? आपकी मां को अगर मदद

की जम्मन होगी तो क्या आप उनकी रक्खा नहीं करेंगे ? कैसा कलेजा है आपका ? ! ”

“ कलेजा ? ” इज्वेकोव ने हौले से दोहराया । वह उठ खड़ा हुआ , नीजा के शब्दों ने मानो उसे सहसा किसी ऐसी भावना की याद दिलाई थी , जिस पर वह आश्चर्यचित होकर ध्यान दे रहा था । “ पिता , माना , भाई ये शब्द मंत्रों जैसे हैं , और हम इनसे वैसे ही वशीभूत हो जाते हैं , जैसे आदिम युग में लोग मंत्रों से प्रभावित होते थे । लेकिन आपका पति था – शुभ्रिकोव । क्या आप उसकी भी केवल इनीनिए रक्खा करने को तैयार हो जातीं कि वह आपका पति है ? ”

लीजा को कन्ड उम्मीद नहीं थी कि यह नाम लिया जायेगा , और यह कि किरील के स्वर में ऐसा उलाहना होगा । उसे लगा कि वह बातचीत छिड़ गई है , जिसकी बहुत पहले वह अक्सर कल्पना किया करती थी , जब किरील में भेट का विचार मन में बना हुआ था , और वह यह सोचा करती थी कि कैसे उसे अपने विवाह का कारण नमझायेगी , जिसे खुद नहीं समझती ।

शांत स्वर में बोलने की कोशिश करते हुए उसने जवाब दिया (वह बार-बार अपने आपको यह याद दिलाती थी कि वह व्याकुल न होने और इज्वेकोव से एक प्रार्थी के रूप में शांत स्वर में बात करने की कमम व्याकर आई है) ।

“ हा , जब शुभ्रिकोव मेंग पति था , तो मैं उसकी रक्खा करने आनी । शायद अब भी रक्खा करती , क्योंकि वह मेरे बेटे का बाप है । ”

“ लेकिन ऐसा अंधापन क्यों ? ! क्या आप यह नहीं सुनतीं कि ये केवल मंत्र हैं – पति , पिता ! इन शब्दों के पीछे लोग हैं और उनके पीछे उनके कर्म । कैन भी तो भाई कहलाता था ! ”

“ आप मुझे किस बात का दोषी ठहरा रहे हैं ? ” लीजा ने रोप में कहा । “ इस बात का कि मेरे सम्बन्धी मेरे सम्बन्धी हैं ? कि वे मुझे प्रिय हैं ? ”

“ दोषी ठहरा रहा है ? ” किरील हैंगन-परेशान मा मुस्कराया , मानो इन शब्दों से उसे ठेम पहुंची थी ।

“ इसमें मेंग तो कोई दोष नहीं कि हमारे जीवन में सब कुछ ऐसे हुआ , ” लीजा ज़न्दी-ज़न्दी बोलने लगी । वह भी उठ खड़ी हुई ।

“कि हमारे भाग्य हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं। और मैंने तो तुम्हें”
(उसके मुंह से अनायास ही हृदय की पुकार की भाँति “तुम्हें”
निकला और वह पल भर को ठिठकी) “...तुम्हें उस रास्ते पर नहीं
धकेला था, जो मुझे तुमसे दूर ले गया ! ”

वह बुत बना खड़ा था। लीजा को होश आया कि उसने क्या कह
डाला है, और उसने माथे पर ऐसे हाथ फेरा, जैसे उसे चक्कर आ
गया हो और वह अपने आप को संभाल रही हो।

“मैंने उम्र भर कभी भी और किसी भी बात का आपको दोष
देने की नहीं सोची थी,” किरील ने कहा। “आप स्वतंत्र थीं और
अपनी स्वतंत्र इच्छा से जैसा आपने चाहा वैसा आपने किया। किशोरा-
वस्था में हमारे उन सम्बन्धों से न आप पर कोई बंधन था और न
मुझ पर। और मेरे ल्याल में अब तो उनका कोई बंधन और भी
कम है।”

“माफ़ कीजिये, मेरे मुंह से यह बात निकल गई, क्योंकि आपने
मेरे विवाह की चर्चा छेड़ी। मैं तब यह समझती थी कि मुझे आपका
इंतजार करने या आपके पीछे चलने का साहस न कर पाने की सख्त
सजा मिली है ...” (वह सिर उठाकर प्रायः क्रोध से उसकी ओर
देख रही थी) “पर अब आप मुझे यह विश्वास दिलाना चाहते हैं
कि अगर मैं आपके पीछे चली होती, तो मुझे और भी सख्त सजा
मिलती ! ”

एक बार फिर किरील के बढ़ते आश्चर्य को देखकर वह मानो
वास्तविकता में लौटी और उसने माथे पर हाथ रखा। सिर घुमाने
पर उसने दूसरे कमरे के दरवाजे में वेरा निकान्द्रोव्ना को खड़े पाया।

“अनचाहे ही मैंने आपकी बातचीत सुन ली,” वेरा निकान्द्रोव्ना
बोली। “बुरा न मानना। आप तो किरील से भी और मुझ से भी
मिलने आई हैं न ? ”

“मुझे आपसे बहुत उम्मीद थी।” लीजा थकी-मांदी सी बोली।
उसका हौसला खत्म हो रहा था और लगता था कि वह अब न तो
गुस्से से चीख सकेगी और न अनुनय-विनय कर पायेगी।

“मैं सब समझती हूँ,” वेरा निकान्द्रोव्ना ने कहा और हौले से
लीजा के पास बढ़ आई। “आपके अनुरोध में समझाने की कोई बात

नहीं है। और किरील निर्ममता के, यहां तक कि कूरता के आपके उलाहने भी साफ़ कर देगा।”

उमने बेटे की ओर देखा, मानो उसे सहमत होने को कह रही हो। किरील कुछ नहीं बोला।

“मुझे वम यह ज्ञान आता है,” वह बोलती गई, “शायद आपने अतीत की चर्चा बेकार ही छेड़ी। अतीत से कोई मदद नहीं मिल सकती। उमे भुलाना तो किसी के वस के बाहर है। और आपने मुझे यहीं फिर ने याद दिला दिया है कि जब किरील को मदद की जरूरत थी, तो कैसे मैग्कूरी अव्देयेविच ने साफ़ इन्कार कर दिया था। या यह कि कैसे हम दोनों उन दीवारों पर सिर पीटती रही थीं, जिनके पीछे ओज्नोविशिन भी बैठा करता था... अगर यह वही ओज्नोविशिन हैं तो...”

“हे भगवान्! ” लीजा बुद्धुदाई।

“मैं आपको इस अतीत का उलाहना नहीं दे रही, विश्वास मानिये! ” घबराते हुए कि लीजा उसे अपनी बात पूरी नहीं करने देगी, बेग निकान्द्रोव्ना जल्दी-जल्दी कह रही थी। “पर क्या उन लोगों को निर्ममता का उलाहना दिया जा सकता है, जिन्होंने अतीत में बेहया कूरता के प्याले की आखिरी बूंद तक पी और जो अब इससे मर्हर्प में अपनी जान तक देने को तैयार हैं? ”

“नहीं, नहीं, ” महमा किरील ने दृढ़तापूर्वक उसे रोका। “यह श्रीक नहीं। मैं किमी मे बदला लेने के डरादे से कुछ नहीं करना चाहता।”

“हाँ, हाँ, किरील! मैं तो जानती हूं कि तुम निजी कारणों से कुछ नहीं कर सकते! ” मां ने खुशी और गर्व के साथ उसकी बात में बात मिलाई।

“भगवान के बान्ने! ” लीजा निढाल मी बोली। “क्या मैं यह मृकदमा मूनने यहां आई हूं? आप क्या मोचते हैं कि मेरे लिए यहां आना, आपके यहां आना आमान था? आप साफ़-साफ़ कह दीजिये कि इन्कार करने हैं और मैं चली जाऊँगी...”

उनना कहने हुए उमने डज्वेकोव की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन यह अंतिम कदम भग्ने की शक्ति उममें न रही थी। वह कुर्मी की पीठ पकड़कर बैठना चाहती थी, पर मानो अपनी गियिल गति को ही

जारी रखते हुए वह भुकी और गिर पड़ी। नहीं यह गिरना नहीं था— लीज्जा घुटनों पर टिक गई और ऐसे ही खड़ी हो गई, जैसे कि किरील के सामने अपने भारी पड़ गये हाथ उठाकर घुटने ही टेकना चाहती थी।

किरील ने भट से उसके आगे बढ़े हाथ पकड़ लिये और वेरा निकान्द्रोव्ना भी लीज्जा को उठाने लपकी। परन्तु इसी क्षण कमरे में एक नया सहमा सा स्वर गूंजा, जिसकी किसी को आशा न थी:

“क्या हुआ? क्या हुआ?”

सबकी नज़रें दरवाज़े की ओर धूमीं, जो लीज्जा के आने के वक्त से ही अधबुला था।

आनोच्का चौखट पर हाथ टिकाये ड्योड़ी में खड़ी थी—आगे को भुकी हुई मानो दौड़ते-दौड़ते उसने मुश्किल से अपने आप को रोका हो।

किरील ने तुरन्त ही उठ खड़ी हुई लीज्जा के हाथ छोड़ दिये और आनोच्का की ओर बढ़ा।

लेकिन वह उसके बगल से निकलती हुई वेरा निकान्द्रोव्ना के पास गई, जल्दी-जल्दी कई बार उसके गाल चूमे, अपनी फटी-फटी आंखों से लीज्जा की ओर देखा, उससे नमस्ते की और तब कहीं किरील की ओर मुड़ी।

“आप आ गये?” उसने पूछा और फिर से अपनी फटी-फटी आंखें लीज्जा की ओर मोड़ीं। “वीत्या ने पाल्लिक को मेरकूरी अव्वेदेविच के बारे में बताया है। मुझे सब पता है,” सहानुभूति और बाल-सुलभ भय के आवेग में वह बोली। “आपको अभी कुछ और पता नहीं चला? आप घवराइये नहीं, मुझे विश्वास है कि डरने की कोई बात नहीं। वस अच्छी तरह कोशिश करनी चाहिए।” वह फिर से किरील की ओर मुड़ी: “किरील निकोलायेविच, आप तो शायद सब कुछ करने का वायदा कर चुके हैं; है न?”

किरील ने शब्द चुन-चुनकर साफ़-साफ़ कहा:

“मैं येलिज्जावेता मेरकूर्येव्ना से वायदा करता हूँ यह पता लगाने की कोशिश करूँगा कि उनके पिता पर क्या आरोप लगाया गया है।”

“और जहां तक हो सकता है मदद करेंगे?” आनोच्का ने ऐसे लहजे में पूछा, जैसे इसमें संदेह की कोई गुंजायश न हो।

“और अगर सम्भव हुआ तो मदद करूँगा,” किरील ने भी उसी लहजे में कहा।

लीजा उन दोनों की ओर देख रही थी और कुछ समझ नहीं पा रही थी। उन अल्प कटु क्षणों में पहली बार वह यह देख रही थी कि किरील में कोई दो अलग-अलग व्यक्तित्व नहीं हैं (जैसा कि उसे लग रहा था), बल्कि वह अविस्मरणीय किशोर किरील और उसके लिए अवोध , नया डज्वेकोव दोनों रूप एक ही में मिले हुए हैं। साथ ही उमने आनोच्का की आंखें भी देखीं , जिनमें केवल उदारहृदय सहानुभूति और वालमूलभ भय ही नहीं , एक सुखद हर्ष की भी चमक थी।

लीजा महसा सीधी खड़ी हो गई।

“मैं चलती हूं। माफ़ कीजिये।”

किन्नी की ओर भी देखे विना उसने सिर झुकाया।

“अकेली ? मैं आपको छोड़ आती हूं।” आनोच्का बोली।

“नहीं, रहने दीजिये। मुझे जल्दी है।”

“मैं आपको अकेले नहीं जाने दूँगी,” वेरा निकान्द्रोव्ना बीच में बोली। “आप अभी शांत नहीं हुई हैं। मैं ट्राम तक छोड़ आती हूं।”

लीजा हठभरे कदमों से दरवाजे की ओर चली, पर वेरा निकान्द्रोव्ना लपककर उमके पास पहुंच गई, उसकी बांह में बांह डाली और दोनों बाहर चली गई।

किरील कुछ असमंजस और मानो विस्मय के साथ मुस्कराया। आनोच्का ने कहा :

“लीजा बहुत बदल गई है ...”

“हां।”

“तरम आता है न उम पर ?”

“बहुत।”

किन्नी दूसरे प्रश्नों की प्रतीक्षा में वह हिले-डुले विना उसके सामने बैठा था। आनोच्का ने अपनी झुकी-झुकी भौंहों तले से उसकी ओर देखा।

“मैंने आने ही आपके पास जाने की सोची थी,” किरील बोला, वह मानो उमकी महानुभूति पाना चाहता था।

आनोच्का टकटकी लगाये उसे देखे जा रही थी। वह उसके निकट चला गया।

“आपको सचमुच नहीं पता था कि मैं आ गया ?”

सहसा आनोच्का ने उसकी उंगलियां पकड़ लीं, नारीसुलभ आवेग से उन्हें अपनी छाती पर दबाया और यह महसूस करते हुए कि कैसे उसके कोमल स्पर्श से किरील की उंगलियों का रुखापन कम पड़ रहा है, हौले से बोली :

“खूब पता था कि आ गये हो ! तभी तो दौड़ी आई हूं ... ”

किरील ने उसकी छाती पर सिर झुकाया, इन कठिन परीक्षाओं के सप्ताहों में पहली बार उसे अपने अंग-अंग में व्याप्त होती राहत का अनुभव हो रहा था ।

३२

अस्पताल के बार्ड में घुसते ही किरील सहसा ठिका । उसे बताया गया था कि रागोज्जिन के घाव गम्भीर नहीं, लेकिन यहां उसने रागोज्जिन को अजीब ही मुद्रा में लेटे पाया : उसका पलंग दीवार से हटा हुआ था और उनके बीच लगाई गई टेक पर उसकी बाईं बांह शरीर से समकोण पर फैली हुई थी। बांह पर ही नहीं, कंधे, गर्दन और छाती के एक भाग पर भी पट्टियां बंधी हुई थीं ।

रागोज्जिन ने शरीर के पट्टियों में लिपटे भाग को हिलाये-डुलाये बिना दूसरी बांह की कोहनी आसानी से विस्तर पर टिका ली और किरील की ओर हाथ हिलाया व आंख मारी ।

“देखा लंगर डाल लिया हमने ?” वह बोला। “कोई बात नहीं, जल्दी ही उठा लेंगे लंगर। दायां पहलू सही सलामत है।”

उसकी आंखों में स्नेहपूर्ण मुस्कान थी ।

“कुर्सी ले लो। सो, लौट आये ?”

किरील ने हौले से उसकी उंगलियां दबाई और ज़रा दूर बैठ गया, ताकि धायल दोस्त उसे अच्छी तरह देख सके ।

“कब लगी ?” सिर से पट्टियों की ओर इशारा करते हुए किरील ने पूछा ।

“कल एक हफ्ता हो जायेगा। त्सरीत्सिन के पास ।”

“हाँ, मुझे बताया गया है। अब लाना चाहिए था तुम्हारे लिए

कुछ खाने-नीने को, ” किरील कुछ अटपटा सा महसूस करते हुए मुस्क-
गया। “माफ करना, वक्त नहीं था। मैं आज सुबह ही लौटा हूं।”

“छोड़ो, क्या बात करते हो। मेरे लिए खाना आ जाता है,
उमकी पश्चात मत करो।”

“पलम्बन्ग चढ़ा है? ” किरील ने फिर से बांह की ओर इशारा
किया। “हड्डी टूट गई? ”

“अभी तो मैं जवान हूं, जुड़ जायेगी,” रागोजिन ने वैसे ही
मृम्भगने हुए जवाब दिया।

वह अपनी उम्मि विवरण, असहाय स्थिति पर भेंप रहा था। उसके
अलावा किरील के आते ही उसके मन में वह वेचैनी उठने लगी थी,
जो मोर्चे में पीछे हटते समय दिन पर दिन मन में बढ़ती रही थी और
जिसे वह दबाये हुए था। अब चूंकि दोनों एक दूसरे का ध्यान निजी
अनुभवों के प्रश्नों की ओर ही ले जा रहे थे, और उस महत्वपूर्ण बात
पर चुप्पी माध्ये हुए थे, जो उन्हें एक दूसरे से मिलाती थी, इसलिए
रागोजिन को अपनी वेचैनी छिपाये रखने में और अधिक कठिनाई
ही नहीं थी।

यह वेचैनी तब पैदा हुई थी, जब रागोजिन को यह पता चला
था कि न्यगीत्मिन के पास उनकी हार हुई है और विशेष प्रहारक दल ने
भी मोर्चे पर अपनी कार्यवाड़ियां गेक दी हैं। इस वेचैनी के बढ़ने का
कारण यह था कि दूसरे मोर्चों पर घटनाओं की नई-नई जानकारी तो
मिल गई थी, परन्तु यह जान अधूरा था और उन सभी घटनाओं
का कारण समझ में नहीं आता था।

रागोजिन और किरील उज्ज्वलों तथा प्रायः उनके ही स्तर के
मैकड़ों-हजारों दूसरे मोवियत मैनिक जो कुछ हो रहा था उसकी जान-
कारी उन श्रोतों में ही पाते थे, जो उनकी पहुंच में थे, यथा: वे कार्य-
वाड़ियां, जिनमें वे स्वयं भाग लेते थे; समाचारपत्र, जिनमें आवश्यक
जानकारी का एक अंश ही होता था; सभाएं, जिनमें उन समाचारपत्रों
की ही घबराएं पर या केन्द्र के उन निर्देशों पर, जो गोपनीय नहीं थे,
विचार-विमर्श होता था; उच्च कमानों द्वारा तैयार की जा रही और
गोपनीय ग्रन्ति जा रही योजनाओं की अफवाहें। रागोजिन और किरील
नम में जो कुछ बढ़ रहा था उम्मका सामान्य अर्थ तथा जिन छोटी-

छोटी घटनाओं को वे स्वयं देख पाते थे, उनके प्रत्यक्ष कारण समझते थे, ठीक वैसे ही जैसे प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्तर पर था, अपने-अपने ढंग से इन्हें समझता था। परन्तु गृहयुद्ध की समग्र घटना की प्रेरक शक्तियों के कार्य को वे उसके परिणामों में ही देख सकते थे, और इस घटना के दौरान हो रहे परिवर्तनों के प्रमुख कारण उनके लिए तब तक अनजाने ही रहते थे, जब तक कि सब उन्हें न जान जाते।

रागोज्जिन और किरील मानो शत्रु से घिरे नगर की एक सड़क पर लड़ रहे थे और इस सड़क के घरों तथा मोर्चेबन्दी के पीछे वे असंख्य दूसरी सड़कों और मकानों को नहीं देख पाते थे, उन्हें वस इतना पता था कि वहां भी लोग लड़ रहे हैं, और अगर यह अफ़वाह सुनने में आती कि नगर के एक हिस्से में उनकी पराजय हो गई है, तो वे यह न समझ पाते कि वहां पराजय कैसे हो गई, जबकि वे स्वयं तो इस सड़क पर जूझ रहे हैं और जबकि नगर की कमान का यह मत है कि नगर को शत्रु के हवाले नहीं किया जा सकता।

यह जानते हुए भी कि उनका ज्ञान अधूरा है रागोज्जिन और किरील घटनाओं के बारे में अपनी राय इस जान के आधार पर ही तय कर रहे थे और ऐसा करते हुए वे अनचाहे ही एक काल्पनिक वास्तविकता बना लेते थे, जो सच्ची वास्तविकता से कभी आगे होती और कभी पीछे।

उद्भाहरण के लिए जिस दिन किरील रागोज्जिन से मिलने अस्पताल गया, उस दिन उसके दिमाग में यही सवाल धूम रहा था कि क्या मिरोनोव वोरोनेज से मोर्चे की ओर पीछे हट रही मामोन्तोव की कोर से मिल पायेगा या नहीं, जबकि इससे एक दिन पहले मिरोनोव की बच्ची-खुच्ची टुकड़ियों को बलाशोव ज़िले में घेर लिया गया था और स्वयं मिरोनोव को गोरोदोविकोव की कैवेलरी डिविज़न ने बंदी बना लिया था। यह डिविज़न वुद्योन्नी की कोर का ही अंश थी। इसी तरह भेंट के दिन भी किरील और रागोज्जिन दक्षिणी मोर्चे की आगामी नयी घटनाओं पर ही सबसे अधिक चिंतित हो रहे थे और इन घटनाओं पर विचार उस स्थिति के आधार पर ही कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप लाल सेना अगस्त में इस मोर्चे पर जवाबी हमला शुरू कर सकी थी।

उधर वास्तविकता यह थी कि सितम्बर के मध्य के इस दिन तक दक्षिणी मोर्चे पर स्थिति में आमूल परिवर्तन आ चुका था।

अगस्त में दक्षिणी मोर्चे की कमान और सर्वोच्च कमान की योजना के अनुसार जो जवाबी हमला शुरू किया गया था वह पूरी तरह से विफल रहा था। सेनाओं का विशेष प्रहारक दल दोन के इलाके की सीमाओं तक जा पहुंचा था, वायें पाश्व में त्सरीत्सिन के पास उसकी हार हुई थी और अब दोन के सफेद गाड़ी कज्जाक संगठित होकर उसका सामना कर रहे थे, किसी भी कीमत पर वे लाल सेना को दोन इलाके में आगे बढ़ने से रोकने पर उतारु थे। सहायक सेना दल, जो प्रहारक दल से दाई ओर के मोर्चे पर कार्यरत था, पहले ही पराजित हो चुका था और सफेद गाड़ों ने उसे उस स्थान से भी पीछे धकेल दिया था, जहां से अगस्त के मध्य में इस दल ने हमला आरम्भ किया था। इस बीच देनीकिन की बालंटियर सेना ने उत्तर की ओर, कूर्स्क-ओर्योल और वोरोनेज की केंद्रीय दिशा में प्रहार करने के लिए अपने प्रमुख मैनिक दल जमा कर लिये थे।

रागोजिन और किरील देनीकिन के 'मास्को' निर्देश (मास्को की ओर बढ़ने की उसकी जुलाई की योजना) से परिचित थे, और वे सफेद गाड़ों की सम्भाव्य कार्रवाइयों का अनुमान अपने इस ज्ञान के आधार पर लगा रहे थे।

परन्तु सितम्बर में मास्को पर हमला करने की देनीकिन की योजना जुलाई की योजना से प्रायः पूर्णतया भिन्न थी। 'मास्को' निर्देश के अनुसार देनीकिन की सभी सेनाओं को एकसाथ चार दिशाओं में गजधानी की ओर बढ़ना था, इनमें से तीन दिशाएं कज्जाक सेनाओं को माँपी गई थीं और एक बालंटियर सेना को। सितम्बर में देनीकिन ने जो योजना अपनाई उसके अनुसार हमला मुख्यतः बालंटियर सेना को केंद्रीय दिशा में करना था और छुरो की बालंटियर कैवेलरी तथा मामोलोव के दोन रिमाले को उसका समर्थन करना था। कज्जाक मेनाओं को देनीकिन ने दोन के इलाके की सीमाओं की रक्षा का ही काम माँपा था, कज्जाकों के इलाके से बाहर उन्हें अधिक नहीं बढ़ना था।

देनीकिन ने यह योजना इस बात को ध्यान में रखकर बनाई थी

कि कज्जाक सेनाएं अपनी सीमाओं से बाहर लड़ने में खास उत्साह नहीं दिखाती थीं, पर अपने कज्जाक इलाकों की रक्षा के लिए जी-जान से लड़ती थीं, इस उम्मीद में कि इन इलाकों में प्रतिक्रांतिकारी “स्वायत्त” सत्ता स्थापित हो जायेगी, जिसके सफेद गार्डी कज्जाक सपने देखते थे। देनीकिन ने कज्जाकों को प्रतिरक्षा का कार्यभार सौंपा, जिसे वे सफलतापूर्वक निभाते थे, और आक्रमण का कार्यभार वालंटियर सेना पर डाला, जिसके अफसर रूसी राजतंत्र की पुनःस्थापना के लिए राजधानी पहुंचने को उतावले थे।

रागोज़िन और किरील न देनीकिन की यह योजना ही जानते थे और न ही लाल सेना के दक्षिणी मोर्चे की कमान की गलतियां।

वे यह भी नहीं जान सकते थे कि कूर्स्क की ओर देनीकिन का अभियान आरम्भ होने से चार दिन पहले ही जनतंत्र की क्रांतिकारी सैनिक परिषद ने सर्वोच्च कमान की वह रिपोर्ट स्वीकार और अभिपुष्ट की थी, जिसमें कहा गया था कि “कूर्स्क-वोरोनेज की दिशा पहले भी प्रमुख दिशा नहीं थी और अब भी नहीं बनी है”, कि “हमारे बायें पार्श्व (अर्थात् दोन स्तेपियों) के स्थान पर कूर्स्क-वोरोनेज की दिशा को प्रमुख रणक्षेत्र मान लेने का अर्थ होगा अभी-अभी शत्रु के हाथ से छीनी गई पहलकदमी को छोड़ देना तथा हमारी कार्रवाइयों को शत्रु की इच्छा के अनुरूप बनाना”。उन्हें यह भी नहीं पता था कि इस रिपोर्ट की अभिपुष्टि के फलस्वरूप जिस क्षण वालंटियर सेना कूर्स्क की दिशा में हमला करने को तैयार हो गई थी, उसी क्षण सर्वोच्च कमान ने दक्षिणी मोर्चे की कमान को यह निर्देश भेजा था कि “दक्षिणी मोर्चे के हमले की मूल योजना में कोई परिवर्तन नहीं आया है: विशेष दल को ही प्रमुख प्रहार करना है... जिसका उद्देश्य है दोन और कुवान इलाकों से शत्रु का सफाया करना”।

सर्वोच्च कमान के इस निर्देश और देनीकिन की योजना से अनभिज्ञ होने के कारण रागोज़िन और किरील यह सोच तक न सकते थे कि एक बार फिर दोन इलाके को पार करके कुवान पर हमला करने पर जोर देते हुए सर्वोच्च कमान “हमारी कार्रवाइयों को शत्रु की इच्छा के अनुरूप” ही बना रही थी, क्योंकि शत्रु तो यहां कज्जाकों की प्रतिरक्षा क्षमता की ओर से निश्चिंत था। रागोज़िन और किरील तो

बम यहाँ नाहने थे कि लाल सेना का जो सफल अभियान रुक गया है, वह फिर मेरुदूर हो जाये और सफेद गाड़ों को जल्दी से जल्दी हग दिया जाये।

लेकिन वे दोनों यह जानते थे कि उनकी भेंट के दिन तक, अर्थात् भिन्नम्बन के मध्य तक त्यगीत्प्रिय में हार के बाद उस दिशा में सैनिक कार्यवाड़ा रुक गई थीं, और वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि अगम्त मेरव कुछ इतनी अच्छी तरह आरम्भ हुआ था। वे यह भी जानते थे कि दूर साइबेरिया में एडमिरल कोल्चाक की सेना को पहले तो खदेड़ दिया गया था, वह पीछे हट रही थी, पर फिर पेट्रोपाव्लोव्स्क के पास कोल्चाक ने जवाबी हमला किया था, जिसमें पूर्वी मोर्चे की एक मोर्चियत सेना को तोबोल नदी के पार कोई डेव भी मील पीछे हटना पड़ा था – इसका कारण भी उनकी समझ में वाहर था। अनतः, एक और घटना थी, जिसके बारे में वे सुन चुके थे और जो मध्यमे घटरनाक थी: दक्षिणी मोर्चे के केन्द्रीय भाग पर दो मोर्चियत सेनाओं के संधि-स्थल पर देनीकिन की वालंटियर सेना ने जोगदार प्रहार करके मोर्चियत मोर्चे में दरार डाल दी थी और इस दग्गर को तेजी से फैलाते हुए यह सेना कूर्स्क की ओर बढ़ रही थी।

यह सारी जानकारी पाने के साथ-साथ रागोजिन की बेचैनी भी बहुती गई थी। लेकिन वह उसे मन के एक कोने में दबाये हुए था। अब वह यह देख रहा था कि इखेकोव उसकी मनोस्थिति समझ रहा है और स्वयं उसके मन में भी ऐसी ही बेचैनी छिपी हुई है। दोनों को ही यह अहमास हो रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है और दोनों उसकी चर्चा किये विना नहीं रह सकते थे, लेकिन साथ ही कोई भी पहले यह चर्चा छेड़ने का माहम नहीं कर पा रहा था। संकट को अभी तक सकट नहीं माना गया था। सेनाओं और डिविजनों की कमानें दक्षिण मोर्चे की कमान की हां में हां मिला रही थीं, और मोर्चे की कमान मर्वोच्च कमान की महमति में संकट को छोटी-मोटी अप्रिय घटनाएँ ही बता रही थीं। यही कारण था कि रागोजिन और किरील के निए संकट कोई प्रत्यक्ष बात नहीं हो सकती थी, उन्हें इसकी आशंका नहीं थी, और यह प्रतीक्षा थी कि किसी घटना में या किसी दूरदर्शी, प्रवृत्त घटना के हम्मेसे मेरव प्रकट हो जायेगा।

परन्तु बाद में भी जब पतभड़ की एक के बाद एक घटनाओं से लाल सेना के दक्षिणी मोर्चे के लिए घोर अनर्थ का विल्कुल स्पष्ट खतरा पैदा हो गया, और फिर इन्हीं घटनाओं में ऐसा मोड़ आया कि देनीकिन की पूर्ण पराजय हुई, तब भी रागोज्जिन और किरील इन घटनाओं पर विचार करते हुए पूरी तरह यह नहीं जानते थे कि किन कारणों से पहले दक्षिणी मोर्चा अनर्थ के गर्त पर जा पहुंचा था और फिर सर्वनाश से बचकर विजय के मार्ग पर अग्रसर हुआ।

इतिहास ने ही इन कारणों को पूरी तरह उजागर किया, और इतिहास से जो तथ्य प्रकाश में आये, उनमें एक तथ्य ऐसा था, जिसने दक्षिण में गृहयुद्ध की दशा बदलने में पहली प्रेरक शक्ति का काम किया।

उस दिन, जब रागोज्जिन और किरील दक्षिणी मोर्चे की बुरी स्थिति के बारे में अपनी आशंकाएं व्यक्त करने का साहस नहीं कर पा रहे थे, जब देनीकिन मोर्चा तोड़कर तेजी से कूर्स्क की ओर बढ़ रहा था, जब लाल सेना की सर्वोच्च कमान प्रहारक दल के जवाबी हमले को रोकने की विवशता को “योजना के पहले चरण की पूर्ति”, सहायक दल की चाल की विफलता को “अभियान में आई मामूली रुकावट” तथा मामोन्तोव के विनाशकारी धावे को शत्रु की “नाममात्र सफलता” बता रहा था—

उसी दिन लेनिन ने एक पत्र लिखा, जो लाल सेना की सामरिक पराजयों के दोषियों के लिए अभियोग पत्र था।

यह पत्र जनतंत्र की क्रांतिकारी सैनिक परिषद के एक सदस्य के नाम लिखा गया था, जो दक्षिणी मोर्चे की क्रांतिकारी सैनिक परिषद का भी सदस्य था।

लेनिन ने लिखा था:

“... आश्वासन देते जाना बुरी कार्यनीति है। यह ‘आश्वासनों का खेल’ बन जाता है।

“वास्तव में हमारी सैनिक कार्रवाइयां रुकी पड़ी हैं, यह प्रायः विफलता ही है...

“... मामोन्तोव के खिलाफ़ हम निष्क्रिय हैं। प्रत्यक्षतः, एक के बाद एक मामले में हम देर कर रहे हैं। उत्तर से वोरोनेज जा रही

टुकड़ियां देर से पहुंचीं। २१वीं डिविजन को दक्षिण भेजने में हमने देर की। वस्तरवंद गाड़ियों के मामले में देर की। संचार के प्रवन्ध में देर की। सर्वोच्च कमांडर अकेले ओर्योल गये थे, या आपके साथ-काम नहीं किया। सेलिवाचेव* के साथ सम्पर्क स्थापित नहीं किया, उस पर नजर रखने का प्रवन्ध नहीं किया, हालांकि केन्द्रीय समिति बहुत पहले से, सीधे-सीधे इसका निर्देश दे चुकी है।

“नतीजा यह है कि मामोन्तोव के खिलाफ़ हम निप्किय हैं, सेलिवाचेव निप्किय है (बजाय उन वचकाना तस्वीरों में दिखाई गई किसी भी दिन होनेवाली विजय के—याद है आपने मुझे वे तस्वीरें दिखाई थीं? और मैंने कहा था: दुश्मन को तो भूल गये!!)।

“अगर सेलिवाचेव भाग गया या उसके डिविजन कमांडरों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, तो इसका दोप जनतंत्र की क्रांतिकारी सैनिक परिपद के सिर होगा, क्योंकि परिपद सो रही थी और आश्वासन दे रही थी, काम कुछ नहीं कर रही थी। हमें सबसे अच्छे, सबसे उत्साही कमियारों को दक्षिणी मोर्चे पर भेजना चाहिए, न कि उनींदों को।

“नई टुकड़ियां गठित करने में भी हम देर कर रहे हैं—पतझड़ बीत रहा है। उधर देनीकिन अपनी गतित तिगुनी बढ़ा लेगा, टैक वर्गरह हासिल कर लेगा। ऐसे काम नहीं चल सकता। कछुआ चाल छोड़कर फुर्ती से काम करना चाहिए।

“... प्रत्यक्षतया, हमारी परिपद ‘आदेश देती’ ही है, उनके पालन पर नजर रखने में दिलचस्पी नहीं लेती, या उसे यह आता ही नहीं। अगर यह हमारी आम बुराई है, तो सैनिक मामलों में इसका अर्थ पूर्ण पराजय ही है।”

पग्नु लेनिन के इस पत्र के बाद भी (जिस दिन यह भेजा गया, उसके नीन दिन बाद) सर्वोच्च कमांडर दोन की दिशा में कार्यवाड़ियों के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा था, उसने विशेष प्रहारक दल को

* सेलिवाचेव: उम मेना दल का कमांडर, जिसे अगस्त में दक्षिणी मोर्चे पर जवाही हमले में सहायक प्रहार करने का काम सौंपा गया था; कान्ति में पहले जार्याही मेना में कर्नल था।—सं०

यह आदेश भेजा था कि वह “तेज़ चाल” चलके अपने दायें बाजू की सेनाओं को दोन के तट तक बढ़ाये।

इसके भी तीन दिन बाद जब कूर्स्क भी हाथ से निकल चुका था, तब कहीं जाकर लेनिन के नये हस्तक्षेप के फलस्वरूप खतरे में पड़ गये ओर्योल क्षेत्र में रिज़र्व टुकड़ियां भेजी गईं। वैसे अभी इसका अर्थ यह नहीं था कि सर्वोच्च कमांडर ने दोन की स्तेपियों में बचाव पाने की अपनी ढिठाई छोड़ दी थी...

रागोज़िन अपनी मूँछों पर ताव देते हुए भिंची-भिंची आंखों से इज्वेकोव की ओर देख रहा था और यह इंतजार कर रहा था कि कब वह सबसे महत्वपूर्ण बात की चर्चा छेड़ता है। इज्वेकोव सोच रहा था कि रागोज़िन इस बात की चर्चा छेड़े।

पट्टियों को सीकर बनाया गया कामचलाऊ पर्दा खिड़की पर हिल रहा था। बाईं में उड़ आया भौंरा गुस्से में शीशे पर भिनभिना रहा था। दरवाजे के बाहर से नर्सों के स्लीपरों की आहट आ रही थी।

लगभग तीन महीने पहले जब यहां स्वास्थ्य लाभ गृह था और किरील दीविच से मिलने आया था, तो इस विशाल इमारत की मन पर विल्कुल दूसरी ही छाप पड़ती थी। तब यहां बातावरण हर्षमय था, मानो यह बचन देता हुआ कि शीघ्र ही सब कुछ बहुत अच्छा हो जायेगा। अब यहां फ़ौजी अस्पताल था, बातावरण में आकुलता थी और इसकी खामोशी यह कहती लगती थी कि यहां लोग कष्ट सह रहे हैं, सो यहां फूंक-फूंककर कदम रखना चाहिए।

“तुम नाराज़ मत होना,” किरील बोला, “मैं तुम्हारे बेटे का पता नहीं लगा सका। बक्त नहीं था। जब तक तुम यहां लेटे हो, मैं यह काम कर दूँगा।”

“हां, हां,” रागोज़िन फिर से मुस्कराया और उसने अपनी भिंची आंख से चालाकी भरी नज़र छत की ओर डाली। “ठहरो जरा... जरा... ठहरो... अभी दिली बातों का बक्त नहीं। लोगों को अपने बच्चों तक की सुध-बुध लेने की फुरसत नहीं, परायों की तो बात ही क्या। हो जायेगा !”

“मैं ज़रूर पता लगा दूँगा, इन्कार नहीं कर रहा,” सहसा इज्वेकोव ने उतावली से कहा।

“अरे, बुग मन मानो! मुझे पता है तुम्हारा भी वड़ा मुश्किल चल गृजग है। अपने अभियान के बारे में ही कुछ बता देते।”

“तुम जूविन्स्की को जानते थे?”

“कौन जूविन्स्की?”

किरील ने उसे जूविन्स्की की टोड-फोड़ की बात सुनाई।

“युक मनाओ कि उसने तुम्हारी पीठ में गोली नहीं दागी।”

“मैंने उमकी ओर पीठ कभी नहीं मोड़ी।”

“ठीक किया। हमारी कई मुसीबतों का कारण ही यह है कि हम इन भूतपूर्व अफसरों की ओर पीठ कर लेते हैं, जिन्हें हमने अपने कौजी विशेषज्ञ बना रखा है... हो सकता है हमारे नगर का फौजी कमियार भी इन्हीं विशेषज्ञों में से हो?”

“पता नहीं।”

“जांच लेना चाहिए। उसने जूविन्स्की को ही तुम्हारे साथ क्यों किया? शायद कोई दूर का डरादा रहा हो, हैं?.. दक्षिण के बारे में तुम्हारा क्या स्म्यान है?” सहसा रागोजिन ने पूछा।

“कैसा दक्षिण?” किरील जैसे समझा नहीं।

“कूर्म्क के पास। लगता है मामोन्तोव से कुछ सबक नहीं सीधा, हैं? उन्होंने एक बार कोशिश की—सफल रहे। सोचते हैं, फिर से क्यों न कर-देन्हा जाये?.. मैं सफेद गाड़ों की बात कर रहा हूं, सफेद गाड़ों की, हैं?”

“कहीं मामोन्तोव के धावे से भी ज्यादा बुरी हालत न हो।”

“और मैं क्या कह रहा हूं? मेरे फौजी विशेषज्ञ महोदय दरवाजे घोल देंगे—आड़ये पथारिये!—और फिर तुम भुगतते फिरो!”

“मारी बान विशेषज्ञों की ही थोड़े हैं। और वे भी सब एक जैसे नहीं हैं। दीविच को लो... मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया उसके बारे में? मेरी कम्पनी का कमांडर था...”

“मार गया क्या?”

“हाँ। बार-बार उसका स्म्यान आता है।”

पन भर को किरील अपने विचारों में खो गया, फिर—मानो उस व्यक्ति के माथ नय किये रास्ते का मूल्यांकन करने का ममय ‘आ गया हो—उसके माथ हृद मभी भेटों को याद करने लगा, पगड़ंडी

पर मैपल के भुरमुट तले आखिरी भेंट तक, जब दीविच अपने साथी की हताश नज़र का जवाब नहीं दे सकता था।

रागोजिन इस दुखद कहानी के बीच में एक बार भी नहीं बोला, वस अंत में अपने गंजे सिर पर कसकर हाथ फेरते हुए उसने कहा:

“ठीक बात है, दोस्त! अच्छे आदमी के लिए ज़रूर दुख होता है।”

“सिर्फ दुखी होने से क्या होता है!” किरील सहसा चिल्लाया। “उसके लिए कुछ जवाब भी देना चाहिए कि नहीं?”

“जवाब?” रागोजिन ने पूछा और कुछ देर चुप रहा। “जवाब भी देना ही चाहिए... यह बात है, भाई मेरे। हाँ, जवाब देना चाहिए। जब ऐसा हुआ तो ज़रूर कोई जवाबदेह होना चाहिए।”

किरील के चेहरे पर दुख भरी मुस्कान आई।

“पर कैसे? पश्चाताप करके? पश्चाताप से जवाब दिया जाये या और कैसे?”

“अपने मन में पश्चाताप करना तो सराहनीय बात है। क्यों नहीं? आत्मसुधार के लिए पश्चाताप बहुत अच्छी बात है। पर जहाँ तक उत्तरदायित्व की, जवाबदेह होने की बात है... अपने मन में पश्चाताप काफ़ी नहीं।”

“मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि जवाबदेह होने का क्या मतलब है?” किरील ने कुछ भुंभलाते हुए कहा।

“इसका मतलब है कि कोई तुमसे जवाब-तलबी करे। समझेन, कोई तुमसे उत्तर मांगे कि बताओ क्यों, कैसे, हमारा सच्चा साथी मारा गया... तुम अपने अभियान की रिपोर्ट दोगे न, तो वस उसमें ही इस बात का जवाब देना।”

“सो तुम्हारे ख्याल में मेरे सिर पर इसका दोष है?” इज्वेकोव ने पूछा और बड़ी उत्सुकता से टकटकी लगाकर रागोजिन का चेहरा देखने लगा।

“तुम खुद क्या सोचते हो?”

किरील ने चुपचाप सिर हिलाया।

“फौजी नियमों को देखा जाये, तो शायद दीविच का ही दोष ज्यादा है,” रागोजिन कहता गया। “अभियान के बीच में वह कम्पनी

फाड़कर कैसे जा सकता था ? आखिर वह कमांडर था , है न ? नियमों के अनुसार वही जवाबदेह है। पर मेरे हुओं से क्या जवाब पाया जा सकता है। उमने तो अपने किये का फल भुगत लिया , पर तुम खुदाखलासा , जिदा हो। गया तो दीविच तुम्हारी सहमति से ही था , है न ? और कमिशार होने के नाते तुम भी कमांडर हो। सो भई , यह बात निकलती है दिमाग में सोचो तो चुप रहा जा सकता है , पर दिल की बात करो , तो कहना चाहिए ... ”

“ युक्तिया , मैं भी यही सोच रहा था , ” किरील जल्दी से बोला , वह दिमाग पर बोझ बने विचार से छुटकारा पा लेना चाहता था। “ एक और मवाल है। या यह कहो कि प्रार्थना है ... ”

लेकिन जल्दी-जल्दी बोलना युक्त करके भी वह तुरन्त ही रुक गया . क्योंकि जैसे ही उमने स्पष्टतया यह देखा कि क्या कहना चाहता है , तभी ममझ गया कि मामला कितना टेढ़ा है। जबरदस्ती ही वह मुह पर मुस्कान लाया ।

“ तो फिर तुम्हें एक और किस्सा मुनना होगा । परेशान तो नहीं कर दिया मैंने तुम्हें ? बस दो शब्दों में बताता हूं । ”

किरील ने मेझकोव की बात युक्त की ही थी कि रागोजिन वेचैनी में मिर्हाने पर मिर हिलाने लगा , उसके जिन अंगों पर पट्टियाँ नहीं वधी हुई थीं , वे भी मव चादर तले हिलने-डुलने लगे , जिससे यह माफ दिखने लगा कि उसकी काठी कितनी बड़ी है और उसे यों विस्तर पर नेटने में कितनी तकलीफ हो रही है। मेझकोव के सोने की बात वह अन तक नहीं सुन पाया :

“ ओफ टुच्चा व्यापारी ! धोखा दे गया ! कितना सीधा-सादा बनना था ! कहता था , चाहो तो मेंग गदा फाड़कर देख लो – एक भी सोने का मिक्का नहीं है ! उसका मिरहाना फाड़कर देखना चाहिए था , है ? ! मुझे चकमा दे गया , धूर्त मियार ! और मव बड़ा भोला-भाला बनकर ! बनाओ , ऐसे आदमी का कोई क्या करे , है ? ”

रागोजिन अपना गुम्मा गेक ही नहीं पा रहा था – रह-रहकर मिर्हाने में मिर उठाता और फिर गिंग देता !

“ उसका माग सोना जब करके हम सरानोव ने आये हैं , ” किरील ने कहा , “ और युद मेझकोव बजरे पर है ! ”

“वही ठीक जगह है उसके लिए।”

“हाँ, अगर अदालत यह जगह उसके लिए ठीक समझेगी तो। पर जब तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ... मैं तुमसे सलाह लेना चाहता था। मेश्कोव की बेटी मेरे पास आई थी, कह रही थी कि बूढ़े की कुछ मदद हो सके तो...”

किरील चुप हो गया। रागोजिन ने हिलना-डुलना बंद कर दिया और इज्वेकोव पर तिरछी नज़र डाली, जैसे उसे आर-पार देख रहा हो।

“परोपकारी बनना चाहते हो?” थोड़ी देर चुप रहकर उसने कहा।

“यही लगता है।” किरील ने हँसते हुए सिर झटका।

“और क्या? गलत कहा क्या मैंने? मैंने तुम्हारे इस संत पर भरोसा किया और वह मेरी आंखों में धूल झोक गया। मैं ही उल्लू बना। तुम उसे गड्ढे में से निकालना चाहते हो, और वह सोच रहा होगा कि कैसे तुम्हें उसमें धकेल दे।”

“पर वह गड्ढे में भी तो मेरे जतन से ही पहुंचा है, है कि नहीं?”

“खुद ही उसे बंद किया, खुद ही तरस खा रहे हो...”

“मुझे कोई तरस-वरस नहीं। उसे अपने किये की सजा मिलेगी। पर मैं चाहता हूँ वह न कम हो, न ज्यादा।”

“डरते हो कि ज़रूरत से ज्यादा सख्ती न हो जाये? चाहते हो कोई वादशाह सुलेमान न्याय करे? तुम खुद न्याय करो। दीविच के लिए जवाब देने को तैयार हो न, मेश्कोव की भी जवाबदेही संभालो।”

“मैं अपना काम कर चुका हूँ।”

“तो अब किसका करना चाहते हो?”

किरील ने कंधे विचका दिये। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था, पर रागोजिन की बातों से भी वह सहमत नहीं हो पा रहा था।

“तुम समझे नहीं। मेश्कोव को छुड़ाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैंने उसकी बेटी को यह पता लगाने का वायदा किया है कि मामले की स्थिति क्या है और बूढ़े का क्या हाल है।”

“बेटी के लिए दुखी हो?”

“वह अपने बाप के लिए दुखी हो रही है।”

“तुम्हारी वह क्या लगती है?”

“नो . तुम भी यह बात ले बैठे !” किरील ने झल्लाकर मुँह मोड़ निया और किंग कुछ ऐसे लहजे में जैसे यह निष्फल बातचीत यन्म करना चाहता हो . वह हठपूर्वक ही इतना और जोड़ा : “तुम यह बताओ कि किसमें इस मामले में पूछताछ की जा सकती है , तुम नो मुझमें ज्यादा अच्छी तरह जानते हों।”

“जो तुम्हारे जी में आये करो। मैं तुम्हारा गुरु नहीं , और धोखे-बाजों की मदद नहीं करना चाहता।”

“नहीं , गुरु नो हो , जभी तो मुझे बच्चों की तरह सवक सिखा रहे हो। मैं भेड़कोव की क्या मदद करने चला हूँ? क्या मैं इतना भी नहीं ममझता कि उसके इरादे भले ही बुरे न हों , पर वह अपनी प्रश्निं में ही हमारा दुष्प्रभाव है ?”

“किननी घुणी होनी है अकलमंदी की बात सुनकर !”

किरील ने गगोजिन की ओर देखा। उसकी उलझी-उलझी मूँछों तले व्यन्धपूर्ण मुस्कान थी। पर नहीं , इस मुस्कान में व्यंग्य नहीं था , यह नो अजीव मंकोचपूर्ण स्नेह और चालाकी भरी मुस्कान थी , जैसी किरील ने गगोजिन के चेहरे पर पहले कभी भी नहीं देखी थी। मानो गगोजिन को यों चालाकी से मुस्कराते हुए शर्म आ रही हो , पर साथ ही बेहद अच्छा भी लग रहा हो।

“लो मेंग द्वाना आ गया ,” मुस्कान जैसी ही विचित्र आवाज में उसने कहा और मीधे सामने देखते हुए सिरहाने पर उठने की कोशिश करने लगा।

किरील ने उसकी नज़र के पीछे-पीछे आंखें घुमाई।

एक लड़का वार्ड में घुम रहा था - लंबी-नंबी टांगें , छरहरा बदन , ऊंचा माथा और भौंहों के मिरे कनपटियों की ओर उठे हुए। उसकी उभरी-उभरी आंखों में कौतूहल और चिंता का जो भाव चमक रहा था , उसके मारे गर्गेर में टपकती लापरवाही के साथ उसका कोई मेल नहीं बैठ रहा था। वह अभी बच्चा ही था , पर उसमें किशोरों जैसी बेटवी भी आ चकी थी। महसा किरील को उसकी लंबी-नंबी टांगों और वांहों का यह बेटवपन अन्यंत परिचिन मा लगा।

“टोकरी कोने में रख दो ,” गगोजिन ने कहा , “और किरील निकोनायेविच डूँवेकोव में मिलो।”

“रागोज्जिन,” लड़के ने कहा, और सिर भुकाने के बजाय चुनौती के साथ ऊपर उठा लिया तथा अपना हाथ बहुत आगे बढ़ा दिया।

“वान्या,” पिता ने उसके बदले हौले से कहा।

“अच्छा,” इज्वेकोव ने कहा और फिर से प्योत्र पेत्रोविच की ओर मुड़ा। “मिल गया?”

रागोज्जिन की मुस्कान किरील को और भी अधिक अप्रत्याशित लगी। चालाकी भरे स्नेह के साथ उसमें कृपायाचना का सा भाव भी मिल गया था, जैसा बूढ़ी नानी-दादी की मुस्कान में होता है, जो अपने नाती-पोते को देखकर फूले नहीं समाती। यह मुस्कान इस गंजे और सहसा बूढ़े हो गये व्यक्ति के चेहरे पर बड़ी अच्छी लग रही थी, पर साथ ही किरील के मन में कुछ-कुछ रुखे से और व्यंग्यपूर्ण रागोज्जिन की जो तस्वीर थी उसके साथ इसका बिल्कुल मेल नहीं बैठता था। किरील ठहाका मारकर हँसा। प्योत्र पेत्रोविच भी झेंपता हुआ हँसने लगा। वार्ड में उनकी यह उन्मुक्त हँसी गूंजने लगी, वस वान्या ही गम्भीर बना हुआ था और अपने पिता तथा नये पंरिचित की ओर यों देख रहा था, जैसे उसे यह पसन्द न हो।

“बैठो,” चादर तले टांगों को परे खिसकाते हुए और पलंग की पाटी की ओर इशारा करते हुए रागोज्जिन ने कहा। “अब मेरी बारी है सुनाने की, है न?”

“हां, कैसे हुआ यह सब?” इज्वेकोव ने आश्चर्य के साथ पूछा।

“वान्या और मैं एक ही पोत पर फ़िदा हो गये: गनबोट ‘जोखिमी’। याद है मैंने उसकी मरम्मत की थी और यह उस पर नौसैनिकों के साथ लड़ने निकला था...”

रागोज्जिन ने सारी कहानी सुनानी शुरू की, यह कोशिश करते हुए कि ज्यादा लम्बी न खीचे, पर साथ ही उसके दिमाग में वे सब छोटी-छोटी बातें आ रही थीं, जो उसके लिए इतनी प्यारी और इतनी महत्वपूर्ण थीं।

प्योत्र पेत्रोविच की बेटे के साथ मुलाकात अस्पताल के पोत पर हुई थी, ‘अक्तूबर’ गनबोट से उसे अस्पताल के पोत पर लाये जाने के एक दिन बाद, जब धायलों से भरा पोत सरातोव को चल दिया था।

दर्द कुछ कम हो गया था, लेकिन रागोज्जिन को अभी भी यह

नगना था जैसे उसके दिमाग पर घनी धुंध छाई हुई हो, जिसे कभी-कभार ही और वह भी बड़ी मुश्किल से उसके विचार भेद पाते थे। मोनना न केवल कष्टदायी था बल्कि अप्रिय भी, क्योंकि सारे विचार अमफलना की चेतना और उसके कारणों की निष्फल खोज तक ही भीमित रह जाते थे।

जिम दिन गगोजिन घायल हुआ था, उस दिन तक उसने युद्ध का काफी अनुभव पा लिया था और हर समय उसे यह अहसास रहता था कि वह निगर कहीं ऊपर चढ़ता जा रहा है। उसे इस बात का महज बोध था कि उसने एक नया गुण पा लिया है, जिससे अभी तक वह अपरिचित था, लेकिन इसकी व्याख्या करने की या इसे कोई सजा देने की वह कोई कोशिश नहीं कर रहा था। उसकी दूरदृष्टि इन्हीं विकल्पों हो गई थी, जितनी पहले कभी न थी, वह अपनी दुश्मियत से बहुत दूर तक देख सकता था और जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। वह मानो एक गिर्वार पर चढ़ गया था, और इस ऊचाई से वह जनता के हाथों में जो अस्त्र था, उसके प्रहारों को मफ्त बनाने में महज ही महायता कर सकता था।

और ठीक इसी क्षण उसके सब किये-कराये पर पानी फिर गया था, उनके अभियान का अंत यह हुआ था कि उन्हें पीछे हटना पड़ा था, और अब उसे अपने निम्महाय होने की तीव्र कष्टदायी अनुभूति हो रही थी।

उसके विचारों की रुकी-रुकी मिलियता के ऐसे ही एक क्षण में नर्म गगोजिन के पास आई थी और उसने बताया था कि जहाज पर काम कर रहा एक लड़का उससे मिलना चाहता है।

बाद में गगोजिन यह समझा था कि तब उसे बेटे से मिलने का इन्होंने अन्यथा नहीं हुआ था, जितना इस बात का कि जब से 'जोखिमी' के कमियाने ने उसे गनवोट पर आ गये लड़के और उसे तट पर उतारने की बात कही थी, तब से उसे बेटे से इस भेट की पूर्वानुभूति रही थी। नर्म में लड़के की बात मुनक्कर रागोजिन ने तुरन्त ही यह नय किया था कि यह वही लड़का है, जिसे उसने तट पर उतारने के बजाय अस्पताल के पोत पर भेजने का आदेश दिया था। उसे वीकोव नूतोर के पास नावों पर तगड़ूज बेचते लड़के याद हो आये, और

नदी में फटते गोले और चप्पुओं की भयभीत छपछप और नन्हे खेवैयों के लिए मन में उठा डर और अपना गुस्सा तथा यह भी कि इस डर और गुस्से के साथ तब बेटे के लिए मन में उठी टीस मिल गई थी। अब उसे इस बात में ज़रा भी संदेह नहीं था कि वह उससे मिलेगा, क्योंकि अस्पताल के पोत पर काम कर रहा लड़का और कोई नहीं उसका बेटा ही है। इस विश्वास के साथ मस्तिष्क में स्वास्थ्यप्रद रक्त प्रवाह हुआ और वह धुंध छंट गई, जिससे सोचने में कष्ट हो रहा था, दर्द भी कहीं दूर दब गया।

पोत पर बेटे के साथ बातचीत थोड़ी देर के लिए ही हो पाती थी (डाक्टर उसे ज्यादा देर तक धायल के पास रहने की इजाजत नहीं देते थे), लेकिन रागेज़िन इन बातचीतों का एक-एक शब्द न जाने कितनी बार मन ही मन दोहरा चुका था और उनकी लौ उसके मन में अभी तक ज़रा भी धुंधली न पड़ी थी।

“तुम मेरे घर से भाग क्यों गये थे?” बान्या जब केविन में चौखट से सटकर खड़ा हो गया था और गुनाहगार हठी की भाँति सहमी-सहमी, पर साथ ही निडर नज़रों से देख रहा था, तब प्योत्र पेनोविच ने उससे पूछा था।

“अच्छा हुआ कि भाग गया था।”

“अच्छा क्यों?”

“अब आपकी सेवा-टहल कर सकूंगा—मेल नर्स बनकर।”

“ओह, शुक्रिया... पर तुम नर्स कैसे, तुम तो... पता है, तुम मेरे कौन हो?”

“पता है।”

“अच्छा... पता है!”

“मुझे तब घर पर भी पता था।”

“पता था, फिर भी भाग गये!”

“हुं!”

“बस ‘हुं’ ही!”

“और क्या?”

“मैं कह रहा हूं, भागे क्यों थे, जब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा कौन हूं?”

“पता था तो क्या हुआ ?”

“क्या मनलब ?”

“कुछ नहीं।”

“क्या बाप के घर से भी भागा करते हैं ?”

“और नहीं तो क्या !”

“हो मकता है बुरे बाप से कोई भागता हो। पर मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूँ। खुश हूँ कि तुम मिल गये। तुम खुश हो ?”

वान्या ने पीठ पीछे हाथ वांध लिये।

“अगर मुझे बताया गया होता कि आप कमिसार हैं... मैंने पूछा तो पता चला कि हिसाब-किताब का काम करते हैं। जैसे वह हमारे बान्धव का बाबू।”

“हु, बाबू ! बाबू होना भी कोई बुरी बात है क्या ? मैं तुम्हें एक बाबू दिखाऊंगा – आसेंनी रोमानोविच। पता है बच्चे उनकी कितनी डजन करते हैं।”

“अजी हा, वह कोई बाबू थोड़े ही हैं ! मुझे पता है वह कौन है।”

“कौन है वह ?”

“वह तो कलाकार हैं।”

“अच्छा, यह बात है !” गगोजिन मुस्कराया। “हां, ठीक ही कहते हो, वह कलाकार हैं... मैं तुम्हें पढ़ने भेजूंगा, तुम भी कलाकार बन जाओगे।”

वान्या चुप था। गगोजिन वेस्ट्री से उसके जवाब का डंतजार कर रहा था।

“अगर आता नहीं, तो पढ़ो न पढ़ो कुछ फर्क नहीं पड़ता !” आग्रिम वह दृढ़ विष्वाम के साथ बोला।

“पढ़ोगे, तो मीम्ब जाओगे।”

“देखे हैं मैंने ऐसे पढ़ने वाले। पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, किन भी कुछ नहीं आता। और मैंने पेंमिल उठाई और बना दिया !”

“बाहर रे...” गगोजिन बम डतना ही कह पाया था। आठचर्य में भग वह गर्वानि बालक को देखता रहा था।

तब ही गगोजिन को यह अहमास हो रहा था कि उनके सम्बन्ध

वेटे की पढ़ने की इच्छा पर निर्भर होंगे, और अगली भेंट में उसने फिर इसकी चर्चा छेड़ी। उसे लग रहा था कि जिन बातों को वह जीवन में प्रमुख और महत्वपूर्ण मानता है, वे ही बालक के जीवन में भी प्रमुख और महत्वपूर्ण हैं। और यह देखकर परेशान था कि बान्या का दृष्टिकोण बिल्कुल दूसरा ही है।

“अच्छी तरह पढ़लिख लोगे, काम करना सीख लोगे, तो लोगों का हित करोगे,” व्योत्र पेत्रोविच ने उसे समझाते हुए कहा था।

“क्या मतलब ?” बान्या शायद समझा नहीं था।

“कैसे समझाऊं तुम्हें... तुम कभी संग्रहालय गये हो ?”

“हाँ।”

“वहां लगे चित्र तुम्हें पसन्द आये ?”

“हाँ।”

“सो, इस तरह उन कलाकारों ने अपने श्रम से तुम्हारा हित किया। अपने चित्रों से, समझे ?”

बान्या केविन की खुली खिड़की में से व्यानमग्न बाहर देख रहा था। वहां बोल्ना वह रही थी—विशाल स्टीमर के पहियों तले उसके पानी की छपछप सुनाई दे रही थी, पीछे को दौड़ती जाती हरी लहरें दिखाई दे रही थीं, बालुई तटों पर वे सफेद झाग में विखर रही थीं।

“यह हित नहीं है,” बान्या ने जवाब दिया था और उसका चेहरा ऐसा रहस्यमय हो गया था, मानो अकेले उसे ही पता हो कि हित क्या है।

“हित कैसे नहीं है? और क्या है?”

“यह तो... जैसे जलन होती है कि तुमने ये चित्र नहीं बनाये। कि तुम कभी ऐसे चित्र नहीं बना सकोगे।”

“देखा न,” रागोज़िन खुश हो गया था। “इससे तुम्हारे मन में यह इच्छा उठती है कि तुम भी दूसरों की तरह अच्छे चित्र बना सको। ताकि तुम्हारे चित्रों को भी लोग निहारें, जैसे तुम निहारते हो। वस यही उनका हित होगा, और क्या ?”

“वाह, क्या विशापी करते हैं आप भी,” बान्या ने व्यंग्य के साथ कहा था।

“ यह विश्वासी करना क्या होता है ? ”

“ वो मठवासियों की तरह । ”

“ क्या मठवासियों की तरह ? तुम मठवासियों की बातें क्या जानते हो ? ”

“ हम वहाँ आश्रम में विश्वप से शक्कर मांगने जाया करते थे । वह मवको एक-एक उल्ली दे देते और अपनी विश्वासी भाड़ने लगते : जाओ, खेलो, बच्चों, बड़ों-भगवान् नहीं, बड़ों का आदर करो, भगवान् तुम्हारा भला करे ! ”

वान्या ने विश्वप की खूब अच्छी नकल उतारी थी ।

“ और तुम क्या करते थे ? ” रागोजिन ने मुस्कराते हुए पूछा था, हालांकि वह कुछ सकपका गया था ।

“ कुछ नहीं । शक्कर खा लेते, फिर मांगने चले जाते । वह फिर दे देते और फिर मेरे विश्वासी भाड़ने लगते ... और आप तो कमिसार हैं ! ” सहमा बड़ों की भाँति उलाहने के स्वर में वान्या ने कहा था ।

अगली बार रागोजिन ने दूसरे पहलू से बात चलाने की कोशिश की थी ।

“ पढ़ने नहीं जाओगे, तो तुम्हें कागज, पेंसिल कौन देगा ? आखिर तुम चित्र बनाना तो नहीं छोड़ना चाहते ? ”

“ मुझे जब किमी चीज की ज़रूरत होती थी, तो मैं मार लेता था । ” वान्या ने झट मेर जवाब दिया था ।

“ ओहो ... ”

“ और क्या, बैठे देखते रहो, कब तुम्हें देंगे ! ऐसे तो कुछ मिलने मेरहा ! जहाँ मौका लगता मार लेता और वस चित्र बनाने लगता । ”

“ उमेर चोरी कहते हैं, भैया मेरे । समझे, यह बात है ! ”

“ पेंसिलें ? ” वान्या की आंखें फटी की फटी रह गईं ।

“ हाँ पेंसिलें हों या और कुछ, हैं यह चोरी ही ! तुम ये अनाथालय की आदतें छोड़ दो । तुम्हें जो कुछ चाहिये होगा, मैं तुम्हें दूँगा । ”

वान्या ने मुँह लटका लिया था और फिर बुझी-बुझी सी आवाज में बोला था :

“ अगर मान वहूत है, तो चलेगा । ”

पर फिर सहमा भावावेग में अपने पिता से पहली बार उसने अपने-पन के लहजे में कहा था :

“अगर कोई चीज़ न भी हुई तो कोई बात नहीं। आप परेशान मत होना, मैं अपने आप कहीं न कहीं हाथ मार लूंगा।”

बेटे के इस भावावेग से पिता गदगद हो उठा था और भयभीत भी, उसने एकसाथ ही यह देख लिया था कि बच्चे के विचार कितने विगड़े हुए हैं और साथ ही उसमें कितना भोलापन है।

बोला पर बेटे के साथ भेंट के बारे में किरील को बताते हुए रागोजिन को अब फिर से ये सब बातें याद हो आईं।

वान्या पिता के पायताने बैठा था और निर्लिप्त भाव से छत की ओर देख रहा था। आज वह दूसरी बार पिता के लिए खाना लाया था, जो रागोजिन की मालकिन ने बनाया था। वह अच्छी तरह जानता था कि आधा खाना वह बापस ले जायेगा: रागोजिन हठधर्मी के साथ बेटे का ध्यान रख रहा था। बालक यह देख रहा था कि पिता के जीवन में उसने क्या स्थान पा लिया है। उसे यह बड़ों की भावुकता लगती थी, पर वह अपने पर कुछ गर्व के साथ इसे बढ़ावा देता था और पिता का लाइ-प्यार स्वीकार करता था, क्योंकि वह लड़ाई में घायल हुए थे और उन्हें मदद की ज़रूरत थी।

“अब हम दोनों ने तय किया है कि इकट्ठे रहेंगे,” सराहना भरी नज़रों से वान्या की ओर देखते हुए रागोजिन ने कहा। “पता है, किरील, इस सब के बाद मैं किस फ़ैसले पर पहुंचा हूं? यहां लेटे-लेटे सोचने को तो बहुत समय मिलता है। देखो न, हम खुश हैं कि उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि जिस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है, उसका एक अंश ही अगर हम उस सब में ढूँढ सकें, जो हमने पा लिया है, तो हमारी खुशी और भी अधिक हो। समझे मेरी बात?”

“थोड़ी बहुत,” किरील मुस्कराया।

“हां भई, अमूर्त बातें करनी मुझे नहीं आतीं। मैं तो व्यावहारिक रूप से देखता हूं। सो मैं अपने आप से पूछता हूं: क्या हम भविष्य में मानव सम्बन्धों को बदलना चाहते हैं? ज़रूर बदलना चाहते हैं। तो फिर मैं सोचता हूं कि हमें अपने वर्तमान जीवन में ही इन परिवर्तनों के लक्षण ढूँढ़ने चाहिए, ताकि इनमें से कुछ अभी से ही हमारे जीवन का अंग हो जायें। समझे? और कैसे कहूं? यों कहो कि हमें अपने

विचारों को जीते-जाते लोगों में, उनके आपसी सम्बन्धों में उतारना चाहिए। अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देना चाहिए। नहीं तो हम अपने सपनों में ही खो जायेंगे, उदाहरण के लिए कम्युनिस्ट समाज के सपने में, जबकि ऐसा समाज अभी है नहीं। और हम अपने सपने की ही पूजा करने के इतने आदि हो जायेंगे कि लोगों को भूल ही जायेंगे। ठीक है न? सो हमें आज ही इस सपने को साकार करना चाहिए। आज के इन्सान में ही भविष्य का थोड़ा सा अंश हूँढ़ना चाहिए। और इन्सान के माथे ऐसे सम्बन्ध बनाने चाहिए, जैसे कि वह हमारा आदर्श ही हो। है न? और अगर हर कोई ऐसे करेगा, तो हम भविष्य के अपने सपने को अभी ही थोड़ा-थोड़ा साकार करने लगेंगे। वीज बोयेंगे, समझें?"

"ममझ गया। पर यह नुस्खा तो हर आदमी पर लागू नहीं हो सकता। खाम तौर पर अब। याद है, तुम्हीं ने कहा था: जैसा समय हो, वैसी ही नीति होनी चाहिए।"

"और नहीं तो क्या! तुम ऐसा आदमी हूँढ़ो, जिसमें इस भविष्य का कुछ अग्र है, उसके काम में, जनता के लिए उसकी सेवा में या और किसी वात में। और फिर उसकी मदद से सीखो। उसके जरिये अपने विचारों को व्यावहारिक रूप दो। वर्म, ऐसा आदमी हूँढ़ना चाहिए," गगोजिन ने दुवार कहा और एक बार फिर से संतोष भरी नज़रों से बेटे की ओर देखा।

"ठीक कहते हो," किरील महसा जोर से बोला। "मुझे याद पड़ना है चैरियेंब्की* ने भी कुछ ऐसी ही वात कही है: भविष्य को निकट लाओ, उसमें मे जो कुछ ला सकते हो, वर्तमान में लाओ।"

"देखा! जब अपने दिमाग को किसी और का सहारा मिल जाये, तो वात पक्की हो जाती है," गगोजिन ने आँख मारते हुए कहा, उसकी नज़रें अभी भी बेटे पर टिकी हुई थीं।

किरील ने भी बान्या की ओर देखा।

बालक ने रीढ़ी जम्हाई ली।

* न० चैरियेंब्की (१८२८-१८८६) — महान स्सी कांतिकारी-जनवादी, भौतिकवादी दार्यनिक तथा कन्यनावादी जनवादी। — सं०

चेहरे पर बरबस आ रही मुस्कान को दबाने की कोशिश करते हुए किरील ने पूछा :

“क्यों भई, यह क्या बात हुई कि तुम खुद तो मोर्चे पर चले गये, और अपने साथी को छोड़ गये? मुझे पाल्लिक पारावुकिन ने सब बताया था कि कैसे तुमने उसे धोखा दिया।”

“मेरा क्या कसूर है? मुझे नौसैनिकों ने धोखे में रखा। पाल्लिक को पता है। हमारी सुलह हो गई है। हम दोनों तो आपके पास जाने की सोच रहे थे।”

“मेरे पास? किसलिए?”

“शिकायत करने।”

“किसकी?”

“उसके वाप की।”

“क्यों, क्या किया है उसने?”

“वह आर्सेनी रोमानोविच की किताबों से लिफ्टफ्रेके बना रहा है।”

“आर्सेनी रोमानोविच की किताबों से?” रागोजिन चिल्लाया, उसने सिरहाने से सिर उठा लिया, पर तुरन्त ही तीव्र पीड़ा से उसका चेहरा विकृत हो गया और उसने हौले से सिर वापस सिरहाने पर रख लिया।

“आर्सेनी रोमानोविच ने अपनी किताबें एक लाइब्रेरी को दे दी हैं। लाइब्रेरी ने आधी किताबें रद्दी में दे डाली हैं। और पाल्लिक का वाप उनके लिफ्टफ्रेके बना रहा है। पाल्लिक ने अपनी आंखों देखा है।”

“क्या है यह सब, किरील? तुम जाकर देखो तो,” रागोजिन बोला, वह एकदम शिथिल पड़ गया लगता था। “आर्सेनी रोमानोविच की लाइब्रेरी कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। उनको दुख पहुंचा, तो मड़ा पाप होगा।”

“अभी जाता हूं,” इज्वेकोव उठ खड़ा हुआ, “कई दिनों से सोच रहा हूं, जाकर देखूँ कि ये किताबों के कद्रदान क्या करते हैं। तुम फ़िक्र मत करो।”

उसने विस्तर पर भुक्कर रागोजिन का हाथ अपने हाथ में लिया। योत्र पेत्रोविच ने किरील का हाथ पकड़े रखा, मानो जुदाई से पहले कुछ कहने के लिए शब्द ढूँढ़ रहा हो।

“तुम्हे नो बूद्धार हैं। बहुत ज्यादा बातें कर लीं।”

“कोई बात नहीं। आदमी नहाने से तंदुरुस्त होता है, बात करने से चुन्न।”

वह अभी भी उज्जेकोव का हाथ नहीं छोड़ रहा था।

“कोई चबूत्र मिलेगी, तो फौरन बताना। ठीक है?”

उसने किरील को अपने पास छीचा।

“एक कामरेड मुझसे मिलने आनेवाला है। मैं उसे तुम्हारे काम का पता लगाने को कहूँगा। वह कर सकता है।”

“मेंग काम?”

“हा, हा। जिसके लिए मेश्कोव की बेटी ने तुमसे कहा है।”

महमा उसके होठों पर चालाकी भरी मुस्कान दौड़ गई और उसने उज्जेकोव को धकेला।

“तुम भी मनकी ही हो!” किरील हँसा।

“मुझे मेश्कोव की फिक्र नहीं है! उसके तो दिन बीत गये। बात तो उसकी बेटी की है। उसमें तो यायद भविष्य का कुछ अंग है—तुम्हारे भविष्य का, है?”

“हो ना निरे मनकी,” किरील सहसा भेंटते हुए हँसा और दग्धवाजे की ओर पीछे हटा। “यह तो तुम्हारा कहना ठीक है कि मेश्कोव में भविष्य का कुछ नहीं है। पर वर्तमान में वह काम आ सकता है। तुम मानोगे नहीं, मेश्कोव ने पोलोतेल्स्मेव की गिनाव्हत कर दी थी!”

“उम जल्लाद कर्नल की? मच? और तुमने मुझे बताया तक नहीं! भई, तुम चाहे जो भी कहो यह तो उसने अच्छी सेवा की है!”

“फिर कभी बताऊँगा। जल्दी-जल्दी ठीक हो जाओ।”

“तो तुम मीधे पुगनी चीजों के महकमे में जा रहे हो?” किरील जब गलियारे में निकल गया, तो गगोजिन ने पीछे में चिल्लाकर पुछा।

“हाँ, मीधे वहीं जा रहा हूँ।”

“मेरे लिए कुछ पढ़ने को ले लेना,” गगोजिन ने कहा। “और अपनी वो अन्यमार्गी के लिए भी चुनना मत भूलना!”

पुरानी चीजों का महकमा उस विशाल संगठन का अंग था , जिसका नाम था प्रदेश आर्थिक परिषद और जिसका भीमकाय मस्तिष्क नगर की प्रमुख सड़क पर आधुनिकतम शैली में निर्मित 'अस्तोरिया' होटल में मुश्किल से समाया हुआ था । यह कहना तो शायद सही न होता कि पुरानी चीजों के महकमे का महत्व इस मस्तिष्क के गोलार्ध के समान था । लेकिन आकार में वह पूरा गोलार्ध ही था और इसलिए 'अस्तोरिया' में दूसरे विभागों के साथ उसके लिए पर्याप्त स्थान नहीं हो सकता था , सो उसे पास ही की एक अलग इमारत में रखा गया , मानो एक अलग मस्तिष्क के रूप में ।

यहां भांति-भांति के लोग मधुमक्खियों की तरह मंडराते रहते थे । परन्तु फिर भी वे पुरानी चीजों के महकमे का सारा काम चलाने में असमर्थ थे । महकमे की हर शाखा में अपना , मंडराता कर्मचारी दल था । अंततः , इस ब्रह्मांड की नींव में निहित थीं उत्पादक शक्तियाँ : सावुन , टोपी , जूते और लिफ्टफे , आदि बनाने के कारीगर । इस भवन के शिखर से नींव की ओर जितना नीचे जाया जाता , मंडराते लोगों के भुंड उतने ही विरले होते जाते । सो जहां सावुन बन रहा होता , या फौजियों की पुरानी वर्दियों से जूतों के साज सिये जा रहे होते , वहां बहुत कम लोग दिखाई देते और बिल्कुल शांति ही होती ।

अनेक शाखाओं वाले इस संगठन पर अपने जमाने के अंतर्विरोधों की स्पष्ट छाप थी ।

संगठन का विशाल प्रबन्ध विभाग जिन शाखाओं का संचालन करता था , वे केवल इस लायक थे कि उन्हें चुपके से ठिकाने लगा दिया जाये । इन धंधों में बाबा आदम के जमाने के औजारों से ही काम चलता था और इनके बदले जाने की किसी को रक्ती भर भी उम्मीद न थी । टोपी बनानेवाला सुई , कैंची और इस्तरी से काम चलाता था । बढ़ई कुल्हाड़ी और आरी से । सच कहा जाये तो कबाड़ में फेंके गये ओवरकोट से टोपी बनाने , या चीड़ के गीले लट्टे से स्टूल अथवा ताबूत बनाने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत ही क्या थी ? आधुनिक शैली के होटल के कमरों में मंडरानेवाले लोगों में से कोई भी इन धंधों का मशीनीकरण करने के लिए दिमाग लड़ाने का इरादा नहीं रखता था ।

हानांकि इन धंधों को चुपके से ठिकाने लगा ही थीक होता, पर अभी उसका वक्त नहीं आया था। उनका काम भले ही विल्कुल मासूनी भा था, पर उसके बिना भी गुजर नहीं थी। उन दिनों आर्थिक नवाहानी उस हद तक पहुंच गई थी कि इसे खुले आम क्रांति के लिए एक भवने बड़ा खतरा माना गया था। साबुन का टुकड़ा, कागज की कतरन, हास्ते भर भी चल सकनेवाला तलबा या आदमी के फटे-पुराने कपड़ों को घरीर पर टिकाये रख सकनेवाला बटन — यह सब वेगकीमी हो गया था।

मम्भवतया यही कारण था कि पुरानी चीजों के महकमे के धंधों में बाबा आदम के जमाने के तौर-तरीकों के बाबजूद, इनके माल की डतनी माग थी, और डतनी बड़ी संख्या में लोग इनके ईर्द-गिर्द मंडराते हुए इनके प्राणों की वुफती लौ को जलाये रखने की, इनके अवश्यम्भावी अन को टानने की कोशिशें कर रहे थे।

इज्वेकोव तुरन्त ही यह पता नहीं लगा पाया कि लिफ़ाफ़े बनाने का धंधा कहां होता है। पुरानी चीजों के महकमे ने अपने गोदामों और खानों के निए बोन्ना मे मठ के मोहल्ले तक के डलाके में कई कोठरियां, पुराने गोदाम और तहखाने ले रखे थे। इज्वेकोव को यह पता चलाना था कि पागवुकिन कहां बैठता है, और वह कोई इतनी मशहूर हस्ती था नहीं कि महकमे का हर क्लर्क उसे जानता होता।

पागवुकिन दो बड़े कमरों के बीच पार्टीगन से बनी कोठरी में बैठा था। इन कमरों में से एक अखबारों की रद्दी के लिए था और दूसरे में वे किताबें थीं, जो अभी छांटी नहीं गई थीं। दीवार में बना छेद पहले कमरे को लिफ़ाफ़ों की कोठरी में जोड़ता था।

कागजों के टेंगों पर आती-जाती मानव परछाइयां पड़ रही थीं। बनाटे में कभी-कभी हवा मे फ़ड़फ़ड़ते कागजों की आवाज आती। हवा के भोंके ताजी लेई, फ़कूंददार चमड़े और नम कपड़े की मिली-जुली गंध, जो छप्पर में मढ़ते पानी की गंध जैसी नगती थी, दरवाजों में छिड़की में ले जा रहे थे।

मेझोदी भीलिच न जाने कैमी बोनल कहीं मे लाया था, उसे खाली करके पागवुकिन ने अपना मग मेज के दराज में सरका दिया और अपने दोस्त की बातें मुनने लगा।

“तू मुझे क्या त्स्वेतुस्थिन की बता रहा है! वह तो मेरे लिए जुड़वें भाई से बढ़कर है। मैं तो उसे अपने से भी ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ,” मेफ़ोदी कह रहा था। “दुखियारा है वह, मेरे जैसे ही। पर मन ही मन घुलता है। अहंकार का मारा गर्दन नहीं भुका सकता। मेधा उसमें है, पर फूटी नहीं। खोल पर चोंच मारती रहती है, पर उसे तोड़ नहीं पाती। बस इसी से उसका मन रोता है। मैं उसके सामने क्या हूँ? - कुछ भी नहीं। हालांकि मैं भी एक्टर हूँ, वेशक एक्टर हूँ।”

“खोल में बंद!” पारावुकिन ने अपनी ओर से जोड़ा।

“मानता हूँ। विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई अहं नहीं है, मैं तो बस एक तुच्छ जीव हूँ। मेरा मन इतना नहीं कलपता। वह मेधावी है, उसे ज्यादा पीड़ा होती है। पर उसे अड़चन किस बात की है? दिखावा है! बड़े सिद्धांत मानने का दिखावा करता है। अरे भई, एक्टर के कैसे सिद्धांत? अभिनय अच्छा कर दिया - बस यही सिद्धांत हुआ। नहीं कर पाये, तो कैसा सिद्धांत? हमारे यहां एक एक्टर था, ट्रेजडी खेलता था, शैतान का भी वाप था, कोई सिद्धांत-विद्धांत नहीं मानता था, पर सारा हॉल सुविकियां भरता था। हमारा पेशा भावनाओं के ज़ोर से चलता है। पर येगोर सब कुछ समझना चाहता है।”

“मेरी आनोच्का को ले डूवेगा,” पारावुकिन ने दुखभरी उसांस छोड़ी।

“किसकी बात कर रहा है तू?” मेफ़ोदी ने बुरा मानते हुए कहा। “हैमलेट की बात कर रहा है तू, पिढ़ी कहीं का! वह भला डोरे डालेगा? ! अरे, वह तो एक्टरों से यही मांग करता है कि उनके मन में कोई छल-कपट न हो। अपने शिष्यों को सदा यही सिखाता है कि उनकी आत्मा निर्मल हो, जैसे सोते का जल! मैं दो हफ्ते तक उसके पांवों में लोटता रहा, तब कहीं उसने मुझे अपने स्टूडियो में लिया। कहता था, आदमी में प्रतिभा है, तो उसके लिए दो नियमों का पालन अनिवार्य है: सफ़ाई से रहे और नशा न करे। कहता था, जो अपनी प्रतिभा नशे में डुबोता है, वह चोर है। वह लोगों से वह चीज़ चुराता है, जो प्रकृति ने उन्हें दी है, क्योंकि प्रकृति किसी एक आदमी को

प्रतिभा देनी है, पर सबके हित के लिए। अगर प्रतिभा पियकड़ों को न मिलती, तो लोग सौ गुना ज्यादा सुखी होते। कहता था पीना छोड़ दो, तो ठीक है, आ जाओ हमारे साथ काम करो। नहीं तो जाओ भाड़ में। कहता था मैं नौजवान लड़के-लड़कियों को सिखाता हूँ, उनकी जिम्मेवारी मुझ पर है।”

“ बुद क्या वह टूटी को माथा टेकता है ? ”

“ यहीं तो बात है ! मैं उसके पैरों में लोट रहा था, पर जबाब भी मैंने दे दिया, बोला, येगोर, तुमने मेरे साथ क्या कम पी है, जो मुझे यों लताड़ रहे हो ! और वह बोला : त्स्वेतुस्त्रिन कोई पियकड़ नहीं है। कहता था, अगर मैं पीता भी हूँ, तो खुशी के लिए पीता हूँ, दावत उड़ाता हूँ, मस्ती लेता हूँ। और हमेशा यह याद रखता हूँ कि यह तो वम हंसी-मज़ाक के लिए है, मज़ा लेने के लिए है। बेलगाम होकर गम के मारे पीना तो व्यभिचार की अति है। और बस उबल पड़ा ! कहने लगा, यह सब अपने आप को जाने कहां का खुदा समझने का ननीजा है। सब पियकड़ अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। मीधे-मादे टंग से बात भी नहीं कर सकते। कुछ कहेंगे भी तो यही मोचकर कि कैसे दूसरों को अचम्भे में डालें। मेधावी बनते फिरते हैं। कहता था, यह तो कला की हेठी है। देखा तूने – किधर ले गया बात ? ”

“ अच्छी बवर नी तेरी । ”

“ मेरी क्यों ? ” मेफोदी फिर से बुरा मान गया। “ मैं तो सीधा-मादा आदमी हूँ, बाली बोतल ही समझो, जिसे भरना है। किसी हुनर-बुनर का मैं दावा नहीं करता। मैं तो बस एक मामूली सर्वहारा की भाँति पी नेता हूँ। ”

“ तू सर्वहार है ? बाह रे, मेफोदी गुरु ! ”

“ और नहीं तो क्या ? मैं ही निर्धन रूस हूँ ! समझा ? ! मेरे बैंगो पर देश टिका हुआ है ! कैगिएटिड * हूँ मैं ! ”

“ कैगिएटिड ! ” पागवुकिन ने चिढ़ाते हुए कहा।

पर नभी उमका चेहरा लटक गया, उमने जल्दी-जल्दी अपने बालों में हाथ फेंग और उठने की कोशिश करने लगा।

* इमान्तों में नारी आकृति के स्वप्न में बनाया जानेवाला स्तम्भ। – सं०

“कहां है इस खजाने का मालिक ?” प्लाईवुड का दरवाजा खोलकर कोठरी में झांकते हुए इज्वेकोव ने जोर से पूछा ।

“कामरेड सेक्रेटरी ,” पाराबुकिन बोला , और फिर उसने अपना छोटा कुर्ता झटका , फिर दाढ़ी , मूँछों पर हाथ फेरा , फिर वह खंखारा ; उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी अप्रत्याशित स्थिति में और क्या करे ।

“कई दिनों से आपका इंतजार था ,” उसने कहा । “यह है मेफोदी सीलिच , त्स्वेतुखिन के स्टूडियो में काम करता है , थियेटर में मेरी बेटी का सहकर्मी । कैरिएटिड ! ”

“यह क्या ... कुलनाम है ?” इज्वेकोव ने चौंककर सस्ती से पूछा ।

“नहीं , रूपक के अर्थ में ही समझिये ,” मेफोदी ने शान से सिर झुकाते हुए कहा ।

“आप क्या कुछ खा-पी रहे थे ?” अनवूफ़ सी गंध पाकर वह एक कदम पीछे हट गया (मेफोदी की टूटी हुई सुकराती नाक पर गौर से नज़र डालकर उसने सोचा : यह तो पाराबुकिन से भी बढ़कर है) ।

“वस यों ही काम के बीच पल भर को आराम करने के तौर पर ,” पाराबुकिन ने समझाने की जल्दी की । “कोई खास चीज़ नहीं । आजकल कोई बढ़िया माल मिलता ही कहां है । ”

“यह बताइये , दोरोगोमीलोव की किताबों का आप क्या कर रहे हैं ? ”

पाराबुकिन खुश था कि एक नाज़ुक मसला टल गया , पर डर भी रहा था कि दूसरा नाज़ुक मसला न उठ खड़ा हो , वैसे इस बीच वह संभल गया और उसने मेहमान को किसी पुराने वेनिसी फर्नीचर सेट की खस्ताहाल कुर्सी पेश की ।

“बड़ी मेहरबानी आपकी , हमारे इस कवाड़खाने में तशरीफ़ लाये । ”

“जरा दिखाइये कि दोरोगोमीलोव की किताबों में से कौन सी यहां आई हैं ? ”

“मेरे पाल्लिक ने शिकायत की है न ? यह सब छोकरे के दिमाग की उपज है , अपनी अक्ल से ज्यादा समझने की कोशिश करता है । ”

“अच्छा, यह बताइये कितावें कहाँ हैं, मैं देखना चाहता हूँ।”

विश्वान कमरे में जहाँ-तहाँ रट्टी के ऊंचे-नीचे ढेर लगे हुए थे और उनके बीच गलियाँ-कूचे बन गये थे, जिनके पीछे से एक नजर में पुरा कमरा दिखाई ही नहीं देता था। वे दोनों इन गलियों-कूचों में से जा रहे थे। पारावुकिन रास्ता दिखाता हुआ लगातार बोलता जा रहा था

“दोरोगोमीलोव मेरे हमें कुछ नहीं मिला है। हमें तो सब कुछ लैंग्रेनी मेरे मिला है, जहाँ उसने अपनी सारी कितावें दी थी। कितावों में रट्टी ज्यादा निकली, सो वह सब लैंग्रेनी ने यहाँ भेज दी। मैगजीनें, अब्बार, बही-खाते वर्गेन्ह हैं। रट्टी बुरी नहीं है। कुछ किराने के लिए लिफाफे बनाने के काम आयेगी, कुछ जो मोटे कागज हैं उनसे दफ्तरों के काम के लिए बड़े लिफाफे बन सकते हैं। यह देखिये यह दोरोगोमीलोव की रट्टी की हेगी है। पाल्विक इसे उलटता-पुलटता रहा है, पता नहीं कमबन्ध क्या ढूँढ़ता रहा है।”

किरील ने ऊपर-ऊपर पड़ा एक रजिस्टर उठा लिया। यह नगर की प्रबन्ध कमेटी की कोई बीस साल पुरानी छपी हुई रिपोर्ट थी।

“क्या कागज लगाते थे! हावर्ड का कागज!” पारावुकिन ने चिकने मेरे मोटे कागज को उंगलियों के बीच रगड़ते और आंखें भींचते हुए कहा।

किरील ने एक दूसरा रजिस्टर उठाया। इसमें नगर थियेटर समिति की रिपोर्ट थी और थियेटर से हुई आय तथा उस पर किये गये व्यय का हिसाब-किताब। जिम वर्प की यह रिपोर्ट थी, वह किरील को अच्छी तरह याद था: उम मान किरील आखिरी बार इस थियेटर में गया था, लीज़ा के माथ, और उस शो से अगले दिन सुवह ही, जबकि उसके मन मेरी बगल की कुर्मी पर बैठी लीज़ा की निकटता की छाप मिटी भी न थी, उसे जेन के अहाते में ले जाया गया था।

अनचाहे ही उसकी उंगलियाँ रजिस्टर के पन्ने पलट रही थीं। किर वे नक गई। वह तुर्गन ही यह समझ भी नहीं पाया कि किम बात पर उसका व्यान टिक गया है। वह पन्ने के अंत में छपी टिप्पणी पढ़ रहा था, जिसमें कहा गया था कि थियेटर का मैनेजर त्वेनुमिन

के हितार्थ शो की आय का एक भाग नगर कमेटी द्वारा हस्तगत कर लिये जाने पर आपत्ति करता है। त्स्वेतुखिन का नाम बड़े-बड़े अक्षरों में छपा हुआ था।

किरील ने रजिस्टर परे फेंक दिया।

“किताबें कहां हैं, किताबें?” उसने जोर देकर पूछा।

“किताबें विल्कुल अलग रखी हैं। यह समझिये कि खजाने में हैं। चलिये, इधर हैं।”

वे बगल के कमरे में चले गये। यहां छत तक किताबों के ढेर लगे हुए थे, ये विचित्र ढेर चौटियों, दर्रों और टूटी ढलानों वाली पर्वत-शृंखला जैसे लगते थे।

किरील ने धीरे-धीरे इन ढेरों पर नज़र दौड़ाई। यह रहा जीवन, सम्मान, यश – उसे वयोवृद्ध पुस्तकप्रेमी के शब्द याद हो आये – अथाह सम्पदा, असीम हर्ष, मानवजाति का सशक्त प्रेम !

फ़र्श पर पड़ा एक मोटा सा ग्रंथ पाराबुकिन का संतुलन विगड़ रहा था, उसे एड़ी से परे खिसकाते हुए वह बुद्बुदा रहा था :

“यहां किताबों पर वैज्ञानिक ढंग से काम होता है, अध्ययन, छंटाई-वंटाई।”

“हुं !”

“और नहीं तो क्या ! विद्वान यह तथ करते हैं कि कौन सी किताब काम की है और कौन सी रही। इधर देखिये। इस दीवार के पास धार्मिक ग्रंथ हैं – यूनानी आर्थोडोक्स, रोमन कैथोलिक, जर्मन लूथरी पंथों के। खूब मोटी जिल्दें हैं।”

“वह जो आपके साथ गला तर कर रहा था, वह भी कोई विद्वान ही है ?”

“नहीं, वह मेरा दोस्त है। वैसे पढ़ा-लिखा आदमी है, धर्म विरोधी है, लैटिन जानता है। कला का जानकार है, क्योंकि खुद एक्टर है। पर कला की किताबें छाटने के लिए हमारे पास बड़े-बड़े विद्वानों को भेजा जाता है। एक को अपनी ही किताब यहां मिल गई। नाम है ‘प्रकाश-छाया-चित्रण क्या है?’ पढ़ी है? थियेटर की किताबें खुद त्स्वेतुखिन छाटते हैं।”

इज्वेकोव ने जल्दी से उसे टोका :

“ मैं यह जानना चाहता हूँ कि दोरोगोमीलोव की कितावें कहाँ हैं ? ”

“ उद्धर दरवाजे के पास ही। कोई आधा छकड़ा होगा , ज्यादा नहीं। बेकार भी कितावें हैं। जिल्दों के बिना । ”

“ मुझे अकेला रहने दीजिये । ”

“ अच्छी बात है , ” पारावुकिन खुश हो गया । “ आप छांट लीजिये, जो पमन्द आता है। वहुत से लोग खुश होकर गये हैं । ”

किरील अकेला रह गया । कभी-कभार खिड़की में से सड़क की आवाजें आती, हवा के हल्के झोंकों से कभी खुली कितावों के पन्ने फड़फड़ा उठने । द्वार में से एक किताब निकालने से दूसरी कितावें भी निमक जाती और नीचे गिरने लगतीं । इन असम्बद्ध और मानो विचार-मग्न भी व्यनियों में वह खामोशी का बातावरण बन रहा था , जिसमें एकान्त इतना अच्छा लगता है ।

किरील फर्ग से किताब उठाने को भुका , पंजों के बल बैठा और वही बैठा रह गया – कभी किताब के पन्ने पलटता , कभी एक किताब गम्भकर ढूमगी उठा लेता ।

यहाँ ना फेंकी गई कितावों को देखकर अगर दोरोगोमीलोव के व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जाता , तो वह सचमुच ही अनवृक्ष व्यक्ति था । दमियो वर्गमों के दौरान उसके पास कितावें जमा होती रही थीं और इन वर्गमों में लगता था उसने कई विषयों में रुचि ली थी , घड़ी-माज के पेंथे और फोटोग्राफी से लेकर दर्शन के इतिहास और जलपोत निर्माण तक । यहाँ बौद्ध धर्म पर पुस्तकें थीं , घर पर व्यायाम की , फलों को टीनबद करने की , स्मृति सम्प्रदायों और मत्स्य पालन के बारे में भी । छोटी-छोटी नावों के बीच तैरते बजरे की भाँति सस्ती कितावों के बीच संग्या सिद्धांत का सोटा ग्रंथ भी था । कैज़ानोवा के कारनामों का जर्मन अनुवाद भी पास ही पड़ा हुआ था और जर्मन होफ्मान की रचना का फांसीमी अनुवाद गवार्नर्स के उत्कीर्णन चित्रों के साथ , और ‘दोन किहोत’ का पहला स्मृति अनुवाद ।

इस मार्गी शिवड़ी के मालिक ने हर किताब के मुख्यपृष्ठ पर म्याही में अपना नाम और वह तारीख लिखी थी , जब किताब खरीदी गई थी (शायद कवाड़ी बाजार में) । किरील के लिए वह एक रहस्यमयी और अप्रिय जीव ही था , जिसे कुछ बच्चे ‘भवग’ कहते थे , और

जिसे रास्ते में देखकर किरील वचपन में सङ्क पार कर लिया करता था। इस जीव से किरील के पिता की दोस्ती कैसे हो सकती थी? हो सकता है दोरोगोमीलोव की ये अजीबोगरीब रुचियां मात्र संयोग ही हों, जो जीवन में ऐसे जमा होते रहते हैं, जैसे जहाज की तली पर सीपियां, आदि? अगर पानी में से तली को देखा जाये, तो जहाज भी अजीब ही लगेगा। वैसे सोचा जाये तो उस आदमी में क्या खास बात हो सकती है, जिसे हर छोटी-मोटी किताब पर अपना नाम लिखकर संतोष होता हो? जिस पुस्तकप्रेमी ने कभी इज्वेकोव के मन में पठन-पाठन के प्रति अनुराग जगाया था, उसने एक बार कहा था: आदमी को अपना नाम केवल उस पुस्तक पर लिखने का अधिकार है, जो उसने खुद लिखी हो।

किरील ने देर में से सोलोव्योव द्वारा लिखित 'रूस के इतिहास' का मोटा सा खण्ड उठाया और पन्ने थोड़े मोड़कर अंगूठे तले से उन्हें छोड़ा, मानो किताब खरीदते हुए कोई ग्राहक यह देख रहा हो कि पन्ने सही-सलामत हैं या नहीं। हाशियों पर पेंसिल के निशान दिखे। किरील ने पन्ने उलटे-पलटे और वह पन्ना ढूँढ़ा, जहां कुछ पंक्तियों तले गाढ़ी पेंसिल फिरी हुई थी। यह पुगाच्योव के उस हुक्मनामे की पंक्तियां थीं, जिसमें उसने अपने अनुयायियों को खेत और मैदान, नदियां और समुद्र, धन और रसद, सीसा और बारूद तथा चिर स्वतंत्रता देने का ऐलान किया था। हाशिये पर किसी ने लिखा था: "ऐसा होकर रहेगा।"

किसी ने उदार और उन्मुक्त हृदय से निकले इन शब्दों की भव्यता पर मनन किया था, कोई चाहता था कि जो कोई भी ये शब्द पढ़े, वह इन पर विचार करे, किसी को आशा थी कि यह बात सच होकर रहेगी। क्या यह दोरोगोमीलोव ही था?

किरील ने यह खण्ड एक ओर रख दिया। क्षण भर बाद ही उसने तोलस्तोय की रचनाओं का भी एक खण्ड वहां रखा, जिस पर जारशाही रूस में प्रतिवंध लगाया गया था। थोड़ी देर बाद दोरोगोमीलोव की किताबें उलटना-पुलटना छोड़कर वह दूसरी किताबों की ओर बढ़ा।

उसे श्वेद्रिन की 'प्रदेश के शब्दचित्र' मिली। यह बढ़िया किताब दरियां, कालीन बुनने की किताबों के साथ ही पड़ी हुई थी। फिर

इत्यन के नाटक उसके हाथ लगे (सिर्फ दो खण्ड थे – संग्रह पूरा नहीं था)। इन्हें भी उसने अपनी देरी में जोड़ लिया। पहाड़ों के तंग दर्दों में आगे बढ़ते हुए उसे फर्ग पर लोम्ब्रोजो की किताब मिली – कोनों में फटी हुई, व्यस्ताहाल। मेधा और पागलपन के विषय पर इस पुस्तक की आनोचकों ने धन्जियां उड़ाई थीं, किरील यह जानता था, पर उसने पुस्तक पढ़ी नहीं थी। जिस चीज़ की बुराई हुई थी, उसे पढ़ने में भी कोई हर्ज़ तो नहीं है। उसकी नज़र एक पुरानी सी जिल्द पर पड़ी, जिस पर लेखक का नाम था – बेल्तोव। वह आगे बढ़ गया, पर फिर लौटा और किताब का शीर्षक पढ़ा – ‘इतिहास के अद्वैतवादी दृष्टिकोण का विकास’। अरे, यह तो प्लेखानोव है। पच्चीस साल पुरानी किताब। शायद यह किताब पहले ही किसी ने छांटी थी, वह विल्कुल सामने ही रखी हुई थी। पर प्लेखानोव की तो इज्वेकोव को हर हालत में ज़हरत थी। यह लोम्ब्रोजो नहीं।

सहसा उसे थेक्सपियर की चार जिल्दें दिखीं, विल्कुल एक जैसी शानदार जिल्दें – काले चमड़े पर सुनहरे अक्षर! उसने पहले कभी भी ऐसी जिल्दें नहीं देखी थीं। उसने जिल्द पलटी, अंदर का कागज़ रेगम सा चिकना और मुलायम था, फूलों और पंछियों से सजा हुआ, जो न नीले थे और न भूरे, बल्कि नीले और भूरे दोनों ही। फूलों और पंछियों के बीच रूपहला तार बेल सा लहराता चला गया था। रेशमी कागज को हाथ लाते ही उसने सोचा : “ये आनोच्का के लिए अच्छी रहेंगी।” “आनोच्का मुझ से पढ़ने के लिए ले सकती है,” तभी एक दूसरा विचार आप से आप मन में उठा।

निच्चय ही ये किताबें पहले से किसी ने अलग कर रखी थीं। वे मनीके से दूसरे मुंदर प्रकाशनों के साथ रखी हुई थीं। पर आखिर कौन यहां किताबें चुन सकता था? कौन यहां विशेषज्ञों को, छंटनी करनेवालों को, विद्वानों को नियुक्त करता था? वेशक किरील को भी किताबें चुनने का उतना ही हक था जितना उन्हें। खैर जो भी हो, अभी तो वह थेक्सपियर को अपनी चुनी किताबों के साथ रखेगा।

वह जल्दी कर्ने लगा। किताबें बहुत ज्यादा थीं, हर किताब को देंग तक देखने का अर्थ होता कुछ भी न छांट पाना। वह अपनी अल-

मारियों की अच्छी तरह कल्पना कर रहा था, जब उन पर कितावें लग जायेंगी, तो वे कैसी लगेंगी। यह बात बहुत मानी रखती है कि वह अपना भावी संग्रह निश्चित प्रणाली के आधार पर बनाये। उसे सर्वप्रथम अपने पुस्तक संग्रह के प्रमुख भागों को पूरा करना चाहिए। पर वह तो अपनी मज्जी से कितावें नहीं चुन रहा, बल्कि इस भूलभुलैयां में भटक ही रहा है और यहां जो है उसमें से सबसे अच्छी कितावें लेता जा रहा है। अभी तो उसे इसी पर संतोष करना होगा, जो सब यहां छोड़ते हुए दुख होता है, वह ले लेना चाहिए। “धृत् तेरे की, मैं भी दोरोगोमीलोव जैसा हूँ,” उसे विचार आया। पर तभी एक दूसरे विचार ने उसे शांत किया: “जो फ़ालतू होगा, वाद में फेंक दूंगा।”

वह लालची हो गया। वह अपनी ढेरी में कितावें जोड़ता ही जा रहा था। अनचाहे ही उसका मस्तिष्क इस ढेरी को “मेरी कितावें” कह रहा था। मन ही मन वह कहता जाता: “यह किताब मां के लिए रोचक होगी, शिक्षा पर है।” या: “यह मैं रागोजिन को पढ़ने के लिए दूंगा।”

झटपुटा हो रहा था। वह कितावें आंखों के विल्कुल पास लाकर उनके शीर्षक पंढ़ रहा था। वह विल्कुल अकेला था। इस सारे समय में एक बार भी कोई अंदर नहीं आया था। यह पूर्ण आत्म-विस्मृति थी। वह इन पहाड़ों को खोदता जा रहा था, उनमें सुरंगें बनाता जा रहा था: वहां गहराई में कोई मनचाही किताब छिपी हो सकती थी! चुनी हुई कितावों के गट्टर तले हाथ डालकर और ऊपर से उसे ठोड़ी से दबाकर थकावट से लड़खड़ाता हुआ वह अपनी ढेरी के पास जाता, जो बढ़ती ही जा रही थी। फिर वहां जाता, जहां अभी तक नहीं गया था, वे कितावें देखता, जो अभी तक नहीं देखी थीं, और फिर से ढेरियां उलटता-पुलटता, एक जगह से दूसरी जगह जाता, कितावों के टीलों पर चढ़ता, उनकी ढलानों से उतरता। उसके हाथ धूल से चिकने हो गये थे। इस महीन, मीठी धूल से गले में खराश हो रही थी और वह खांस रहा था।

आखिर टीले और पहाड़ियां सब एक ढेर में मिल गये, पढ़ना असम्भव हो गया, केवल खिड़कियों में ही मंद-मंद उजाला शेष रह गया।

किरील ने अपने हाथ और कपड़े भाड़े, और अपनी सम्पदा के पास गया। उसे देखकर वह दंग रह गया: “हे भगवान्! यह सब कैसे ने जाऊँगा? ऐडा करना होगा।” वह क्षण भर को वहीं बूझ रहा, मानो यह मोत्तने हुए कि आखिर यह सब हुआ कैसे? ये कैसी किताबें उनने जमा कर ली हैं? उसे लगा उसका सिर चकरा रहा है और वह एक और को गिरा पड़ रहा है।

महमा शिड़की में से मार्चंगान के स्वर आये। सड़क पर बूटों की ताल के साथ कर्कश स्वर अधिकाधिक जोर से गूंज रहे थे:

निःर होकर
हम लड़ेगे,
मोवियत की
रक्षा करेंगे ...

किरील ने बाजू में माथा पोंछा। उसे मचमुच ही चक्कर आया और मारे यर्गीर में भुग्भुगी दौड़ गई।

दोनों हाथ इग्वाज़े पर मार्गकर उसने इग्वाज़ा खोला, पारावुकिन गिन्ने-गिन्ने बचा और सहसकर पीछे हट गया।

पागवुकिन मिर के पास छोटी सी छिवरी उठाये बूझा था। छिवरी की लौ में उसके बान और दाढ़ी मुनहरी लग रहे थे।

“मैं आपके लिये दिया ला रहा था। अंधेरा हो गया। मिली कुछ काम की चीज़?”

“नहीं,” किरील ने कहा। “फिर कभी। नमस्ते।”

“अगर आप चाहें तो हम किताबें भेज देंगे। वस पता बता दीजिये।”

“नहीं, कोई जहागत नहीं। नमस्ते,” किरील ने एक बार फिर कहा और गम्ने में विश्वरी पड़ी ग्वी के ऊपर प्रायः दौड़ता हुआ बाहर को चला।

३३

कला के अंतर में ऐसी सम्बन्धाएँ हैं, जो केवल उमनिएँ हल कर नी गई प्रतीत होती हैं, कि परिषक्त कलाकार उनके आदि हो गये हैं

और यह मानते हैं कि उनका समाधान ढूँढ़ा जा चुका है। यदि कोई युवा कलाकार ऐसी समस्या परिपक्व कलाकार के मामने रखता है, तो उसे उत्तर में इसका समाधान नहीं, बल्कि उस अनुभव का हवाला मिलता है, जो परिपक्वता के साथ आता है। अनुभव समाधान का स्थान लेता है, क्योंकि यह समाधान किसी शाश्वत नियम के रूप में विद्यमान नहीं होता है, बल्कि हर कलाकार अपने लिए, अपने समय के लिए यह समाधान ढूँढ़ता है।

रंगमंच पर कदम रखते ही आनोच्का पारावुकिना ने अपने आप को दसियों प्रश्नों से घिरा पाया, जैसे कि जंगल में घुसा व्यक्ति अपने आप को पेड़ों से घिरा पाता है। उसके सामने जो अनगिनत अनवृभ पहेलियां और अस्पष्ट बातें थीं, उनमें एक प्रश्न उसे असाधारणतया महत्वपूर्ण लगता था और उसका उत्तर पाने में वह देरी नहीं कर सकती थी।

प्रश्न यह था कि अपने आप से भिन्न व्यक्ति की भूमिका अदा करने के लिए अभिनेता कौन से साधन इस्तेमाल करे, कहां ये साधन पाये?

यदि आनोच्का पारावुकिना को आनोच्का पारावुकिना की ही भूमिका अदा करनी होती, तो समस्या सहज ही हल हो जाती: आनोच्का को वस जीवन में से रंगमंच पर उतर आना होता।

परन्तु आनोच्का को तो 'छल और प्रेम' की लुईज़ा की भूमिका अदा करनी थी। आनोच्का ने कभी लुईज़ा को नहीं देखा था। नहीं, जब वह बिल्कुल बच्ची ही थी, तब एक बार नगर के सिरे पर स्थित सेविये पार्क थियेटर में उसने लुईज़ा को देखा था। लेकिन यह तो किसी अभिनेत्री द्वारा पेश की गई लुईज़ा थी। १८वीं सदी में किसी जर्मन रियासत में जो लुईज़ा मिल्लर कभी थी, उसे तो आनोच्का नहीं जान सकती थी।

ऐसा क्यों कहा जाता है कि थियेटर जीवन का दर्पण है? कैसे जीवन का? उस जीवन का जिसे किसी ने नहीं देखा है? आनोच्का को कैसे अभिनय करना चाहिए? सेविये पार्क की उस अभिनेत्री की भाँति?

जब आनोच्का ने ये सब बातें त्वेतुखिन से पूछीं, तो उसने पल भर भी सोचे विना जवाब दिया:

“तुम ही लुईजा हो ! अपने आप को ही मंच पर पेश करो !”

“कैसे ?” आनोच्का ने गम्भीरतापूर्वक पूछा, “यह कैसे हो सकता है। मैं घुटनों तक की स्कर्ट पहनती हूँ, लम्बे-लम्बे कदम भरती चलती हूँ। और लुईजा तो टघनों तक की बहुत बड़े धेरे वाली स्कर्ट पहनती थी।”

“जब तुम ऐसी स्कर्ट पहन लोगी, तो सब ठीक हो जायेगा। बस यह याद रखो कि तुम्हीं लुईजा हो।”

“और हाथ-पांव ? क्या लुईजा के हाथ-पांव इतने बड़े हो सकते थे ?”

“हाँ, इनने ही बड़े थे। इनके बारे में मत सोचो। यह सोचो कि तुम फर्दीनांद को प्यार करती हो, कि तुम मेरे ... यानी फर्दीनांद के माथ मुख्खी हो मकती थी, पर मैंने ... यानी फर्दीनांद ने तुम्हें दुखी बना दिया। मेरे प्रति अपनी भावना के बारे में सोचो।”

“मैं तो भोचती ही रहती हूँ ! आप भी कुछ सोचिये न !”

“ओहो !” न्येनुक्तिन ने मुस्कराते हुए उसे जताया कि ऐसी कमनीय युवती को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि वह शिष्या ही है।

वह सकपका गई, लेकिन यह समस्या हल करने की उसकी इच्छा इतनी उत्कट थी कि उसने हाथ जोड़कर पूछा :

“मेरी समझ में नहीं आता, तो इमें मेरा क्या कसूर है ! लुईजा को अपनी स्थिति में कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता, लेकिन मैं आमानी में गम्ता हूँ नेती। मो, वह मेरे जैसी नहीं है।”

“बहुत धूब ! तुम विल्कुल लुईजा जैसी ही हो। वह भी विल्कुल ऐसे ही फर्दीनांद के आगे हाथ जोड़ती है ! बस, यह याद रख लो !”

“पर मैं कभी उसके पांव न पड़ती ! कभी नहीं ! मैं उसे जाने देनी। जाये !.. आखिर मेरे पास ही लौटकर आयेगा,” हठधर्मी के माथ उसने कहा।

न्येनुक्तिन भाव विभोग हो उठे प्रगंसक की विमुद्ध नज़रों में उसकी ओर देख रहा था।

“अच्छा, मुनो। तुमने चुद जीवन में जो महसूस किया है, उसका एक अंश ही लुईजा में पाने की कोशिश करो।”

“पर अगर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मेरी भावनाओं से मिलता-जुलता हो, तो?”

“अच्छी बात है। यह मत सोचो कि उसमें तुम्हारे जैसा क्या है। यह देखो कि तुममें उसके जैसा क्या है। उससे मिलता-जुलता कोई लक्षण।”

साथ ही उसने मन ही मन अपने आप से पूछा: “यह लुईज़ा की निराशा कैसे समझ सकती है, जबकि इसने स्वयं कभी प्यार नहीं किया है, निराशा अनुभव नहीं की है?”

“और फिर”, त्स्वेतुखिन ने कहा, “किसी पात्र का जीवन जीना कुछ हद तक अभ्यास की बात है।”

उनकी यह बातचीत अकेले में हो रही थी – जिस क्लब में थियेटर स्टूडियो काम करता था, वहीं पर रिहर्सल के बाद। वे दोनों धूल भरे हॉल की खिड़की के पास खड़े थे, हॉल में दीवार के साथ-साथ कुर्सियां उलटा कर रखी हुई थीं।

“अच्छा, अभी तुम्हें समझाता हूं यह बात। तुम कहो तो अभी मैं रो पड़ता हूं”, त्स्वेतुखिन ने मुस्कराते हुए कहा।

उसने खिड़की के बाहर नज़र डाली। बूंदावांदी हो रही थी। खड़ंजों की सङ्क कीचड़ से चमक रही थी। रेडेवाला अपने कफ्तान के पल्ले कमरवंद में ढूसे, लगाम के सिरों से मरियल घोड़ी को मार रहा था। घोड़ी के लिए बोझा बहुत भारी था। गोल खड़ंजों पर उसके नाल फिसल-फिसल जाते थे। घोड़ी लड़खड़ाती और अपनी लंबी गर्दन पर थूथना ऊपर को झटकती।

आनोच्का ने देखा कि त्स्वेतुखिन की काली-काली आंखें धीरे-धीरे बड़ी हो गईं और चमकने लगीं, मानो किसी ने पुतलियों पर लुक की कूंची फेर दी हो। फिर ऊपर की पलकें फड़फड़ाई, नीचे की पलकों पर एक नम तार खिंच गया, जो नाक के पास आंखों के कोनों में मोटा होता जा रहा था। यह एक पारदर्शी दाना था, जो बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा था और सहसा बाई आंख में वह पलक से टूटा और पतली सी धार में बल खाता गाल पर बह चला।

सङ्क की ओर देखे हुए त्स्वेतुखिन रो रहा था।

“बम कीजिये !” आनोच्का सहसा चिल्लाई, उसकी अपनी आंखें डबडवा आई थीं।

त्वेतुश्चिन ने हृमाल से चेहरा पोछा।

“अब देखना कैसे मेरा चेहरा फक पड़ता है।”

उसने आनोच्का का हाथ पकड़कर अपनी उंगलियों में दबाया और अपना थगीर एक झटके से उससे परे हटाया। आनोच्का ने उसका नटक गया निचला होंठ और अधखुला, जड़ मुँह देखा। उसके गालों का गग जाता रहा था, सारे नक्श तीखे और निर्जीव हो गये थे।

आनोच्का ने बड़ी मुश्किल से उसकी उंगलियों में से अपना हाथ छुड़ाया।

अपनी सफलता पर संतुष्ट वह हँसने लगा।

“पता है इसे क्या कहते हैं ? एक बार सहे दुख की भावना को, कभी हुए भय के अनुभव को मन में फिर से जिलाना।”

आनोच्का पर लगी उसकी नज़रों में श्रेष्ठता और प्रतीक्षा का भाव था।

“जीवन का अनुभव पाना चाहिए। और फिर मन ही मन डस अनुभव को दोहराना चाहिए। शेष सब तुम्हारा गरीर अपने आप करेगा। बम वह तुम्हारी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, वैसे ही जैसे वादक के हाथों में साज़।”

आनोच्का को उसकी आंखों में प्रतीक्षा का भाव अच्छा नहीं लगा।

वह भमभती थी कि यह सब डस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि नुईजा कैमी थी। लेकिन यह जानकर वह विस्मित हो गई थी कि भावनाओं का भी उंगलियों की ही भाँति अभ्यास किया जा सकता है, कि डस “तकनीक” में लोगों में वैमी ही भावनाएं जगाईं जा सकती हैं।

आनोच्का ने अपनी डच्छा से आंसू लाने की कोशिश की। एकांत में वह ऐसे धण याद करती, जब वह रोई थी। लेकिन जैसे वह पहले गई थी, वैसे अब नहीं गेना चाहती थी। उसके प्रयासों का कोई फल नहीं निकल रहा था।

पर एक बार गत को उसकी आंख खुली और वह मां के बारे में मोचने लगी। महसा मां का निष्प्राण हाथ, उस पर पड़ती धूप,

सुझ्यां चुभने से खुरदुरे पड़े उंगलियों के पोर – यह सब उसके स्मृति पटल पर उभर आया और उसे इन उंगलियों पर अपने गाल के स्पर्श की इतनी स्पष्ट अनुभूति हुई कि हृदय अपने लिए ही अनुकम्पा से भर उठा। उसने देखा कि सिरहाना गीला है, और वह समझ गई कि सपने में रोती रही है। तब वह फिर से अपनी स्मृति में मां का हाथ देखने लगी और फिर से उसकी आंखों में आंसू उमड़ आये। उसने गिलाफ़ से आंखें पोंछीं, थोड़ी देर लेटी रही और फिर किसी बुरे काम की भावना से बोभिल मन लिये सो गई।

सुबह उसने फिर से मां के बारे में, उसके हाथ के बारे में सोचा और फिर से रो पड़ी। वह बेहद शर्मिदा थी कि मां की स्मृति का ऐसा दुरुपयोग कर रही थी, जानवूभकर यह दोहराते हुए उसे डर लगता था, वह सोचती थी कि यह पाप है लेकिन फिर भी वह दोहराती थी। उसे शर्म आती थी और डर लगता था, पर साथ ही वह खुश भी थी कि हर बार उसकी इच्छा के अनुसार ही होता है: यह याद करती कि कैसे उसने मां का हाथ चूमा था और तुरन्त ही आंखें भर आतीं। ऐसा करते हुए वह मां से इस पाप के लिए क्षमा मांगने लगी और मानो उसे यह विश्वास दिलाने लगी कि आखिर उसके आंसू तो सच्चे ही हैं।

आनोच्का बेचारी करती भी तो क्या करती? – उसके जीवन में मां से विदाई का क्षण ही सबसे अधिक हृदयविदारक क्षण रहा था और इसकी याद से ही किसी भी क्षण उसकी आंखें डबडबा आती थीं। मां की स्मृति से वह अपना अभ्यास कर रही थी, “तकनीक” सीख रही थी, पर यह कला की खातिर था, उस कला की खातिर, जिसे वह पावन समझती थी।

अगर वह अभिनेत्री बनना चाहती थी, तो उसे रंगमंच पर एक ही भावना को सैकड़ों बार दोहराना होगा और वह यह भली भाँति समझती थी कि अपनी इच्छा से ही सैकड़ों बार किसी पात्र से प्रेम या धृणा नहीं की जा सकती, जब तक कि प्रेम या धृणा को एक “तकनीकी साधन” में न बदल लिया जाये, इसका अभ्यास न कर लिया जाये। उसे यह अभ्यास करना था और अभी उसे इसका केवल एक रास्ता बताया गया था: वास्तविकता अर्थात् जीवन का वह अनुभव

जो उमने स्वय पाया था। वह अभी यह नहीं जानती थी कि अपनी भूमिका के प्रति अभिनेता का प्रेम क्या होता है (उसने केवल एक भूमिका अदा की थी और वह भी केवल एक बार)। वह नहीं जानती थी कि अभिनेता को अगर कोई भूमिका प्रिय हो, तो उससे उसके मन में अनचाहे ही हजारों बार एक जैसी ही भावनाएं उठ सकती हैं। जो, हो सकता है, उसने अपने जीवन में कभी अनुभव न की हों।

और आनोच्का तो अपने रोम-रोम से अभिनेत्री बनना चाहती थी। वह अपनी कल्पना की उडान में यह लंबा रास्ता तय कर चुकी थी, जो शायद रंगमंच के सपने देखनेवाली सभी लड़कियों की कल्पना में बननेवाले रास्ते में ज़रा भी भिन्न न था। लेकिन आनोच्का इस गम्ने को अद्वितीय और पूर्वनिर्धारित मानती थी। इस रास्ते के साथ उमकी बहुत सी विलक्षण यादें जुड़ी हुई थीं।

बहुत पहले जब वेरा निकान्द्रोव्ना ने आनोच्का को स्कूल में दाखिल कराया था, तो उसे थियेटर के नेपथ्य में जाने की मनाही कर दी थी। यह कोई आमान बात नहीं थी, क्योंकि ओल्या ड्वानोव्ना तब थियेटर के लिए पोशाकें सीती थीं और इस सिलसिले में वेटी को अक्सर थियेटर भेजा करती थी।

“अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी वेटी को पढ़ने में मदद दूँ, तो आपको उसे थियेटर भेजना बंद करना होगा”, वेरा निकान्द्रोव्ना का आग्रह था।

आनोच्का ने इतनी जल्दी वेरा निकान्द्रोव्ना का कहना नहीं माना, जितनी जल्दी ओल्या ड्वानोव्ना ने। मां वेटी को पढ़ाने-लिखाने का सपना देखनी थी, लेकिन वेटी को थियेटर के नेपथ्य में सब कुछ स्कूल में कहीं अधिक रोचक लगता था। पर आखिर वेरा निकान्द्रोव्ना का प्रभाव दी हावी हुआ।

जब आनोच्का कुछ बड़ी हो गई, तो थियेटर के प्रति उसके आकर्षण में एक नया अर्थ आ गया: नेपथ्य में जो कुछ होता था, वह गृहस्थमय था, लेकिन हाँल में बैठकर सब कुछ उससे भी अधिक गृहस्थमय लगता था – वहां से यह देखा जा सकता था कि कैसे किसी चमन्कार्गवण रंगमंच पर एक नये जीवन की मृद्गि होती है।

लेकिन इस मामले में भी वेरा निकान्द्रोव्ना ने आमानी से दील नहीं की।

“रंगमंच पर यही तो दिखाया जाता है कि मानव-आत्मा में क्या कुछ घटता है, इसीलिए मैं कहती हूँ थियेटर जाना एक महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। आखिर आदमी के मन में यों ही तो नहीं भाँका जा सकता, जैसे चलते-चलते चायखाने में भाँक लिया, है न? थियेटर तो ऐसे जाना चाहिए, जैसे मंदिर जा रहे हो”, वेरा निकान्द्रोव्ना आनोच्का को समझाती।

सभी नियमों पर सुसंगत रूप से अमल करने के शिक्षकों के स्वभाव के अनुसार वह अपनी इन नसीहतों को पुस्तकों पर भी लागू करती।

“किताब को सरसरी तौर पर देखना, या पन्ने पलटना पढ़ना नहीं होता। पढ़ना तो ऐसे चाहिए, जैसे पादरी किसी की स्वीकारोक्ति सुनता है। पुस्तक में गहरा पैठना चाहिए। तभी वह पूरी तरह उजागर होगी और तुम उसका सारा सौंदर्य समझ सकोगी, रसास्वादन कर सकोगी। जैसे जंगल को दूर से देखकर या उसके किनारे-किनारे चलकर, उसमें अंदर दूर तक जाये विना, उसे नहीं जाना जा सकता, उसी तरह जब तक तुम पुस्तक पढ़ने में मग्न होना नहीं सीखोगी, तब तक ज्ञान का आनन्द नहीं पा सकोगी।”

यह सब कहते हुए वेरा निकान्द्रोव्ना के चेहरे से ऐसा स्नेह टपकता और वह इतने आश्वस्तकारी ढंग से सिर हिलाती कि आनोच्का को शर्म आने लगती, क्योंकि वह पुस्तकों को भी ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ पाती थी, और थियेटर भी हर दिन, सुबह, शाम, पल भर को ही सही, जाने को तैयार थी। हाँ, भले ही वह थियेटर के प्रति इतना आदर नहीं दिखाती थी, पर फिर भी था वह उसके लिए मंदिर ही। इसके विपरीत, संसार के सारे मंदिर उसके लिए इस एक मंदिर में ही सीमित होकर रह गये थे और यह मंदिर एक पूरे संसार की भाँति उसे अपनी ओर आकर्षित करता था।

फिर समझाने-बुझाने के स्थान पर सिर्फ़ सलाह ही देने का समय आया और आखिर सलाह का भी स्थान शुभचिंता भरी मुस्कान ने लिया।

आनोच्का ने स्कूल की पढ़ाई उन दिनों पूरी की, जबकि पुराने विद्यालयों की परम्पराएं अभी पूरी तरह मिटी नहीं थीं। उनकी भूतपूर्व क्लास टीचर ने, जो अब केवल साहित्य ही पढ़ाती थी, एक दिन

आनोच्का के निवंध की सराहना की, पर पाठ के बाद हौले से उससे पूछा

"पागवुकिना, तुम्हारे घरवाले तुम्हें नये हिज्जों से लिखने देते हैं?"

वह चाहती थी कि उसकी छात्रा इस डांवांडोल हो गई दुनिया में पदार्पण करते हुए व्यस्त हो गई पुरानी परम्पराओं में से कुछ तो बनाये रखे।

लेकिन अब भूतपूर्व वालिका विद्यालय में बालक भी पढ़ने लगे थे; विद्यालय की प्रधानाचार्या का स्थान नये प्रिंसिपल ने ले लिया था, अब जनन में कंधी किये हुए लंबे बालोंवाला, गले में सलीब लटकाये पादगी कक्षाओं में धर्म की शिक्षा देने नहीं आता था, और, अतः, अब लड़कियों ने अपने आप ही 'नावालिंग' * नाटक मंचित करने में निर्देशन पाने के लिए एक पेंगेवर अभिनेता को आमंत्रित किया था। यह तो बरमों से चली आ रही परम्परा को एकदम ही ठुकरानेवाली बात थी। इस परम्परा के अनुसार विद्यालय की अंतिम कक्षा की छात्राएं भाहित्य की अव्यापिका की मदद से नाटक की रिहर्सल करती थीं। इस परम्परा को ठुकराने की पहल करनेवाली थी आनोच्का पागवुकिना।

अपने दुस्माहम पर स्वयं ही सकपकाई सहेलियों को साथ लेकर आनोच्का येगोर पाव्लोविच त्स्वेतुखिन के यहां पधारी।

त्स्वेतुखिन को उनमें मिलने के लिए तैयार होने में काफी समय लगा। लड़कियों का आना विल्कुल अप्रत्याशित था। त्स्वेतुखिन ने मोचा शायद थियेटर की शौकीन युवतियां मिलने आई हैं। वैसे अब थियेटर शौकीनों का यों आना काफी विरली बात हो गई थी।

लड़कियां जब आई, तो वह अंदर केवल अंतरीय पहने बैठा था, उसके मामने ठंडी चाय का गिलास रखा हुआ था और वह पाइप में फंसा नम्बाकू भाफ़ कर रहा था। मन न जाने क्यों उदास था। अभी-अभी उसने मेफोदी को भगाया था, जो खुमार तोड़ने के लिए पैने मांगने आया था और शिकायत कर रहा था कि सिर फटा जा रहा है।

* :- वी मदी के न्हमी नेश्वक फोन्वीजिन का नाटक (१७८३) । - सं०

दूसरे कमरे में आग्निया ल्वोब्ना गला साफ़ करते हुए रियास कर रही थी। प्रायः साल भर पहले वह सातवीं बार येगोर पाल्लोविन के पास लौट आई थी, इस आशा में कि आखिर तो वे वफ़ादार निभाते हुए सुख-चैन से रह सकेंगे। त्स्वेतुखिन भुंभलाते हुए उसके सिगरेट पीने से बैठी आवाज सुन रहा था और उन दिनों के बाँ में सोच रहा था, जब वह आग्निया ल्वोब्ना के रूप को नई-नई उपमा दिया करता था। उसके चेहरे की रंगत चित्रों जैसी शोख लगती थी पर फिर भी स्वाभाविक ही थी। आग्निया ल्वोब्ना के इस आकर्षण के कारण ही थियेटरों के मैनेजर उसे खुशी-खुशी लेने को तैया हो जाते थे, लेकिन यह सिलसिला तभी तक चला, जब तक वह उसकी अयोग्यता सबने पहचान न ली। जिस थियेटर में भी वह जाती उकताऊ अभिनेत्री की स्थाति उसके पीछे-पीछे पहुंच जाती।

त्स्वेतुखिन के जीवन में आग्निया ल्वोब्ना एक गौण तत्व थी लेकिन उसकी सारी जवानी में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उससे जुड़ी रही थी। पहली बार जब वह उसे छोड़कर गई थी, तो त्स्वेतुखिन उसकी कोई परवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन आग्निया ल्वोब्ना ऐसा करती रही कि त्स्वेतुखिन को सदा उसकी परवाह करनी पड़ी इसका नतीजा यह था कि त्स्वेतुखिन के मन में उसके प्रति न केवल प्रेरणा घटता जा रहा था, बल्कि नफरत भी बढ़ती जा रही थी, परन्तु फिर भी वह ऐसा नहीं कर पाता था कि आग्निया ल्वोब्ना उसे सदा के लिए छोड़कर चली जाये, क्योंकि आग्निया ल्वोब्ना की उसे न छोड़ने की इच्छा त्स्वेतुखिन की उसके साथ न रहने की इच्छा से ज्यादा प्रबल थी।

पत्नियों की एक किस्म बाबा आदम के ज़माने से चली आ रही है। इस किस्म की पत्नियां जब तक पति के गले में पालतू कुत्ते कर्तरह पट्टा बांधे रहती हैं, तभी कुछ हद तक शांत रहती हैं—कुछ हद तक ही, क्योंकि पट्टा अगर थोड़ा सा भी ज्यादा खिंच जाये तो वेहद खिसिया उठती हैं और अगर कहीं पट्टा टूट जाये, तो तुरत ही रोने-बिलखने लगती हैं, छाती पीटने लगती हैं। आग्निया ल्वोब्ना स्वभाव से ऐसी ही थी।

इसके विपरीत, येगोर पाल्लोविच का स्वभाव ऐसा नहीं था कि उसे पालतू बनाया जा सकता। उसका जिज्ञासु और अन्वेषी स्वभाव

उसे स्वप्नदृष्टा बनाता था, ऐसा व्यक्ति आत्मसमर्पण में सुख नहीं पा सकता था। हो भक्ता है ज़ंजीर उसे बांधे रखती, न कि पट्टा, जिसे वह कभी खींचता था, कभी झटके देता था, कभी तोड़ देता था। लेकिन आग्निया ल्वोव्ना का रूप जाल ज़ंजीर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह तो वस पट्टे को ही जैसे-तैसे जोड़-जाड़कर उसकी वेकावू गर्दन में बांध सकती थी।

वक्त बीतने के साथ-साथ त्स्वेतुखिन की सारी जिज्ञासा कुछ हद तक पुरानी सनकें और कुछ हद तक वेचैनी बनकर रह गई थी। वायोलिन वह भुला बैठा था, क्योंकि इसे बजाने में वह निपुणता इतनी जल्दी हासिल नहीं कर पा रहा था, जितनी जल्दी उंगलियों की लचक खोती जा रही थी। नये उड़न यंत्रों की योजनाओं में भी वह नचि खो बैठा था, क्योंकि युद्ध के दिनों में वायुयानों के निर्माण में जिम तेजी से प्रगति हुई थी, उससे त्स्वेतुखिन के कभी दुस्साहसपूर्ण लगनेवाले विचार विल्कुल पिछड़ गये थे। सच्चा समय निष्फल गणनाएँ करते-करते ऊंचा न करे, इसलिए अब वह ताश खेलने लगा।

बम एक थियेटर ही शेष रह गया था।

इम कला में त्स्वेतुखिन का लगाव सच्चा और उत्साहपूर्ण था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वह थियेटर में कुछ नया करे। लेकिन यहां भी समय के साथ उसका उत्साह ठंडा पड़ रहा था, उसकी उड़ान दौड़ में बदल गई थी, दौड़ नपे-तुले कदमों में और ये कदम भी कभी-कभी अनिश्चय में थम जाते थे।

वह अभिनेताओं में प्रायः वहस करता था, परन्तु ऐसा अब आदतवश ही होता था, न कि किसी विशेष उत्साह के कारण। रंगमंच के उसके अनुभव ने उसे ऐसा अभ्यास, ऐसी परिपाटी दें दी थी, जिसकी मदद से समस्याएँ हल करना किन्हीं नई खोजों की तुलना में कहीं अधिक आसान था। यन्त्र-यन्त्रः वह इम परिपाटी का आदी हो गया था और बढ़नी उदासीनता के साथ अपनी मच्ची रुझानों के विरुद्ध काम करता था। उसके जो कुछेक साथी उम्र में उसमें बड़े थे, वे कव के जीवन के थपेड़ों में मान उन्माह खो बैठे थे और वे कला के महान व्येयों के प्रति अभिनेताओं की उदासीनता को कोई पाप नहीं ममझते थे।

“तुम हमें उपदेश मत दो”, वे त्स्वेतुखिन से कहते थे, “यह

दिखाओ कि तुम कर क्या सकते हो। अगर हमें भाया, तो हम तुम्हारे पीछे हो लेंगे। कभी सर्मातोव और ओलेनोव जैसे अभिनेताओं के पीछे भी चला करते थे।”

क्रांति के पहले गर्जन के साथ त्स्वेतुखिन में नये उत्साह का संचार हुआ। उसे लगता था कि अब स्वयं इतिहास ही वह सब कर देगा, जो पहले मनुष्य की शक्ति से परे था। वह सोचता था कि वह तुरन्त ही सारे थियेटर को अपने विचारों का समर्थक बना लेगा। लेकिन उसकी बातों पर कोई कान नहीं देता था। सब उसकी लंबी-चौड़ी, चुनौती भरी बातें सुनने के आदी हो चुके थे। सब उसे पुराना सनकी ही समझते थे और यह नहीं मानना चाहते थे कि उसके नये विचार क्रांति द्वारा प्रेरित हैं। सो उसे वही पुरानी बातें सुनने को मिलतीं:

“तुम तो बस यही कहते रहते हो कि कैसे होना चाहिए। पर, भाई जान, कला तो जो है, वही है। कुछ करके दिखाओ! तुम्हारे इन सब नये-नये विचारों से क्या बनेगा, यह कोई क्या जाने! एकटर का स्वभाव ही ऐसा है, हर बात पर संशय करना। जब तक वह अपनी आंखों देख नहीं लेगा, हाथ से छूकर नहीं देख लेगा, विश्वास नहीं करेगा।”

उसे कोई अगत पथ पकड़ना था, या शायद ऐसी दिशा में बढ़ना था, जहां कोई रास्ता था ही नहीं।

और अब त्स्वेतुखिन अपनी किस्मत पर दुखी होता बैठा हुआ था। बगल के कमरे से आते रियाज़ के स्वर से उसे चिढ़ हो रही थी और वह सोच रहा था कि इस स्वर की मालकिन में सब कुछ कितना अस्वाभाविक और बनावटी है, सब कुछ दिखावा ही दिखावा है। वह प्यारी सी विल्ली बनती फिरती थी, सोफ़े पर पांव रखकर बैठ जाती थी, लेकिन उसकी टांगें बांस जैसी थीं और उभरे-उभरे, नुकीले घुटने बड़े बेहूदा लगते थे। वह उन अभिनेत्रियों की नकल करती थी, जो बड़ी वेतकल्लुफ़ी से दोस्तों की पीठ थपथपा सकती थीं, कूलहों पर हाथ रखकर चल सकती थीं, किसी परिचित से भी यों गले मिल सकती थीं, जैसे वह सगा भाई हो, और चुम्बनों की झड़ी भी लगा सकती थीं। लेकिन आरिन्या ल्वोन्ना जब यह सब करती, तो भठियारिन लगती और त्स्वेतुखिन को यह देखकर धिन होती।

वह दीवार पर दस्तक देना ही चाहता था, ताकि आग्निया ल्वोन्ना अपना ग्रियाज बंद कर दे, पर तभी लड़कियां आईं।

जल्दी-जल्दी कपड़े पहनकर और कमरे को ठीक-ठाक करके उसने लड़कियों को अंदर बुलाया। वे वही दहलीज पर रुक गईं, अपने देवता के मंदिर में कदम रखने का साहस नहीं जुटा पा रही थीं।

आउचर्च की बात है कि आराध्य व्यक्ति पर आराधना का कैसा शारीरिक प्रभाव पड़ता है। युवतियों के दमकते चेहरे और उनकी अलग-अलग रंग की आंखें, जिन्हें वे भपकाने का भी साहस नहीं कर पा रही थीं, देखकर उसकी रग-रग में झंकार हुई। उसकी नसों में मानो महर दौड़ रहा था, उल्लास का संचार कर रहा था। युवतियों के मामने ऊंचा, रोबीला, विल्कुल जवान लगता त्वेतुक्षिण घड़ा था, उस त्वेतुक्षिण से पूर्णतः भिन्न, जो ठंडी चाय में चम्मच चलाता हुआ आग्निया ल्वोन्ना की बजह से मन में उठ रही खीज से जूझ रहा था।

आनोच्का ने ही इस काम की पहल की थी, और अब वह विल्कुल प्रतिनिधिमण्डल की अव्यक्ति के लहजे में ही कहने लगी :

“आदर्शीय येगोर पाल्नोविच ! हम अंतिम वर्ष की छात्राएं ...”

त्वेतुक्षिण के चेहरे पर उत्साहवर्द्धक मुस्कान थी – इससे पहले कि आनोच्का उसे म्कूल में नाटक देखने आने और यदि सम्भव हो तो उसके मन्त्रन में सहायता करने का अनुरोध करती, वह लड़कियों के आने का मकमद समझ गया था।

“‘नावालिंग’ !” पूरी बात मुनकर उसने कहा और यों सिर एक भट्टके में ऊपर उठाया, मानो किसी पुराने दोस्त का सिर हिलाकर अभिवादन करने लगा हो। “और मोफिया कौन बनेगी ?”

“मैं,” आनोच्का ने निढ़र होकर जवाब दिया और उसके गालों पर लाली दौड़ गई।

“अच्छा, तुम ...” त्वेतुक्षिण कुछ कहते-कहते रुक गया।

कांति के बाद उसने आनोच्का को एक बार भी नहीं देखा था और उसका यह स्वप्न तब के उसके स्वप्न में भी अधिक अप्रत्यागित था, जब नड़ाई के दिनों में कई बग्गों के बाद उसने आनोच्का को देखा था और उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ था कि यह वही

पटसनी बालों की छोटी-छोटी चुटियों वाली बच्ची है, जो कभी थियेटर के नेपथ्य में मंडराती रहती थी और एक्टरों के लिए सिगरेट खरीदकर लाया करती थी।

वह तुरन्त ही स्कूल जाने को राजी हो गया। उसे कुछ ऐसा पूर्वाभास हुआ कि इन सकुचाती और साथ ही उमंग भरी युवतियों के साथ नाटक की रिहर्सल करते हुए रंगमंच पर किन्हीं नई सम्भावनाओं के द्वार खुल सकते हैं, हालांकि ये लड़कियां तो शायद जानती भी न होंगी कि किधर जा रही हैं। इसके अलावा राजी होने का एक और कारण था — उसके मन में इसी क्षण आनोच्का के प्रति जागा कौतूहलः वही अपनी सभी सहेलियों से अधिक उमंग से भरी हुई थी, और वही अपने संकोच से सबसे अधिक साहस से जूझ रही थी।

स्कूल में कुछ दिन काम करने पर ही उसे विश्वास हो गया कि उसका पूर्वाभास पूर्णतया सही था। युवाजन के लिए उसका हर शब्द अटल नियम के समान था। वह 'नावालिंग' की सभी भूमिकाओं की अपने ढंग से व्याख्या कर सकता था और सभी कलाकार तत्परता से उसकी बात मानते और ठीक अपने गुरु के पदचिह्नों पर ही चलने का पूरा-पूरा यत्न करते।

वेशक, यह अभिनय कला में कोई कांति नहीं थी! हाँ, यहां एक नवीनता थी, ऐसा कोई बंधन नहीं था, जिससे थियेटर में काम करनेवाले कलाकार बंधे हुए थे। यहां निश्छलता को भोलापन नहीं माना जाता था। यहां लड़कियां अपनी सरल हृदयता पर शर्माये विना कहती थीं: "मैं तो रो ही पड़ी!" वे नहीं जानती थीं कि थियेटर के तौर-तरीकों का तकाज़ा यह है कि ऐसे मौके पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा जाये: "अरी, मैं तो बिलखने ही लगी!"

'नावालिंग' नाटक वैसे विल्कुल स्कूली नाटकों जैसा ही रहा, यहां तक कि ऐसे सभी कार्यक्रमों की भाँति इसमें भी एक मजेदार घटना घटी। चौथे अंक के अंत में जब श्रीमती प्रोस्ताकोवा रंगमंच पर इधर-उधर दौड़ रही थी, तो उसके घेरेदार स्कर्ट से उठे झोके से प्रोम्प्टर के बॉक्स में लैम्प बुझ गया और उसके धुएं से प्रोम्प्टर जोर-जोर से छींकने लगा।

लेकिन इस नाटक से त्स्वेतुखिन की अपने काम में नई रुचि जागी,

वह जान गया कि उसके विचार कहां फलप्रद हो सकते हैं।

उमने एक ऐसी मण्डली गठित करने का फैसला किया, जिसमें प्रमुख स्थान उन जवान लड़के-लड़कियों का होगा, जिन्हें अभी रंगमंच का कोई अनुभव नहीं है। वह जानता था कि पेशेवर थियेटर वाले उमकी मण्डली को नौसिखिये शौकीनों का भुंड कहेंगे, लेकिन वह इन कटाक्षों में नहीं डरता था, क्योंकि वह यह भी जानता था कि कला में सभी बड़ी खोजें नौसिखियों द्वारा ही हुई हैं।

इस नये कार्य के लिए सबसे प्रबल प्रेरणा थी आनोच्का। त्वेतुखिन को इस बात में जरा भी संदेह नहीं था कि उसे रंगमंच पर उत्तरना चाहिए। आनोच्का की कोहनियां नुकीली थीं, गर्दन पतली और वांहें मानो कुछ ज्यादा ही लंबी – इस सबके कारण लगता था कि वह अभी कियोगी ही है। लेकिन जैसे ही उसने सोफिया की पोशाक पहनी, उमकी इस चढ़ती जवानी की बेढ़वी से सोफिया के विष्व में आश्चर्यजनक भजीवता आ गई। आनोच्का अत्यंत सजीव थी, उसके चेहरे का भाव बड़ी तेजी से बदलता था, पल भर में वह सकपकाई होती, पल भर में उदास, पल भर में व्यंग्य भरी और पल भर में कठोर। लेकिन रंगमंच पर उसकी यह सजीवता उत्तेजना में बदल गई, व्यंग्य भाव माथी के लिए संवेदना बन गया, सकपकाहट – निश्छलता और उदासी – विचारमग्नता।

त्वेतुखिन को पता भी नहीं चला कव आनोच्का की प्रतिभा पर रीझते हुए वह इस प्रतिभा की स्वामिन का दीवाना हो गया। 'नावानिंग' की रिहर्मल और फिर मण्डली गठित करने की दौड़धूप के दोगन त्वेतुखिन को लगा मानो उसका पुनर्जन्म हुआ है। पहले भी कई बार उसे ऐसा अनुभव हुआ था, लेकिन इस बार यह एक पूर्णतया नवीन अनुभव लगता था, जैसा कि वर्फले जाड़े के बाद सहसा उत्तर आया वसंत एकदम नया लगता है। सबके देखते-देखते ही त्वेतुखिन आनोच्का की पगड़ाई बन गया, एक वह ही अपने काम में इतनी मग्न थी कि उसे सबसे कम इस बात का आभास था।

त्वेतुखिन की मण्डली पर कहीं की ईट कहीं का रोड़ा वाली बान मच बैठती थी। कला के मामले में अदीक्षित युवाजन के माथ बुर्गट अभिनेता आ मिले। इस सूडियों को मौभाग्यवश एक सैनिन-

क्लब का समर्थन मिल गया, इसका अर्थ यह था कि उनकी रोटी मुरुर्कर हो गई। अभिनेता कंधे पर झोला लटकाये रिहर्सलों में आते, त्स्वेतुखिन भी अपने राशन का झोला सदा साथ रखता। क्लब की ओर से मिलनेवाले ज्वार-बाजरे और सूखी मछली से वह आग्निया ल्वोन्का को शांत करता था, जो इस बात पर दुखी थी कि “अपनी मण्डली” तक में उसे कोई अच्छी भूमिका नहीं दी जा रही।

और स्वयं त्स्वेतुखिन तो हवा खाकर ही जीने को तैयार था, वस हर रोज़ आनोच्का के साथ रिहर्सल करने को मिले और फिर वह उसे घर छोड़ने जाया करे। एक दिन जब वह लाल कढाई वाला सन का रुसी कुर्ता पहनकर आया और आनोच्का ने कहा: “वाह, कितनी अच्छा लगता है आपको!”—तो उसे लगा कि वह जीवन भर यही सन का कुर्ता पहने रहेगा। वह जवान हो गया था और मानो पहली बार फर्दीनांद के पार्ट की रिहर्सल कर रहा था, हालांकि पहले भी कई बार यह भूमिका अदा कर चुका था और इससे बहुत आनन्द पा चुका था।

उसने स्टूडियो के पहले नाटक के लिए ‘छल और प्रेम’ चुना, जो क्रांति के दिनों में एक सबसे लोकप्रिय रोमांसी रचना थी। इसमें भावना की वह आग थी, जिसे पहले हवा लगने देने से डरते थे। लेकिन पुराने अभिनेताओं को इस नाटक में कोई नई बात नहीं दिखाई देती थी—वही रोल थे, जो कई बार किये जा चुके थे और जिन्हें एक बार फिर करना होगा। सो वे इसके लिए कोई खास जतन करने का इरादा नहीं रखते थे, उन्हें तो वस कौतूहल ही अधिक था—त्स्वेतुखिन इन नौसिखियों को लेकर क्या कर पायेगा?

जैसे ही आनोच्का ने यह दिखा दिया कि उसमें अभिनय प्रतिभा है, तुरन्त ही लोग उसे तरह-तरह की सलाहें देने लगे। कोई फ़ांसीसी शैली की बात करता, कोई यथार्थवाद की, कोई स्तानिस्लाव्स्की* की और कुछ तो वस अभिनेता के लिए अच्छे से उपनाम के महत्व पर ही भाषण भाड़ते।

* क०स्तानिस्लाव्स्की (१८६३-१९३८) — सुविख्यात सोवियत निर्देशक, अभिनेता, अध्यापक और थियेटर के सिद्धांतकार। — सं०

एक दिन बृहुंतों की भूमिकाएं करने में उस्ताद एक अभिनेता उससे कहने लगा “अगे, बच्ची, यह भी कोई नाम है पारावुकिना! जरा मोनो नो लोग चिल्लायेंगे: बु-ऊ-किना!”

“आदमी के नाम की शोभा कर्मों से होती है”, आनोच्का ने पाइन्ट्यपूर्ण लहजे के पीछे मन को पहुंचे आधात को छिपाते हुए कहा।

“वो तो ठीक है। पर अगर नाम ही हो चूचीकिन, तो फिर उसकी क्या शोभा होगी? नाम में कुछ शान होनी चाहिए—पारा... वेल्ला, पाग ल्मेल्ला... या कुछ ऐसा ही! हमारे थियेटर की बात है, एक एक्टर प्रेमी का पार्ट करता था—तबीयत खुश हो जाती थी। पर हाँल में मन्नाटा रहता था, कोई ताली नहीं, कोई वाह-वाही नहीं। तुम पूछोगी क्यो? लोगों को नाम पसन्द नहीं था, इसलिए। नाम था पीपकिन! बैर वह दूसरे शहर चला गया। एक्टिंग क्या करना था, वस मग जाता था, खुद को मतली आती थी। पर जनता खुश थी। क्यो? नाम बदल लिया उसने—रसिकोव। यह नाम पसन्द आया लोगों को!”

मेफोदी भी यह बातचीत सुन रहा था, उसने आनोच्का को हौसला बाधना अपना फ़र्ज ममझा:

“उमकी ब्रातों पर कान मत दो। यह भी कोई एक्टर है? बैरा है यह तो। हमेशा सलाहें देता रहता है।”

“मेरी तो ममझ में नहीं आता, आनोच्का कि यह येगोर पाव्नो-विच को पार्ट रखवाने की क्या धून सवार हुई है”, आग्निया ल्वोब्ना कहती। “प्रोम्प्टर किमनिए है? अब याद नहीं पड़ रहा, पर किसी फ्रान्सीसी उपन्यास में, शायद बल्जाक का था वह, मैंने पढ़ा था: थियेटर जगत का उदीयमान सितारा है—अभिनेत्री फ्लोरीना, उसके ड्रेसिंग रूम में उमके कद्रदान जमा हैं, उसे स्टेज पर जाना है, और वह कहती है: ‘जाओ भव बाहर, मुझे अपना पार्ट पढ़ तो लेने दो, कुछ ममझ तो नूँ है क्या!’ घंटी बजने के बाद वह यह बात कह रही है! स्टेज पर जाने का बक्त आ गया और वह कहती है, कुछ ममझ नो नूँ है क्या! उसे कहने हैं अभिनेत्री! कलाकार! और यहा तुम महीनों में बोटा लगा रही हो! आखिर अभिनय कौमा

और पूर्णविराम से नहीं होता, इसके लिए तो कुछ और भी चाहिए। देखेंगे, मेरी जान, है तुममें यह कुछ और या नहीं !”

रंगमंच के ये सब सूरमा, जो उम्र भर यश के सिंहद्वार के बाहर कतार लगाये खड़े रहे थे, अपना अनुभव इस युवती को बांटने को उतावले थे, जो अभी अपनी अल्पायु के कारण खास ज्ञान नहीं पा सकी थी, और यदि इन सब परामर्शों से आनोच्का का सिर चकराया नहीं, तो इसका एकमात्र कारण यह था कि वह येगोर पाल्लोविच को सबसे बढ़कर मानती थी और अगर किसी के बताये रास्ते पर चलने की कोशिश करती थी, तो केवल उसके बताये रास्ते पर।

वह शायद शब्दों में आनोच्का को कला का सिद्धांत समझाने में असमर्थ था, और यह बताने में भी कि अगर तुम आनोच्का पाराबु-किना हो, तो लुईजा मिल्लर की भूमिका कैसे अदा करो, लेकिन वह एक सच्चा कलाकार था और व्याख्याओं के स्थान पर उसके पास अनुभव था। वह आनोच्का को वे हल बताता था, जो उसने स्वयं पाये थे, और समय ही यह बता सकता था कि क्या आनोच्का उन्हें समझ सकती है, और क्या वह उन्हें स्वीकार करना चाहती है।

आखिर अक्तूबर बीतते न बीतते नाटक तैयार हो गया।

३४

नाटक तैयार था।

विश्वविद्यालय के पास स्थित रेजीमेंट की बैरकों में नाटक हुआ। विशाल हॉल, जिसे अभी तक गरम नहीं किया गया था, एक सिरे से दूसरे सिरे तक नये रंगरूटों से भर गया। रंगरूट टखनों तक लंबे फौजी ओवरकोट या घुटनों तक के भेड़ की खाल के ओवरकोट पहने थे। प्रहरी कम्पनी के सिपाही बंदूकें भी उठाये थे। गैरफौजी लोग भी यहां काफी थे, जिन्होंने अंधेरे और ठंड में आधा शहर पैदल पार करके यहां आने का साहस किया था। आखिर यह कोई मामूली घटना नहीं थी और फिर त्स्वेतुखिन के नाम ने इसे और भी अधिक आकर्षक बना दिया था। स्वाभाविक ही है कि आगे की कतारों पर नये अभिनेता-ओं के रिश्तेदारों और परिचितों का कब्जा था।

पागवुकिन पहले कभी भी मंच के इतनी पास नहीं बैठा था, हालांकि यह उसके लिए काफी तकलीफदेह था, पर फिर भी वह गेवीला दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था। हौसला बुलंद रखने के लिए उसने यहां आने से पहले धूंट भर ही पी थी और वडे जतन में यह छिपा रहा था। पर खचाखच भरे हॉल की गर्मी का अहसास उमी को मवमे पहने हुआ और वह अपने तह किये हुए रूमाल से माथा पोछने लगा।

दोनोंगोमीलोंव की तबीयत काफी अरसे से खराब चल रही थी, पर नड़कों के आग्रह को टाल नहीं सकता था। उसके नन्हे दोस्त कुर्मियों पर कुलवुला रहे थे, कभी गर्दन तानकर यह देखते कि मंच पर उन्हें मव कुछ दिखाई देगा कि नहीं, कभी कटे वालों वाले सिर उधर-उधर घुमाते। उनकी आंखें अभी से हर्पोल्लास से चमक रही थीं, लगता था जैसे वे विजली की तेज रोगनी को प्रतिविम्बित कर रही हों क्नव को इम अवमर के लिए विजली दी गई थी।

लीजा और अनातोली मिखाडलोविच एक ओर को ऐसी जगह पर बैठे थे कि बीन्या पर भी नजर रख सकें और वेरा निकान्द्रोव्ना की नजरों में न पड़ें। लीजा नहीं चाहती थी कि किसी का ध्यान उसकी ओर जाये। यहा का वातावरण उसे उत्तेजित कर रहा था, यह थियेटर जैमा नहीं था, पर फिर भी इससे तुरन्त ही उसकी अनेक स्मृतियां मजीब हो उठी थीं।

वेरा निकान्द्रोव्ना ने किरील के लिए सीट धेर रखी थी। वह विन्कुल अंतिम क्षण पर ही आया, जब वत्तियां बुझीं और दर्यकों की बातचीत तेजी में थम गईं।

इम क्षण आनोच्का मंच पर परदे को थोड़ा सा हटाकर हॉल में भाक रही थी। ल्वेन्तुस्त्रिन ने उससे कहा था कि वह किसी एक व्यक्ति को, जो उसे अच्छा लगे, चुन ले और फिर उसी व्यक्ति के लिए अभिनय करें:

“मैं नदा किसी एक व्यक्ति के लिए अभिनय करता था और नोचना था कि वही आदमी मेरे अभिनय का फैसला करेगा।”

आनोच्का दमियों चेहरों पर नजर ढोड़ा चुकी थी, पर यह फैसला नहीं कर पा रही थी कि किसे चुने। वह एक नये मंसार में झांक

रही थी। अपने भविष्य के संसार में, जिसकी ओर शीघ्र ही उसे पहला कदम बढ़ाना था। उसका कलेजा बैठा जा रहा था।

और सहसा उसे कतारों के बीच बढ़ता किरील दिखाई दिया। उसी क्षण हाँल अंधेरे में डूब गया। वह एकदम भयभीत हो उठी, उसे लगा उसका सिर चकरा दहा है, घुटने कांप रहे हैं, पर तभी उसने सुना, कैसे फर्दीनांद पास आया और उसके कान में बोला:

“बहुत हुआ, लुईज़ा, अब शुरू करना चाहिए !”

‘छल और प्रेम’ की घटनाएं दर्शकों को पहले दृश्य से ही वशीभूत कर लेती हैं, और दर्शक जितने अधिक सरलचित्त होते हैं, उतना ही अधिक वे प्रभावित होते हैं। मंच पर तुरन्त ही ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिसे सब समझ सकते हैं, और परस्पर विरोधी भावनाओं का टकराव दर्शकों में कौतूहल पैदा करता है।

इस बात से कि अभिनेता अठारहवीं सदी की वेशभूषा – ज़रीदार कोटियां, पाउडर लगे विग और सुनहरे वकलसों वाली जूतियां पहन लेते हैं, वे दर्शकों के लिए अस्वाभाविक नहीं हो जाते हैं। पात्रों का विचित्र रूप मंच पर हो रही घटनाओं में दर्शकों की रुचि को बढ़ाता ही है। नाटक का सार मुखौटों में नहीं, बल्कि उनसे कहीं गहरा होता है।

कौनसा ऐसा हृदय है जो युवक के पहले ज्वार को अनुभव नहीं कर सकता, या युवती के पहले प्रेम को, इस प्रेम को रोक पाने की असमर्थता और भावना को प्रकट कर देने की अदम्य इच्छा को नहीं समझ सकता? किसने ऐसे कुद्द पिता को नहीं देखा है, जो मां को वेटी के खतरनाक अनुराग की ओर से आंखें मूंदे रहने का दोषी ठहराता है? किसने जीवन में उन बड़े लोगों को नहीं देखा है, जो अपने स्वार्थ की खातिर पराये सुख को उजाड़ते हैं?

रेजीमेंट की बैरकों के इस हाँल के बाहर, नगर में और नगर से बाहर, सारे असीम देश में वे लोग अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, जो सदियों से इसके शिकार होते आये थे और अब अपनी मुक्ति के लिए उठ खड़े हुए थे। हाँल में जमा लाल सैनिक टूटपुंजिया परिवार की इस दुखद कथा की छोटी-छोटी घटनाओं में अपनी भावनाओं की प्रतिध्वनि स्पष्टतया सुन रहे थे। वहां मंच पर अन्याय का राज था।

यहा हॉल में अन्याय से घृणा व्याप्त थी। हॉल न्याय का भूखा था। मच पर न्याय को रोंदा जा रहा था, और यहां हॉल में से सहानुभूति की लहर मंच की ओर बढ़ रही थी।

नहीं, लुईजा यों व्यर्थ ही नहीं तड़प रही थी। अत्याचार के प्रति अपनी घृणा में, सर्वशक्तिमानों की गर्व से अवज्ञा करने में और यहा तक कि अपनी निर्वलता और दुख में भी वह अकेली नहीं थी। कानि के सेनानी, जो जीवन के हर पहलू में सच्चाई खोज रहे थे, दर्शक बनकर रंगमंच से भी सच्चाई की मांग करते थे। इस सच्चाई का एक अश वे इस निस्सहाय युवती में देख रहे थे, और लुईजा की वेदना उन्हें जितनी अधिक उदात्त लगती थी, उतनी ही अधिक गम्भीरता में वे उमकी ओर सहायता का हाथ बढ़ाने को तत्पर थे।

हॉल में ऐसा मन्नाटा था, जैसा अमावस की रात में खेत में होता है। दर्शकों के हृदयों में जो भावनाएं उमड़ रही थीं, उनमें सबसे प्रबल थी विस्मय की भावना, दर्शक इस बात पर विस्मित थे कि रंग-विरंगी कोटियां और तिकोनी टोपियां पहने ये लिपी-पुती आष्ट्रतियां मचमुच के लोगों जैसे जी रही हैं।

रंगमंच में शब्दों की धाराएं, नदियां और महासागर उमड़ते आ रहे थे, और इन शब्दों में से एक भी उन साधारण शब्दों जैसा नहीं था, जिनमें आम लोग अपने मन की बात कहते हैं, परन्तु फिर भी इन शब्दों की मर्मर ध्वनि में ऐसा जादू था कि इनमें निहित विचार को हर कोई महज ही समझ पा रहा था।

फर्दीनांद भले ही अपने उद्गार आडम्वरपूर्ण और अलंकृत भाषा में व्यक्त कर रहा था, फिर भी दर्शकों के मन में त्स्वेतुखिन के प्रति विश्वास ही जाग रहा था, जब वह भावनाओं के आवेग में बहता हुआ यौवन की विशालहृदयता के साथ लुईजा के सामने प्रेम की सौगंधें छा रहा था।

मोटे ऊनी ओवरकोट में लिपटा हर सैनिक अपनी मुट्ठी में खांस रहा था, ताकि पास वैठे लोगों को मुनने में कठिनाई न हो, और खुद भी वह डर रहा था कि कहीं त्स्वेतुखिन के मख्मली कंठ से उच्चाग्नि कोई ध्वनि उनके कानों में पड़ने में न रह जाये। हर कोई फर्दीनांद के मंत्रन्पी शब्दों को अपनी बोनी में स्थानांतरित कर रहा था और

शायद सोच रहा था कि एक दिन वह भी फर्दीनांद की भाँति कहेगा : “हमारे रास्ते में बाधाओं के पहाड़ ही क्यों न खड़े हो जायें, मेरे लिए वे सीढ़ियों के समान होंगे और मैं उन्हें लांघता हुआ लुईज़ा के बाहुपाश में पहुंच जाऊंगा ! दुर्भाग्य के तूफान मेरे प्रेम की ज्वाला को और अधिक भड़कायेंगे, खतरे मेरी लुईज़ा को और भी कमनीय बनायेंगे !” और शायद हर किसी को यह आशा थी कि एक दिन उसे भी कोई लुईज़ा की ही भाँति त्रास और भावावेग से बुद्धिमत्ता हुए कहेगी : “बस करो ! मैं हाथ जोड़ती हूं, चुप हो जाओ ! काश, तुम्हें पता होता ! ..”

यह लुईज़ा, जिसका कठिन सा नाम – पारावुकिना – इश्तहारों पर स्याही से लिखा गया था, अपनी कुमारीसुलभ सरलता, निश्छलता और हृदय की व्यथा से दर्शकों का मन जीत रही थी। यह सच्ची लुईज़ा थी। परन्तु शायद यह एक भ्रम ही था। शायद उसका मन यह सोचकर भयभीत हो रहा था कि इतने दुस्साहस के साथ उसने जो काम करने का बीड़ा उठाया है, उसे पूरा नहीं कर पायेगी। परन्तु दर्शकों से उसका यह डर किसी अनबूझ ढंग से दूसरे डर में समाता जा रहा था – यह एक गरीब लड़की का अपने निराशापूर्ण प्रेम से जन्मा डर था।

लीज़ा अचम्भे और ईर्ष्या के साथ आनोच्का का अभिनय देख रही थी। उसका मन यह मानना ही नहीं चाहता था कि मंच पर वही लड़की है, जो उन दिनों अनजानी-अनदेखी घास की तरह बढ़ रही थी, जबकि लीज़ा थियेटर का रसास्वादन कर रही थी और एकांत में इसके सपने देखा करती थी, इसे संसार की सबसे बड़ी खुशी माना करती थी। हां, यह घास बड़ी हो गई थी। यह अब बच्ची नहीं थी, यह तो नारी ही थी – अपने भाग्य में निर्धारित खिलने की घड़ी की पूर्ववेला में। आनोच्का में ये गरिमामयी भंगिमाएं कहां से आईं ? किसने उसे इतने सहज भाव से ये पुराने परिधान पहनने सिखाये ? आखिर त्स्वेतुखिन तो ऐसा नहीं कर सकता था ! वह त्स्वेतुखिन के साथ अभिनय कर रही है ! स्वयं त्स्वेतुखिन के साथ ! वही आनोच्का, जो बचपन में डरते हुए उसे “कालू” कहती थी ! त्स्वेतुखिन के साथ लीज़ा का अभिनय कैसा रहता ? निसंदेह, वह अभिनेत्री बनती,

तो अच्छी लगती – उसकी चाल में शान है, और चेहरे पर कांति ! नेकिन अभिनेत्री यह वेदव सी आनोच्का बनी है, जो सच पूछो, नो मुंदर नहीं कही जा सकती। और लीज़ा शायद प्रांतीय नगर की माधारण स्त्री के रूप में ही अपने दिन काटेगी। पर क्या इसी में भला नहीं है ? हो सकता है, भाग्य ने उसे नीचा देखने से बचा लिया है ? जीवन में तो वह मोहक थी, मंच पर दयनीय हो सकती थी – कौन जाने ? शायद भाग्य की उदारता इसी में थी कि उसे चुपके-चुपके गगमच से प्रेम करने का अवसर दिया गया था, जैसे कि अधिकांश स्त्रियों को गगमच से लगाव होता है ?

क्षण भग्न को रंगमंच की ओर से ध्यान हटाकर लीज़ा ने नज़रें दौड़ाकर किरील को घोजा।

वह कुर्सी में थोड़ा आगे को बढ़ा हुआ एकदम सीधा बैठा था। फुटलाइटों की प्रतिविम्बित लाल-पीली रोशनी में उसका चेहरा सदा में अधिक पीला लग रहा था और किसी परछाई की पृष्ठभूमि में उसके नयन-नक्य झप्पतया उभरे हुए थे। दूर से यह देख पाना सम्भव नहीं था कि इस चेहरे पर क्या भाव आ जा रहे हैं, हाँ उतना साफ़ था कि किरील लुईज़ा पर आंखें गड़ाये हुए हैं।

नाटक में दर्शकों में विस्मय की जो भावना उत्पन्न हुई थी, किरील भी उसमें अभिभूत लग रहा था। परन्तु वह नाटक पर नहीं, अकेली आनोच्का पर विस्मित था। वैसे उसे अपने आप पर भी हैरानी हो रही थी : क्योंकर पहले कभी भी आनोच्का के व्यक्तित्व के सबसे मशक्त, सबसे आश्चर्यजनक पहलू – उसकी प्रतिभा की ओर उसका ध्यान नहीं गया ! आनोच्का के व्यक्तित्व को जैसे वह समझता आया था, वास्तव में वह उसमें कहीं अधिक समृद्ध और व्यापक था। उसके बारे में वह जो कुछ भी सोच सकता था, वास्तव में वह उस सबसे कहीं बढ़कर थी, कहीं अधिक थ्रेप्छ थी।

उसके होंठों पर धीरे-धीरे मृदु मुस्कान आ गई। नाटक की इन वेदनाओं में ऐसी निश्चलता थी, ऐसा भोलापन था कि कठोर में कठोर हृदय भी इनमें प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था।

जब फुटनों के बल बड़ी लुईज़ा उछली और पिता की बाहों से अपने आपको छुड़ाकर चले जा रहे फर्दीनांद की ओर लपकी और

कराहीः “मत जाओ ! मत जाओ ! कहां जा रहे हो ? पिता जी ! मां ! इस मुसीबत की घड़ी में ये हमें छोड़े जा रहे हैं...” – किरील और भी आगे खिसक गया और खांसने लगा, ताकि रुधे गले से उठती अजीब सी आवाज़ को दबा पाये। उसे खिड़की के पास अपनी हँसी याद आई, जब शाम बीते उसने यह दर्दनाक कराह सुनी थी, जिससे पहले तो वह भयभीत हो गया था और फिर उसकी हँसी फूट पड़ी थीः “मत जाओ ! मत जाओ !” लेकिन अब उसे हँसी नहीं आ रही थी। इस क्षण उसके मन में उफनती भावनाएं उसे आनोच्का के इतना निकट ला रही थीं, जितना वह उस शाम को भी नहीं था, जब उसने पहली बार आनोच्का को अपनी बांहों में भरा था। वह अपने इस उद्वेग को छिपाना चाहता था और आगे ही आगे, कुर्सी के ऐन सिरे पर खिसकता जा रहा था। वेरा निकान्द्रोव्ना के लिए इस तरह उसके चेहरे पर आते भाव देखना और भी आसान था, वह थोड़ा पीछे झुककर बैठी थी और बार-बार आनोच्का से नज़रें हटाकर बेटे पर डाल रही थीः अभी तक जो कुछ उसके लिए एक प्रश्न हो सकता था, वह सब इस क्षण पूरी तरह स्पष्ट होता जा रहा था।

दूसरा अंक बड़ी अच्छी तरह खत्म हुआ और दर्शक अभिनेताओं को पुकारने लगे। वे सब हाथ पकड़कर फूटलाइटों के पास आने लगे। उनकी हर्षमय उत्तेजना पर्दे में भी व्याप्त होती लगती थी, जो उनके कंधों के पीछे लहरा रहा था।

आनोच्का ने झुकते हुए उधर नज़र डाली, जहां किरील बैठा था। और सहसा उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने देखा एक सैनिक इज्वेकोव पर झुका उसके कान में कुछ कह रहा था। किरील तत्क्षण उठा और जल्दी-जल्दी लाल गार्ड के पीछे चल दिया।

दर्शक अभी भी तालियां बजा रहे थे और अभिनेताओं को पुकार रहे थे। आनोच्का के कानों में किसी युवा कंठ से निकली आवाज पड़ीः “पारा-बू-ऊ-किना !” इस लम्बे “ऊ-ऊ” के बावजूद यह आवाज उसे प्रभावोत्पादक और यहां तक कि सुरीली लगी। लेकिन मन पर सहसा घिर आई उदासी के कारण वह अपनी पहली सफलता का पूरा आनन्द नहीं ले पा रही थीः किरील ने उसकी ओर नज़र तक न डाली थी, और अब शायद क्लब से चला ही गया होगा—

आन्ध्र उमे नौमिखियों का नाटक देखने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण काम करने हैं।

अभिनेता चौथी बार एक दूसरे का हाथ पकड़कर पर्दे के बाहर आने को तैयार हुए थे और नायक नायिका का हाथ पकड़कर सबसे आगे चलने ही लगा था, पर तभी नेपथ्य में वही लाल गार्ड दिखाई दिया, जो थोड़ी देर पहले किरील को हॉल में से ले गया था।

“कामरेड त्वेतुखिन, जरा ठहरिये!”

उमके कहे कुछ शब्द सुनते ही त्वेतुखिन ने पर्दे से बाहर निकलने का डगदा छोड़ दिया, और फिर पल भर में ही मंच पर सब कुछ बदल गया।

मददगारों ने मंच मज्जा को हटाना छोड़ दिया, हथौड़े और प्लायर्स हाथ में लिये आगे के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। अस्त-व्यम्न प्रोम्प्टर अपने कपड़े भाड़ता बूथ में से निकल आया, आग बुझाने की ड्यूटी पर तैनात आदमी अपनी जगह से हट गया, किसी तानाथाह हुकूमत की पुलिस की वर्दी पहने एक्स्ट्रा मंच पर आ गये। अभिनेताओं को यह सब कुछ बुरा लग रहा था, क्योंकि हॉल में अभी भी तालियों की गड़गड़ाहट गांत नहीं हुई थी।

“कोई नहीं जाये, भई, कोई नहीं”, निदेशक का सहायक नाटक की घम्नाहाल कापी मिर के ऊपर हिलाता हुआ कह रहा था।

“मारी मण्डली!” त्वेतुखिन आदेश दे रहा था।

“हॉल में वत्तियां बुझा दें?” मंच के परले सिरे से विजली मिस्त्री पूछ रहा था।

“अर्द्धचन्द्र बनाड़ये, अर्द्धचन्द्र,” सहायक सबको खड़ा करने में लगा हुआ था।

“अरे, हुआ क्या? फोटो खींचेंगे क्या?”

“मेक-अप बाले को बुलाओ! मरीया डवानोब्ला को बुलाओ!”

“एक्टर आगे आयें! पाम-पास! तुड़जा बीचोंबीच! चलिये-चलिये! सटके खड़े होड़ये, सटके!”

“गायेंगे क्या?”

“मददगार कहां हैं? आप लोग भी खड़े होड़ये न! कहां जा रहे हैं?”

“दाईं स्पॉट लाइट ! स्पॉट लाइट बुझ गई !”

“मीटिंग होगी ? किस बात की ?”

“हॉल में लंबी घंटी दो ! है कोई घंटी पर ?”

“सब कुछ तैयार है, येगोर पाव्होविच। सब आ गये।”

त्सेतुखिन ने मण्डली पर नज़र दौड़ाई, बीचोंबीच जाकर खड़ा हो गया और अपने सहायक को सिर से इशारा किया।

“चलो !” नाटक की कापी को सिर के ऊपर उठाकर और फिर एक झटके से नीचे लाते हुए वह चिल्लाया।

पर्दा मंथर गति से उठने लगा।

दर्शक आपस में बातें करते हुए अपनी-अपनी सीटों पर बैठने लगे और फिर से तालियां बजाने लगे। कोई नहीं जानता था कि क्या होनेवाला है, बहुतों ने सोचा कि दर्शकों ने जिस तरह जोरदार तालियां बजाई हैं, उस पर आभार प्रकट करने के लिए ही मण्डली यों जमा हुई है – आखिर यहां सब कुछ नया था : लोग भी थियेटरी परम्पराओं से परिचित नहीं थे और थियेटर का भी इन परम्पराओं पर चलने का कोई इरादा नहीं था।

सहसा इज्वेकोव तेज़-तेज़ कदमों से चलता हुआ मंच के ऐन बीचोंबीच आ खड़ा हुआ। उसने हाथ ऊपर उठाया और सब खामोश हो गये।

“साथियो !” वह ऊंची, चीखती सी आवाज में बोला, जो अभिनेताओं की सधी हुई आवाजों से विल्कुल भिन्न थी। और इसमें ऐसी नवीनता थी कि जो कुछ भी रंगमंचीय था, वह मानो पलक झपकते ही विलुप्त हो गया, और उसका स्थान किसी विल्कुल ही भिन्न बातावरण ने ले लिया।

“अभी-अभी हमें तार से खबर मिली है कि दक्षिणी मोर्चे पर हमारी शानदार जीत हुई है।”

सारा हॉल मानो एक साथ फुसफुसाने लगा और फिर अपने आप ही शांत हो गया।

“वोरोनेज के पास कामरेड बुद्योन्नी के लाल रिसाले ने मामोन्तोव और शुरुरो की सफेद कैवेलरी कोरों को धूल चटा दी है ! वोरोनेज ...”

उसे आगे बोलने नहीं दिया गया। धीरे-धीरे बढ़ती गड़गड़ाहट की भाँति नहीं, बल्कि एकदम ही फट पड़े बादल जैसा शोर हुआ।

चीजें मानो तालियों के घोर को दवा देना चाहती थीं, पैरों की पटापट फर्झ पर बंदूकों के कुंदों की ठकाठक से होड़ लगा रही थी। पहले मवरमें दूरवाली कतारों में और फिर आगेवाली कतारों में भी बैठे सैनिक उठने लगे और भुंड के भुंड मंच की ओर बढ़ने लगे।

किनील ने फिर से हाथ उठाया और भीड़ की ओर कदम बढ़ाया। वह अनिच्छापूर्वक शांत होने लगी।

“हमने वोगेनेज आज्ञाद करा लिया है! हमारे सैनिकों ने बहुत बड़ी संख्या में दुश्मन के हथियारों, आदि पर कब्जा कर लिया है। मफेद गार्ड दुम दवाकर भाग रहे हैं!”

फिर मेरे युवा कंठ ‘हुर्रा’ चिल्लाये और तालियों की गडगड़ाहट गूजी। मंच मे नीचे दिखाई दे रहे थे असंख्य और विविधतम चेहरे मानो एक ही मुम्कराते चेहरे में मिलकर किरील के स्मृति-पटल पर अकिन हो गये।

“किसी भी धण और व्योरों का पता लगने की उम्मीद है। तार मे कहा गया है कि हमारी सेनाएं दुश्मन का पीछा कर रही हैं। हम मामोन्नोव के कज्जाकों और श्कुरो के वालंटियरों को खदेड़ रहे हैं। माथियो, यह मफेद गार्डों के अंत की शुरूआत है। देनीकिन की हार पक्की है। देनीकिन और उसके जैसों को हम सदा के लिए दफ़ना देंगे। नाल सेना उनके लिए अथाह कब्र खोद रही है। मजदूरों और किमानों का यशस्वी सोवियत रिसाला जिंदावाद!”

यह हर्पेंन्माद की पुकार थी और हाँल इस हर्पेंन्माद से गूंज उठा, बैंगकों की पुगानी दीवारें डस गूंज की लहरों को प्रतिव्वनित करती हुई डमे और भी जोरदार बनाने लगीं।

मामने की कतारों में बैठे सभी गैर सैनिक लोग भी उठ खड़े हुए। पहले पाविक और फिर उमकी देखादेखी वान्या और वीत्या भी कुर्मियों पर खड़े हो गये। आर्सेनी रोमानोविच सिर के ऊपर हाथ ऊचे उठाकर तानियां बजा रहा था और उसकी हल्की सुरमई सी लट्टे उनकी नाल पर हिल रही थीं। पाशवुकिन जाने क्यों अपना जनन मे नह किया हुआ स्माल ही हिलाता जा रहा था। लीज्जा बेटे की ओर देखनी हुई तानियां बजा रही थीं, वह डस ताक में थी कि कब बेटा उमकी ओर मुंह मोड़े और वह उसे कुर्सी से उतर जाने

का इशारा करे। ओज्जोविशिन भी बड़े सलीके से अपनी छोटी सी हथेली पर उंगलियों से ताली बजा रहा था।

मंच पर अभिनेताओं ने अपना अर्द्धचंद्र तोड़कर इज्वेकोव को घेर लिया। वे भी तालियां बजा रहे थे और किरील को मंच से जाने नहीं दे रहे थे। अठारहवीं सदी के रंग-विरंगे आतलसी, रेशमी और मखमली परिधानों के बीच किरील की खाकी कमीज विल्कुल अटपटी लग रही थी। पाउडर लगे विगों के बीच अकेला वही काले बालों वाला था। अपने स्वाभाविक रूप पर उसे संकोच हो रहा था, मानो अकेले उसने ही ताम-धाम कर रखा हो और उसके इर्द-गिर्द के मुखोंटे स्वाभाविक हों। इस संकोच को छिपाने के लिए उसने हाथ जेव में डाल लिये, पर तुरन्त ही बाहर निकाल लिये और पता नहीं क्यों त्स्वेतुखिन की ओर हाथ बढ़ाया, उसका मजबूत हाथ दबाया और फिर हँसती आनोच्का का हाथ पकड़कर ज़ोर से हिलाया।

उसे लगा कि इस क्षण तालियां और भी अधिक ज़ोर से बजने लगीं, और उसने सोचा कि यों हाथ मिलाकर वह हॉल का ध्यान जीत के समाचार से अभिनेताओं पर ले गया है, और यह अक्षम्य भूल है। दृढ़तापूर्वक कदम बढ़ाता हुआ वह मंच से चला गया।

आनोच्का दौड़ी-दौड़ी उसके पास पहुंची। अभी भी हँसते हुए उसने ज़ोर से पूछा:

“ऐसी खबर पाकर तो आप अब यहां रुकेंगे नहीं?”

वह थम गया। पहली बार वह उसकी पाउडर लगी ग्रीवा, उसका अध्युला वक्ष, उसके चमकते से होंठ और उसकी आंखों की नीलिमा, जो मानो पलकों पर फैल गई थी, इतने निकट से देख रहा था। किन्तु इस सारे साज-शृंगार के पीछे से आनोच्का अपनी आश्चर्यजनक स्पष्ट दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी—वही आनोच्का, जिसे वह सदा अपनी कल्पना में देखा करता था, वह आनोच्का जिसे कोई भी मेक-अप उसकी नज़रों में न कम खूबसूरत बना सकता था, न अधिक, और जो धड़कते दिल से उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी।

“नहीं, मैं आखिर तक नाटक देखूँगा। वस बीच-बीच में मुझे फोन पर जाना होगा—यहीं पास ही है, दो कमरे छोड़कर।”

वह थोड़ी देर चुप बढ़ा रहा। शृंगार के पीछे से, मानो थोड़ी-

थोड़ी धूल जमे गींगे के पीछे से उसने आनोच्का का जो रूप देखा था, उनमे नजरे हटाने का उसका जी नहीं चाहता था।

“कितनी अच्छी लग रही हैं आप!” उसने कहा।

वह थोड़ा परे हट गई।

“आप और किसी को फोन पर विठा दीजिये,” वह बोली।

“मुझे खुद वहां होना चाहिए।”

“तो फिर हाँल में अपनी जगह किसी को विठा दीजिये, ताकि अपको यह बता दें कि मेरा खेल कितना बेकार रहा।”

“मैं मिर्झ इंटरवल में ही जाऊंगा,” वह मुस्कराया।

आनोच्का के बैहरे के भाव में लेशमात्र भी नखरा या नाज़ नहीं था – उसे वस विश्वास नहीं था कि किरील ने गम्भीरतापूर्वक वायदा किया है। दूसरे अभिनेता दूर से उन्हें देख रहे थे। एक मददगार चिल्लाया। गम्ता छोड़ो! किरील ने हौसला बढ़ाने के अंदाज में सिर हिलाया और चला गया।

त्वेतुक्षिण ने तुरन्त ही आनोच्का से चलते-चलते पूछा:

“क्या कहता था?”

“अच्छा लग रहा है,” आनोच्का ने भी यों ही भावहीन से स्वर में उत्तर दिया।

नाटक के दौरान वह किरील को नहीं देख सकती थी (उसे हाँल में देखते हुए ही डर लगता था), और इंटरवलों में उसकी मीट खाली होती थी। सो वह नहीं जानती थी कि उसने अपना वायदा पूरा किया है या नहीं।

नाटक एक बार जो चल पड़ा, तो फिर आखिर तक उखड़े विना चलता ही गया। उल्टे, वह दर्शकों को अधिक ही अधिक अच्छा लग रहा था। आयद विजय के समाचार से मनों में उठी उमंग का दर्शकों पर प्रभाव पड़ा था, वे पहले से भी अधिक सहृदय हो गये थे और दबादब तालियां बजा रहे थे, लेकिन अभिनेता लोग दर्शकों की इस मद्भावना को अपनी मफलता का ही परिणाम समझ रहे थे और अपना काम अच्छी तरह विश्वासपूर्वक कर रहे थे।

अंतिम अंक की समाप्ति पर दर्शक और भी अधिक जोश से तालियां बजाने लगे और अभिनेताओं को बुलाने लगे। सब मंच के पास जमा

हो गये। सारे अभिनेता त्स्वेतुखिन को सम्बोधित करके तालियां बजा रहे थे, वह उनकी प्रशंसा में करतल-ध्वनि कर रहा था, आनोच्का का हाथ पकड़कर उसे आगे ला रहा था। अभिनेताओं ने न जाने कितनी बार कमर तक भुक-भुककर दर्शकों का आभार प्रकट किया।

पाराबुकिन गर्व से खड़ा था, यह प्रतीक्षा करता कि कव लोग उसे बधाइयां देंगे। सबसे पहले दोरोगोमीलोव ने बड़े जोश से उससे हाथ मिलाया।

“देखा आपने! क्या कहने हैं! होनहार है लड़की! होनहार! अपने घर पर ही ऐसा हुनर मिल गया, है न? सब त्स्वेतुखिन का कमाल है! कितनी बढ़िया मिसाल है!”

पाराबुकिन अपने जाने कव से खुल गये और विल्कुल भीग गये रूमाल से माथा पोंछते हुए सिर हिला रहा था और अर्थपूर्ण ढंग से खांस रहा था। वेटे का हाथ पकड़कर और भीड़ में से उसे अपनी ओर खींचते हुए वह उस पर भुक गया:

“अरे पाल्किक, अब तो हम लखपती बन जायेंगे, लखपती! येगोर पाल्लोविच तेरी वहन पर सोने की बौछार कर देगा!”

लीज्जा टकटकी लगाये फ्रुटलाइटों के पास आती और फिर पर्दे के पीछे जाती आनोच्का को देख रही थी। इस क्षण उसे न ओज्जनोविशिन की सुध थी, जो बड़े धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और न ही बीत्या की। पहले की ही भाँति वह अपने आप से पूछ रही थी—इस लड़की में ऐसे संघर्ष में कूदने और उसमें विजयी होने का साहस कहां से आया? और पहले की ही भाँति वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं पा रही थी। तभी विल्कुल पास ही खड़े किरील पर उसकी नज़र पड़ी।

वह पंजों के बल खड़ा होकर वेरा निकान्द्रोव्ना के कंधे के पीछे से मंच की ओर देख रहा था। उसके होंठ फड़क रहे थे। प्रत्यक्षतः वह निष्पक्ष निर्णयिक बना रहना चाहता था, जबकि उसकी भावनाएं उसे बहाये लिए जा रही थीं, और इस द्वंद्व में हर्ष की चिनगारियां फूटी पड़ रही थीं। उसे मानो यह आभास हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है, वेचैन सा वह मुड़ा और लीज्जा को देखकर सकपका गया। भीड़ को चीरता हुआ उसके पास गया और उसका अभिवादन किया।

“आप भी आनोच्का के खेल से प्रसन्न लगते हैं,” लीज्जा ने कहा।

“मुझे तो लगता है कि पूरा नया थियेटर ही तैयार हो गया है। मैंने सोचा तक न था कि त्वेतुविन इतनी अच्छी तरह सब कर लेगा। देखिये तो मैनिकों को कितना पसन्द आया है।”

“बास तौर पर आनोच्का, है न?” लीजा अपनी ही बात पर अड़ी हुई थी।

“हाँ,” किरील ने अनिश्चित से स्वर में कहा। “ऐसे सीधे-मादे दर्शकों के लिए खेलना आसान है।”

“मुझे लगता है, आसान नहीं है। खेल ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ समझ में आये।”

“समझाने को है क्या? लोग खुद ही सब समझते हैं”, किरील ने कहा, फिर पल भर को मानो अपने किसी विचार पर रुककर सहसा बोला: “वैमे इस मतलब में आपका कहना सही है कि ऐसा नाटक पेश करना ज्यादा आसान है, जिसमें किसी को कुछ समझ में न आये।”

अभी भी ब्रासा शोर हो रहा था और वे दोनों जोर-जोर से बातें कर रहे थे। वे इतने पास-पास खड़े थे कि उनके कंधे एक दूसरे को छू रहे थे।

“मुझे खुशी है कि आप से मुलाकात हो गई,” लीजा ने कहा। “मुझे भी।”

“मैं आपके पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी।”

“शुक्रिया किस बात का?”

“पिता जी की मदद के लिए। वह दो हफ्ते से घर पर हैं।”

“वह... अच्छा! समझा। पर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं।”

“यह मत्त नहीं!”

वह हँस पड़ा।

“मैं दूसरों के किये का श्रेय क्यों लूँ? यह मव रागोज़िन ने किया है। वह तो आपके पिता जी को जानता है।”

“पर यह बात सच नहीं। मैंने भी मुना था कि रागोज़िन ने मदद की है। मेरे पति आभार प्रकट करने गये थे। पर रागोज़िन ने कहा कि उमे इस मामले की ब्वार तक नहीं और उन्हें भगा दिया।”

“सख्त आदमी है,” किरील फिर से हँसा, “और वह भी परोपकार करनेवालों में नहीं है। वैसे मेरे ख्याल में आपके पिता जी पर किसी का कोई उपकार नहीं है। उन्हें अपने किये की जितनी सजा मिलनी थी मिल गई।”

लीजा ने जहां तक सम्भव था किरील के कंधे से अपना कंधा परे हटा लिया, और चुपचाप उसकी आंखों में झांकती रही।

“आपने सदा की भाँति बेटी का कर्तव्य निभाया है, आपको इस पर संतोष होना चाहिए। और क्या चाहिए?”

“यह क्या है? पुराना बदला?” लीजा ने कड़वा घूंट भरते हुए कहा।

“यह सच्चाई है,” किरील ने रुखाई से कहा और इधर-उधर नज़र दौड़ाई। “लगता है अब अभिनेता नहीं निकलेंगे। चलना चाहिए।”

उसने जल्दी-जल्दी विदा ली।

हाँल में सचमुच ही शोर कम हो गया था, पर अभी भी काफ़ी लोग तालियां बजा रहे थे, सो त्स्वेतुखिन आनोच्का का हाथ पकड़कर आखिरी बार उसे पर्दे से बाहर लाया।

आनोच्का के चेहरे पर ऐसा भाव था, मानो इस अप्रत्याशित सफलता का नशा अभी उतरा न हो—उसकी मुस्कान जड़ सी लगती थी और उसकी कमर में लचक नहीं रही थी! बढ़ती चिंता के साथ उसकी नज़रें किरील को ढूँढ़ रही थीं और बढ़ती निराशा के साथ वह पर्दे के पीछे लौट रही थी।

अंततः वह अपने विल्कुल छोटे से ड्रेसिंग रूम में दौड़ी आई, कुर्सी पर ढह ही गई और आंखें मूँद लीं। एकांत के अनमोल क्षणों में देखे उसके सपने सच हुए थे—वह नायिका बनी थी, वह सफल रहीं थी! पर अब उसे बेइंतिहा थकावट और अजीब सी उदासी के अलावा और कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वह इतनी निढाल थी कि उसका रोने को जी हो रहा था।

उसने गहरी सांस ली ही थी कि दरवाजे पर जोर से भड़भड़ हुई और तुरन्त ही वह खुल गया।

त्स्वेतुखिन अंदर दौड़ा आया। उसने झटके से अपना विग उतारा, चोटी से उसे पकड़ लिया और सिर के ऊपर यों घुमाने लगा, जैसे

वह किसी जीत का डनाम हो। आनोच्का से कदम भर की दूरी पर आकर उसने बांहें फैलाई :

“भई वाह, कमाल कर दिया तुमने! जी करता है तुम्हें चूम नू!”

आनोच्का की मागी थकावट पलक झपकते ही गायब हो गई। कुर्मी पीछे छुकराकर वह उठ खड़ी हुई। लपककर उसने त्स्वेतुखिन के गले में बांहें डालीं। उसने आनोच्का को बांहों में भरा और होंठों पर चूमा, फिर मुंह परे हटाकर बोला :

“एक बार फिर, मेरी प्यारी एकट्रेस !”

आनोच्का ने बुद उसे चूमा। त्स्वेतुखिन ने फिर से मुंह से उसके होंठ टटोल लिये। वह पीछे हटना चाहती थी, पर त्स्वेतुखिन ने उसका मिन अपनी मुड़ी बांह में दबोच लिया। आनोच्का ने अपने आप को छुड़ा ही लिया। त्स्वेतुखिन जल्दी-जल्दी बुदबुदाया :

“एक बार फिर... चलो न!”

आनोच्का ने उसकी काली आंखों में कोई नया, भयावह भाव देखा।

वह भुकी और कुर्मी उठाकर अपनी मेज के सामने बैठ गई—त्स्वेतुखिन की ओर पीछ करके। शीशे में वह देख रही थी कैसे वह अपना माथा पोंछ रहा था, जो स्पष्टतया दो भागों में बंटा हुआ था—ऊपर बाला भंवलाया सा था और उसके ऊपर खिचड़ी बाल थे, निचला भाग मेक-अप के कागण नारंगी सा था, मेक-अप से उसकी भुर्खियां और भी उभर आई लगती थीं।

“येरोग पाल्लोविच, अब आप जाइये। मुझे कपड़े बदलने हैं।”

त्स्वेतुखिन पल भर को खड़ा रहा। सहसा उसने विग यों हिलाया मानो केंकने लगा हो, फिर मुड़ा और अपने पीछे हैंिले से दरवाजा बंद करके चला गया।

आनोच्का बुत बनी थी। फिर से वह निढाल हो गई थी, और चाहकर भी हाथ नहीं उठा पा रही थी, ताकि मुझ्यां निकालकर टोपी उतारे। हाँन के घोर और नेपथ्य के विचित्र एकांत की सीमा पर ही उसे अभृतपूर्व और जोखिम भरे नये जीवन के आरम्भ की अनुभूति हो रही थी।

सहसा एक नीचा सा नारी स्वर सुनाई दिया। आनोच्का उसे पहचान गई और कपड़े बदलने लगी।

“अरे कहां जा छिपों, मेरी जान?” आग्निया ल्वोन्ना चहकती आ रही थी। “यहां तुम्हें बधाइयां देने आ रहे हैं, और तुम कहां भाग गई हो!”

वह ड्रेसिंग रूम में घुस आई, कुर्सी पर बैठी आनोच्का को पीछे से बांहों में भरा और उसके कान, गर्दन और गाल पर बोसे बरसाने लगी।

“भई मानना होगा, मानना होगा!” चुम्मों के बीच-बीच में वह चहकती जाती। “बड़ी ही प्यारी रहीं तुम, और ऐसी स्वाभाविक कलात्मकता थी! ईमान कसम मैंने तो सोचा तक न था! वैसे तो जान, अभी तुम्हारे खेल में वह भावनाओं का तूफान नहीं है। पर कल की बच्ची से इसकी उम्मीद ही कैसे की जा सकती है! हां, नाराज मत होना, मेरी जान! और फिर, वेशक, अभी तुम्हारे अभिनय में कौशल नहीं छलकता! मैंने रंगमंच पर उतरने के चार साल बाद कहीं लुईज़ा का पार्ट अदा किया। ओह, कैसी बावली हो उठी थी जनता! भुलाये न भूलूंगी! और तुम चाहती हो कि पहली बार में ही सब कुछ हो जाये! वेशक, अभी तुम्हारे अभिनय में गहराई नहीं आ सकती! पर तुम दुखी मत होओ, और हां देखो विसूरने मत लगना। सबसे बड़ी बात है कि बड़ा प्यारा रहा और जनता को पसन्द आया। कौशल तो समय के साथ आ जायेगा, और जहां तक भावनाओं का सवाल है...”

इतना कहते हुए उसने अपना जलता गाल आनोच्का के कान से सटाया:

“इस मामले में येगोर पाल्लोविच की बातों में मत आ जाना।”

“यह आप क्या कहती हैं?!” आनोच्का झटके से परे हटी।

“अरी छोरी, मैं उसे जानती नहीं क्या? अभी आता होगा, चुम्मा-चाटी करने लगेगा! फिर तुम्हारे आगे अपना दुखड़ा रोने लगेगा। कहेगा कि मैंने उसका जीना हराम कर रखा है, कि अकेली तुम ही उसे मेरे चंगुल से छुड़ा सकती हो, उसे तबाह होने से बचा सकती हो। किसी बात पर विश्वास मत करना! यह सब ढोंग है और बकवास!

वह तो वम लम्पट है, और कुछ नहीं! और अगर मेरी लगाम न होती, तो वह कभी भी त्सेतुखिन न बन पाता, वस यों ही लौंडियों के चक्कर में घूमता-फिरता! मैंने ही उसे बड़ी हस्ती बनाया है!"

आनोच्का इसका प्रतिकार करना चाहती थी, यह शब्द-जाल, जो उमे लपेटे जा रहा था, उससे मुक्त होने की कोशिश में वह उठ भी गई, पर आग्निया ल्वोब्ना ने अपनी हथेली से उसका मुंह कसकर बद कर दिया और उससे विल्कुल सटकर मंत्र पढ़ती सपेरिन की तरह धीरे-धीरे बोली:

"याद रख ले! अगर तू मेरे येगोर के बहकावे में आ गई, तो मैं तेग जीना हराम कर दूँगी!"

इसी क्षण वह ठहाका मारकर हँसी और फिर से अपनी गाती आवाज में बोली:

"मेरी जान, अभी से घमंड मत करने लगो! देखो तो जनता तुमसे मिलने आई है, जैसे वो मजूसी बाल यीशू की पूजा करने! लगता है तुम्हारे पिता जी की अगुआई में। और तुम दर्शन नहीं देना चाहतीं। देखो तो। लो स्वागत करो। मैं चली येगोर पाव्लोविच के पास!"

जनता-बनता कोई नहीं थी, हां पारावुकिन और पाव्लिक गलियारे में मे सचमुच झांक रहे थे। इस बीच न जाने कहां पारावुकिन गला तर कर आया था। शायद वह अपने साथ जेव में शीशी लेता आया था कि कहीं ज्यादा उत्तेजित हुआ तो काम आयेगी, और वह वार्क आई काम आई थी।

"आनोच्का! मेरी प्यारी बेटी!" अंदर आकर हाँफता हुआ मा वह बोला। "मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था! क्या यह तुम ही थी? मेरे तो आंसू ही टपक पड़े! कवूल करता हूं। दिल भर आया! जगा सोचो तो किसका दिल! पारावुकिन का! उनने बड़े बलवान का! वाप को भलमानसी के रास्ते पर ला रही हो। बहुत-बहुत युक्तगुजार हूं तुम्हारा!"

पहले वह कमर तक भुका और फिर बेटी को प्यार देने लगा।

"तुम्हारी बातिंग मैं अपने बाकी दिन एक थियेटर से दूसरे थियेटर का चक्कर काटने बिताने को तैयार हूं! जहां तुम जाओगी, वहीं

मैं भी। तुम्हारे लिए पर्दा खोलूँगा! हुक्म दोगी, तो तुम्हारी पोशाकों पर इस्तरी करूँगा। और पाब्लिक तो अब तुम्हारे जिम्मे है। हां, बस, तुम्हीं उसके लिए मां हो। बेचारी मां को यह खुशी का दिन देखना नसीब न था। वह भी आज खुशी के आंसू वहाती!”

“अच्छा, पिता जी, जाइये अब। बाहर खड़े होइये, मैं अभी आती हूं।”

पाराबुकिन ने रहस्यमय ढंग से उंगली हिलाई।

“मैं खड़ा नहीं रह सकता, खड़ा कोई और होना चाहता है। बाहर वाले दरवाजे के पास...”

वह हौले से आनोच्का की ओर भुका:

“कामरेड इज्जेकोव है!”

“कहां?” आनोच्का प्रायः चीख उठी।

“चलो, मैं दिखाता हूं,” पाब्लिक ने बड़े उत्साह से कहा।

लेकिन वह उनकी ओर देखे बिना ही दौड़ चली, गलियारों को पार करती हुई वह हाँल के दरवाजे के पास रुकी। यहां कोई नहीं था। उसने चुपके से दरवाजा खोला।

सीढ़ियों के ऐन सिरे पर, जो लाल पर्दे द्वारा हाल से अलग किया हुआ था, पिंजरे में बंद चीते की तरह किरील आगे-पीछे तीन-तीन कदम नाप रहा था।

“आप अभी तैयार नहीं हुई?” उसने खुश होते हुए पूछा।

“आप कहां थे?” मुश्किल से सांस लेते हुए आनोच्का ने पूछा।

“मैं कहीं नहीं गया था।”

“मैंने आपको देखा नहीं।”

“पर मैं आपको देखता रहा हूं। मेरे ख्याल में ऐसे ही होना चाहिए। जल्दी से मेक-अप साफ़ कीजिये। मैं आपको घर पहुंचाना चाहता हूं।”

“अगर आप जल्दी में हैं, तो मैं आपको नहीं रोकूँगी!”

“मैं चाहता हूं कि हमारे पास ज्यादा समय हो।”

लेकिन वह मानो किरील की बात नहीं सुन रही थी, और सहसा वह बच्चों की भाँति हताश हो उठी, उसकी आंखें डबडबा आई और उसके मुंह से दीनता भरे उलाहने निकलने लगे:

“जाड़ये, जाड़ये यहां से! अगर आप के पास बक्त नहीं है... मैंने मोचा भी नहीं था कि आप मेरा इंतजार करें, मेरे लिए अपना काम छोड़ें। जाड़ये, अपना काम कीजिये। जाते क्यों नहीं?”

किरील ने उसके हाथ दबाये।

“मुनो तो, मुनो तो,” असहाय सा मुस्कराता हुआ वह कहने लगा। “ऐसा शुभ दिन है आज! सच!”

आनोच्का की मानो चेतना लौट आई। किरील का इतना भावभीना व्यव उसने पहले कभी नहीं सुना था।

“यह मव तुम्हारी खुशी की वजह से है, है न? रोओ नहीं, आनोच्का, रोओ नहीं!”

आनोच्का की आंखें अभी भी डबडबाई हुई थीं, परन्तु उसका गेम-रोम एक नई हर्पमय भावना से पुलकित हो उठा था। अब उसने अपने हाथ छुड़ाकर किरील के हाथ दबाये।

“ठहरे, अभी आती हूं!” जल्दी-जल्दी वह फुसफुसाई और जोर में दरवाजा खोलकर दौड़ गई।

दौड़ते-दौड़ते ही टोपी के साथ विंग उतारते हुए वह अपने ड्रेसिंग रूम में पहुंची।

“आप जाड़ये घर, मुझे छोड़ आयेगे!” पिता और पाव्लिक को कमरे में बाहर करते हुए वह कह रही थी, पर साथ ही भाई में मदद मांगते हुए उन्हें रोक रही थी:

“एप्रन! एप्रन खोलो! अब हुक! पहले ऊपर बाला! जल्दी करो न! डरे नहीं। दोनों तरफ से दवा दो, अपने आप खुल जायेंगे। हे भगवान, कैसा बुद्ध है! अच्छा बस, मैं अपने आप कर लूंगी। जाओ, जाओ!”

उसने मिर के ऊपर खींचकर लुईजा का परिधान उतारा और चेहरे पर वैमलिन मलकर जल्दी में आनोच्का के आम वस्त्र पहन लिये। नौनिये में मेक-अप पोंछते हुए वह बच्चों की तरह पांव झटक रही थी—जूनियां उतारने के लिए। सबसे ज्यादा बक्त उसे अपने जूतों के नम्मे बांधने में लगा। वह बुरी तरह से झुंझला रही थी, कैमा येहदा फँयन है—कपड़े के जूते, जिनमें बुटनों तक छल्लों में तस्मा बाधना पड़ना है। लेकिन आखिर यह झटक भी बहुत हो गया। उसने

अपना हल्का सा ओवरकोट ओढ़ा, कील पर टंगी बैरट को गेंद की तरह उछालकर पकड़ा और बाहर निकल आई। सौभाग्यवश, रास्ते में कोई नहीं मिला।

शरद ऋतु की अंधेरी रात में जब किरील आनोच्का के साथ बाहर निकला, तब तक दर्शकों की भीड़ छंट चुकी थी और सड़कें खाली थीं। उन्होंने लम्बी बैरक पार की और मोड़ के पीछे उन्हें कार की झलक दिखाई दी।

“कार?” आनोच्का स्पष्टतया निराशा भरे स्वर में बोली। “फिर से पल भर में अलविदा?”

किरील ने उसका हाथ पकड़कर खींचा।

“धीमी चाल से पुराने गिरजे की ओर ले चलिये,” उसने ड्राइवर से कहा।

इसका मतलब था वे सारा शहर पार करेंगे।

हवा चल रही थी, पर कार में ठंड नहीं थी। जब वे कार में बैठ रहे थे, तो अगली और पिछली सीटों के बीच लगे शीशे में उनकी सभी गतियां प्रतिविम्बित हुईं, जैसे कि वहां दर्पण लगा हो। बैठ जाने पर आनोच्का ने किरील का सिर अपने बिल्कुल पास ही देखा। शीशे में दोनों हौले-हौले हिल रहे थे और आनोच्का इस अस्पष्ट से, कंपकंपाते प्रतिविम्ब से नज़रें नहीं हटा पा रही थी। दरवाजे की फिरी में से ठंडी, चुभती हवा लहराती डोर सी आ रही थी, सीट के नीचे किसी चीज़ से एकसार ऊंचे सुर में भंकार सी हो रही थी और इंजन की उनींदी घरघराहट सुनाई दे रही थी।

दिन भर की उदासी, भय, व्यथा और आशाओं के बाद, शाम की विजय, सूनेपन, अपमान, ठेस, आंसुओं और हर्षोल्लास के बाद अब आनोच्का एक विचित्र शांति अनुभव कर रही थी। यह कुछ ऐसा था जैसे वह बेहोश हो गई हो और किसी ने बड़े ध्यान से उसे विस्तर में लिटा दिया हो और कान में कोई प्यारा शब्द कहा हो। वह इतनी शांत थी कि इस विचित्र परिवर्तन पर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ ऐसे ही तो होना चाहिए, मानो वह सैकड़ों बार यों ही किरील के बगल में कार में बैठी हो, और कंधे से घुटने तक उसका सारा शरीर सैकड़ों बार किरील

का स्पर्श पा चुका हो। यह सब उसे विल्कुल स्वाभाविक लग रहा था। वह और कुछ नहीं चाहती थी, वह ऐसे ही बै कार में जाते जायें, जाते जायें।

मार्गे राम्से कोई नहीं मिला, खिड़कियों से बाहर कुछ दिखाई नहीं देता था और ड्राइवर ने एक बार भी हार्न नहीं बजाया। ताजी हवा की डोर मीधे चेहरे को छू रही थी और लगता था जैसे यही ऊचे मुर में झंकृत हो रही हो।

नगर के केन्द्र में जब कार तारकोल की पक्की सड़क पर ऐसे चलने लगी, जैसे पटरे पर इस्तरी, तब आनोच्का ने हौले से कहा:

“आज मुझे याद आ रहा था कैसे जब स्कूल में पढ़ती थी, तो महेनियों के साथ थियेटर जाया करती थी। सबसे सस्ते टिकट लेकर ऊपर गैलरी में हम बैठती थीं। एक अभिनेत्री थी हम सबकी चहेती। आप तब यहां नहीं थे।”

“आप?” किरील ने मानो मजाक में कहा।

वह थोड़ी देर सोचती रही। किरील का हाथ पकड़कर और उसमें उसका घुटना जरा दबाकर वह सहज ही आगे बोलने लगी:

“तुम तब यहां नहीं थे ... तुम उसे नहीं जानते ... हम लड़कियां जब उसका कोई पार्ट देखकर दीवानी हो उठती थीं, तो हम सब की मव विल्कुल उसके जैसी ही बनना चाहती थीं। अब मैं चाहती हूं कि मव मेरे जैसी हों, कि सब बैसे ही महसूस करें, जैसे मैं डस बन कर रही हूं।”

किरील ने कुछ जवाब नहीं दिया, वह वह उसकी ओर मुड़कर उसे देखने लगा। कार जग भी धचके खाये बिना चलती जा रही थी। फिर पक्की सड़क खत्म हो गई और शीशे में बनते अक्स फिर में ढोलने लगे।

“तुम्हें त्वेतुक्षिन अच्छा लगा?” आनोच्का ने पूछा।

“हाँ! मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वह इतना अच्छा अभिनय करेगा। एक नाटक के बाद मुझे उससे चिढ़ हो गई थी ... मेरे निर्वासन में पहने की बात है।”

आनोच्का काफ़ी देर तक चुप रही।

“मैं शायद जल्दी ही उसकी मण्डली छोड़ दूँगी।”

अब किरील चुप था, वह समझ नहीं पा रहा था कि आनोच्का क्या कहता चाहती है, वह उसके चेहरे को टकटकी लगाये देखता जा रहा था। आनोच्का उसकी ओर नहीं देख रही थी।

“वह मुझे केवल कला ही नहीं सिखाना चाहता,” उसने कहा और बिल्कुल दूसरी ओर मुँह मोड़ लिया।

“मुझे लग रहा था,” किरील ने तुरन्त कहा और फिर कुछ रुककर अपने सवाल में ही अपना विश्वास प्रकट करते हुए पूछा: “पर वह ऐसा नहीं कर पायेगा न?”

आनोच्का ने कंधे विचकाये।

“किधर चलें? दायें, वायें?” शीशे के पीछे से ड्राइवर ने चिल्ला-कर कहा।

“रुकिये!”

किरील ने कार का दरवाजा खोला। गिरजे के घण्टागार की नुकीली मीनार भट्टमैले आसमान में काली स्याह लग रही थी। बोला की ओर से बयार की चौड़ी धार बहती आ रही थी।

“चलो, उतरते हैं!”

वे चौक में पहुंच गये थे। बोला से आती बयार में नदी किनारे की काई, पुराने गलते रस्से, लकड़ी, अलकतरा और मशीन का तेल – इन सबकी गांधें मिली हुई थीं।

“वाह, कितना अच्छा लग रहा है!” किरील ने कहा और आनोच्का का हाथ कसकर पकड़ लिया।

वे ढलान पर नदी की ओर उतरने लगे। दूर नदी पर टिमटिमाते प्लव दिखाई दिये, कोई छोटा सा स्टीमर बहाव से जूझता बढ़ रहा था, उसकी बत्तियां कभी चमक उठतीं, कभी मानो आंसुओं से धूंधली पड़ जातीं।

वे ऐन तट तक नहीं गये, कगार पर ही रुक गये, उनके सामने नदी का विशाल पाट था, जो कहीं-कहीं सीसे सा चमक रहा था। लहरों की छप्पण और किनारे पर औंधी पड़ी नावों की सूखी लकड़ी में हवा से होती चरमराहट कानों में पड़ रही थी।

आनोच्का बिल्कुल शांत थी और किरील ने जब उसे बांह में भरा, तो वह उससे सट गई।

“मैं इस अंधकार में नजर दौड़ाता हूं और मुझे असंख्य रोशनियां और अनगिनत लोग दीख पड़ते हैं, आवाजें ही आवाजें सुनाई देती हैं,” किरील ने कहा। “तुम्हें कैसा लगता है?”

“क्या कागण है कि जब भी हम किसी अच्छी बात की चर्चा करते हैं, तो मदा यही सोचते हैं कि भविष्य में क्या होगा?”

“ताकि हम ऐसे भविष्य की ओर बढ़ें, जो अधिक अच्छा होगा।”

“पर ऐसा भी तो होता है कि अभी जो है वही अधिक अच्छा है? मैं इस अंधेरे विस्तार में देख रही हूं और मुझे यही सबसे अच्छा लग रहा है। और अब मैं इससे अधिक अच्छा कुछ नहीं चाहती।”

“मैं भी,” किरील ने कहा और अपना आलिंगन और कस लिया।

“मुझे लगता है मैंने ऐसी रात कभी नहीं देखी।”

“मैंने भी।”

“और ऐसी हवा भी कभी नहीं वही।”

“हाँ।”

“पर देखो, फिर भी कितनी शांति है।”

“मत्र। जाने को मन नहीं करता।”

“इनी जल्दी?”

“मन दुखता है, पर क्या किया जाये? जाना चाहिए।”

“और कब यह स्वत्म होगा?”

“क्या?”

“यह मदा का ‘चाहिए’।”

“मेरी बात मुनो। और मुझे जवाब देना। तुम्हारा जवाब मेरे लिए बहुत जर्नी है। ठीक है?”

“अच्छा।”

“तो मुनो। कोई भी उड़ान धरती के बिना नहीं हो सकती। उड़ने के लिए ठोस जमीन चाहिए। आजकल हम यह जमीन जीतने में ही लगे हुए हैं। हम भविष्य की उड़ान का मैदान बना रहे हैं। यह बड़ा मुश्किल और नंदा काम है। गायद सभी कामों से मुश्किल काम है यह। इसके लिए हमें सुख-मुविधाओं को भूलना होगा। जहरी हुआ तो हम अपने हाथों से जमीन छोड़ेंगे, अपने नाखूनों से इसे भुरभुरा

करेंगे, नंगे पांवों इसे कूटेंगे। और तब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक कि हमारी उड़ान का मैदान तैयार नहीं हो जाता। हमारे पास आराम करने का समय नहीं है। कभी-कभी तो मुस्कराने भर की फुरसत नहीं मिलती। हमें जल्दी करनी चाहिए। शायद, इस काम ने ही हमें इतना रुखा बना दिया है। कभी-कभी तो मैं अपने आप को वो हौआ लगने लगता हूँ, जिसका बच्चों को डर दिखाते हैं, इतना नीरस हो जाता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा। पर मैं अपने आप को बदल भी नहीं सकता। मैं तब तक जमीन कूटता रहूँगा जब तक कि वह उड़ान की दौड़ भरने के लिए तैयार नहीं हो जायेगी। ताकि फिर इतनी ऊँची उड़ान भरी जा सके, जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की है। यह ऊँचाई सदा मेरी आंखों के सामने रहती है, हर पल, — विश्वास है तुम्हें मेरी बात पर? मैं टीले खोदता जाता हूँ, गड्ढे पाटता हूँ, और नज़रें ऊपर ही लगी रहती हैं! और मैं लोगों को, उनके साथ स्वर्य को भी बिल्कुल दूसरा, नया मनुष्य बना देखता हूँ। और मैं बिल्कुल भी हौआ नहीं। तुम्हें विश्वास है मेरी बात पर?"

जब वह बोल रहा था, तो आनोच्का उससे परे हट गई थी, ताकि अंधकार में उसका चेहरा अच्छी तरह देख सके, पर जब उसने बोलना बंद किया, तो वह मुस्करा उठी, क्योंकि हौए की बात उसने बहुत ही गम्भीरता से कही थी।

"किस बात का जवाब दूँ? हौआ हो कि नहीं?"

"तुमने पूछा था कब अंत होगा। मुझे पता नहीं। जल्दी नहीं। पर बहुत जल्दी भी हो सकता है।"

"मैं समझती नहीं।"

"तुम यह नहीं देख पाती हो कि मेरा यह 'चाहिए-चाहिए' कब खत्म होगा, क्योंकि मेरा यह 'चाहिए' तुम्हारा नहीं है। अगर यह तुम्हारा भी होगा और मेरा भी, तब तुम्हें इस बात की खास परवाह नहीं होगी कि कब इसका अंत होगा।"

"लेकिन इससे यह अंत जल्दी तो नहीं आ जायेगा?" आनोच्का फिर से मुस्कराई।

किरील भी मुस्कराया:

"थोड़ी सी जल्दी आ जायेगा। जमीन खोदनेवालों में एक और

आदर्शी जो मिल जायेगा... तो यही मेरा सवाल है। तुम मेरे साथ भविष्य की उड़ान का मैंदान बनाना चाहती हो?"

"मैं तो सोच रही थी कि... हम बनाना शुरू कर चुके हैं?" आनोच्का ने एक तिगछी नजर उस पर डालकर और फिर आंखें चुराते हुए बड़े हौले मे कहा।

वह जोर से हसा, आनोच्का को रास्ते की ओर घुमाकर जल्दी-जन्दी उसे ऊपर ले चला।

किरील उसे उसके घर ले गया, दरवाजे तक छोड़ने गया और उन्होंने विदा ली—यीत्र ही फिर मिलने का वायदा करके।

आनोच्का अदर पहुंची ही थी कि उसका वाप और भाई भी आ गये। वह किसी मे बात नहीं करना चाहती थी, पर पारावुकिन किन मे उसे वधाइयां देने लगा। ठंडी हवा मे नशा सिर पर और चढ़ गया था।

"माफ़ करना, बेटी, पर मुझे विल्कुल विश्वास न था कि सब कुछ इतना अच्छा होगा। सोचता था कहां यह इतना ऊंचे पहुंच पायेगी! थियेटर का सितारा! तीस्रों पारावुकिन की बेटी सितारा बनेगी! मैं तो सोचता था वस यों ही होगी कामचलाऊ एकट्रेस... पर आज देखा, नोग वाहवाही कर रहे हैं! मुझ को भी देख रहे थे कि देखो इसी की बेटी है! वधाई हो, विट्या, दिल खुश कर दिया।"

यह कहने हुए पारावुकिन ने ताली बजाई।

"और फिर मैग पापी मन येगोर पाल्लोविच पर भी भरोसा नहीं करता था। सोचता था, पता नहीं किस फेर मे है यह? बेचारी भोली-भाली लड़की का न जाने क्या करे? पर अब देख लिया मैने, अपने पैरों पर छड़ा कर रहा है, सही रास्ते पर ले जा रहा है! वधाई हो!"

"वम, पिता जी, अभी बहुत हुई वधाइयां! वाद मे और देनी होंगी।"

"हां, हां समझता हूं, जब थियेटर मे तुम्हारा सितारा और चमकेगा!"

"हां, थियेटर मे भी, और भी कहीं!"

पारावुकिन तुर्गन ही नहीं समझ पाया कि बात क्या है, और

काफी देर तक बेटी की पीठ ठोकता रहा, वधाइयां देता रहा। फिर सहसा कुछ समझ गया और मानो उस पर बज्रपात हुआ, वह कुर्सी पर ढह गया और चिल्लाया:

“पाव्लिक! इधर आ! क्या कहा था मैंने तुझे? कहा था न त्वेतुखिन तेरी वहन पर सोने की बौछार करेगा? कहा था न? इधर आ, बता दे आनोच्का को कहा था कि नहीं? येगोर पाव्लोविच आनोच्का से शादी कर रहा है! है न? हैं? ठीक है न?”

फिर वह सहसा हक्का-बक्का हो गया:

“कैसे कर सकता है वह? अपनी घरवाली के होते? क्या है यह सब? तलाक? मैं पूछ रहा हूँ, क्या वह तलाक देगा, हैं?”

“यह सब तो आपके दिमाग की उपज है!” आनोच्का ने कहा। “सो जाइये अब।”

“क्या मतलब दिमाग की उपज? तो फिर यह क्यों कहती हो कि वधाई दूँ? दिमाग की उपज! नहीं, दाल में कुछ काला है! मैं कब से देख रहा हूँ। मेरे क्या आंखें नहीं हैं? तेरा बाप अंधा है या आंखोंवाला? अंधा है क्या?.. ठहर तो! नहीं, नामुमकिन,” — वह और भी जोर से चिल्लाया और उछल खड़ा हुआ। “इज्वेकोव? हैं?”

वह आंखें फाड़-फाड़कर बेटी की ओर देख रहा था। उसकी मुट्ठियां मेज पर टिकी हुई थीं, और दुबला-पतला, सपाट सा धड़ बेटी की ओर झुका हुआ था।

आनोच्का खिलखिलाकर हँसी और अपने कमरे में चली गई — कपड़े बदलने।

“लो, तीखोन प्लातोनोविच, मुवारक हो, बेटी वहू बनने चली है!” दरवाजे के पीछे से पारावुकिन गरज रहा था। “जब तक बाप ने पाला-पोसा, तब तक बाप की ज़रूरत थी। अब बुड्डे को लात मारकर निकाल दो! बेटी को पढ़ाया-लिखाया, इन्सान बनाया और बेटी खी-खी करती चल दी घर छोड़कर? और भाई को कौन रोटी देगा? कामरेड इज्वेकोव? ये इज्वेकोव सारी उम्र तुझे तेरे घर से दूर करते रहे हैं। वे तो सब कुछ अपने ही ढंग से करना चाहते हैं। हमेशा दूसरों को नसीहतें देते रहते हैं। पहले वो मास्टरानी मुझे नसीहतें दिया करती

थी, अब क्या उमका वेटा देगा? नहीं, तू पहले काम कर, फिर स्थीरी करना! ”

आनोच्का काफी देर तक बाप की बड़वड़ सुनती रही। पर वह उनकी बेमतलब बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी।

वह अभी सोई नहीं थी। उसे लग रहा था जैसे नीद उसे अपनी गोद में थपथपा रही है और बीती शाम की अलग-अलग आँचर्चर्यजनक घटनाओं को उसकी आँखों के सामने खोल रही है, जैसे कोई किस्मत बनानेवाला अपनी गड्ढी में से ताश के पत्ते निकाल-निकालकर खोलता जाता है। अपने थके-मांदे मस्तिष्क से आनोच्का यह भेद करने का जनन कर रही थी कि उम शाम को उसने क्या पाया है और क्या योग्या है। नेकिन आँखों के सामने मिले-जुले, गड्ढमहु से चित्र अधिकाधिक नेजी में धूम रहे थे और उम भंवर में उसे लग रहा था कि डज्वेकोव भी उसके साथ नीद की गोद में समा रहा है और बालिश्त भर का त्वेतु-गिन दूर कही, नदी के अंधेरे, असीम पाट से अपना पाउडर लगा दिया हिला रहा है।

उसके कानों में जो आखिरी आवाज पड़ी, वह थी विस्तर पर कर्मवटे बदलने वाप की गहरी उसांसः :

“बन्धना प्रभु, मुझ हरामी के पिल्ले को!”

उम छलने के साथ-माथ, शाम तौर पर पत्नी की मृत्यु के बाद, पागदुकिन देवी यक्षियों से स्वौक्र खाने लगा था – आनोच्का काफी अरमे में यह देख रही थी।

३५

सैनिक कार्रवाइयों का उपसंहार

मिनम्बर के तूफानी विपुल दिनों में सफेद गाड़ों ने दक्षिण में अपना अभियान जारी रखते हुए कूर्म्क के डलाके पर कब्जा कर लिया। कुनेपोव की कोर में शामिल चुनिंदा पैदल डिविजनें उत्तर, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने लगीं। कोर्नीलिओव की डिविजनें ओर्योन की ओर बढ़ रही थीं, द्रोज्दोव की व्रयान्स्क की ओर, अलेक्सेयेव तथा मार्कोव की डिविजनें येनेत्स की ओर। श्कुरों की

कैवेलरी कोर मामोन्तोव के साथ मिलकर दोन सेना के बायें पार्श्व के साथ संयुक्त कार्रवाइयां करने के उद्देश्य से वोरोनेज की ओर बढ़ रही थी।

अक्तूबर के मध्य में ओर्योल हाथ से जाता रहा और देनीकिन की फ़ौजें तूला को जानेवाली सड़क पर पहुंच गईं, जिससे लाल सेना को गोला-वारूद, बंदूकें और तोपें मुहैया करनेवाले इस नगर के लिए सीधा खतरा पैदा हो गया।

मास्को पर संकट गहराता जा रहा था।

यह देनीकिन की “दक्षिणी रूस की सशस्त्र सेनाओं” की सफलताओं का चरम बिंदु था और साथ ही गृहयुद्ध के मोर्चों पर प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों के विरुद्ध सोवियत राज्य के संघर्ष का सबसे अधिक तनावपूर्ण क्षण।

सन् उन्नीस सौ उन्नीस रूस के लिए ऐसी कठिनतम परीक्षा का वर्ष था कि अगर जनता का आत्म-बल टूट जाता, इतिहास ने उस पर जो विपदाएं ढाई, उनको वह सह न पाती, तो वह न जाने कितनी दशाव्वियों के लिए उस नव जीवन से बंचित हो जाती, जिसके लिए उसने महान समाजबादी क्रांति की थी।

रूस के प्रसिद्ध विस्तारों के बारे में अनेकों बार यह कहा गया है कि वे ही रूस को शत्रुओं के आक्रमणों के दिनों में बचाते रहे हैं, किन्तु अब इनका अधिकांश भाग विभिन्न प्रतिक्रांतिकारी सरकारों और विदेशी हस्तक्षेपकारियों के कब्जे में था। गृहयुद्ध जिन दिनों पूरे ज़ोर पर था, उन दिनों सोवियतों के हाथ में केवल रूस के केन्द्र मास्को के आस-पास का भीतरी भाग ही बचा था।

रूस के पास न केवल सुदूर पूर्व और साइबेरिया का असीम विस्तार नहीं बचा था, बल्कि एक समय सारा उराल और बोल्शा पार का प्रायः सारा इलाका भी नहीं था। रूस के पास तुर्किस्तान समेत सारा दक्षिण-पूर्वी भाग तथा काकेशिया, कुवान, दोन के इलाकों और दोनेत्स के मैदान समेत सारा दक्षिणी भाग भी नहीं रहा था। उक्राइना, मोल्दा-विया, वेलोरूस तथा वाल्टिक सागर के तटवर्ती प्रांत उससे अलग कर दिये गये थे। भीलों वाला इलाका तथा सारा उत्तरी इलाका उससे छीन लिया गया था। चारों दिशाओं में कहीं भी रूस के लिए समुद्र का रास्ता नहीं बचा था।

विज्ञान राज्य को अपनी अधिकांश सम्पदा इन बाहरी भागों से ही प्राप्त होनी थी। १९१६ तक प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों ने रूम को उसके प्रमुख अन्न क्षेत्र में, उराल के खनियों से, मध्य एशिया की कागाम में, नेल और कोयले में, स्तेपी की और पहाड़ी चरागाहों में, औद्योगिक और डमारनी लकड़ी के जंगलों से वंचित कर दिया था।

स्व में छीन ली गई उसकी सारी सम्पदाओं के बदले अब दो गजदानियों ममेन उसके भीतरी भाग के पास केवल भूख और ठंडी वन्ही बची थी।

और अब यद्य ऋतु में शत्रु दक्षिण से मास्को की ओर तथा पश्चिम पर उत्तर-पूर्व से पेत्रोग्राद की ओर बढ़ता आ रहा था।

पूर्व में कोल्चाक की पराजय के साथ वसंत में एंटेट का पहला अभियान विफल हो गया था और तब सोवियत रूस के विरोधी पूंजी-वादी देशों ने एक दूसरे अभियान की योजना तैयार की—इस बार नागे और मे जोगदार हमला करके वे क्रांति का गला धोंट देने का उगदा रखते थे। इस अभियान के प्रधान प्रवर्तक, इंगलैंड के फौजी मामलों के मध्यी चर्चिन की योजना के अनुसार सोवियत रूस के खिलाफ नैनिक कार्गिवाइयां चौदह देशों के संयुक्त प्रयासों द्वारा की जानी थी, जिनमें इंगलैंड, अमरीका, फ्रांस, जापान, डट्ली, फ़िल्लैंड, पोलैंड ना भान अन्य देश शामिल थे। किन्तु शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि चौदह देशों का गंठजोड़ कुछ कर पाने में असमर्थ है। इसकी निष्फलता के चार प्रमुख कारण थे। एक तो, कोल्चाक की हार से यह पता चल गया कि लाल मेना की शक्ति तेजी से बढ़ रही है। दूसरे, अधिकांश छोटे देश, जिन पर एंटेट की महायक्तियां इस अभियान को पुग करने का बोझ डालना चाहती थी, सोवियत राज्य द्वारा धोपित जानियों के आन्म-निर्णय के अधिकार की नीति से लाभ उठाने की आशा रखते थे और उसमें ही अपना हित समझते थे। तीसरे, पश्चिमी यूरोपीय हम्मेसेकान्सियों ने जब सोवियत इलाकों को हथियाने के लिए अपनी फौजों में काम लेने की कोशिश की, तो उन फौजों में असंतोष फैला, माथ ही हम्मेसेकान्सी देशों में मजदूर इसका विरोध करते हुए हड्डियाँ लगने लगे। चौथे, स्वयं उन देशों का स्व में प्रति स्व परम्परविरोधी था, इंगलैंड और फ्रांस की विदेश नीति में यह विरोध विशेषतः स्पष्ट स्वयं में

प्रकट होता था: फ्रांस की सरकार “अविभाज्य” और सशक्त रूस की पुनःस्थापना करनी चाहती थी, जो पराजित जर्मनी के लिए एक स्थायी खतरा हो; जबकि अंग्रेज सरकार रूस का विभाजन करना चाहती थी, ताकि एशिया में उसके उपनिवेशों के लिए कोई खतरा न रहे।

चर्चिल चौदह देशों के जिस संयुक्त हमले के सपने देखता था, वह आयोजित नहीं किया जा सका और तब एंटेंट को रूस के आंतरिक प्रतिक्रियाओं को यथासम्भव अधिक समर्थन देकर ही संतोष करना पड़ा। बाजी देनीकिन पर लगाई गई – उसे सोवियतों के विरुद्ध एंटेंट के दूसरे अभियान का सूत्रधार बनाया गया।

“दक्षिणी रूस की सशस्त्र सेनाओं” को काले सागर के बंदरगाहों के रास्ते छह महीनों तक लगातार हर तरह के हथियार मिलते रहे। स्वयं देनीकिन ने यह स्वीकार किया था कि सितम्बर तक उसकी सेनाओं को इंगलैंड से साढ़े पांच सौ से अधिक तोपें और लगभग सत्तरह लाख गोले मिल चुके थे। अंग्रेजों ने एक लाख बंदूकें, सौलह करोड़ अस्सी लाख कारतूस तथा ढाई लाख वर्दियां भी भेजी थीं। इंगलैंड के साथ मिली-भगत में संयुक्त राज्य अमरीका ने भी देनीकिन को एक लाख बंदूकें तथा बहुत बड़ी संख्या में फौजी वर्दियां दीं। टैक और हवाई जहाज भी भेजे गये। देनीकिन की तिजोरियां पाउडों और डालरों से भरती जा रही थीं।

उधर लाल सेना केवल स्वदेशी हथियार कारखानों पर ही निर्भर थी और ये कारखाने उसकी युद्धकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ थे। वसंत में बंदूकों और कारतूसों का उत्पादन १९१७ के अंत की तुलना में एक तिहाई ही रह गया था। १९१६ के पहले चार महीनों के दौरान गोलों का उत्पादन पहले के उत्पादन का पांचवां भाग ही था। इसके कई कारण थे: देश की आम तवाहहाली, कच्चे माल की कमी, युद्ध के लिए मजदूरों की लामवंदी, टाइफस की महामारी में हुई मौतें और देश में फैली भुखमरी। इन दिनों नगरवासियों को दिन में सिर्फ़ आध पाव डबलरोटी ही मिलती थी।

तो फिर यह कैसे हुआ...कि देनीकिन की सफेद-गार्डी फौज की हार हुई और उसका विलुल सफाया कर दिया गया? यह कैसे हुआ कि जब सोवियत रूस से उसके सारे वाहरी इलाके, भूगर्भ की सारी

सम्प्रदाय और प्रायः नाग अन्न छीन लिया गया था। जब नये-नये दम्भास्त्रों ने पुरी नग्ह लैस दुर्घटन ने लाल सेना के सबसे महत्वपूर्ण मोर्चे को अथाह गर्त के किनारे ला बड़ा किया था और मास्को पर उसके कब्जे का खतरा पैदा हो गया था, कैसे तब सोवियत रूस ही विजयी हुआ?

मिनस्ट्र के अन के मकटपूर्ण दिनों मे डांवांडोल हो गये दक्षिणी मोर्चे को मुद्रृद करना ही क्रांतिकारी शक्तियों का सबसे प्रमुख काम था। नेनिन के मुभाव पर सभी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति ने पार्टी के अधिकतम मदम्यो को सैनिक कार्यों में लगाने तथा शक्तिशाली ग्रिव टूकडियों को दक्षिणी मोर्चे पर भेजने का फैसला किया, दक्षिणी मोर्चे की नई कमान गठित की, स्तालिन को क्रांतिकारी सैनिक परिगद का मदम्य नियुक्त किया। त्यरीत्विन से नोवोरोस्सीइस्क की ओर हमला करने की गरिमों की जो योजना नाकाम सिद्ध हो चुकी थी, उसके स्थान पर याकोव-दोनदाम-गोम्तोव-आन-दोन की लाइन पर देनीकिन की सेनाओं पर प्रमुख प्रहार करने की योजना तैयार की गई।

कम्युनिस्ट पार्टी और युवा कम्युनिस्ट मंच के दसियों हजार सदस्य मोर्चे पर गये। एक "पार्टी मनाह" घोषित किया गया, जिसमें नायों भजदूर, किमान और सैनिक पार्टी के सदस्य बने। देश के कोने-कोने में देनीकिन से पिड़ छुड़ाने की उच्छा उतनी प्रवल थी कि युद्धित्तर के फिर मे पेंशनार्ड की ओर बढ़ने आने से पैदा हुई नाजुक मिथ्यति के बाबजूद वाल्ट्रिक बेडे के एक हजार नौसैनिक दक्षिणी मोर्चे पर लड़ने गये। युवा कम्युनिस्ट मंच की अनेक स्थानीय समितियों के सारे के मारे मदम्य मोर्चे पर चले गये, जगह-जगह समिति कार्यालयों के दरवाजों पर तेम पर्चे देखे जा मकाने थे: "समिति बंद है। सभी मदम्य मोर्चे पर चले गये"।

उस नग्ह देनीकिन के विस्त्र मंघर्प का एक नया पृष्ठ आगम्भ हुआ। वह पृष्ठ जो मारे सफेद गाड़ी आंदोलन, मारी प्रतिक्रांति के उत्तिहाम का अनिम पृष्ठ बना।

उस योजना के क्रियान्वयन के लिए भगीरथ प्रयत्नों और अमाधारण मदम्य की आवश्यकता थी। दक्षिणी मोर्चे की कमान को अपना आर-

मिमिक दल प्रायः पूरी तरह उन टुकड़ियों से बनाना पड़ा, जो पहले से ही रणक्षेत्र में थीं। लाल सेना की टुकड़ियों को पीछे हटने से रोकने और उन्हें तुरन्त ही जवाबी हमले में कूदने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता थी।

यह काम करने के साथ-साथ सेना में से निकम्मे कर्मियों को निकाला जा रहा था। दक्षिणी मोर्चे के सर्वोच्च कमांडर से लेकर निम्नतम श्रेणी तक के अनेक कमांडरों के स्थान पर नये कर्मठ कमांडर नियुक्त किये गये।

लाल सेना में भरती हो रहे सहस्रों मजदूर और किसान थकी-मांदी सैनिक टुकड़ियों में नई शक्ति का संचार कर रहे थे। इसके फलस्वरूप अभूतपूर्व गति से लाल सेना एक बार फिर से शत्रु के दांत खट्टे करने लायक हो रही थी। ओरोनेज - दोनवास की सबसे महत्वपूर्ण दिशा में आठवीं सेना (जो यहां उसके पार्श्व में तैनात दुद्योन्नी की कैवेलरी कोर के साथ लाल सेना की प्रमुख शक्ति थी) एक-एक करके अपनी डिविजनें रणक्षेत्र से पीछे हटा रही थी और कुछ दिनों में ही उन्हें नये सैनिकों और शस्त्रास्त्रों से लैस करके वापस भेज रही थी। हफ्ते भर में ही इस सेना में सैनिकों की संख्या तिगुनी बढ़ गई। दक्षिणी मोर्चे की सेनाओं को जवाबी हमले के लिए तैयार करने के उद्देश्य से उनमें नई भरती और उनके पुनर्गठन का यह विराट कार्य कल्पनातीत अल्प अवधि में पूरा कर लिया गया।

देनीकिन के विरुद्ध संघर्ष की रणनीतिक योजना के दो चरण थे: पहले चरण में देनीकिन की बालंटियर और कज्जाक सेनाओं को मोर्चे पर एक-दूसरे से अलग किया जाना था और फिर एक-एक करके दोनों का सफाया किया जाना था। योजना के पहले चरण की पूर्ति के लिए दक्षिणी मोर्चे के सम्मुख दो फौरी कार्यभार रखे गये थे। एक कार्यभार यह था कि ओरोनेज की दिशा में देनीकिन की मोर्चेबंदी तोड़कर दोनेत्स के मैदान तक पहुंचा जाये। दूसरा यह कि सफेद फौजों को मास्को की ओर बढ़ने से रोका जाये, जिसके लिए ओर्योल क्षेत्र में जवाबी हमला किया जाना चाहिए था।

दक्षिणी मोर्चे की क्रांतिकारी सैनिक परिषद ने ओर्योल के पास देनीकिन की सेना के विरुद्ध कार्रवाइयों के लिए सैनिक टुकड़ियों का

प्रहारक दल गठित किया। इस प्रहारक दल ने उन आरम्भिक मुठ-भेटों में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, जिनके साथ दक्षिणी मोर्चे की घटनाओं में निर्णायिक मोड़ आया।

जब मफेद गाड़ों ने तूना की ओर बढ़ने का रास्ता साफ़ कर लिया था, जब लगता था कि मास्को वस देनीकिन की तोपों का निशाना बनने ही चाला है, तभी वानटियर सेना के सफल अभियान को रोक दिया गया।

कोर्नीलोव की मफेद गाड़ी डिविजनों द्वारा ओर्योल पर कब्जा किये जाने में पहले ही दक्षिणी मोर्चे की कांतिकारी सैनिक परिपद ने पश्चिमी मोर्चे में यहाँ भेजी गई टुकड़ियों से गठित प्रहारक दल को ओर्योल की दिशा में लड़ रहे शत्रु के प्रमुख दल के खिलाफ़ जवाबी हमला करने का आदेश जारी कर दिया था। यह प्रहार पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर, कोर्नीलोव की टुकड़ियों के पार्श्व में किया जाना था, और उसका उद्देश्य था शत्रु के चंडावल में ओर्योल - कूर्स्क रेल नाइन काट देना।

मफेद गाड़ों की मस्त्या बहुत अधिक थी। दो सेनाओं के संघी-स्थल पर सोवियत मोर्चावादी तोड़कर उन्होंने ओर्योल से दक्षिण-पश्चिम में मिशन कोमी नगर पर कब्जा कर लिया। यहाँ घमासान युद्ध हुआ, मफेद गाड़ों को पना था कि उसका महत्व निर्णायिक है, इसलिए वे अपनी मर्वथ्रेष्ट अफमगें की रेजीमेंटों को रणक्षेत्र में भेज रहे थे। ट्रोज्दोव की रेजीमेंट कोमी के पश्चिम की ओर से उत्तर दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रही थी। कोर्नीलोव की टुकड़ियों ने ओर्योल को दक्षिण की ओर में आड़ दे रहे सोवियत मैनिकों को हराया तथा नाम भेना की टुकड़ियों को नगर छोड़ने पर विवश किया।

लाल भेना के प्रहारक दल के लिए यह असाधारणतया कठिन मिथ्यन का क्षण था, दल को न तो अपने पार्श्वों से ही और न ही चंडावल में कोई समर्थन प्राप्त था। एक और से कोर्नीलोव तथा दूसरी ओर से ट्रोज्दोव की टुकड़ियों ने प्रहारक दल को मानो शिकंजे में कम दिया था और नम्बी लड़ाइयों में उसकी यक्ति क्षीण पड़ती जा रही थी। लड़ाई में भाग लेने के चाँथे दिन धीरे-धीरे बढ़ते हुए यह दल कोमी के पास जा पहुंचा।

द्रोज्जदोव की टुकड़ियों ने ब्र्यान्स्क की ओर बढ़ने की कोशिश में सोवियत प्रहारक दल के पश्चिम में युद्धरत सैनिक दल के बायें पार्श्व को क्षत-विक्षत कर दिया और कोमी को दायीं ओर से खतरा पैदा कर दिया ; उधर कोर्नीलोव की टुकड़ियों ने तूला की ओर बढ़ने का दिखावा करते हुए कोमी पर बाईं ओर से प्रहार किया — इस सवको देखते हुए दक्षिणी मोर्चे की कमान ने शत्रु के इन दोनों दलों के खिलाफ एक साथ ही कार्रवाई करने का फैसला किया। प्रहारक दल को यह कार्यभार सौंपा गया कि वह दो अलग-अलग दिशाओं में हमला करे, अपनी प्रमुख टुकड़ियां ओर्योल की दिशा में कोर्नीलोव के खिलाफ बढ़ाये और शेष टुकड़ियों को द्रोज्जदोव के खिलाफ द्वीपोव्स्क की ओर।

इस कार्रवाई से द्वीपोव्स्क के पास काफी लंबी लड़ाइयों में वहुत रक्तपात हुआ। यहां प्रहारक दल की टुकड़ियां कभी आगे बढ़ जातीं और कभी फिर उन्हें पीछे हटना पड़ता। किन्तु ओर्योल के पास तीन दिन तक जूझने के बाद प्रहारक दल की प्रमुख टुकड़ियों ने कोर्नीलोव की डिविजन को खदेड़ दिया। इसके फलस्वरूप लाल सेना ने ओर्योल को तीन दिशाओं — उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम से घेर लिया। सफेद गार्डों के पास कुमक बची न थी, सो उन्हें कोर्नीलोव की टुकड़ियों को ओर्लोव से एकमात्र खाली रास्ते पर — दक्षिण की ओर — हटाना पड़ा।

ओर्योल को आजाद करा लेने पर लाल सेना में देनीकिन की सेना पर अपनी श्रेष्ठता में विश्वास दृढ़ हुआ — हफ्ते भर पहले ही तो देनीकिन की सेना ने ओर्योल पर कब्जा किया था। सफेद सेना में क्षीणता के लक्षण दिखाई देने लगे और यह भी साफ़ हो गया कि पहलकदमी सोवियत कमान के हाथों में आ रही है।

परन्तु ओर्योल छुड़ा लेने पर भी दक्षिणी मोर्चे के केन्द्रीय भाग की स्थिति में आमूल परिवर्तन नहीं आया था। देनीकिन अभी भी सक्रिय था, उसकी वालंटियर सेना हाल ही की अपनी सफलताओं के परिणामों को हाथ से न जाने देने की जी-तोड़ कोशिशें कर रही थी।

कोमी के पास लड़ाई ठंडी नहीं पड़ रही थी।

मोर्ने के नीम किलोमीटर लंबे भाग पर द्रोज्जदोव के सैनिकों ने दक्षिण-पश्चिम की ओर से हमला किया और अत्यंत भारी क्षति उठाते हुए मोर्वियत सैनिकों का प्रतिरोध तोड़ दिया तथा क्रोमी पर फिर से कब्जा कर लिया। अगले दिन क्रोमी के रक्षकों ने नई कुमक के साथ बीमार्ग पूर्ण हमला करके सफेद गाड़ों को नगर से खदेड़ दिया। लेकिन उसने अगले दिन द्रोज्जदोव फिर आगे बढ़ा, एक स्थान पर मोर्चा भेदने में गफ्तन रहा, जिसमें सेना के घिरने का खतरा पैदा हो गया और मोर्वियत टुकड़ियों को उत्तर की ओर हटना पड़ा। क्रोमी पर तीसरी बार सफेद गाड़ों का कब्जा हो गया।

दो हफ्तों तक लगातार होती रही लड़ाई से प्रहारक दल की सारी कुमक घन्तम हो गई और उसकी टुकड़ियां विशाल मोर्चे पर जहां-तहा विख्यार गई। उस बीच ओर्योल के पास हुई पराजय के बाद सफेद गाड़ों ने दक्षिणी मोर्चे के केन्द्रीय भाग के खिलाफ इस डरादे से अपनी मार्गी शक्ति जमा की कि प्रहारक दल को विखंडित करके उसका गफार्या कर दें और फिर में ओर्योल पर कब्जा कर लें।

लेकिन शत्रु का डगादा समझ लिया गया। कमान ने यह योजना बनाई कि केन्द्रीय भाग में लड़ रही दोनों सेनाएं शत्रु के ओर्योल और क्रोमी दलों के खिलाफ म्पष्टतया निश्चित दिशाओं में ही प्रहार करं तथा अलग-अलग टुकड़ियों में नहीं, बल्कि विशाल दलों में आगे बढ़े।

२८ अक्टूबर को प्रहार की प्रमुख दिशा में शानदार जीत हुई: बृद्धोन्नी की अध्वारोही टुकड़ियों और आठवीं सेना की टुकड़ियों ने बोर्गेनेज में शत्रु को खदेड़ दिया। उसमें अब वालंटियर सेना के चंडावल में प्रहार करना सम्भव हो गया और उस तरह मोर्चे के केन्द्रीय भाग में लगी निच गई लड़ाई में निर्णायिक सहायता दी जा सकती थी।

बोर्गेनेज के पास हुई लड़ाई विशिष्ट ही थी। यह अध्वारोही सेनाओं का बड़ा भारी टकराव था, जिसके बाद सफेद गाड़ों के लिए यह म्पष्ट हो गया कि ग्रिमाले में उनकी थेप्तता के दिन चुक रहे हैं।

अक्टूबर के आगम्ब में बोर्गेनेज पर कब्जा करके छुर्गे की कैबेलरी कोर उनक की ओर बढ़ने लगी। आठवीं सोर्वियत सेना के नियंत्रणाधीन दलों पर चढ़ाड़ियां करने हुए मामोन्तोव छुर्गे का समर्थन कर रहा

था। आठवीं सेना के उत्तरी (दायें) पार्श्व पर मज़बूत मोर्चाविंदी नहीं थी, सो सफ्रेद गार्डों की कैवेलरी दक्षिणी मोर्चे के चंडावल के इलाके में दूर तक पहुंच सकती थी।

श्कुरो और मामोन्तोव का रास्ता अगर कोई रोक सकता था, तो वह थी बुद्योन्नी की कैवेलरी कोर।

परन्तु कमान का वह पुराना आदेश बदला नहीं गया था, जिसके अनुसार इस कोर को दोन के इलाके में बढ़ाना था।

बुद्योन्नी श्कुरो के उत्तर की ओर बढ़ने के खतरे को ताढ़ गया था, सो उसने दृढ़ संकल्प के साथ अपने रिसाले को मोड़ा और वोरोनेज पर सफ्रेद गार्डों का कब्जा होने से पहले ही उत्तर की ओर बढ़ने लगा, शत्रु के रिसाले से टक्कर लेने का मौका छूटने लगा। बाद में हुई घटनाओं से यह सिद्ध हो गया कि बुद्योन्नी का यह निःडर और उत्तरदायित्वपूर्ण कदम बिल्कुल उचित था।

शीघ्र ही दक्षिणी मोर्चे की क्रांतिकारी सैनिक परिषद ने बुद्योन्नी को यह निर्देश दिया कि वह वोरोनेज के इलाके में शत्रु के रिसाले से टक्कर ले और आठवीं सेना को शीघ्रातिशीघ्र दोन तक पहुंचने में सहायता प्रदान करे। बुद्योन्नी ने जल्दी से अपनी कोर वोरोनेज के उत्तर-पूर्व में जमा कर ली।

अपनी टुकड़ियों को इस कार्रवाई के लिए तैयार करते हुए तथा सफ्रेद दलों की अवस्थिति की टोह लेते हुए बुद्योन्नी ने एक चतुर चाल चली। उसने श्कुरो की तार की लाइन के साथ अपनी लाइन जोड़ दी और बुद्योन्नी की प्रथम कैवेलरी कोर को एक भूठा आदेश भेजा। इस आदेश में वोरोनेज पर हमले की तैयारी तथा दक्षिण-पूर्व की ओर से प्रमुख प्रहार करने की चर्चा थी, जबकि वास्तव में यह प्रहार उत्तर-पूर्व की ओर से किया जाना था। श्कुरो की कैवेलरी कोर के कमांडर इस भ्रम में थे कि “लाल सेना का आदेश” उनके हाथ लगा है और यह सच्चा है।

श्कुरो को डर था कि कहीं पहलकदमी उसके हाथों से न निकल जाये, सो बारह कैवेलरी रेजीमेंटें लेकर वह हमला करने बढ़ा। आरम्भ में वह बुद्योन्नी की दो डिविजनों में से एक को पीछे हटाने में सफल रहा, लेकिन फिर दूसरी डिविजन उसकी रेजीमेंटों पर बगल से और

पीछे ने टूट पड़ी। इस चाल में ही लड़ाई का फैसला हुआ। बुद्धोन्नी ने सफेद गाड़ों की कुवान कज्जाक डिविजन को धूल चटाई, पैदल रेजीमेंट का मकान कर दिया तथा वोरोनेज के पूर्वी बाह्यांचल तक गत्र का पीछा किया।

उसके बाद बुद्धोन्नी ने नया व्यूह रखा। वोरोनेज पर उत्तर की ओर ने हमला करने के लिए उसने अपनी प्रमुख टुकड़ियां जमा की। वाकी टुकड़ियों को दक्षिण-पश्चिम की ओर से नगर को घेरने का काम मौपा गया। माग तोपधाना और बहुत भारी संख्या में मशीन-गने उन टुकड़ियों की मोर्चेवंदी पर ही लगाई गई।

नगर के लिए निर्णायक युद्ध के दिन सुबह तड़के दुश्मन पर जवर-दम्न गोलावारी की गई, और बुद्धोन्नी की एक डिविजन ने घोड़ों में उत्तरकर वोरोनेज नदी पार की। नगर के पूर्व में मुठभेड़ होने लगी और धीरे-धीरे सफेद गाड़ों की प्रमुख टुकड़ियां उसमें फंस गईं। उधर बुद्धोन्नी की प्रमुख टुकड़ियां उत्तर और उत्तर-पश्चिम से तेजी से नगर की ओर बढ़ने लगीं। सफेद गाड़ों को ऐसे प्रहार की जारा भी उम्मीद न थी। शुरुगे के पास उसके सिवा और कोई चारा न था कि वह पीछे हटने का हुक्म दे। उसका रिसाला तोपें और मशीनगनें छोड़कर दोन की ओर दौड़ चला।

दोन और बालंटियर रिसालों की वोरोनेज के पास हुई पराजय के एक दिन बाद प्रहारक दल ने, जिसकी टुकड़ियां ओर्योल से हटकर क्रोमी के इनाके में आ चुकी थीं, फिर से हमला किया। दो दिन की लड़ाई में नाल मेना ने ओर्योल-क्रोमी-द्मीत्रोब्स्क मोर्चे के तीनों भागों पर कुतेपोव की कोर के दांत खट्टे कर दिये, और उस तरह मास्को पहुंचने की देनीकिन की उम्मीदों को दफ़ना दिया। प्रहारक दल ने गत को हमला करके सफेद गाड़ों को क्रोमी से खदेड़ दिया; दल के पश्चिम की ओर जो डिविजन थी उसने द्रोज्दोव की डिविजन को हगकर द्मीत्रोब्स्क में प्रवेश किया; प्रहारक दल से दाईं ओर के मोर्चे पर लड़ रही डिविजनों ने रेल लाइन के माथ-साथ दक्षिण की ओर बढ़ने हुए ओर्योल के पास कोर्नीलोव की टुकड़ियों को गैंद डाला।

उस तरह दक्षिणी मोर्चे के मारे केन्द्रीय भाग में सफेद गाड़ी पीछे हटने लगे।

साथ ही हर नई लड़ाई में सोवियत रिसाले को अधिकाधिक सफलता मिलने लगी। दोन नदी पार करके बुद्योन्नी ने शुरूरो के रिसाले को एक बार फिर धूल चटाई और कूर्स्क की दिशा में कस्तोर्नया स्टेशन के इलाके में खदेड़ दिया। यहाँ पर नवम्बर के मध्य में, जब बहुत ही जल्दी आ गये जाड़े की वर्फांती आंधियां पूरे जोरों पर थीं, बुद्योन्नी ने अश्वारोही और पैदल सैनिकों के संयुक्त प्रहार से सफेद गार्डों की धज्जियां उड़ा दीं।

देनीकिन के वालंटियर पीछे क्या हट रहे थे, दुम द्वाकर भाग ही रहे थे। ऐसे हालात में सोवियत रिसाले द्वारा, जिसे अब वोरोशीलोव और बुद्योन्नी की कमान में प्रथम अश्वारोही सेना का रूप दिया गया था, शत्रु का पीछा किया जाना निर्णयिक महत्व रखता था। सैनिकों में उत्साह तथा जीत में विश्वास बहुत बढ़ गया था। आगे बढ़ाये गये हर कदम के साथ वे लाभ अधिक स्पष्ट होते जा रहे थे, जो हमले की रणनीतिक योजना में निहित थे।

वोरोनेज के इलाके से प्रमुख प्रहार के फलस्वरूप सेनाओं का प्रमुख दल (समन्वित रिसाला और पैदल टुकड़ियां) उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर, दोनेत्स के मैदान में पहुंच रहा था। साथ ही ओर्योल के इलाके में किये गये प्रहार से दायें पार्श्व की सेना के लिए कूर्स्क से खार्कोव की ओर दक्षिण का रास्ता खुल गया था।

दोनेत्स के मैदान में सभी मज्जावारों ने मिलकर सोवियत सेना को जिताया। इन जीतों का नतीजा यह हुआ कि दोन कज्जाक रिसाले और वालंटियर सेना के संधि-स्थल पर कार्यरत अश्वारोही सेना अब सबसे छोटे रास्ते से अज्ञोव सागर की ओर बढ़ रही थी। और इससे योजना के पहले चरण की पूर्ति सुनिश्चित होती थी: देनीकिन की सेना को दो भागों में काटा जा रहा था: वालंटियरों को क्रीमिया की ओर तथा द्वीप के दायें तट की ओर खदेड़ा जा रहा था, और कज्जाकों को दोन के निचले भाग तथा उत्तरी काकेशिया की ओर।

नवम्बर और दिसम्बर में द्वीप से बोल्गा तक के विशाल विस्तार में देनीकिन की जगह-जगह हार हो रही थी। लाल सेना उक्राइना को आजाद करा रही थी। दक्षिण-पूर्वी मोर्चा आगे बढ़ने लगा। कीरोव की कमान में अस्त्राखान की ओर से लाल सेना उत्तरी काकेशिया

में जमा सफेद टुकड़ियों का सफाया करने चली। “दक्षिणी रूस की सशम्ब्र सेनाओं” पर पूर्ण विजय का दिन निरंतर निकट आता जा रहा था।

१६१६ के वसंत में देनीकिन ने कोल्चाक को एक पत्र में लिखा था: “सबसे बड़ी बात यह है कि हम बोल्शा पर न रुकें, बल्कि मास्को की ओर, बोल्शेविज्म के हृदय की ओर बढ़ते जायें। मुझे आशा है सरातोव में आपसे मिलेंगे...”

न सरातोव में, न कहीं और ही देनीकिन कोल्चाक से मिल पाया। कोल्चाक को बोल्शा पार के क्षेत्र में ही हरा दिया गया, उसकी फ़ौजें उराल के पार भाग गईं।

एंटेंट के दूसरे (दक्षिणी) अभियान की सफलताएं जब चरम विद्यु पर थीं, तब देनीकिन के सेनापतियों को अपनी जीत में पूरा विश्वास था। वे “अधिक से अधिक दिसम्बर के अंत तक, १६१६ के क्रिस्मस तक...” मास्को पधारने की सोच रहे थे, जैसा कि ओर्योल पर कञ्जा करने के बाद जनरल माइ-मायेव्स्की ने कहा। लेकिन जब क्रिस्मस आया, तो वालंटियर सेना के आधे सैनिक हताहत हो चुके थे, सफेद गार्डों को पोल्तावा से परे खदेड़ा जा चुका था, दोनेत्स के उस मैदान में वे सिर पर पांव रखकर भाग रहे थे, जहां के पूंजीपतियों ने राजधानी में सबसे पहले प्रवेश करनेवाली वालंटियर रेजीमेंट को जार के जमाने के दस लाख रुबल का इनाम देने की घोषणा की थी।

ओर्योल और बोरोनेज वे पहले उत्तोलक थे, जिन्होंने उन्नीम मौ उन्नीम की घटनाओं का पलड़ा सोवियत रूस की ओर भुकाया तथा देनीकिन के “मास्को अभियान” पर एंटेंट की बाजी पलट दी।

दोन कञ्जाक रिसाले की चढ़ाइयों के साथ आया मामोन्तोव तथा चुनिंदा अफ़सर डिविजनें लिये कुतेपोव ही वे दो सफेद गार्ड जनरल थे, जो भीतरी रूस की सीमा तक पहुंचे, बल्कि उससे आगे भी बढ़ आये। वे तूला से कोई डेढ़-दो सौ किलोमीटर दूर आकर ही रह गये—मामोन्तोव दक्षिण-पूर्व से तथा कुतेपोव दक्षिण-पश्चिम से।

एंटेंट के बूते पर देनीकिन रूम के भीतरी भागों की ओर बढ़ चला था, लेकिन इस अभियान का अंत यह हुआ कि किसान समूहों

ने दृढ़तापूर्वक सोवियतों का समर्थन किया। सबसे नाजुक घड़ी में किसानों ने क्रांति के सबसे खतरनाक शत्रु देनीकिन के विरुद्ध क्रांति का पक्ष लिया। इस अभियान का अंत यह हुआ कि मज़दूरों ने न केवल अपनी लाल सेना के लिए नई-नई रेजीमेंटें तैयार कर दीं, बल्कि सफेद गार्डों के कब्जे में जो इलाके थे उनमें भी छापामार आंदोलन के लाल झंडे उठाये। न केवल उन इलाकों में जो सोवियतों की सत्ता में थे, बल्कि उन इलाकों में भी जहां सफेद गार्डों का राज था, आम जनता को क्रांति की सच्चाई में विश्वास था और अपने सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्ति-शाली और सबसे समझदार भाग – आवादी के मेहनतकश भाग पर भरोसा था, क्योंकि जनता मानती थी कि यह भाग – सर्वहारा वर्ग ही – जनता को न्याय दिलायेगा, नया, बेहतर जीवन बनायेगा।

जनवरी के पहले दिनों में ही अश्वारोही सेना ने देनीकिन का मोर्चा तोड़ दिया, तगनरोग नगर के पास उसे बुरी तरह पराजित किया और फिर रोस्तोव के पास सफेद गार्डों के भीषण प्रतिरोध को कुचलकर नगर में प्रवेश किया।

बालंटियर सेना बुरी तरह पिट चुकी थी और अब वह देनीकिन की प्रमुख शक्ति न रही थी। देनीकिन ने अब कज़ाक टुकड़ियों को अपनी प्रमुख शक्ति की भूमिका सौंपी। इन्हीं से उसे अपने उद्धार की उम्मीद थी, ये ही उसका बचा-खुचा आसरा थीं।

परन्तु यह नये वर्ष की, उन्नीस सौ बीस की बात है, जो नवोदित सोवियत रूस की प्रगति में एक नया चरण था, और उन्नीस सौ उन्नीस के आगेय वर्ष में तपकर ही सोवियत रूस इस चरण में पहुंचा था।

३६

नवम्बर की आखिरी तारीखों में एक दिन सुबह पाल्लिक ने वहन से पैसे मांगे। जब आनोच्का यह पूछने लगी कि वह पैसों का क्या करेगा, तब उसने बताया कि पिछले कई दिनों से लड़के आपस में पैसे जमा करके आसेंनी रोमानोविच के लिए दूध खरीद रहे हैं।

इस तरह दोरोगोमीलोव की बीमारी का पता चला। आनोच्का ने किरील को यह बताया और उसने अपनी माँ को।

“हमें शायद कुछ मदद करनी चाहिए न ?”

“हा... करनी तो चाहिए,” वेरा निकान्द्रोव्ना ने जवाब दिया। परन्तु किरील को उसके स्वर में अनिश्चितता का पुट लगा। वह स्वयं भी यह तय नहीं कर पा रहा था कि इस व्यक्ति के प्रति उसका खुब कैमा होना चाहिए।

“गगोजिन उसका आदर करता है।”

वेरा निकान्द्रोव्ना चुप रही। वह समझ गया कि किसी व्यक्ति का आदर करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह भाता भी हो। उसे यह कहने में कोई तुक नहीं दिखी कि आनोच्का दोरोगोमीलोव को बहुत ही नेक और उदारमना आदमी मानती है। वेरा निकान्द्रोव्ना स्वयं आनोच्का की बातों से यह जानती थी। इसका एक ही उत्तर हो सकता था: किसी आदमी का पसन्द या नापसन्द होना उसके बारे में दूसरों की गय पर निर्भर नहीं करता। इज्वेकोव परिवार और आर्मेनी रोमानोविच के सम्बन्ध इतने व्यक्तिगत रहे थे कि बाहर का कोई आदमी इनमें कुछ परिवर्तन नहीं ला सकता था। और क्या परिवर्तन की आवश्यकता भी थी?

“मार्गी बात इतनी पुरानी है और फिर कुछ भी साफ़ नहीं है। अब बूढ़े के लिए मन में क्या मैल रखना,” किरील ने कहा।

“मेरे मन में उसके लिए कब से कोई मैल नहीं। और पहले भी उसे देखकर दुखद यादें ही मन में उठती थीं, और कुछ नहीं।”

“शायद वह भी यह जान ले तो अच्छा रहे?”

“मैं आनोच्का से बात करूँगी। वह राजी हुई तो हम उसके पाम हो आयेंगी।”

“वेश्यक वह गजी है,” किरील के मुँह से निकला पर तभी उसे यह स्वाल आया कि ऐसा जवाब तो आनोच्का ही दे सकती है और वह चुप हो गया।

शगद कहने के पहले दिनों से ही दोरोगोमीलोव की तबीयत खराब रहते रही थी। उसे कोई वीमार्गी नहीं थी, वस तबीयत कुछ ढीली-ढीली थी। उन दिनों ही, जब उसने अपना पुराना कोट उतारकर फौजी बर्दी पहनने का डगदा किया था, जब वह फौजी दफ्तरों में नये काम के बारे में पूछताछ करने लगा था और सहसा अपनी मार्गी किनारे उसने दे डाली थी, तभी वह वीमार पड़ गया।

कमज़ोरी का पहला दौरा उसे उस दिन महसूस हुआ, जब घर से किताबें ले जाई जा रही थीं। एक साथ दो ठेले आये, अभी उन्हें पूरी तरह से लादा भी न गया था कि आधी अलमारियां खाली हो गई। स्याह धूल कमरे में उड़ती फिर रही थी, मानो यह विरोध करते हुए कि उसकी शांति में क्यों विघ्न डाला गया। एक अजीव वात हुई: सबसे बड़ी अलमारी में से एक ओर से किताबें निकाली ही थीं कि सारी अलमारी ढह गई। धूल का गुवार छत तक उठा, किताबों के ढेर पर चुहियां चीं-चीं करती दौड़ने लगीं।

दोरोगोमीलोव से यह विनाश देखा न गया, वह सोफे पर लेट गया। लेटने पर उसे कमज़ोरी का स्पष्ट अहसास हुआ – उसके हाथ-पांव कांप रहे थे। बाकी बच्ची किताबें जब लेने आये, तब भी वह नहीं उठा।

दोरोगोमीलोव ने अपनी यह निधि एक पुस्तकालय को भेट की थी, जो बच्चों के लिए वाचनालय खोल रहा था। बच्चों के लिए ही उसने जो किताबें जमा की थीं, उनके इससे अच्छे उपयोग की वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। और फिर वह जिस अस्पष्ट से किन्तु साहसपूर्ण अभियान का स्वप्न देख रहा था, उसके लिए अपना बोझ यथासम्भव हल्का करना चाहता था। परन्तु जब किताबें चली गईं, तो उसे सूनापन कच्चोटने लगा, हालांकि वरसों से उसे कभी सूना नहीं लगा था। पहले जो घटनाएं उसके मन को विचलित करती थीं, अब वह उनके प्रति उदासीन हो गया। शायद इसका कारण यह था कि इन घटनाओं से जिस खतरे की आशंका थी, वह टल गया था।

लड़के अभी भी उसके यहां आते रहते थे, लेकिन उसे लगता था कि अब किताबें न रहने से उसके घर में उनकी दिलचस्पी कम हो रही है। उसे पाल्लिक और वीत्या में सुलह करानी पड़ी, क्योंकि पाल्लिक वाचनालय के पक्ष में था और वीत्या इसके खिलाफ़।

आर्सेनी रोमानोविच की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। इसके कई कारण थे: खाना ढंग का नहीं मिलता था, शरद ऋतु की ठंड और नमी भी अपना काम कर रही थीं, और सबसे बड़ी वात – बुढ़ापा आ गया था। अचानक निमोनिया ने उसे घर दबोचा।

दोगेगोमीलोव के नये प्रगतिसक वान्या रागोजिन ने अपने पिता को इन मुसीबत के बारे में बताया। डाक्टर देखने आया, छकड़ा भर लकड़ियां भेजी गईं, और लड़के बारी-बारी से रोगी की सेवा-दृढ़ता करने लगे।

दोगेगोमीलोव की शर्तें पहले कभी भी इतनी लंबी न हुई थीं, घर भी कभी इतना बड़ा न था। बीमारी धीरे-धीरे ही चल रही थी। कमज़ोरी तथा खासी के साथ छाती में होनेवाली पीड़ा के अलावा उसे और कुछ महसूस नहीं हो रहा था। हाँ, अनिद्रा ने खासा परेशान कर रखा था।

उसके विचार छोटी-छोटी बातों में उलझते रहते। कभी उसकी नज़रें कमरे में पड़ी भैंकड़ों चीजों में से किसी एक पर टिक जातीं और किर यादों का मिलमिला शुरू हो जाता। ये सब चीजें, जो कभी उसके लिए जरूरी थीं, उसके जीवन से वैसे ही जुड़ी हुई थीं, जैसे पुच्छलतारे की पूँछ। इन मवकी अपनी-अपनी “जीवन कथा” थीं। वह लेटा-नेटा यह याद करने लगता कि वह कैंची कितने बरसों से उसके काम आ रही है। कैंची इतनी खम्ताहाल थी कि दूसरा कोई आदमी उससे कुछ नहीं कर सकता था, पर दोगेगोमीलोव के हाथों में वह चीर-फाड़ के लिए और कीले निकालने के लिए भी काम आती, यहाँ तक कि जब वह विचारों में घोया कोई धून गुनगुनाता तो कैंची साज का भी काम देती, जिसे वह गुनगुनाते हुए बनकरता जाता।

महसा उसे कोई विग्नी पुस्तक याद आ जाती, और यह याद भी पुस्तक के विषय में इतनी नहीं जुड़ी होती थी, जितनी कि उसकी किसी खास निशानी में, जो उसे भैंकड़ों अन्य पुस्तकों से अलग करती थी – कहाँ खरीदी गई, कौन से दिन, किसने जिल्द बांधी, कहाँ रखी थी, क्यों आविर तक पढ़ी नहीं गई।

दोगेगोमीलोव विग्ने ही कभी कोई पुस्तक अंत तक पढ़ता था, पुस्तकें नो क्या, दूसरे काम भी वह युक्त करके विग्ने ही खत्म करता था। कभी कुछ बनाने लगता, और देखता कि हाँ, चीज बन रही है, नो बम उसे अधृत छोड़ देना, दूसरे किसी काम में लग जाता। कोई किनाव पढ़ने लगता, हर्पोन्लाम में भग्यूर हो उठता, कल्यना के घोड़े ढाँड़ाने लगता और बम किनाव धरी ही रह जाती। वह मानो अपनी

कल्पना में स्वयं पुस्तकों के अंतिम अध्याय लिखता था , इसलिए पुस्तकों की पहली पंक्तियां ही उसे याद रहती थीं , जैसे लोग हमें उनके चेहरों से याद रहते हैं। यही कारण था कि उसकी वस्तुओं का , उसकी पुस्तकों का संसार कहीं खत्म नहीं होता था , वह अंतहीन था। सो अब यह समझ नहीं आता था कि इस अंतहीनता का अंत क्यों हो रहा है ? पुस्तकें चली गई थीं , शायद चीजें भी चली जायेंगी , और फिर वह स्वयं भी चला जायेगा ।

जब आनोच्का और वेरा निकान्द्रोव्ना उससे मिलने आईं , तब तक वह बहुत कमज़ोर हो गया था। पर उनके आने पर वह उत्तेजित हो उठा , बाचाल हो गया और उसकी स्वभावगत वेचैनी लैट आई , हालांकि वह केवल उसके चेहरे के हाव-भाव और हाथों की गति में ही व्यक्त हो सकती थी। वह आनोच्का की ओर देखे जा रहा था , बस कभी चोरी-चोरी दूसरी मेहमान पर तिरछी नज़र डाल लेता , पर वेरा निकान्द्रोव्ना को अपने रोम-रोम से यह अहसास हो रहा था कि दोरोगो-मीलोव को उसके बोलने की प्रतीक्षा है। वह उपयुक्त शब्द नहीं ढूँढ पा रही थी। बूढ़े को देखकर वह स्तव्ध रह गई थी – उसका ज्वर से लाल चेहरा बालों के चौखटे में जड़ा हुआ था , जो न काले ही रहे थे और न अभी पूरी तरह सफेद हुए थे।

आनोच्का ने भोलेपन से पूछा कि अकेले वैठे जी उदास होता होगा ? दोरोगोमीलोव ने छोटी सी एक सांस में , जितनी जल्दी हो सकता था , नकारा :

“मैं कभी अकेला नहीं होता। इतने लड़के हैं...”

फिर अच्छी तरह सांस ले चुकने पर वह धीरे-धीरे बोलने लगा :

“अकेलापन तभी खलता है , जब किसी को तुम्हारी ज़रूरत न हो , तुम सड़क पर खड़े हो और सब तुम्हारे पास से गुज़रते जायें ... यह तो वहुत ही अच्छी बात है कि अपना एक कोना हो , और आदमी कभी कभार दरवाजा बंद करके उन लोगों से आराम पा सके , जिन्हें उसकी ज़रूरत है।”

“जब ठीक हो जायेंगे , तब वेशक ताला लगाकर बैठना , और हम से आराम करना , पर अभी तो आप की देखभाल का प्रवन्ध किया जाना चाहिए ,” आनोच्का ने कहा।

“मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपका पाल्लिक आग जला देता है। वान्या रागोजिन वर्तन धोता है। लड़के अपनी ओर से सब कुछ कर रहे हैं।”

“नड़के भला क्या ममझते हैं ! आपको तो कोई देखभाल करनेवाली नाहिए। हम डतजाम कर देंगी, है त वेरा निकान्द्रोन्ना ?”

दोगेगोमीनोव ने वेग निकान्द्रोन्ना पर सहमी नजर डाली।

“नहीं, नहीं ! मैं तो अब काफी ठीक हो गया हूं ! मुझे नौकरी करनी है !”

“नौकरी कहीं भागी नहीं जाती ,” बड़ों के से अंदाज में आनोच्का ने कहा ।

उसकी लाल पड़ी आँखों में मुस्कान दौड़ गई और वह बूढ़ों की भाँति जिदादिली दिखाते हुए, पर साथ ही मानो धमा-याचना करते हुए बोला :

“अभी तो मैं लड़ने जाऊंगा ।”

“विल्कुल पाल्निक जैसी वातें करते हैं ,” आनोच्का हँसी ।

“और फिर रिटायर होकर कोई ऐसा काम करूँगा, जिससे मन को आनन्द मिले ।”

“यह तो बहुत अच्छी वात है ! जरा बताइये तो क्या काम करेंगे ?”

“मछली पकड़ा करूँगा ।”

“पर यह तो बक्त काटना है, कोई काम थोड़े ही है ।”

“क्यों नहीं ? इससे दो पैसे भी कमाये जा सकते हैं ।”

“तब तो आप मछें होंगे, यों ही मछली पकड़नेवाले नहीं ।”

“मछेरा होना भी अच्छा है, पर आनन्द तो बस यों ही मछली पकड़ने में है ।”

उसे थकावट महसूस होने लगी थी। उसके गाल पीले पड़ गये थे, आँखों में उदासी गहरा रही थी।

“आपका क्या स्याल है, कोई दिन ऐसा भी आयेगा, जब पुरानी किनावें बेचनेवाले नहीं रहेंगे ?” सहमा उसने पूछा।

“आप क्या कितावें बेचना चाहते हैं ? इससे अच्छा तो लाइब्रेरियन बन जाऊंगे ।”

“नहीं. कितावें बेचना ज्यादा अच्छा है, वह भी पुरानी कितावें। पुगनी किनावें बेचनेवाले को कोई किनाव अच्छी लगती हो ... तो वह उसे ऐसे आदमी को ही देगा ... जो उससे भी बढ़कर ... उस किनाव की कद्र कर सकता हो ... लाइब्रेरियन होना भी अच्छा है ... पर उसे मवक्की मर्जी पूरी करनी होनी है ।”

“हां, हां, आप किताबें बेचना,” आनोच्का बड़े जोश से बोली। “मैं आपके पास आया करूँगी, पुरानी किताबों के ढेर उलटा-पुलटा करूँगी!”

“पाल्लिक के साथ आना। लड़कों को... पढ़ने का शौक... कद्र करना...”

उसके लिए बोलना मुश्किल हो रहा था, वह मानो बेहोशी में बुद्धिमत्ता रहा था।

वीत्या कमरे में आया, एक ओर को बैठकर सख्ती से औरतों की ओर देखने लगा। वे उठ खड़ी हुईं।

वेरा निकान्द्रोन्ना ने दोरोगोमीलोव पर भुक्कर जल्दी से उसका हाथ दबाया और वही एकमात्र शब्द कहे, जो उसके इस विश्वास को व्यक्त कर सकते थे कि वह अब कभी नहीं उठेगा।

“जैसे ही आप ठीक हो जायेंगे, हमारे घर आना, जरूर आना!”

“आप आईं... वहूत अच्छा किया,” क्षीण स्वर में उसने कहा और भौंहें सिकोइकर फड़फड़ाती पलकें ज़ोर से भींचीं।

इसके हफ्ते भर बाद रात को अपने अजीब से घर में अकेला सोया-सोया वह मर गया। वान्या रागोजिन जब सुबह आया, तो उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वान्या मृतकों से नहीं डरता था – अपनी अल्पायु में वह कई मौतें देख चुका था। और फिर दोरोगोमीलोव के चेहरे पर पहले की ही भाँति सहृदयता की छाप थी। वस उसके दायें हाथ की मुट्ठी बंधी हुई थी, मानो वह किसी को धमकी दे रहा हो या किसी से हाथ मिला रहा हो। वान्या पल भर को उसके पास खड़ा रहा, और फिर पिता को यह बुरी खबर सुनाने दौड़ा गया।

थी तो यह विचित्र बात, पर इस एकाकी व्यक्ति को दफ़नाने के लिए बहुत से लोग जमा हुए। इनमें छोटे-छोटे लड़कों से लेकर फ़ौजी ओवरकोट और विद्यार्थियों की बदरंग टोपियां पहने नौजवान तक थे। इनमें से ज्यादातर बचपन के खेलों से एक दूसरे को जानते थे। परन्तु ताबूत के पीछे बड़ी उम्र के भी बहुत से लोग चल रहे थे, जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन इस घड़ी ने उन्हें कुछ बातें एक समान समझनेवाले लोगों के एक सूत्र में बांध दिया था। बेशक, यहां दोरोगोमी-लोव के चहेतों के रिश्तेदार भी थे – लीज़ा, पारावुकिन, आनोच्का।

गरोजीन भी था, जो अन्धी के पीछे-पीछे ही चल रहा था। उसने श्री इक्ष्वाने का नाम बंदोवस्त किया था, जो कि इन दिनों खासा भंभट का नाम था।

छोटे यहगे में गह चलतों का यह आम सवाल “कौन गुजर गया?” इन निक्खुर दिनों में अब कम ही सुनने में आता था। मौतें बहुत हो रही थीं, सबको एक भाँति ही दफनाया जाता था, अंतर वस इतना ही होता कि कुछ तावूतों पर लाल रंग किया होता, कुछ ऐसे ही होते।

पर यहा अन्धी के पीछे चल रहे लोगों की संख्या देखकर कुछ कौनूहनी रुक जाते, और पूछनेवाले यह समझ ही न पाते कि एक साधारण में व्यक्ति को दफनाने इतने लोग क्यों जा रहे हैं।

“कौन था? कोई मास्टर-वास्टर था क्या?”

“नहीं, मास्टर नहीं, ऐसे ही किसी दफ्तर में काम करता था।”

“तो फिर इतने लड़के क्यों जा रहे हैं?”

हाँ, कोई-कोई औरत तुग्न्त ही समझ जाती:

“दोगोगोमीलोव? अरे, वह भवरा?”

“हाँ, वही।”

“उम पगले को दफना रहे हैं।”

“अच्छा-आ! तो तेरे दिन भी पूरे हो गये...”

उम न नह उम वात का काण समझाया जाता कि इतने लोग क्यों हैं, क्योंकि पागल व्यक्ति साधारण व्यक्ति से अधिक ही दिलचस्प माना जाता है।

कन्निम्नान में सब लोग कन्न के डर्द-गिर्द भुंड बनाकर बृड़े हो गये। नेंज हवा चल रही थी, जो रेत से चुभते हिमकण उड़ा रही थी, परन्तु किसी भी सब नांग मिर बृड़े थे, यहाँ तक कि लड़के भी बड़ों का कहना नहीं मान रहे थे, टोपियाँ नहीं पहन रहे थे। जाने क्यों सबको यह उम्मीद थी कि अन्तिम विदाई के क्षण कोई खास वात होनी चाहिए, उमनिए जब गरोजीन ने कव्र के पास मिट्टी के ढेर पर पांव रखा, तो सब चौकन्ने हो गये।

वह क्षण भर को चृपचाप बढ़ा रहा। यों ही वह कद में सबसे ऊचा था, अब दूह पर बढ़ा हो जाने से सब उसे और भी अच्छी तरह

देख पा रहे थे, और उसके सामने से गंजे तथा कनपटियों पर लहराते घुंघराले बालों वाले सिर की ओर सबका ध्यान खिंच रहा था।

“एक ऐसे आदमी का देहांत हो गया है, जिसे हमारे शहर में बहुत से लोग जानते थे,” उसने धीमे स्वर में बोलना शुरू किया। “आर्सेनी रोमानोविच को दफ्तर के साथी जानते थे, जिनके साथ उन्होंने पैंतीस बरस तक काम किया। वच्चे जानते थे, जिनके साथ वह अपना खाली समय बिताते थे। हम उन्हें एक मेहनती, विनम्र व्यक्ति के नाते, बच्चों के मित्र के नाते जानते थे। लेकिन उनके जीवन का एक ऐसा पहलू भी था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, हालांकि यह एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, और अब उसके बारे में बताना चाहिए”।

रागोजिन ने लाल ताबूत पर नजर डाली, जिसके ढकने के पास हवा हिमकण उड़ा रही थी, और फिर सिर ऊंचा उठाया।

“आर्सेनी रोमानोविच दोरोगोमीलोव स्वप्नद्रष्टा थे,” वह कुछ जोर से बोला। “जीवन भर वह भविष्य का, मानवजाति के महान भविष्य का स्वप्न देखते रहे और इसकी बातें किये बिना वस इस भविष्य के निर्माण के लिए परिश्रम करते रहे, क्योंकि उन्हें इसमें विश्वास था, और इसके लिए काम किये बिना नहीं रह सकते थे।”

“अब तो बहुत सारे लोग यह जानते हैं कि जारशाही के ज़माने में हमारे यहां, सरातोव में ‘प्रकाशस्तम्भ’ नामक एक समाज स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था ज्ञान-प्रसार करना और यह खुले आम काम करता था। लेकिन साथ ही क्रांति से कोई पांच साल पहले हमारे नगर में बोल्शेविकों का एक मज़बूत भूमिगत संगठन बना था। इसमें तब दूसरे कामरेडों के साथ-साथ व्लादीमिर इल्याच लेनिन की बहनें भी काम करती थीं। मज़दूरों और कारीगरों का अपनी पार्टी से लगाव तेज़ी से बढ़ रहा था, और युद्ध के दिनों में हम खुले आम बोल्शेविकों का अखबार छापते थे। वह प्रायः सारे रूस में जाता था। बेलोरूस में भी वह पढ़ा जाता था और मास्को व पेट्रोग्राद में भी। लेकिन पुलिस ने अखबार बंद कर दिया। तब बोल्शेविक जनता तक अपनी बात पहुंचाने के दूसरे रास्ते खोजने लगे। इसके लिए ‘प्रकाशस्तम्भ’ का भी उपयोग किया गया, इस समाज में पार्टी की एक इकाई गठित हुई। कारखानों,

अन्यथन मण्डलियों और गैरिजन में कांतिकारी प्रचार के काम के लिए प्रकाशनम् एक कानूनी आड़ बन गया। इस काम का नतीजा तब नामने आया, जब काति शुरू हुई। हमारे प्रचार की बदौलत गैरिजन के नाठ हजार मैनिकों ने फ़रवरी और अक्टूबर कांतियों के दिनों में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। फ़रवरी काति के थोड़े दिन बाद ही 'प्रकाशनम्' के कार्यालय में हमारी पार्टी समिति निर्वाचित की गई ..."

वीन्या पहले तो बड़े ध्यान से सुनता रहा, पर फिर उसे लगने लगा कि प्योत्र पेंट्रोविच की वातें आर्मेनी रोमानोविच से बहुत दूर चली गई हैं। भीड़ की बजह से वह एक कद्र के सलीब से सटा खड़ा था और मृदिकल में गर्दन मोड़कर टीन की पट्टी पर लिखे शब्द पढ़ रहा था।

"यहा अग्रिप्पीना रेदियोनोव्हा कलीनिकोवा, गांव कोरोच्की, प्रदेश तूना, जिला अनेकसीन्स्की की अस्थियां दफ़न हैं। हे प्रभु उसकी आन्मा को शानि दो, पुण्यात्माओं के लोक में वास दो।" और आगे, फ़रिद्दने नने नीले अक्षरों में लिखा था: "अविस्मरणीय वेटी वेरा को मा और पिता की ओर से।"

जिला अनेकसीन्स्की की अस्थियों पर वीत्या ने ज्यादा विचार नहीं किया — यह कोई गम्भीर प्रश्न नहीं था: प्रत्यक्षतया इस स्थान की अस्थिया किमी तरह मृतक से सम्बन्धित थीं। परन्तु पुण्यात्माओं के लोक पर वीन्या मोत्त भे पड़ गया। वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि आर्मेनी रोमानोविच के निए कौन मे लोक की प्रार्थना करनी चाहिए, कौन-कौन मे लोक होते हैं और कहाँ, और लोक में वास देने की विनती अगर भगवान मे नहीं तो और किस से करनी चाहिए। यह एक गम्भीर प्रश्न था, क्योंकि इसका हल करके ही यह तय किया जा सकता था कि आर्मेनी रोमानोविच की कद्र पर क्या लिखा जाये। शायद जिला अनेकसीन्स्की की अस्थियों की भाँति उनके निए भी पुण्यात्माओं का लोक श्रीक रहेगा, पर शायद इसमे भी अच्छा कोई लोक हो? प्योत्र पेंट्रोविच जब योनने ही नगे हैं, तो उन्हें इस गम्भीर प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। वीन्या फिर मे मुनने लगा।

"'प्रकाशनम्' की स्थापना से पहले भी आर्मेनी रोमानोविच आनिकान्यों की मदद करने आये थे," गागोजिन कह रहा था। "लेकिन जब इस समाज में पार्टी की इकाई गठित हुई, तो आर्मेनी

रोमानोविच के साथ स्थायी सम्पर्क बनाया गया। उनका घर गुप्त भेटों का स्थान बना। वह भूमिगत कार्यकर्ताओं को अपने यहाँ छिपाते थे। अपनी किताबों में, जिनमें कई उन्होंने जानबूझकर यों ही जमा की थीं, इस रही के ढेर में वह क्रांतिकारी साहित्य छिपाते थे। यह काम वह इतने कमाल से करते थे कि वरसों तक खुफिया पुलिस की आंखों में धूल झोकते रहे और एक भी क्रांतिकारी, जिसे उन्होंने छिपाया, कभी पकड़ा नहीं गया। गोपनीयता की खातिर, वह खुद भी 'प्रकाशस्तम्भ' के सदस्य नहीं बने, उस समाज के, जो अनेक अन्य लोगों की भाँति, उन्हें भी प्रकाश दिखाता रहा था। यहाँ जमा लोगों में बहुत से पुराने पार्टी सदस्य हैं, जिन्हें स्वर्गीय आर्सेनी रोमानोविच का क्रांति से पहले का काम अच्छी तरह याद है।

"कामरेडो! आर्सेनी रोमानोविच के बारे में मैं यह तो नहीं कहूँगा कि वह रात में चमकता एक ऊंचा प्रकाशस्तम्भ थे, जो समुद्र में चल रहे जलपोतों का मार्ग दर्शन करता है। लेकिन वह एक तिरेंदा थे, तिरेंदे की छोटी सी वत्ती, जो निरंतर जलती हुई चौड़ी नदी का मोड़ इंगित करती रहती थी। जो कोई भी इस नदी से होता हुआ भविष्य के महासागर की ओर जाता था, तूफान की घड़ी और घने कुहासे में, वह तिरेंदे की यह उज्ज्वल वत्ती देखता था और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ता था कि उसका स्थाल रखा गया है, कि वह अकेला नहीं है।

"अब हम सब इस महासागर में पहुँच गये हैं, और यह भविष्य के साथ-साथ वर्तमान भी बन गया है। इसका विस्तार असीम है और इसमें अभी न जाने कितने भंभावात्, कितने तूफान और आयेंगे। किन्तु अब इसमें सबके लिए प्रकाशस्तम्भ चमक रहे हैं, और यह मार्ग सबके लिए खुला है।

"मैंने शुरू में कहा कि आर्सेनी रोमानोविच स्वप्नद्रष्टा थे। यह विल्कुल सच है, और बच्चे ही उनमें यह गुण सबसे अच्छी तरह देखते थे, जो अपने स्वभाव से ही स्वप्नद्रष्टा होते हैं। कहना न होगा कि आर्सेनी रोमानोविच का सपना अस्पष्ट सा था। सभी बच्चे उसमें अपनी-अपनी आकांक्षाएं, यों कहिये कि भविष्य का अपना सपना जोड़ते थे। हम कम्युनिस्ट निराकार, अस्पष्ट सपने नहीं देख सकते, क्योंकि हम उज्ज्वल भविष्य के सपने ही नहीं देखना चाहते, उसका निर्माण भी

करना नाहते हैं। और सुस्पष्ट लक्ष्य के बिना, ठोस कार्यक्रम के बिना तो निर्माण हो नहीं सकता। परन्तु हमारे कार्यक्रम में महासागर का वह विमार निहित है, जिसका होना सपनों के लिए आवश्यक है। यह वह विमार है, जो बच्चे की निष्कलंक कल्पना को, न्याय, सौंदर्य और गुण के मंमार की कामना करनेवाली कल्पना को उड़ान की प्रेरणा देता है। हमें उम उत्साह के साथ, उस लगन के साथ सपने देखने चाहिए, जो बच्चे आर्मेनी रोमानोविच में पाते थे। हमें आर्सेनी रोमानोविच के जीवन में यह सीधना है कि सच्चा उत्साह, सच्ची लगन क्या है। परन्तु साथ ही हमें अपने बच्चों को सपनों को साकार करने का सही गम्भा भी दिखाना है। इस रास्ते पर चलते हुए, इस मार्ग पर बढ़ते हुए वे निश्चिक होकर वह मब नप्ट कर देंगे, जो हमारे लक्ष्य के मार्ग में, भविष्य की हमारी योजनाओं में वाधा बनता है। उन नौजवानों के साथ जो आज मोवियत जनतंत्र के लिए जूझ रहे हैं, हमारे बच्चे कम्युनिज्म की ओर अग्रमर होंगे।

“विदर्ड के इन दो शब्दों को मैं एक बचन के साथ खत्म करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे मल्लाहों ने मुझे बताया कि लाल मागर में जा रहे जहाजों के इंजनों में कोयला भोकनेवालों को यह लगता है कि वायनगों के पास इतनी गर्भी नहीं है, जितनी डेक पर। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम बोल्येविकों को यह लगता है कि नए संसार के लिए मधर्य की कठिनाइयां पुरानी दुनिया की कूपमंडूकी अकर्मण्यता से आमान हैं। हम अपने वायलरों के पास से नहीं हटेंगे, डेक पर आराम करने नहीं जायेंगे—हमें वहां घुटन लगती है। और हम अपने मित्र आर्मेनी रोमानोविच को यह बचन देते हैं कि वायलरों की भट्टियों के पास यड़े-यड़े भी हम सपने देखना नहीं छोड़ेंगे और अपने बच्चों को भी, जो उन्हें इनसे प्यारे थे, सपने देखना सिखायेंगे, उन्हें भविष्य के प्रकाशनम्भों को कभी नजरन्दाज न करना सिखायेंगे।”

बड़ा भाड़ा भरकर रागोज़िन ढूँढ़ से उतर आया।

उसके बाद दो और लोग बोले। लेकिन वे ज्यादा नहीं बोले—सब कुछ कहा जा चुका था, और हवा भी तेज़ होती जा रही थी, लोग एक इसरे में भट्टे जा रहे थे।

अभी कब्र मपाट भी नहीं की गई थी कि लोग जाने लगे। ट्राम

कविस्तान तक नहीं आती थी, विश्वविद्यालय तक पैदल जाना था। कविस्तान के सामने फैले मैदान में हवा तेजी से हिम के रस्से बटती वह रही थी, जो ट्राम के खम्भों के पास बगूलों से उठ रहे थे। कहीं-कहीं हवा ने जमीन से सारा हिम उड़ा दिया था और काले-काले चक्के उभर आये थे।

लड़के कब्र के पास खड़े-खड़े ठंड से अकड़ गये थे, और अब अपने ओवरकोटों के बाजुओं में या जेवों में हाथ डाले बड़ों से आगे-आगे जा रहे थे।

“देखो तो, समय कैसे बीतता है,” वेरा निकान्द्रोव्ना ने आनोच्का से कहा, “पाइलिक के बगल में वह लीजा का वेटा ही है न?”

“हाँ, बीत्या है।”

“पाइलिक कितना बड़ा हो गया है!”

“हाँ। मुझे तो कभी-कभी विश्वास ही नहीं होता कि मैं इसे गोद में लेकर खिलाया करती थी।”

आनोच्का हँस पड़ी।

“क्या बात है?”

“याद है वह चाकलेट की बात?”

“चाकलेट की बात?”

“हाँ, लड़ाई से पहले की बात है। याद है, आपने पाइलिक को जन्म दिन पर बड़ी सी चाकलेट दी थी? मां ने उससे कहा कि मुझे भी दे। बड़ी देर तक बेचारा परेशान होता रहा, फिर बोला: ‘अच्छा, मां, मैं आनोच्का को इत्ता छोटा सा टुकड़ा दे देता हूँ।’ ‘छोटा सा क्यों? तेरे पास तो इतनी बड़ी चाकलेट है! ’ ‘बड़ा टुकड़ा अगर आनोच्का के गले में फँस गया, तो?’”

अब वे दोनों एक साथ हँसीं, पर उनकी हँसी सहसा रुक गई, मानो उन्हें यह याद आया कि वे कविस्तान से आ रही हैं। बर्फीली हवा के तेज़ झोंकों से बचने के लिए आनोच्का ने चेहरे को बाजू से छिपाया और चलते-चलते पूछा:

“किरील निकोलायेविच क्यों नहीं आये?”

“हाँ, अफ़सोस की बात है। रागोजिन की बातें सुनकर वह समझ जाता कि उसके पिता जी की दोरोगोमीलोव के साथ दोस्ती क्यों थी ...

निर्गीत आना तो चाहता था, पर फौजी कमिसारियात में कोई जरूरी काम आ पड़ा।"

आनोन्ना के माथे पर बल पड़ गये, पर वह कुछ बोली नहीं, वस नेज चलने लगी लड़के बहुत दूर निकल गये थे।

वे मड़क के बीचोंबीच एक भुंड में जल्दी-जल्दी, पर छोटे-छोटे कदम गूंजने जा रहे थे। वस कभी कोई एक-दो शब्द कह देता, जिसका दूसरे देश तक जवाब न देते।

"मेरे पिता जी कितना अच्छा बोलते हैं, है न पाढ़का?" वान्या ने पूछा।

"हु," पाल्विक ने हाथी भरी, पर फिर कुछ सोचकर बोला, "वो रही की बात उन्होंने वेकार ही की। मेरा बाप खुश हो गया।"

"क्यों?"

"मुझे टोहका देकर बोला: देखा कामरेड रागोजिन भी कहते हैं आर्मेनी गेमानोविच के पास रही ही थी।"

"उसके कहने से क्या होता है! बड़ा आया है!"

वीन्या सोच रहा था कि प्योत्र पेत्रोविच ने आर्मेनी रोमानोविच के बारे में सबसे बड़ी बात नहीं कही है। सबसे बड़ी बात यह थी कि आर्मेनी गेमानोविच अब नहीं रहे और उनके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता।

"हम आर्मेनी गेमानोविच के बारे में क्या लिखेंगे?"

"कहां क्या लिखेंगे?" वान्या ने जानना चाहा।

"सलीब पर।"

"हाँ, सच, क्या लिखेंगे?" सहसा पाल्विक ने भी जिजासा से पूछा।

"हु, सलीब पर!" वान्या ने मानो खिल्ली उड़ाते हुए कहा।

"क्यों नहीं?" वीन्या ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा।

"आर्मेनी गेमानोविच की कब्र पर सलीब नहीं होगा, समाधि पत्थर होगा।"

"हा, बहुत बड़ा पत्थर!" पाल्विक ने कहा।

नीनों ने बार्गे-बार्गे मेरे अपने कान मने ताकि ठंड से विल्कुल अकड़ न जाये।

“मेरे स्वाल में ऐसे लिखना चाहिए,” विचारमग्न सा पाल्लिक बोला, “यहां हमारे आर्सेनी रोमानोविच दफ्न हैं, और फिर नाम।”

“कैसे नाम?” वान्या ने पूछा।

“कैसे नाम? जैसे होते हैं—तेरा, मेरा, वीत्या का, और लोगों के नाम।”

“क्या सोची है! भला कन्न पर भी कभी कोई अपना नाम लिखता है? मैं सारी गर्मियां कव्रिस्तान में रहा हूं, मुझे पता है।”

“रहा है तो क्या हुआ? कोई मनाही है क्या? हमारे जी में आयेगा, तो हम अपने नाम लिखेंगे।”

“यह पुण्यात्माओं का लोक क्या होता है?” वीत्या ने कहा।

“सलीब पर पढ़ा है न? पता है मुझे,” वान्या ने कहा।

“सलीब पर?” पाल्लिक ने भी पूछा।

“यह सब पादरियों के दिमाग की उपज है,” वान्या ने कहा। “क्यामत, पुण्यात्माओं का लोक। विशपी झाड़ते हैं! है कुछ भी नहीं! जमीन में गाढ़ दिया, तो फिर कौन जी उठेगा!”

“विल्कुल,” पाल्लिक ने हामी भरी, “एक बार जो इस दुनिया से गये, तो गये।”

“और मंगलग्रह पर?” वीत्या ने अविश्वासपूर्वक पूछा।

“मंगलग्रह पर! ज़रा सोचो तो!” पाल्लिक ने कंधे विचकाये।

“तूने कुछ पढ़ा नहीं, इसीलिए ऐसे कह रहा है।”

“और तूने पढ़ा तो, पर ठीक से नहीं,” वान्या ने कहा। “मंगलग्रह पर मुर्दे नहीं, जिंदा लोग रहते हैं।”

“हां, हां,” पाल्लिक ने हां में हां मिलाई, “और वह मंगलवासी कहलाते हैं।”

“मेरे स्वाल में ऐसे लिखना चाहिए,” वीत्या ने सुझाया। “यहां (पल भर को वह इस सोच में पड़ा कि अस्थियों और स्थान की बात कहनी चाहिए कि नहीं) ... सबसे अच्छा व्यक्ति आर्सेनी रोमानोविच दफ्न है!”

अनिश्चय भरी नज़रों से उसने साथियों की ओर देखा। पाल्लिक को उसका सुझाव अच्छा लगा। वान्या को वह बहुत पसन्द नहीं आया था।

“पत्थर पर कुछ घोदना भी चाहिए,” उसने कहा।

“नगवीर?”

“हा।”

“कौनी?”

तभी गगोजिन लड़कों तक आ पहुंचा। उसने अपने भारी हाथ, जिनमें वह वर्ग उंगलियों वाले बड़े से दस्ताने पहने था, लड़कों के कब्जो पर रखे।

“अकड़ गये ठड़ मे?”

“नहीं।” तीनों ने एकसाथ कहा, और फिर से हथेलियों से कान मले।

“प्योत्र पेट्रोविच, हम समाधि पत्थर की सोच रहे थे, कि उस पर क्या लिखे।”

“तो क्या फैसला किया?”

फिर मे तीनों मे वहम होने लगी, नये-नये सुझाव देने लगे, और आग्निर उन्होंने गगोजिन मे यह कहलवा ही लिया कि वह खुद क्या लिखता।

“मैं सोचता हूं, सीधे-मादे ढंग से लिखना चाहिए: आर्सेनी रोमानो-विच दोगेगोमीलोव, क्रातिकारी।”

“और वम?” पाल्विक ने हैंगन होते हुए पूछा।

“वम।”

“वम!” बान्या चिल्लाया। “भड़, वाह!”

“भड़ वाह!” पाल्विक भी चिल्लाया। “आर्सेनी रोमानोविच को भी यह अच्छा लगता, है न?”

अकेला बीन्या ही सोच मे पड़ा हुआ चुप रहा। उसे यह सोचकर अफमोम हो रहा था कि आर्सेनी रोमानोविच जैसे व्यक्ति के बारे में केवल एक ही अच्छ निष्पा होगा।

लड़के गगोजिन के माथ-माथ, उमकी भाँति ही लंबे-लंबे कदम भगने की कोशिश करने चल रहे थे। जीव्र ही वे चौगहे तक पहुंच गये, जहां ड्राम के इनजार में भीड़ नगी हुई थी।

ठड़ काफी तेज हो गई थी, अंधेरा भी तेजी से विगता आ रहा था, और्सेनी ओंटी जोर पकड़ रही थी। नेकिन लड़के धीरज मे बड़ों के माथ ड्राम का इनजार कर रहे थे, हां थोड़ी-थोड़ी देर बाद वे अपने कान मल

लेते। तेज हवा उनके चारों ओर हिम उड़ा रही थी और वे आंखें सिकोड़-कर विश्वविद्यालय की अस्पष्ट सी इमारतें देख रहे थे।

३७

‘छल और प्रेम’ के पहले शो के बाद से आनोच्का और किरील हर हफ्ते मिलते रहे थे, और जिस दिन दोरोगोमीलोव को दफ्तरनाया गया, उस दिन भी उन्हें मिलना था।

किरील को लगता था कि वे काफ़ी जल्दी-जल्दी मिलते रहे हैं, यानी इससे अधिक जल्दी मिल पाना असम्भव ही है—ऐसे दो-तीन घंटे, जब दोनों खाली हों, ढूँढ़ना इतना मुश्किल था। बेशक, किरील के लिए ही ज्यादा मुश्किल था। एक बार अगली भेंट का समय तय करते हुए आनोच्का ने पूछा:

“तुम्हारा कोई नेम भी तो होगा?”

“कैसा नेम?”

“कि कब तुम्हें काम करना होता है, कब नहीं।”

“कब नहीं?” वह हँस दिया। “तब अचानक कोई न कोई ऐसी समस्या उठ खड़ी होती है, जिसकी पहले कल्पना तक न की थी।”

उसकी हँसी तुरन्त ही गायब हो गई।

“ये अचानक उठ खड़ी होनेवाली समस्याएं हमारे काम का काफ़ी महत्वपूर्ण अंश हैं। कभी-कभी तो सबसे महत्वपूर्ण। इनसे हम आगे देखना, यह अनुमान लगाना सीखते हैं कि हमारे काम में कैसी बधाएं, कैसी कठिनाइयां आ सकती हैं।”

“तो यह आशा की जा सकती है कि किस दिन मुझसे ढंग से मिल सकते हो, इसका अनुमान लगाना भी सीख जाओगे?”

“ढंग से?”

“हां। ताकि मिलना पल भर का न हो।”

इस बात पर वह इतनी गहरी सोच में पड़ गया कि आनोच्का की हँसी ही फूट पड़ी।

अभी तक किरील ने आनोच्का को मिलने का वायदा करके कभी धोखा नहीं दिया था, अगर किसी बजह से उसका जाना मुमकिन न

होना, तो वह बत्त रहते आनोच्चा को इसकी मूचना दे देता था। लेकिन उम दिन अनानक ही उसे छावनी में एक सभा में बोलने को कहा गया।

उसका अनुमान था कि नियत ममय तक लौट आयेगा। लेकिन सब तुलु उसके अनुमान के विपरीत होता रहा।

सभा गिमाने में स्वेच्छा में भरती के लिए बुलाई गई थी। टीलों पर दूर-दूर तक फैल गई छावनी की एक मामूली सी इमारत में लोग घुनाघन भरे हुए थे। सब खड़े थे। छावनी के विभिन्न कार्यालयों में काम करनेवाले लोग, नाल सेना के ग्राहूट, भठ मोहल्ले के रहनेवाले और आम-पाम के इनाके में फैले भट्टों के मजदूर यहाँ जमा थे।

इज्येकोव एक मच पर खड़ा बोल रहा था, जो उसके पांवों तले डां-यांटों हो रहा था। उसे बोलते ममय चलते रहने की आदत थी, इससे उसे एकाग्रचिन होने में मदद मिलती थी और विचारों का क्रम कदमों की नाल पर चलता रहता था। उसे इम बात का जग भी अहसास नहीं था कि कैसे उसके भागी कदमों से मंच और उस पर रखी मेज हिल रहे हैं।

वह आमानी में बोलता जा रहा था। जिन घटनाओं की वह चर्चा कर रहा था, वे स्वयं ही इननी रोचक थी कि थोता कान लगाकर सुनते - दक्षिण में हो रही जीतों की, मुंह की खाकर मफेद गार्डी एस्टोनिया में भाग गये युद्धनिया की और साइबेरिया में कोलचाक के विश्वद नये अभियान की चर्चा थी। गृहयुद्ध के मध्य मोर्चों पर अभूतपूर्व गति आ गई थी, लेकिन दो-नीन महीने पहले की भाँति यह गति प्रतिक्रांतिकागियों की पहलकदमी में नहीं आई थी, बल्कि नाल सेना के एकजुट संकल्प से। नाल सेना अपने अंत लहरानी आगे बढ़ रही थी, हस को उसके बाहरी प्रात लौटा रही थी।

मिकुदी भौंहो तले में मैकड़ो नजरें किरील पर लगी हुई थी - औंधा कर्णी और माथ ही भतकता भरी, वे मानो उसके धीर्ज, उसके ज्ञान की परीक्षा ले रही थी। पर वह हठधर्मी में कदम नापता जा रहा था - मोर्चों पर पल भर को थमता हुआ और वीच-वीच में मानो अपनी बान पर झोर देने के लिए मुट्ठी में हवा को चींगता हुआ। और उसका ज्ञान इनना गहरा था कि जब वह नाल गिमाने की जीतों की

गिनती करने लगा, तो जनता ने मानो तय किया कि वह परीक्षा में खरा उतरा है: भौंहें ढीली हो गई, लोग हिलने-डुलने लगे, हाल में जहां-तहां गुंजन हुआ, और फिर जैसे एक साथ आतिशवाजी छोड़ी गई हो, तालियों की तड़ातड़ गूंज उठी।

किरील ने अपना भाषण इन शब्दों के साथ समाप्त किया कि दुश्मन का मुंह काला कर दिया गया है, उसे धूल चटा दी गई है, वह दुम दबाकर भाग रहा है, लेकिन अभी उसका पूरी तरह सफाया नहीं किया गया है, और उसे सदा के लिए दफ़ना देने के लिए लाल सेना को नई शक्ति की आवश्यकता है। उसने एकत्रित लोगों का आह्वान किया कि वे अश्वारोही सेना में भरती हों, जवान और अधेड़, अनुभवी और अनुभव-हीन उन सब लोगों का उसने आह्वान किया, जिनके बाजुओं में दम है और मन में सफेद गाड़ों के लिए नफरत तथा मज़दूरों और किसानों की मुक्ति के लिए प्राण न्योछावर करने की ललक।

उसे उम्मीद थी कि यह आह्वान सुनते ही वालंटियर नाम लिखाने लगेंगे। लेकिन लोग सबाल पूछने लगे और कुछेक ने बोलने की इच्छा व्यक्त की।

अस्त्राखान का एक मुच्छड़ कज्जाक, जिसकी सलवार पर दोनों ओर ऊपर से नीचे तक पीली पट्टी लगी हुई थी, मंच पर चढ़ा। शुरू में वह इतना अच्छा तो नहीं बोला, जितना जोर से, और सुननेवाले उसकी बातों पर इतना हैरान नहीं हो रहे थे, जितना उसकी जोरदार आवाज़ पर। वह कहने लगा कि कज्जाक भी भाँति-भाँति के होते हैं, जनरलों के तलुवे चाटनेवाले भी और जालिम कुलक भी और डंडी मारनेवाले भी, पर ऐसे भी कज्जाक होते हैं, जैसा वह खुद है। और वह सच्चा कज्जाक है – मुसीबत आ पड़े तो चुल्लू से भी प्यास बुझा लेगा, हथेली पर रखकर भी खाना खा लेगा। लोग उसे बड़बोला ही समझ रहे थे, पर आखिर में उसने कुछ ऐसी बात कही कि सब शांत हो गये और वह मंच से उतरकर अपनी जगह को गया, तो सबकी सद्भावना भरी नज़रें उसपर लगी हुई थीं।

उसने कहा: “सच्चे कज्जाक लाल रिसाले का मान करते हैं। आजकल एक लाल सेना ही है, जो अपनी सौगंध निभाती है। शत्रु से लड़ते हैं, तो सब एक समान सौगंध निभाते हैं, चाहे कोई सबसे आगे

हो या मवमे पीछे, भानि-भानि से नहीं। कोई आंख-मिचौनी नहीं रखता। पर, हमारे उम्म युरे मिस्के का दूसरा पहलू भी है। पूछोगे कोन सा' बनाता है। किसने मवमे पहले उराल के सफेद गाड़ों के छक्के छुड़ाये थे? बमीनी ड्वानोविच चपायेव ने। अब भले ही वो कज्जाक नहीं था, पर मवमे तेज-नर्रार कज्जाक को भी पछाड़ता था और अब कहा है हमाग कामरेड चपायेव? उराल नदी के तल पर, वहा ल्वीश्चेन्स्क के पास। अब यह तो बताओ कि क्यों उसे बचाया नहीं? क्यों अपनी लानियों में उसे छिपाया नहीं? क्यों उस ल्वीश्चेन्स्क से ले नहीं गये? वह अपने हाथों सफेद गाड़ों को मौत के घाट उतारना चाहता था तो क्या? उसे अपनी आख के तारे की भाँति बचाना चाहिए था! तो वह आज मही-मलामत होता। हमारी लाल सेना में ऐसे सरदार अभी थोड़े ही हैं, वे तो अभी पग्गट होने ही लगे हैं। सो हमारे नियम में होने चाहिए कि भेना की मौगध तो सभी एक समान निभायें, पर गदा हर किमी की लाल भेना के लिए उसकी सेवाओं के अनुसार हो। हमें अपने मगदागे की गदा करनी चाहिए। तो, कामरेडों, यही मेरा मुभाव है।"

उमके बाद और लोग भाषण देने आये, फिर अपनी जगह खड़े-गये ही, ड्जाजत मांगे बिना ही बोलने लगे। किरील ने देखा कि वे अमल काम की बात में दूर ही दूर होने जा रहे हैं।

तब उमने फिर मे बोलने की ड्जाजत मांगी, सवालों के जवाब दिये, और चपायेव के बारे में कहा कि हाँ यह मच है कि न खुद उसने अपनी जान की परवाह की, न माथियों ने उसे बचाया, कि रात-दिन चौंकम रहना चाहिए, क्योंकि पहले किमी भी लड़ाई में सफेद गाड़ों जैसे कर और कपटी शबू मे सामना नहीं हुआ है।

"चपायेव की वीरगति पर मार्ग मोवियत स्म आंसू वहा रहा है, और बोन्ना के लिए, जिसके बह मपून थे, यह मवमे भारी सदमा है। परन्तु उनकी यह वीरगति उन्हें कमी गाथाओं के धूरवीरों की पांत में बढ़ा करनी है। वह बमीनी वुस्तायेव की भानि मृत्यु की आंखों में झांकते हुए दिच्चिन्चाने नहीं थे, उनका दिल नहीं कांपता था। येर्माक तिमोफ़े-येदिच्च की ही भानि वह जिस नदी की गोद में भमाये, उमका नाम उनके पगाक्रमों में विश्वान हुआ। उनका म्यान दूसरे मूर्मा, दूसरे धूरवीर

लेंगे। और उतनी जल्दी लेंगे, जितने ज्यादा मेहनतकश लोग हमारी सेना में, हमारे रिसाले में भरती होंगे। जनता के बीच से, जीवन की अंच से तपे आप लोगों के बीच से ही ये शूरबीर आयेंगे।”

किरील मेज़ के पास गया, एक कागज़ लेकर सिर के ऊपर उठाया:

“कामरेडो, कौन हमारी विजयी अश्वारोही सेना की नई स्कैड्रन में शामिल होना चाहता है? हम सूची बनाने लगे हैं, सबसे पहले मैं प्रथम अश्वारोही सेना में भरती हो रहा हूं। और कौन नाम लिखवाना चाहता है? आगे आओ, कामरेडो!”

उसने कलम दावत में डाला। मेज़ उसकी कोहनियों के बोझ तले हिल रही थी, लाल मेज़पोश के ऊपर रखा कागज़ निव से फट-फट जाता था। जब तक वह लिखता रहा, सब लोग जोर-जोर से तालियां बजाते रहे, और जब वालंटियर मंच पर चढ़ने लगे और मेज़ के सामने कतार बनाकर खड़े होने लगे, तो तालियों की गड़गड़ाहट और भी तेज़ हो गई।

किरील भरती होनेवालों के नाम जोर से सुनाता और मेज़ के पीछे बैठे सभी लोग वालंटियरों से हाथ मिलाते। वे चेहरे पर गम्भीरता बनाये और गर्व से छाती फुलाये मंच से उत्तरते और बड़े जोश से दूसरों को भी नाम लिखवाने को मनाने लगते।

सूची में सबसे पहले अपना नाम लिखते हुए किरील जानता था कि उसे हर हालत में मोर्चे पर जाना है, उसमें भी अगले दिन सुबह से ज्यादा देर नहीं होगी – उसकी जेव में फौजी कमिसारियात का कागज़ पड़ा हुआ था। लेकिन वह महसूस कर रहा था कि दूसरों का आह्वान करते हुए वह स्वयं भी ऐसा किये विना नहीं रह सकता। हर काम में ही पहल करनेवाले की ज़रूरत होती है, और यहां पर तो यह आवश्यकता अन्य किसी भी काम से अधिक थी। किरील ने सबसे पहले अपना नाम लिखने की घोषणा सोचे-विचारे विना की थी, केवल अंतःप्रेरणावश, उसके मन ने कहा था कि इससे काम में सफलता मिलेगी।

जब उसने यह कदम उठा लिया, और पाया कि उसने ठीक ही किया है, कि सब कुछ अच्छी तरह चल निकला है, तो उसने चैन की सांस ली मानो सब लोगों ने उसके उस फ़ैसले को खुले आम सही ठहराया

जो जी वह मन ही मन पहने में ही कर नुका था और जिससे वह किसी उम्मन में पीछे हटनेवाला नहीं था। सागी मभा में एक जोश छाता जा रहा था, जो पहले नहीं था, और न ही उन्हें भाँति-भाँति के लोगों के भम्मह में उम्मनी आमा ही की जा सकती थी, अब किरील में भी यह जोश उठता रहा था। निम्मदेह, उम्म उफान में सबसे बड़ा हाथ रंगरूटों का था, जो प्राय सबके गवर यह मार कर रहे थे कि उनका पैदल मेना से निम्मने में नदादला कर दिया जाये। उनके उत्साह ने वहुतों को प्रेरित किया।

किरील जब मभा में चला, तो वह उत्तेजित था और अपने आप से गनुग्न, मानो कोई वहुत महान्वपूर्ण अनुष्ठान उसने सम्पन्न कर लिया ही। वह मोन रहा था कि आनोच्का के यहां पहुंचने में उसे ज्यादा देर नहीं होंगी, और वह युगी-युगी कार में जा वैठा। लेकिन कार अभी शहर के बाहर ही थी कि अगले टायर में पक्कर हो गया।

नीमगे पक्कर में ही हिमानी आंधी आने लगी थी, और अब सांझ उन्हें वह पुरे जोर में चल रही थी। जाड़ा जब वहुत जल्दी ही आ जाता है, तो ऐसी हिमानी आंधियों में ही युरु होता है, जो धरती पर हर नीज की भक्तोंगती और फाइती जाती है, निचाइयों में हिम के छेर लगा देती है और टीकों पर के घास के आखिरी तिनके तक को उड़ा ले जाती है। हिम के माथ पिसे कांच की सी सम्म धूल उड़ती है। लकड़ी के मकान भी हवा के थपेड़ों में भुक-भुक जाते हैं, कराहते हैं। हर नीज भुकी-दवी होती है, अग्न्यगती है, चारों ओर से असंघ श्वरों में मनहम गीटिया बजती है।

किरील ने मढ़क पर पांव रखा ही था कि तेज खोंके में युल गया कार का दरवाजा जोर में उम्मे टकगया और वह गिरते-गिरते बचा। हिम का बबड़र उम्मन मा उम्मके इर्द-गिर्द धूम रहा था, मानो उम्मके हाथ-पाव वांधकर उम्मे उड़ा ने जाना चाहता हो। ड्राइवर ने अपने गानियों के भण्डार में में चुनी हुई गाली मुनाई और फिर जैक निकालने लगा।

किरील फिर में कार में जा वैठना चाहता था, पर फिर उम्मने अपना डरादा बदल दिया और ड्राइवर में कहा कि वह पैदल ही चला जायेगा। ताकि यहां युने मैदान में ठंड में अकड़ना न पड़े।

उसने ओवरकोट का कालर उठाया, हाथ बाजुओं में डाले और आगे को झुककर सड़क के बीचोंबीच चलने लगा। वह आस-पास के इलाके को पहचान नहीं पा रहा था, और उसके लिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि किस रास्ते से वह शहर में घुसेगा—आगे भी उतना ही अंधेरा था, जितना अगल-बगल में। ठंड ओवरकोट तले गहरी ही गहरी समाती जा रही थी, ओवरकोट के पल्ले कभी हवा से ऊपर उठ जाते और कभी टांगों के बीच फंस जाते। चलना मुश्किल होता जा रहा था।

किरील को पता भी न चला कव उसका सारा उत्साह जाता रहा। उसे अपने आप पर खीज आ रही थी कि क्यों उसने पहले से आनोच्का को यह खबर नहीं कर दी कि उसे देर हो सकती है। इस में बैचैनी भी मिली जा रही थी, जो पिछले कुछ दिनों से उसके मन में उठ रही थी, उस दिन से, जब उसे पता चला था कि मोर्चे पर जाना होगा। वह आनोच्का और मां को यह बात बताने में देर करता रहा था—यह सोचते हुए कि विदाई का समय जितना थोड़ा होगा, उतनी ही वह कम पीड़ादायक होगी। परन्तु अब सहसा वह यह समझ गया था कि यह उसकी निष्ठुरता थी, कि आनोच्का अवश्य ही उसे निर्ममता का उलाहना देगी, कहेगी कि किरील को उसकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है, और वह अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह सकेगा।

मुझों की तरह चुभती हवा के बीच वह उस छोटे से कमरे की गरमाहट भरी रोशनी देख रहा था, जिसमें वह जल्दी से जल्दी घुसना चाहता था और जो अभी इतनी दूर था। हर पल के साथ उसे इस कमरे की कोई न कोई चीज़ याद हो आती और अपने आप पर उसकी खीज बढ़ती जाती।

पीठ पर हवा का धक्का लगा। पल भर को किरील को ऐसे लगा मानो वह ढलान पर उतर रहा हो और उसे आनोच्का के कमरे का ढलुवां फ़र्श याद हो आया: जिस मकान में पारावुकिन परिवार रह रहा था, उसकी एक दीवार जमीन में थोड़ी धंस गई थी। सारा कमरा उसे दिखाई दिया: जालीदार मेजपोश; किसी पत्रिका में से काटकर दीवार पर टांगी गई कुईंजी के चित्र 'भोज कुंज' की प्रतिकृति, सूखी धास के बने कत्थई और पीले फूलों का दस्ता, जो आनोच्का की

मुा के फोटो के पीछे रखा हुआ है; गते का बना लैम्प शेड, जो एक ओर से जलकर चाकलेट जैसे रंग का हो गया है, सिलाई की मरीन का बक्सा, जो जतन से तौलिये से ढका हुआ है, और तौलिये पर कड़े वे शब्द: "सारा परिवार हो अगर संग, मन में बनी रहती है उमग" - ये सारी चीजें उसकी नज़रों के सामने धूम गई, यह वह घर था जिसे किरील अच्छी तरह पहचानता था और जो उसके मन को प्यारा था, और उसी घर में इन सब चीजों के बीच उसने आनोच्का को खाट की पाटी पर बैठे देखा, नीली आंखें ठंड से जमी खिड़की पर लगी हुई: "नहीं आया, नहीं आया"। उसने टोपी माथे पर नीचे खींची, कालर ऊपर खींचकर कान उसमें छिपाये, और नीचे को झुकता हुआ तेज़ चलने लगा।

वेशक, दूर से ही इस मामूली से कमरे के एक-एक कोने की तमवीर दिमाग में उतारने और उसमें आनोच्का की हर गति को देख पाने के लिए असाधारण कल्पना शक्ति नहीं चाहिए थी। हाँ, वह अपनी खाट की पाटी पर बैठी रही थी (ठीक बैसे ही जैसे किरील ने उसकी कल्पना की थी), यही नहीं, वह वीस बार उठकर इधर-उधर आ जा चुकी थी, कभी दौड़कर दरवाजे के पास जाती, कभी खिड़की के पास, कान लगाकर हिमानी आंधी की आहों और सीटियों को मुनती कि कहीं उनके पीछे दस्तक न दव जाये।

क्रिस्तान से घर लौटकर उसने समोवार गरम किया था, ताकि ठंड से छिन्ने वदन में कुछ गर्माहट आये। बड़ी खुशी से उसने पाल्लिक को बीत्या के घर जाने दिया था। पारावुकिन ने कहा कि उसे दफ्तर में गजकीय महत्व का काम है (वह कैसे इस पर कोई आपत्ति कर सकती थी, हालांकि उसे इस बात पर रक्ती भर भी विश्वास नहीं था)। वह खुश थी कि अकेली रह गई है।

घटे भर बाद वह अपना सबसे अच्छा फ़ाक पहने थी, सारे घर की उसने सफ़ाई कर ली थी, और एक बार फिर समोवार गरम कर दिया था, ताकि किरील को भी आते ही गरम चाय मिले। बाहर आंधी बुरी तरह से हुआ रही थी, हवा खिड़की में महीन-महीन झरियां ढूँढ़ लेती और उनमें सिसकती।

समय था कि बीत ही नहीं रहा था। आनोच्का निराश होने लगी।

उसने मन ही मन वे सब शब्द दोहराये, जो किरील ने कभी अपनी सफाई में या उसे समझाने के लिए कहे थे – कि वह कितना व्यस्त है, उस पर कितना भारी दायित्व है, या और भी कोई बात, जो उन दोनों के बीच के अंतर से जुड़ी हुई थी, लोगों के सम्मुख, क्रांति के सम्मुख, युग के सम्मुख उसके उत्तरदायित्व की बातें – ओफ, जाने कितनी बातें थीं, जिनके कारण किरील अपना अलग, विशिष्ट जीवन जीने को विवश था, जो आनोच्का के साधारण जीवन से विल्कुल भिन्न था !

क्यों अभी तक आनोच्का ने उसके उन सब बहानों, उन सब कल्पित संयोगों के मतलब पर गौर नहीं किया, जो सारी गर्मियां और सारी शरद क्रृतु में उनकी भेंटों में वाधक बनते रहे थे ? अभी तक उसे यह ख्याल क्यों नहीं आया कि आनोच्का की यह प्रतीक्षा, उससे वह जो बायदे लेती है कि वह आये, कि वह अचानक आ टपकनेवाले कामों को नजरंदाज करे – यह सब उसके लिए बोझा है, बंधन है ? हाँ, हाँ, उसके काम बहुत ज़रूरी हैं। वे सचमुच ही राजकीय महत्व के हो सकते हैं। इज्वेकोव तो पारावुकिन नहीं है। वह झूठ नहीं बोलेगा। उसे तो बढ़ा-चढ़ाकर कहने की भी ज़रूरत नहीं।

लेकिन अगर यह बात है, तो किरील के बड़े कामों और आनोच्का के छोटे कामों के बीच अंतर कभी खत्म नहीं होगा। यह तो बढ़ ही सकता है, गहरा ही हो सकता है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि आनो-च्का किरील के लिए और भी अधिक बोझ बनती जायेगी, कि उसे इन निष्फल प्रतीक्षाओं में और भी अधिक समय काटना होगा कि कब वह अपने अमूल्य समय में से उसके लिए दो क्षण निकाल सकेगा, कब उसकी ओर ध्यान देने की कृपा करेगा ।

लेकिन उसे यह सोचने का क्या हक है कि उसकी ऐसी कोई खास अहमियत है ? क्या आनोच्का के लिए भी समय उतना ही अमूल्य नहीं है, जितना उसके लिए है ? क्या आनोच्का के लिए यह आसान था कि वह किरील के साथ इस कमवलत मुलाकात की खातिर आज नये नाटक के वाचन के लिए नहीं गई, हालांकि त्स्वेतुखिन ने इस नाटक में उसे नई भूमिका देने का बायदा किया है ? वह थियेटर नहीं गई, जबकि वहाँ सब उसका इंतज़ार कर रहे थे, जबकि उसने अभी-अभी वह काम शुरू किया था, जिसके वचपन से दिन-रात सपने देखते आई थी ! क्या यह

वलिदान नहीं ? और किरील क्या करता है ? वह उसे धोखा देता है !
उमने आनोच्का को धोखा दिया है ! वह नहीं आया !

शायद वह आ ही जाये ? शायद किसी बहुत ही जरूरी काम से वह
रुक गया हो ? आखिर आजकल इतनी घटनाएं हो रही हैं और सभी
इतनी बड़ी , इतनी महत्वपूर्ण हैं ! और वह इतना बड़ा आदमी है !
उम पर इतनी बड़ी जिम्मेवारियां हैं ! उसकी जिम्मेवारियों की तुलना
भला किसी नाटक के वाचन से कैसे की जा सकती है , जिसमें आनोच्का
को शायद कोई भूमिका भी न मिले ! उसने त्स्वेतुखिन को इतना नाराज
कर दिया है , अब वह उसे कोई भूमिका नहीं देगा । उसे तो अपना
मौभाग्य मानना चाहिए कि उसे किरील जैसे विलक्षण व्यक्ति से
प्रेम है , कि वह उससे प्रेम करता है ।

वेशक , वह आनोच्का से प्रेम करता है ! उसे तो वस देर हो रही
है । आखिर वह उसे धोखा तो नहीं दे सकता ! अभी वह आता होगा ।
आनोच्का उसके लिए क्या करे ? हे भगवान , वह उसके लिए सब कुछ
करने को तैयार है , वस वह आ जाये ! पर वह नहीं आयेगा ! उसने पूरे
दो घंटे की देरी कर दी है । नहीं , दो घंटे चार मिनट की । चार मिनट !
हे भगवान , क्या करूँ कि वह आ जाये ? ! फिर से समोवार गरम कर
दूँ ? ठंडा हो गया है । चिमनी किसी प्रेत की भाँति फुंकार रही है ,
पर समोवार ठंडा हो गया है । किरील इज्वेकोव ठंडा हो गया है । हे
भगवान , क्या वेतुकी बातें दिमाग में आ रही हैं !

उसने कुछ चैलियां छीलकर समोवार में डालीं और खाट पर बैठ
गई । कोहनियां घुटनों पर टेककर उसने सिर हाथों में थाम लिया ।
विस्तर में लेट जाये ? माथा कितना तप रहा है !

सहसा आनोच्का तेजी से उछली और सांस रोके खड़ी हो गई ।
दरवाजे पर दस्तक हुई । हाँ , उसे भ्रम नहीं हुआ ! ज़ोर से , जल्दी-
जल्दी कोई दस्तक दे रहा था ।

वह आ गया !

वह लपककर ड्योड़ी में गई और एक भटके से कुंडा
खोल दिया । अंधेरे में कोई ठंडा पड़ा आदमी अंदर घुस आया - हवा के
थपेड़ों से बचने के लिए दोहरा मुड़ा हुआ ; सिर से पांव तक उसके
मारे कपड़ों पर हिम की तहें जमी हुई थीं ।

“जल्दी करो, जल्दी!” वह बुदबुदाई ; एक हाथ से उसने अंदर का दरवाजा खोला और दूसरे हाथ व घुटने से बाहर के दरवाजे को रोके रही, जिस पर हवा पूरा ज़ोर डाल रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने दरवाजा बंद करके कुँड़ा चढ़ाया, फिर वह अंदर लपकी, कमरे की चौखट के पास रुकी और उसके मुंह से चीख निकलते-निकलते रह गई।

उसके सामने त्स्वेतुखिन खड़ा था – ओवरकोट के बटन खोलकर एक झटके में ही उसने सारा हिम फ़र्श पर भाड़ दिया था।

“धृत् तेरे की! क्या तूफ़ान आया हुआ है! कहो, दोस्त, अकेली हो? बड़ी अच्छी बात है।”

ठंडी चौखट से पीठ सटाये आनोच्का फटी-फटी आंखों से त्स्वेतुखिन को देखे जा रही थी। घबराहट के मारे उसका चेहरा विकृत हो गया लगता था, उसपर बेवसी और डर की छाप थी।

“अरे, समोवार गरम है!” गीली भौंहों को रूमाल से पोंछते हुए और कनपटियों पर जमी वर्फ़ साफ़ करते हुए त्स्वेतुखिन कहता जा रहा था। “एक गिलास गरमागरम चाय मिल जाये, तो बस और क्या चाहिए! वाह, कितनी गरमाहट है अंदर! क्या घर वाले आने को हैं?”

उसने आनोच्का का हाथ थपथपाया।

“क्या, तबीयत ठीक नहीं है? आई क्यों नहीं? मैं सीधा थियेटर से आ रहा हूँ। सोचा तुम बीमार पड़ गई हो।”

आखिर आनोच्का का आत्मसंयम लौट आया, और उसने सब सवालों का एक साथ जवाब दे डाला – हाँ, कव्रिस्तान से लौटने पर उसकी तबीयत कुछ खराब हो गई, इसीलिए थियेटर नहीं गई, और अभी पिताजी और पाल्लिक लौटनेवाले हैं।

“अरे हाँ, दोरोगोमीलोब!” त्स्वेतुखिन बोला। “बेचारा! मैं भी जाना चाहता था, पर सारा दिन इधर-उधर के कामों में फ़ंसा रहा। हाँ, न्यारा ही आदमी था! अब ऐसे लोग कम ही कम रहते जा रहे हैं... क्यों, मन उचाट है क्या?”

वह चाय का बन्दोबस्त करने में लग गई – ऐसे काम में जिसके पीछे अतिथिप्रेमी गृहस्वामिनियां विनबुलाये मेहमान के प्रति अपनी भावनाएं छिपाती हैं।

त्स्वेतुङ्गिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने विठाया।
“मुझे आनोच्का। मैं यों ही नहीं आया हूं।”

वह दृढ़ संकल्प के साथ उसकी ओर देख रहा था, पर उसका निचला होंठ यों फड़क रहा था, जैसे उसे भारी ठेस पहुंची हो।

“मुझे तुमसे बात करनी है। जैसी स्थिति बन गई है... जैसी स्थिति तुमने अपने वर्ताव से बना दी है...”

“वर्ताव से? क्या मेरा वर्ताव अच्छा नहीं?”

“मैं सोचता हूं, तुम खुद फैसला कर सकती हो कि यह अच्छा है या बुरा, जब कि तुम अपने वर्ताव से कौतूहल जगा रही हो, सारी मण्डली का बेहूदा कौतूहल...”

“मैं कौतूहल जगा रही हूं? अपने प्रति? सो भी पूरी मण्डली का? और वो भी बेहूदा?”

आनोच्का ने अपनी कुर्सी थोड़ी परे खिसका ली।

“भगवान के बास्ते, ऐसे बात मत करो,” त्स्वेतुङ्गिन ने अनुरोध किया। “यह तुम्हारी जबान नहीं है। हां, खेद की बात है, पर कौतूहल तुम्हारे प्रति भी है।”

“और किसके प्रति है?”

“तुम ऐसे बन रही हो, जैसे कि मैं हूं ही नहीं।”

“ये गोर पाल्लोविच, मैंने क्या आपका जी दुखाया है?” आनोच्का ने सहसा गम्भीर स्वर में पूछा।

“क्या मतलब जी दुखाया है?” त्स्वेतुङ्गिन चिल्ला पड़ा, और अब उसकी आवाज में स्पष्टतया वह ठेस का भाव था, जो पुरुष को कुछ-कुछ हास्यास्पद बनाता है, सो वह और भी खीजता है। “यह जी दुखाना नहीं, यह तो अपमान है जब लोग तुम्हारी पीठ पीछे कानाफूसी करते हैं, और तुम्हारी खिल्ली उड़ाते हैं।”

“ये गोर पाल्लोविच!”

“मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। तुम कानाफूसी नहीं करती हो। पर दूसरे सब कर रहे हैं! मुझे विश्वास है कि तुम यह सब पूरी तरह मे नहीं समझती हो। इसीलिए मैं बुरा नहीं मानता। पर माफ करना, आखिर मैं तुम्हें यह समझाये बिना भी तो नहीं रह सकता कि

क्या हो रहा है। अगर तुम खुद यह नहीं देख रही हो, या अगर ... अगर तुम कुछ-कुछ जानवूभकर ऐसा कर रही हो।"

"मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा," आनोच्का ने कहा।

"पर यह कैसे हो सकता है? महीने भर से तुम मुझसे विलक्षण औपचारिक ढंग से बर्ताव कर रही हो। माफ़ करना, पर इसमें ओछेपन की वू आती है! नमस्ते, धन्यवाद और बस! क्या है यह सब? आखिर सब यह देखते हैं! अगर कोई दांव-पेच चलनेवाली पुरानी खिलाड़िन ऐसा करती, तो कोई ध्यान भी न देता। पर तुम तो मेरी शिष्या हो? अब सबको कौतूहल होता है—क्या हो रहा है? शायद त्स्वेतुखिन का उसके साथ कोई किस्सा चल रहा है। शायद कुछ बात बन गई है! या नहीं बनी! अब तुम समझती हो कि ऐसे में मेरी क्या हालत है?"

"मान लिया कि मैं समझती हूँ," आनोच्का धीरे-धीरे बोली और साथ ही टकटकी लगाकर त्स्वेतुखिन की ओर देखने लगी, "और अगर यह कुछ-कुछ जानवूभकर कर रही हूँ, तो?"

खड़े होकर उसने बालों में हाथ फेरा और नपे-तुले कदमों से कमरे का चक्कर लगाने लगा।

"नहीं, मैं यह नहीं मान सकता। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम केवल एक हालत में जानवूभकर ऐसा कर सकती हो: अगर तुम्हारी छाती में किसी दूसरे का दिल रख दिया जाये तो।"

वह सोच में पड़ गई। वह मानो कान लगाकर यह सुन रही थी कि उसके उत्तेजित हृदय में क्या हो रहा है, और कहीं उसमें सचमुच किसी पराये की भावना का कोई प्रभाव तो नहीं। पर नहीं, नहीं।

"नहीं!" अदम्य उत्तेजना के साथ उसने कहा। "मैं चाहती थी कि मेरा मन सच्चा रहे। उस दिन ... नाटक के बाद आपको लेकर मेरा जी बहुत खट्टा हुआ ... और ... और मैं शर्मिंदा भी थी, आपके लिए।"

"पर मैं भी तो सब सच्चे मन से कर रहा था," त्स्वेतुखिन याचना के से स्वर में चीखा। "क्या तुम अभी तक यह नहीं देख रही हो ..."

वह भी खड़ी हो गई।

"नहीं, नहीं, मैंने देख लिया है! तब सहसा मैंने देखा था और डर गई थी कि कहीं पास्तुखोब की ही बात तो सच नहीं। वही, जो उसने गर्भियों में कही थी।"

वह फिर से चिल्लाया, पर यह आवाज विल्कुल उसके जैसी न थी।

“पास्तुखोब ! उस नवावजादे ने अपनी सारी जिंदगी में एक बार भी मच्चे मन से कोई बात नहीं कही है ! वह हमेशा बनता फिरता है, मुखौटा पहने रहता है। याद है, तब बड़ी डींग हांक रहा था कि प्रेरणा होने पर ही लिखता है ? अभी उस दिन कुछ एक्टर आये हैं, बता रहे थे. वहां कोज्ज्वल में, घोड़ों की उस मण्डी में वह कलम घसीट रहा है। मामोन्तोब के दिनों में मुंह काला करवा लिया था, सो अब नाक रगड़ रहा है, सब कुछ करने को तैयार है। आखिर मुखौटा तो उत्तरना पड़ा ! बक्की कही का !”

त्वेतुखिन ने अपनी बात बीच में ही काट दी, मानो यों आत्मसंयम खो बैठने पर लज्जित हो गया हो। कोट झटककर और फिर से कमरे का चक्कर काटकर वह धीमे स्वर में, पर पहले की ही भाँति चिसियाते हुए बोला :

“अजीव बात है कि तुम भी पास्तुखोब की तरह सोचने लगीं। तुमने खुद ही कहा था कि वह कीचड़ उछाल रहा है।”

“याद है मुझे। मैं तो वस इस ख्याल से डर गई थी कि कहीं उसकी बात सच है, तो ?”

“पर क्या उसकी बात सच हो सकती है ?”

“येगोर पाव्लोविच, इसमें मेरा क्या कसूर कि मुझे उसकी कहीं बात याद हो आई ?”

उसने आनोच्का की ओर कदम बढ़ाया और उसके हाथों को अपने हाथों में दवाते हुए, उन्हें अपनी ओर खींचते हुए इतने जोश से बोलने लगा कि वह न तो उसे टोक सकती थी, न इशारे से उसकी बातों पर कोई आपत्ति कर सकती थी।

“सुनो, सुनो मेरी बात ! किसने तुम्हें अभिनेताओं को ऐसी हेय दृष्टि से देखना सिखाया है, किसने तुम्हारे कान में यह बात फूंकी है ? मैं देख रहा हूं मेरे बारे में ये विचार तुम्हारे अपने नहीं हैं ! अगर हम कल ही पहली बार मिले होते और तब तुम रुखाई, अविश्वास, यहां तक कि नापमन्दगी भी दिखातीं, तो मैं इसे समझ सकता था, माफ कर सकता था। तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो ! मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूं, आगे भी इतना कुछ करते रहने को तैयार हूं

और करता रहूँगा – केवल तुम्हारे लिए मेरे मन में जो भावना है उसकी खातिर ! यह कैसे मुमकिन है कि तुम मुझ पर विश्वास न करो ? क्या मैंने कभी किसी बात में धोखा दिया है ? मुझे कभी किसी से इतना गहरा , इतना सच्चा लगाव नहीं हुआ है ! तुमने मुझे नया जीवन दिया है। समझती हो ? नया भविष्य ! क्योंकि मैं अपनी आशा तुमसे छिपाऊं ?”

“पर मैं क्या करूँ, जबकि ...” उसकी बात काटने की कोशिश में आनोच्का चिल्लाई।

लेकिन उसने आनोच्का को बोलने नहीं दिया।

“ठहरो ! बस एक सवाल का जवाब दे दो : मेरी ओर देखते हुए , देखो न , इधर देखो ! – इस बात पर तो तुम विश्वास करती हो न कि मेरे मन में जितनी पवित्र भावना तुम्हारे लिए है , वैसी कभी किसी के लिए नहीं रही ?”

“लेकिन यह तो यंत्रणा है – आप मुझसे वह कहलवाना चाहते हैं , जो मैं नहीं कह सकती !”

“नहीं कह सकतीं ? ठीक है , अभी जवाब मत दो। मत दो अभी । मैं इंतजार करता रहूँगा। मुझमें धीरज है , बहुत धीरज है ,” त्स्वेतुखिन ने कटूता के साथ कहा।

“मैं आपके धीरज की परीक्षा नहीं लूँगी ,” आनोच्का ने हठधर्मी से कहा।

“ठहरो ! अभी कोई फँसला नहीं ! कोई अंतिम निर्णय नहीं ! तुम्हें खुद विश्वास आ जायेगा। तुम खुद देख लोगी कि मेरी भावना कितनी सच्ची है।”

आनोच्का की छोड़ी कांपी , पर यह नहीं कहा जा सकता था कि वह अपनी हँसी दवा रही है , या अभी रो पड़ेगी।

“भावनाओं का अनुभव पाना ... और फिर अनुभव को दोहराना ,” उसने मानो अपने आप से कहा।

“नहीं , निश्छल मन में ऐसी निष्टुरता नहीं हो सकती !” त्स्वेतुखिन ने हताश होकर उसांस छोड़ी और आनोच्का के हाथ और भी जोर से दबाये।

“छोड़िये मुझे। छोड़िये न ! सुनते नहीं – कोई दस्तक दे रहा है !” वह चिल्लाई और हाथ छुड़ाकर परे दौड़ी।

उसने ध्यान से सुना और फिर ड्योडी में चली गई।

आंधी की सांय-सांय के बीच अधीरता भरी दस्तक साफ़ सुनाई दे रही थी। उसने अगड़ी हटाई ही थी कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया, कोई अंदर घुसा और तत्क्षण आनोच्का भाँप गई कि यह किरील है।

“मैं बंद कर दूंगा। जाओ अंदर, ठंड लग जायेगी,” उसने कहा। ठंड में उसका गला वैठ गया था।

आनोच्का कमरे में दौड़ी गई। त्स्वेतुखिन खिड़की के सामने फ़ौजियों की तरह सीधा, तना खड़ा था। आनोच्का ने हाथ उठाया, मानो उसे चेताना चाहती थी, पर तुरन्त ही हाथ गिरा लिया। किरील कमरे में घुम रहा था।

ठंड से अकड़ी उंगलियों से बड़ी कठिनाई से उसने ओवरकोट के वटन खोले। उसके बाजुओं पर से हिम की परतें गिरीं। बूट पटककर उसने बूटों से वर्फ़ साफ़ की, कोट उतार फेंका, आनोच्का की ओर, फिर त्स्वेतुखिन की ओर देखा और मुस्कराने की कोशिश की। लेकिन उसका चेहरा ठंड से इतना अकड़ गया था, लाल-सुर्ख छोड़ दिया था कि वह जड़वत ही रहा।

“नहीं, भई, यह तो हद हो गई! विल्कुल फ़रवरी जैसा मौसम है!”

उसने जल्दी-जल्दी अपना वर्फ़ला हाथ दोनों की ओर बढ़ाया और फिर बुधारी के पास गया, सारा शरीर उससे सटाकर खड़ा हो गया और कुछ सेकंड यों ही खड़े रहने के बाद धूमकर पीठ उससे सटाई।

“आनोच्का, तुम राह देखते थक गई? नाराज हो? मैं छावनी गया था। रास्ते में पंक्चर हो गया। कव्रिस्तान से पैदल आ रहा हूँ।”

“कव्रिस्तान से यहाँ तक!” आनोच्का ने कहा और त्स्वेतुखिन की ओर देखा, मानो उसे भी अपने आश्चर्य और भय में शामिल होने को कह रही हो।

“थका-मांदा, भटका पथिक देता है दस्तक...”* त्स्वेतुखिन ने कहा और चुपके से अपनी पीठ पीछे खिड़की के शीशे पर दस्तक देकर गेमे कान लगाया, मानो कोई रहस्यमयी आवाज सुन रहा हो।

* पुष्टिकन की एक कविता की पंक्ति। – सं०

“आपने दस्तक दी?” आनोच्का ने हैले से पूछा।

“मैंने,” भयभीत से स्वर में बुदबुदाते हुए उसने जवाब दिया।
“तुम्हें क्या किसी और पथिक की भी प्रतीक्षा है?”

किरील हँस दिया। जल्दी से वह समोवार पर झुका, फूंक मारकर ढकने से राख उड़ा दी और फिर समोवार उठाकर मेज पर रख दिया।

“कुछ खातिर करो, आनोच्का!”

“बहुत ठंड लगी?” आनोच्का ने पूछा, और फिर से त्स्वेतुख्लिन की ओर नजर दौड़ाई, जो मानो यह कह रही थी कि देखा, हमारे बीच कितना अपनापन है!

किरील ने त्स्वेतुख्लिन से बैठने को कहा, पर उसने इन्कार कर दिया: उसे जाना चाहिए था, वह तो दो मिनट के लिए ही आया था, यह देखने कि आनोच्का बीमार तो नहीं।

“बीमार?”

“हां, आज नये नाटक का वाचन था, पर आनोच्का आई नहीं। पहले इसने ऐसा कभी नहीं किया।

“तुमने वताया क्यों नहीं?” किरील ने कहा। “हम कोई और समय रख लेते।”

तीनों ने एक दूसरे की ओर, देखा, अचानक आनोच्का दूसरे कमरे में दौड़ गई और खिलखिलाकर हँसने लगी, जैसे शारारत करते पकड़ा गया बच्चा।

त्स्वेतुख्लिन के चेहरे पर फिर नाराजगी का भाव आ गया—ऐसे क्षणों में वह निचला होंठ आगे निकाल लेता था, और उसे ऊपरी होंठ से चिपका देता था।

किरील ने अपनी मुस्कान दवाते हुए कहा:

“आप आनोच्का को ज्यादा छूट मत दीजिये, नहीं तो वह अपनी मनमर्जी ही करने लगेगी। उसका स्वभाव ऐसा ही है।”

“हां, अभी इसमें कुछ बचकानापन है,” त्स्वेतुख्लिन ने सख्ती से कहा। “वेशक, सहज स्वाभाविक होना वहुत बड़ा गुण है, लेकिन कला के सृजन के लिए अकेला यह गुण ही काफ़ी नहीं। कला का अर्थ है परिश्रम, परिश्रम, परिश्रम (तीसरी बार उसने बड़े गुस्से में कहा—परिश्रम!)। इसमें इन्सान को अपना

मर्विन्स्ट्र न्योछावर करना होता है। अगर कला की सेवा करनी है, तो कला पहले आनी चाहिए, बाद में व्यक्तिगत जीवन, जीवन कला को अपिन होना चाहिए (आखिरी शब्द उसने बहुत ज़ोर देकर कहे)। इसे एक नियम की भाँति स्वीकार किया जाना चाहिए।”

“मैं आप से विल्कुल सहमत हूँ,” किरील ने गम्भीरतापूर्वक, पर माथ हो मानो व्यंग्य के पुट के साथ कहा। “और मेरी आपसे अर्ज है कि आनोच्का से इस नियम का सख्ती से पालन करवायें।”

वह थम गया। उसकी भाँहें सिकुड़ गई, पर आंखें अभी भी त्स्वेतुख्ति पर ही लगी हुई थीं।

“मैं नहीं चाहता कि आनोच्का के व्यक्तिगत जीवन की कोई भी वात उमके काम में वाधक बने। खास तौर पर मेरी अनुपस्थिति में। अगर मैं चला गया।”

आनोच्का दूसरे कमरे में से निकल आई थी। उसके हाथ में एक कागज था, और यह हाथ हर कदम के साथ नीचे गिरता जा रहा था।

“अगर तुम चले गये?” उसने हैले से पूछा।

किरील तुरन्त ही उसे सच्ची वात बताने का साहस नहीं कर पाया और उसने मज़ाक में कहा:

“हाँ, अगर मुझे कहीं जाना पड़ा, तो तुम्हें और किसके हवाले कर सकता हूँ?”

आनोच्का ताड़ गई कि वह वात गोल कर गया है, और मुस्कराई पर पहले की ही भाँति चौकन्नी थी।

“देखिये, आप लोग मुझे डांट रहे हैं। पर मेरी जब तारीफ़ की जाती है तो मैं ज्यादा अच्छा काम करती हूँ। येगोर पाव्लोविच, मैं थोड़ी गेहूँ बघार लूँ?”

उसने किरील को कागज दिया।

यह नाल, पीले और नीले अक्षरों में बड़े जतन से लिखा गया आभार पत्र था, जो लुईज़ा मिल्लर को रिसाले की टुकड़ी के सैनिकों ने भेंट किया था (आनोच्का पूरे सात बार क्लब में अपनी एकमात्र भूमिका अदा कर चुकी थी)। आभार पत्र लिखनेवालों ने अपनी प्रिय अभिनेत्री के लिए उसी तरह के शब्द इस्तेमाल किये थे, जैसे मृतकों के लिए इस्तेमाल करने की परम्परा है – उन्होंने इस तरह उसकी प्रशंसा के

पुल बांधे थे, जैसे कि वह अब कभी भी अपने प्रशंसकों को निराश न कर सकती हो। उन्होंने लिखा था कि उसके अभिनय की बदौलत वे समझ गये हैं कि कैसे गरीब लोग राजाओं-महाराजाओं के अत्याचार सहते थे। उन्होंने यह विश्वास दिलाया था कि 'छल और प्रेम' जैसे शानदार नाटकों से वुर्जुआओं को पूरी तरह हरा देने का उनका संकल्प सुदृढ़ होता है। उन्होंने कामरेड अ० पारावुकिना को अद्वितीय अभिनेत्री, रंगमंच का उज्ज्वल सितारा कहा था और लिखा था कि उनके कुछ साथी दो-दो बार यह नाटक देख चुके हैं, परं फिर भी और कई बार देखने को तैयार हैं। और उन्होंने अ० पारावुकिना तथा दूसरे अभिनेताओं को मोर्चे पर चलने का निमंत्रण दिया था। "आप हमें अपनी सर्वहारा कला दिखायेंगे, और हम नीचे देनीकिन का सफाया करेंगे!" आनोच्का की प्रतिभा के प्रायः हर प्रशंसक ने अपने हस्ताक्षर के साथ कुछ लिखा भी था: "फिर मिलेंगे", "मोर्चे पर आना", और एक ने तो लिखा: "रोस्टोव चलो!"

किरील हैरान सा कागज पर आड़े-तिरछे हस्ताक्षरों को गौर से देख रहा था और इन हार्दिक, गम्भीर, सच्चे मन से लिखे गये शब्दों के विशेष महत्व को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने जेब में से पेंसिल निकाली।

"यह क्या कर रहे हो?" आनोच्का चिल्लाई और उसके हाथ से कागज छीनने को लपकी।

"मैं भी हस्ताक्षर करना चाहता हूँ।"

"नहीं! ऐसा मत करो! यह मेरी यादगार है... इसे खराब मत करो! मैं इसे संभालकर रखूँगी।"

आनोच्का से बचते हुए वह उठा, उसकी ओर पीछ कर ली और कागज दीवार पर टिकाकर उसके ऊपर कोने में बड़े-बड़े अक्षरों में अपने हस्ताक्षर किये।

"यह तुमने क्यों किया?" आनोच्का चीखी, लगा वह अभी रो पड़ेगी।

"पहली बात, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा थियेटर मोर्चे पर जाये," जहां तक वन पाया शांत स्वर में उसने उत्तर दिया, "दूसरे, मुझे भी इन सैनिकों के साथ हस्ताक्षर करने का अधिकार है।"

“कोई अधिकार नहीं है। तुमने नाटक भी वस एक बार देखा है! और अब मजाक उड़ा रहे हो।”

“यह मेरी रिसाले की टुकड़ी है। मुझे इसका जिम्मा सौंपा गया है, मुझे इसे मोर्चे पर ले जाना है। कल सुवह हम रवाना हो रहे हैं।”

आनोच्का बुत बनी उसकी ओर देखती जा रही थी। क्षण भर पहले ठंड से लाल किरील का चेहरा तेजी से पीला पड़ता जा रहा था। वह यह देखकर हक्का-वक्का रह गया था कि उसके शब्दों का आनोच्का पर क्या प्रभाव पड़ा है। उसने आनोच्का की ओर कुर्सी बढ़ाई।

त्स्वेतुखिन ने खखारकर जोर से सांस ली।

“हाँ! कितना अच्छा रहे यह! हम भी मोर्चे पर जाने का सपना देख रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती? पर हमारे पास केवल एक ही नाटक तैयार है। और उसकी भी मंच सज्जा इतनी भारी-भरकम है। वैसे तो उसे कम किया जा सकता है...”

वह उत्सुकता से प्रतीक्षा करता रहा—क्या उत्तर मिलेगा। उसकी मन्त्रमली आवाज इस छोटे से कमरे के लिए बहुत अधिक ज़ोरदार थी।

“पर हम कोशिश करेंगे! है न आनोच्का?”

“हम कोशिश करेंगे,” आनोच्का ने यंत्रवत दोहरा दिया।

“सो आप कल जा रहे हैं?” अभी भी वह ख्वामख्वाह जोर से बोल रहा था। “देनीकिन से लड़ने? अच्छा, तो सफलता की मेरी शुभकामनाएं। अपनी ओर से वस इतना बायदा कर सकता हूँ: हम काम करेंगे, तन-मन लगाकर काम करेंगे।”

उसने जोर से किरील का हाथ हिलाया और फिर ओवरकोट पहनने लगा।

“आनोच्का की ओर से आप निश्चिंत रहिये। मैं इसके गुणों को भी जानता हूँ और कमियों को भी, और सदा सत्त्वी से इससे काम लूँगा। खूब सत्त्वी से। अच्छा तो नमस्ते। अगर हमें आपके समर्थन की ज़रूरत पड़ी, तो इन्कार मत कीजियेगा। मेरा मतलब हमारे थियेटर से है। आखिर ‘तो हमारा लक्ष्य एक ही है!’”

“मैं दरवाजा बंद कर लूँगा,” किरील ने कहा।

किरील को दरवाजे की ओर जाते देखकर आनोच्का जैसे होश में आई। वह जल्दी से उठी, किरील को रोका और खुद त्स्वेतुखिन के

पीछे गई। वह अंधेरे में निराशाभरे कुछ शब्द कह पाया:

“अच्छा, मेरी दोस्त, सब समझ गया! ठीक है! तुम मेरे लिए पहले जैसी ही हो! सुखी रहो! बस...”

जैसे ही उसने दहलीज के बाहर पांव रखा तेज हवा उसके अंतिम शब्द उड़ा ले गई।

आनोच्का ने धड़ाम से दरवाजा बंद किया, दौड़ी-दौड़ी कमरे में लौट आई और किरील के सामने खड़ी हो गई। साफ़ दिखाई दे रहा था कि जो कुछ हुआ था, उस पर वह अपने मन को समझा-वुझा लेना चाहती है, पर ऐसा कर नहीं पा रही।

“मैं और कुछ नहीं मांगती, बस इतना ही कि यों अचानक मत जाया करो,” दुखी स्वर में उसने कहा।

किरील ने हाथ उसकी ओर बढ़ाये, पर उसने मानो संकोच भरी गति देखी ही नहीं।

“आखिर क्यों तुम हर बार मुझे ऐन आखिरी घड़ी पर बताते हो?”

“मैं सोचता हूं—ऐसे ज्यादा अच्छा है।”

“ताकि मेरे साथ एक घंटा और न विताना पड़े?”

“ताकि उस बात की चर्चा न करनी पड़े, जो शब्दों के बिना ही स्पष्ट है।”

“ताकि जुदाई की बेदना अधिक गहरी हो?”

“ताकि बेदना कम हो।”

“तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यह निर्ममता है?”

“अक्सर साहस को ही निर्ममता कहा जाता है। पर तुम ऐसा क्यों कहती हो? इस बक्त हम दोनों के सुख के लिए बस साहस की ही आवश्यकता है।”

आनोच्का ने उत्तर में आंखें उठाकर उसकी ओर देखा और उसकी इस दृष्टि में किरील ने ऐसी नारीसुलभ कोमलता देखी, जैसी उसने पहले कभी न देखी थी। और एक विचित्र बात यह थी कि उसकी इस कोमलता को ही किरील ने साहस की उसकी तत्परता माना, जिसकी उसे आनोच्का से प्रतीक्षा थी। वे दोनों खाट की पाटी पर बैठ गये। किरील ने उसके हाथ अपने हाथों में ले रखे थे और उसकी आंखें आनोच्का के चेहरे पर लगी हुई थीं।

बिड़की के बाहर हिमानी आंधी की सांय-सांय के बीच कमरे की नींवता आश्चर्यजनक लग रही थी। वे दोनों एक दूसरे के सांस की आवाज़ मून रहे थे, लैम्प की वत्ती कभी-कभार हल्के से चटचटाती, बिड़की की महीन झरियों में हवा सिसकार रही थी, दीवार पर धड़ी की मुखद टिक-टिक हो रही थी। किरील को लगा आनोच्का का मन यांत हो रहा है, जो कि क्षण भर पहले असम्भव प्रतीत होता था।

“मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जो कुछ करता हूँ, उसके बारे में कुछ सोचते हुए अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी होने की कोशिश किया करो।”

“मुझे लगता है मैं सदा अपनी उम्र से बड़ी रही हूँ। पर अब उसकी चर्चा क्यों?”

“मुझे केवल वैसा करने का हक नहीं जैसा मुझे या मेरे किसी निकट सम्बन्धी को अच्छा लगता है। मैं अपने हर काम के लिए जवाब-देह हूँ, समझीं? हर काम के लिए जवाबदेह हूँ।”

“मैं समझती हूँ। इसमें न समझने की बात ही क्या है! तुम मनके सामने तो जवाबदेह हो। पर मेरे सामने?”

“तुम्हारे सामने भी, जहां तक मुमकिन हो,” उसने जवाब दिया और फिर मुस्कराया। “पता है, यहां आते हुए मुझे अचानक अफसोस हुआ कि मैंने तुम्हें अपनी रवानगी की बात पहले क्यों नहीं बताई।”

आनोच्का ने उसकी उंगलियां दबाईं।

“अच्छा, तो तुम्हें पछताबा हुआ?”

“मैंने शायद इस बात पर अच्छी तरह विचार नहीं किया था।”

“पर क्या तुम्हें अपने हर काम पर सदा ही सोचना-विचारना चाहिए?!”

किरील ने कुछ जवाब नहीं दिया, वस भुक्कर अपना गाल आनोच्का की हथेली पर रख दिया। वह दूसरे हाथ से उसके रुखे-रुखे, बढ़े हुए बाल सहलाने लगी। किरील ने सिर उठाया और फिर से उसकी ओर देखने लगा।

“ओह, कैसे हो तुम...” आनोच्का बुद्बुदाई।

किरील ने उसका चुम्बन लियां। वह बड़ी देर तक चुप रही, फिर उसके होंठों पर खोई-खोई सी विल्कुल नई मुस्कान आ गई।

“तुमने सोच लिया अच्छी तरह क्या कर रहे हो ?” उसने हौले से पूछा ।

किरील ने और भी ज़ोर से उसका चुम्बन लिया । पीछे हटते हुए उसने अपनी हल्की, कोमल ठोड़ी से खिड़की की ओर इशारा किया ।

किरील उछलकर खड़ा हुआ, मेज के पास गया और ज़ोर से फूंक मारकर लैम्प बुझा दिया ।

३८

रात को आंधी थम गई ।

दिसम्बर के दिन की पौ फट ही रही थी कि आनोच्का घर से बाहर निकली । बाहर विचित्र शांति थी । पटरियां हिम झालर से सजी लगती थीं, इस झालर पर हवा ने छोटी-छोटी लहरें बना दी थीं, जैसी बालुई टीलों पर होती हैं । सड़कें बीचोबीच साफ़ थीं, बस उनके किनारे कहीं-कहीं नुकीले, चमकते शिखरों वाले हिमानी ढूह खड़े थे । स्याह पेड़ों पर कौए चुपचाप बैठे थे ।

हिमानी आंधी के पश्चात नगर पर छाई शांति आनोच्का की व्याकुलता कम नहीं कर रही थी, उलटे बड़ा ही रही थी । वह वेहद जलदी में थी ।

स्टेशन पर उनींदे, उतावले लोग न जाने कहां से अंदर आते, और न जाने कहां गायब हो जाते, सहसा फिर उनके भुंड जमा हो जाते और फिर बिखर जाते । चरमराते, धड़-धड़ करते दरवाजे भूलों से आगे-पीछे डोल रहे थे । इंजनों की फुफकार कभी दूर से आती, कभी इतनी पास से कि लगता अभी अंदर ही घुस आयेंगे ।

आनोच्का बड़े हाल में प्लेटफार्म की ओर सबसे दूर वाली खिड़की के पास खड़ी थी—जैसा कि उसने किरील के साथ पिछली शाम को तय किया था । बड़ी देर तक आनोच्का उसका इंतजार करती रही । एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की ओर आते-जाते लोगों को देखते-देखते उसकी आंखें थक गईं ।

आखिर जब किरील दिखाई दिया, तो वह उसे तुरन्त ही पहचान नहीं सकी । वह घुटनों तक लंबा भेड़ की खाल का ओवरकोट पहने था,

बृद्धनों से नीचे पांवों में नमदे के सफेद जूते थे और सिर पर फ़र की ऊँची टोपी। आनोच्का को लगा जैसे वह चलता हुआ नहीं, बल्कि नुडकता हुआ आ रहा है।

“चलो, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी,” उसने मुस्कराते हुए कहा।

किरील ने फ़र के दस्ताने उतारकर सैनिकों की भाँति उन्हें बगल में दबाया।

“अगर तुमने पहले से बता दिया होता कि कब जा रहे हो, तो मैं खानी हाथ न आती।”

किरील ने उसके हाथ अपने हाथों में लिये, और एक-एक उंगली को महलाते हुए बोला:

“ये हाथ मेरे लिए कभी खाली नहीं।”

कुछ देर तक वे आंखों में आंखें डाले देखते रहे।

“सैनिक गाड़ी पर सवार हो गये हैं। गाड़ी प्लेटफ़ार्म पर है। थोड़ी देर में छूटनेवाली है।”

“इतनी जल्दी?” आनोच्का ने कहा और नज़रें झुका लीं।

“चलो, चलें,” किरील ने कहा।

आनोच्का की कोहनी पकड़कर वह उसे प्लेटफ़ार्म पर ले गया और वे गाड़ी के पास-पास चलने लगे। डिव्वों के दरवाजों में से भाप निकल रही थी, पानी के जमने से बनी वर्फ़ की छोटी बड़ी गुलियां सी छतों पर से नटक रही थीं। माल-डिव्वों से घोड़ों की गंध आ रही थी।

“दूर है?” आनोच्का ने पूछा।

“आखिरी डिव्वा है।”

“थोड़ी धीरे चलो।”

सभी डिव्वों में से एक दूसरी से होड़ लगाती चीखने-चिल्लाने और गाने की आवाजें आ रही थीं, कहीं-कहीं अकार्डियन पूरे जोश से बजाया जा रहा था। वे दोनों चलते जा रहे थे, और अनचाहे ही उनके कदम धीमे होते जा रहे थे।

आखिर उन्हें रागोजिन और उसके पास ही खड़ी वेरा निकान्द्रोव्ना दिखाई दिये। चारों द्वधर-उधर की बातें करते खड़े रहे। इंजन सीटी देने लगा। उसकी निडर आवाज़ की लहरें अधिकाधिक जोर से उठ रही थीं, हवा भी उनसे थरथराती लगती थी।

“अच्छा,” मां की ओर देखते हुए किरील ने अस्फुट से स्वर में कहा और उससे गले मिला।

फिर उसकी आंखें आनोच्का पर गड़ गईं। उसे वांहों में भरकर सहसा उसने कई बार उसके होंठ चूमे, इतने जोर से कि वे दुखने लगे।

उससे अलग होकर फिर से मां की ओर देखा। वेरा निकान्द्रोन्ना मुस्कराते हुए सिर हिला रही थी। किरील ने मां की ओर कदम बढ़ाया, मां ने उसका सिर छाती से लगा लिया, और उसी क्षण, जब इंजन की सीटी थमी, फुसफुसाकर कहा:

“मैं इसका ख्याल रखूँगी। बेफिक्क रहो !”

वह सिर हिलाये जा रही थी। वेटे को भेजने की तैयारियों की इस रात के बाद उसके चेहरे पर ढलती उम्र की रेखाएं स्पष्टतया उभर आई थीं। सहसा यह दिखाई देने लगा था कि वह बूढ़ी हो रही है।

किरील जल्दी से रागोजिन की ओर मुड़ा। गाड़ी चल पड़ी थी। वे दोनों डिव्वे के पीछे दौड़ने लगे, जो सैनिकों से खचाखच भरा हुआ था। किरील उछलकर पायदान पर चढ़ गया।

“मैं भी तुम्हारे पीछे-पीछे आ रहा हूँ !” रागोजिन टोपी उतारते हुए चिल्लाया।

“पहले अपना इलाज कराओ, प्योव्र पेन्रोविच ! भले-चंगे हो जाओ ! नमस्ते,” किरील इतना ही कह पाया और फिर उसने रागोजिन के गंजे सिर के ऊपर नज़र दौड़ाई।

आनोच्का हाथ ऊपर उठाये खड़ी थी। किरील दस्ताने हिलाने लगा। अब कहीं जाकर उन दोनों को यह अहसास हुआ कि छोड़नेवालों की कितनी भीड़ है: पलक झपकते ही हिलते हाथों, टोपियों और रूमालों के पीछे दोनों एक दूसरे की नज़रों से ओझल हो गये।

गाड़ी का शोर पहले तो लोगों की आवाजों में डूब गया था, पर अब ये आवाजें धीमी पड़ गई थीं और तेज़ होते जा रहे पहियों की ठकाठक मंद होती हुई दूर से आनोच्का के कानों में पड़ रही थी।

प्रियजन से विदाई का यह क्षण ही सबसे कठिन होता है—जब गाड़ी चली जाती है, उसका आखिरी डिव्वा आंखों से ओझल हो जाता है, जब सहसा अपने हृदय के टुकड़े को खोने की तीव्र अनुभूति होती है, उस व्यक्ति को खोने की, जो तुम्हारा अपना था, जिसे क्षण भर पहले

छुआ जा सकता था, पर जो अब एकदम ही पहुंच से बाहर हो गया है।

रागोजिन और वेरा निकान्द्रोव्ना ने एक दूसरे के चेहरे पर भी और आनोच्का के चेहरे पर भी इस क्षण की देखना की छाप देखी। परन्तु साथ ही आनोच्का के चेहरे पर भावनाओं की तीव्र उथल-पुथल भी स्पष्टतया नज़र आई मानो वह इस विदाई से ही व्यथित नहीं, बल्कि किसी दूसरी अग्नि-परीक्षा से भी गुज़र रही है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और लगता था, वस अभी गिरी कि गिरी।

“आओ भई, इधर आओ,” बड़ा अदब और उत्साह दिखाते हुए रागोजिन ने आनोच्का की ओर बांह बढ़ाई।

“योड़ी देर कहीं बैठ न लें? और फिर सब मेरे यहां चलें,” चिंतित वेरा निकान्द्रोव्ना ने कहा।

“शुक्रिया, पर मैं नहीं चल सकती,” आनोच्का ने कहा, “मुझे एक जगह जाना है... वेरा निकान्द्रोव्ना अगर आप मेरे साथ चल सकें...”

“चलूंगी, विटिया, क्यों नहीं। पर यह अचानक कहां की ज़रूरत पड़ गई?”

“अस्पताल।”

“अस्पताल? तुम बीमार तो नहीं?”

“नहीं, नहीं। पिता जी को देखने जाना है। उन्हें कल अस्पताल भरती किया गया है।”

“क्यों? क्या हुआ उन्हें?”

वे प्लेटफ़ार्म के बीचोंबीच रुक गये। भीड़ अब नहीं रही थी। आनोच्का ने जल्दी-जल्दी वह सब बताया, जो उसे पिछली शाम को पता चला था।

किरील जब उसके यहां से गया, तो उसके योड़ी देर बाद ही पाव्लिक घर लौटा। वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक आदमी आया था, जो पारावुकिन के साथ काम करता है। यह आदमी काम पर देर तक रुका रहा था, और अब आंधी-झक्कड़ की परवाह न करते हुए पारावुकिन का घर ढूँढ रहा था। अहाते में पाव्लिक उसे मिला था। वह यह बताने आया था कि तीखोन प्लातोनोविच मुसीबत में पड़ गया है।

पता चला कि दोरोगोमीलोव को दफ़नाकर पारावुकिन जब काम पर लौटा, तो वह और उसका दोस्त मेफ़ोदी कोठरी का दरवाज़ा बंद

करके वहां मातमी दावत करने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से निकले, तो नशे में थे, पर मेफोदी ने कहा कि आर्सेनी रोमानोविच दोरोगोमीलोव जैसी पुण्यात्मा के निधन पर दोनों मित्रों को जितना शोक है, उनकी दावत उसके अनुपात में छोटी रही है। इसके बाद दोनों चले गये, प्रत्यक्षतया अनुपात पूरा करने। और कोई तीन घंटे बाद, जब यह आदमी अपना काम खत्म कर चुका था और घर जाने ही वाला था, तभी अस्पताल से फ़ोन आया। फ़ोन करनेवाले ने बताया कि पारावु-किन और मेफोदी को सड़क पर पाया गया है और अस्पताल में भरती किया गया है—लगता है उन्होंने कोई ज़हरीली चीज़ खा-पी ली है।

आनोच्का को जब यह खबर मिली तो रात हो गई थी और हिमानी आंधी में अस्पताल जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए उसने सुबह जाने का फ़ैसला किया था।

अंत में आनोच्का ने यह कहा कि सारी रात उसकी आंख नहीं लगी। वेशंक किसी को भी यह जानने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि पिता की चिंता के साथ-साथ उसके हृदय में परस्पर विरोधी भावनाओं का भी मंथन होता रहा था। उस शाम की कुछ घड़ियों में ही उसे कितने भाँति-भाँति के अनुभव हुए थे—पहले अपना एकाकीपन उसे काटने को दौड़ता रहा, फिर येगोर पाव्लोविच के साथ वह हृदयवेधी बातचीत हुई, फिर किरील के जाने की बात सुनकर उसका कलेजा बैठ गया और अंततः वे सुखद क्षण भी आये, जिन्होंने आनोच्का और किरील को सदा के लिए एक दूसरे का बना दिया।

रागोज़िन ने सारी बात सुनकर कहा:

“मेरे पास यहां घोड़ागाड़ी है। आप उसे ले जाइये। और अगर मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी, तो मुझे खबर कर देना।”

दोनों औरतें तुरन्त अस्पताल चल दीं। रास्ते में वेरा निकान्द्रोव्ना ने वस एक सवाल पूछा—क्या आनोच्का ने पिता की विपदा के बारे में किरील को बताया है?

“नहीं, क्या ज़रूरत थी? कुछ करने का बक्त तो उसके पास था नहीं, वस मन में एक चिंता और बनी रहती।”

वेरा निकान्द्रोव्ना ने पुरुषों की भाँति आनोच्का की कमर में हाथ डालकर उसे पकड़ा हुआ था। उसने आनोच्का को अपने पास खींच

निया और वे सारे रास्ते यों ही बैठी रहीं – घोड़ागाड़ी कभी हिम के ढेरों में फँसती, कभी सड़क के गड्ढों पर धचके खाती चलती रही।

आनोच्का अपने आप को संभाले हुए थी, चुप्पी में ही वह मनोबल पा रही थी। अस्पताल में एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगाने की सारी यातनाएं वह चुपचाप सहती रही – उसके सारे शरीर में तनावपूर्ण मंयम था, चेहरा पीला और जड़ सा।

हर जगह उन्हें देर तक इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि जिस किसी से भी वे कुछ पूछतीं, वह एक साथ ही कई कामों में लगा होता। नर्स और डाक्टर इधर-उधर आ जा रहे थे। उन्हें कोई रोक लेता या वे खुद रुक जाते और अपने निजी मामलों की बातें करने लगते। अस्पताल में रहना इन लोगों का व्यवसाय था, काम था, जो वे सारी जिंदगी, दिन-रात करते आये थे। उन लोगों के लिए, जो अपने सगे-सम्बन्धियों की बीमारी या मौत के कारण अस्पताल में आते थे यह एक असाधारण घटना थी, कठोर परीक्षा और प्रायः घोर विपदा थी। अस्पताल में काम करनेवाले यह मानते थे कि रोगियों के लिए सब कुछ किया जाता है, और उनसे मिलने आनेवाले नाहक इतना घबराते हैं और उन्हें तंग करते हैं। मिलने आनेवालों का यह दृढ़ विश्वास था कि रोगियों के लिए सब कुछ नहीं किया जाता, और अस्पताल में काम करनेवालों की निश्चिंतता पर उन्हें परेशानी होती थी और गुस्सा आता था। अदालत की ही भाँति यहां अपने और पराये दुख के प्रति इन्सान के रुख में अंतर अत्यंत स्पष्ट था।

रोगियों की भरती के काउंटर पर सिर पर रुमाल बांधी बैठी युवती ने रजिस्टर देखकर बताया कि हां पारावुकिन और मेफोदी को भरती किया गया था और उन्हें अमुक वार्ड में रखा गया है, रोगियों की हालत के बारे में वे सूचना कार्यालय से पता कर सकती हैं। सूचना कार्यालय में रात की ड्यूटी का रजिस्टर देखकर उन्हें बताया गया कि दोनों गेंगियों को अमुक वार्ड में रखा गया है, कि रात को उनकी स्थिति गम्भीर थी और उनका तापमान इतना था। सुबह की सूचना अभी नहीं थी, इसके लिए वार्ड से नर्स को बुलाने की जरूरत थी, ताकि वह डाक्टर से यह पता लगाये कि अब रोगियों की हालत कैसी है। नर्स को ढूँढ़ने में आधा घंटा लग गया। आखिर वह आई तो उसने बताया कि सुबह जब

वह इयूटी पर आई थी, तो रात की नर्स ने उसे कोई नये रोगी नहीं सौंपे थे। उसने कहा कि वह बड़ी नर्स या डाक्टरों से पूछ सकती है, शायद कोई जानता हो, लेकिन जाते-जाते वह सूचना कार्यालय के दर-बाजे में रुक गई, आनोच्का और वेरा निकान्द्रोव्ना देख रही थीं कि कैसे वह बड़ी देर तक दूसरी नर्स से बातें करती रही और उसे अपना नमदे का घिसा स्लीपर दिखाती रही। और आधा घंटा बीतने पर एक नर्स आई, जिसके एप्रन पर छोटा सा लाल कास बना हुआ था। उसने बताया कि दोनों रोगियों को रात को ही जनरल वार्ड से ले जाकर अलग वार्ड में रखा गया था, लेकिन उस वार्ड में जाना मना है। सुबह की जानकारी सूचना कार्यालय को अभी देर से मिलेगी, इससे पहले रोगियों की हालत के बारे में पता लगाने के लिए उन्हें उस विभाग के बड़े डाक्टर से इजाजत लेनी होगी, पर अभी ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि डाक्टर रोगियों को देखने निकल गया है। अस्पताल का चीफ डाक्टर भी इजाजत दे सकता था, पर वह इस बक्त आपरेशन वार्ड में था।

नर्स उस दरवाजे की ओर चल दी, जहां से सफेद गाउन पहने लोग लगातार आ जा रहे थे, पर दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही लौट आई और एक दुबले-पतले आदमी की ओर इशारा करते हुए बोली:

“वह रहे इग्नाती इवानोविच, उनसे पूछ लीजिये। वह विभाग के बड़े डाक्टर हैं।”

वह खुद उसके पास गई और उससे कुछ कहने लगी। डाक्टर ने वेरा निकान्द्रोव्ना और आनोच्का की ओर देखा, सिर हिलाया और उस औरत से आगे बात करने लगा, जो बार-बार सबाल पूछकर उसकी बात काट रही थी और अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। फिर सूचना कार्यालय की लड़की उसके पास गई और जोर-जोर से कहने लगी कि उसने किसी से वह किताब नहीं ली थी। फिर वे दोनों सूचना कार्यालय में चले गये। पूछ-ताछ की खिड़की से उनकी आवाजें आ रही थीं और स्पष्ट था कि उसी किताब को लेकर वहस हो रही है, जो लड़की ने किसी से नहीं ली थी।

“मैं क्या भूठ बोल रही हूँ?” खिड़की में से आवाज आ रही थी। आखिर इग्नाती इवानोविच बाहर निकला और सीधा दरवाजे

की ओर बढ़ा, लेकिन उसकी नज़र आनोच्का और वेरा निकान्द्रोव्ना पर पड़ी और वह उनकी ओर मुड़ा।

“आप पारावुकिन का पता करते आई हैं?” उसने दबे स्वर में पूछा। “कौन लगती हैं आप उनकी?.. अच्छा, आप के पिता जी...”

उसने धीरे-धीरे नज़र उस दरवाजे की ओर घुमाई, जिधर वह जाने लगा था, और क्षण भर को चुप रहा।

“हां, हां,” वह कुछ ऐसे लहजे में बोला, जैसे कि आनोच्का और वेरा निकान्द्रोव्ना पहले से ही वह बात जानती हों, जो वह बताने जा रहा है। “हां, सुवह सात बजे। गुज़र गये।”

“क्या... यों एकदम?” मानो अपने इन शब्दों में ही कुछ अर्थ ढूँढते हुए वेरा निकान्द्रोव्ना ने कहा, और आनोच्का की बाहं कुछ ऐसे पकड़ी जिससे यह कहना मुश्किल था कि वह उसको आसरा देना चाहती है, या युद आसरा ढूँढ रही है।

“नहीं, एकदम तो नहीं। कोई दस घंटे ज़िंदा रहे। हृदय काफ़ी शक्तिशाली था। हालांकि काफ़ी अरसे से पीते लगते थे। हां, काठी मजबूत थी।”

“पर वह अकेले नहीं थे?” वेरा निकान्द्रोव्ना अभी भी उपयुक्त शब्द ढूँढ रही थी।

“हां, वह भी। वह कमज़ोर थे। डेढ़-दो घंटे पहले ही। वह भी आपके रिश्तेदार थे? नहीं?”

आनोच्का की ओर गौर से देखते हुए उसने सांत्वना दी:

“आप ज्यादा दुखी मत होइये। यह तो अच्छा ही हुआ। अगर वच रहते, तो दोनों अंधे हो जाते। मेथिलेटिड स्पिरिट थी।”

उसने एक बार फिर दरवाजे की ओर नज़र डाली।

“अब कहां हैं वह?” आनोच्का ने बुझी आवाज में पूछा।

“पोस्ट मार्टम के बाद आप देख सकती हैं,” डाक्टर ने कहा।

कलर्ड को पेट से दवाते हुए वह गाउन की डोरी बांधने लगा।

“माफ़ कीजिये, मुझे वार्डों का चक्कर लगाना है। आप बैठ जाऊं। मैं किसी को भेजे देता हूं आपके पास।”

उसने दोनों के सामने वारी-वारी सिर झुकाया और हल्के-फुलके आदमी के उछलते कदमों से उस दरवाजे की ओर चल दिया, जो सारा भवय उसे अपनी ओर खीचता रहा था।

आनोच्का और वेरा निकान्द्रोव्ना बेंच पर बैठ गईं। वे एक दूसरी की ओर नहीं देख रही थीं, लेकिन जिस तरह वे एक दूसरी से सटी बैठी थीं, उससे स्पष्ट था कि यह निकटता उन्हें संबल प्रदान कर रही है, और इस समय यह निकटता ही उनका एकमात्र सहारा है।

वही छोटे से कास वाली नर्स उनके पास आई, जिसने कहा था कि वार्ड में जाना मना है। उसने आनोच्का की ओर पतली सी गिलासी बढ़ाई, जो तेज गंध वाली पीली सी दबाई से आधी भरी हुई थी।

“यह पी लीजिये। आपको पीनी चाहिए,” उसने आग्रहपूर्वक कहा। वह इतनी शांत, धीर थी, मानो उसने पहले जो कुछ कहा था और अब जो कह रही है, उसमें लेशमात्र भी असंगति नहीं है।

वेरा निकान्द्रोव्ना ने गिलासी लेकर आनोच्का के मुंह से लगाई। आनोच्का ने कहना मानते हुए सारी दबाई पी ली।

उसका चेहरा पहले की ही भाँति जड़ और पीला था। उसके इर्द-गिर्द जो कुछ हो रहा था, उसकी ओर से वह बेसुध तो नहीं थी, हां पूर्णतया उदासीन थी। उसके लिए इस बात में कोई अंतर नहीं रह गया लगता था कि क्या आवश्यक है और क्या निरावश्यक, क्या महत्वपूर्ण है और क्या गौण। विचारमग्न सी वह सूचना कार्यालय की लड़की की ओर देख रही थी, जो फिर खिड़की में से किसी से चिल्लाकर कह रही थी:

“कहा न, मैंने देखी तक नहीं! मैं क्या भूठ बोल रही हूं?”

और वैसे ही विचारमग्न सी आनोच्का सुन रही थी कि कैसे वेरा निकान्द्रोव्ना उसे ढाढ़स बंधा रही है, यह कोशिश करते हुए कि उसमें अपने दुख को सहने, कुछ करने की शक्ति जागे:

“तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और हमारे मित्र हैं। हम अकेली नहीं हैं।”

आनोच्का के अंग-अंग से जो पूर्ण विरक्ति और उदासीनता व्यक्त हो रही थी, उसके बावजूद उसकी दृष्टि में, उसकी आंखों की गहराई में एक ऐसी झलक थी, जिसमें प्रायः पूर्ण बुद्धिभ्रंश के साथ-साथ विवेक पाने की उत्कट कामना व्यक्त होती थी, जैसा कि केवल मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के साथ होता है। इस क्षण आनोच्का या तो अपनी दुर्विलता के बशीभूत होकर बीमार पड़ सकती थी, या अपनी चेतना में

ऐसा मंवन पा सकती थी कि जीवन भर के लिए उसे अपने आत्मवल में विश्वास हो जाता।

अपनी दृष्टि की इस भलक से वह बीते दिन के सबसे मार्मिक धण देख रही थी, उसे पहियों की ठकाठक कानों में पड़ती प्रतीत होती थी, उसे नग रहा था कि वह गाड़ी का आखिरी डिब्बा देख रही है, जो दूर होता जा रहा है, कि कोई कह रहा है: “अपनी उम्र से बड़ी बनो”, और एक दूसरा स्वर: “काठी मजबूत थी”। इन असम्बद्ध बातों में निश्चित सम्बन्ध था, हालांकि एक के होते दूसरे का होना असम्भव था। आनोच्का का हृदय मानो दो टुकड़ों में बंटा जा रहा था, और एक टुकड़ा गाड़ी के आखिरी डिब्बे के साथ जा रहा था, वरसों तक जीने के लिए, और दूसरा टुकड़ा यहां अस्पताल में रह गया था और सदा के लिए इस संसार से नाता तोड़ रहा था।

अथाह उदासी के साथ आनोच्का मुस्कराई। मानो सहसा मन में प्रकट हुई वात पर विस्मित होते हुए उसने कहा:

“पता है, किरील सचमुच पिता जी को बहुत चाहता था!”

वेरा निकान्द्रोव्ना ने उमड़ती ममता के साथ आनोच्का का हाथ अपने सीने से दबाया।

“कितनी सच वात है! तुम्हें पता भी नहीं, रानी, कितनी सच वात है यह!”

“पिता जी वडे ही स्नेही स्वभाव के थे,” आनोच्का पहले जैसे ही उदास स्वर में कहा, “वस वह अभागे थे।”

“तुम पा लोगी वह सौभाग्य, जो उन्हें नहीं मिल पाया। तुम पा लोगी!”

“हम बैठी क्यों हैं?” आनोच्का ने कहा और ऐसे आह भरी, मानो आंसुओं से मन हल्का कर लिया हो। “कुछ करना चाहिए। रागोजिन के पास चलें। फिर येगोर पाव्लोविच के पास। मेफोदी सी-लिच ने आज उनकी सारी खुशियाँ छीन लीं।”

“हां, चलो। हम अकेली नहीं, अकेली नहीं,” वेरा निकान्द्रोव्ना कहे जा रही थी।

वाहर ठंड में आने पर मानो उनकी इंद्रियां फिर से यथार्थ में लौटीं। एक बार फिर से घोड़ागाड़ी सड़क के खड़जों पर खड़खड़ करती

और हिम पर चरमराती दौड़ चली। नगर में अभी भी हिम झंझावात के बाद की शांति व्याप्त थी। हर मकान के साथ, हर मोहल्ले के साथ घोड़ागाड़ी ज्यों-ज्यों अस्पताल से दूर जाती जा रही थी, त्यों-त्यों आनोच्का को वह डिब्बा स्पष्टतया दिखाई दे रहा था, जो असीम हिम ध्वल मैदानों के बीच दौड़ा जा रहा था, और जिसमें वह स्वयं मानो किरील के सामने बैठी थी, उसकी पांडुर आंखों में उसके विचार पढ़ रही थी। वेशक विचार आनोच्का के बारे में ही थे। वह उसे अकेली नहीं छोड़ सकता था, वह उसे अपने साथ ले आया था, इस डिब्बे में, रूस के असीम मैदान को पार करती इस विशाल रेलगाड़ी में अपने साथ ले जा रहा था।

दूर कहीं एक सिगनल पर गाड़ी रुकी और किरील डिब्बे में से निकला, धूप में चमकती हिमाच्छादित स्तेपी से उसकी आंखें चुंधिया रही थीं। सहसा उसे याद आया कि तोलस्तोय ने पथिकों के बारे में क्या कहा है: शुरू के आधे रास्ते में आदमी उस सबके बारे में सोचता रहता है, जो पीछे छोड़कर आया है, और बाद के आधे रास्ते में उस सब के बारे में, जो वहां होगा, जहां वह जा रहा है।

गाड़ी ज्यों-ज्यों आगे जाती जा रही थी, त्यों-त्यों किरील के अपने हमसफरों के साथ नये-नये सम्बन्ध बनते जा रहे थे। यह कोई आम गाड़ी नहीं थी, जिसकी सवारियां संयोगवश ही इकट्ठी होती हैं और गंतव्य स्थल पर पहुंचते ही अलग-अलग हो जाती हैं।

यह फौजी गाड़ी पहियों पर बने चहल-पहल भरे नगर के समान थी। और जैसे कि नगर के निवासी सबके लिए सामान्य सड़कों, स्नोतों और उपजाऊ धरती से एक समुदाय में गठित होते हैं, वैसे ही इस गाड़ी की सवारियां सबके लिए एक सामान्य ध्येय से एक सूत्र में बंधी हुई थीं, उस ध्येय से, जो इस गाड़ी की सीमा से परे था। सुबह-शाम रसद और चारे की सोचना, ताश और चेकर्स खेलना, तम्बाकू पीना और गाना, लाइन खाली न होने से गाड़ी के रुकने पर नीचे उतरना — ये सब बातें ही उन्हें एक हँसरे से इतना नहीं जोड़ती थीं, जितना कि वह लड़ाई, जो वे अपने भविष्य के लिए लड़ने जा रहे थे।

किरील के मन में इस बात की चेतना बढ़ रही थी कि वह रेलगाड़ी की इस नगरी का निवासी है। वह अक्सर यह सोचता कि मोर्चे पर

उसका काम कैसा होगा , कैसे चलेगा और जिस सरातोव को वह पीछे छोड़ आया था , उसकी ओर उसका ध्यान कम ही कम जाता । यही कागण था कि उसे तोलस्तोय का कथन याद आया और उसे अपने पर लागू करके देखा तो हैरान हुआ – सचमुच ही पिछले सारे दिन में आनो-च्का की याद भी उसे इतनी नहीं आई थी , जितनी कि यात्रा के आरम्भ में । लेकिन इस बात पर वह परेशान नहीं हुआ । आनोच्का उसके हृदय के सबसे गहरे कोने में जा वसी थी , और वह जानता था कि जब तक यह हृदय धड़कता रहेगा , तब तक आनोच्का उसमें वसी रहेगी ।

गाड़ी बलाशोव और पोवोरिनो से होती हुई जा रही थी । मोर्चे के पाम का ही इलाका होने के कारण यहां पर कई-कई बार रुके विना गाड़ी का बढ़ना असम्भव था । तीसरे दिन जाकर कहीं उन्होंने वे स्थान-वोरोनेज और कस्तोर्नाया पार किये , जहां हाल ही में घमासान युद्ध हुए थे । जाड़ा यहां भी पूरी तरह आ चुका था , लगातार चलती रही हिमानी आंधियों के कारण रणक्षेत्रों में हुए रक्तपात की निशानियां हिम की चादर तले दब गई थी , बस स्टेशनों पर , सड़कों के आस-पास , गांवों में अधजली काली इमारतें और मलबे के ढेर मातम कर रहे थे ।

आखिर यह टुकड़ी नई गठित की जा रही कैवेलरी ब्रिगेड में शामिल हो गई और इसके साथ टुकड़ी को गंतव्य स्थल तक पहुंचाने का किरील का प्रमुख कार्यभार पूरा हो गया । उसने बोल्गा के साथियों से विदा ली और आगे दक्षिण की ओर चल दिया , जहां प्रथम अश्वारोही सेना कार्यरत थी ।

किरील जब नोवी ओस्कोल पहुंचा , तो वहां चारों ओर खूब धूम-धाम थी : मकानों पर झंडे लहरा रहे थे , घुड़सवार इधर-उधर आ-जा रहे थे , खुले फाटकों में से अहातों में जीन कसे धोड़े और उनके पास खड़े मैनिक दिखाई दे रहे थे । गरम कपड़ों में अच्छी तरह लिपटे बच्चे मड़कों पर भागे जा रहे थे और उनके पीछे-पीछे बड़े भी , सब एक ही दिगा में – शहर के बाहर जा रहे थे ।

किरील ने कई लोगों से रास्ता पूछा , पर कोई उसे ठीक से जवाब नहीं दे सका । आखिर उसे एक नौजवान कमांडर मिला , जिसके कुछ मैनिक एक बहुत बड़ी मेज मकान में ले जा रहे थे । दरवाजे तंग थे , कभी वे मेज को तिटाकर पाये आगे करके अंदर ले जाने की कोशिश करते , कभी खड़ी करके ।

“चलो, पाये निकालो,” एक सैनिक ने चिल्लाकर कहा। “अंदर ले जाकर फिर लगा देंगे।”

“अच्छा, निकाल लो,” कमांडर ने हाथ झटकाते हुए कहा और दूसरी ओर मुँह मोड़ लिया।

उसने त्योरियां चढ़ाकर किरील की ओर देखा, मानो यह उसी का कसूर हो कि मेज दरवाजे में नहीं घुस रही।

“क्या चाहिए आपको, कामरेड?”

किरील ने उसे अपनी समस्या बताई और इससे कमांडर और भी अधिक नाराज़ हो गया।

“दिखाओ अपने कागज़ !”

उसके लहजे से ही किरील समझ गया कि वह अगर सही पते पर नहीं, तो उसके पास ही पहुंच गया है। उसने अपने कागजात निकाले। मोटे-मोटे दस्ताने उतारे विना ही कमांडर ने अपनी मुट्ठियों में कागज़ दबा लिये और बड़ी गम्भीरता से, एकाग्रचित्त होकर उन्हें पढ़ने लगा। उधर मेज ऐसे चरमरा रही थी, जैसे कोई भीमकाय अखरोट तोड़ा जा रहा हो। आखिर जब कमांडर मुड़ा, तो देखा कि सड़क पर न मेज है, न सैनिक, और तुरन्त ही उसने खुशी-खुशी कागज लौटा दिये।

“अच्छा, तो सरातोव से आये हैं? सरातोव तो नहीं गया, हां त्सरीत्सिन जाने का मौका मिला था, कामरेड वोरोशीलोव के साथ ही... चलिये, अंदर चलें।”

पता चला कि वह वोरोशीलोव का एड्जुटेंट है और उसे यहां पड़ाव का प्रबन्ध करने भेजा गया है। उसने किरील को बताया कि पास के गांव में दक्षिणी मोर्चे और प्रथम अश्वारोही सेना की क्रांतिकारी सैनिक परिषदों की संयुक्त वैठक हुई थी। सर्पुखोव से, जहां दक्षिणी मोर्चे का हेडक्वार्टर था, कामरेड स्तालिन आये थे और उन्होंने वैठक में देनीकिन को हराने की योजना को पूरा करने में प्रथम अश्वारोही सेना के कार्य-भारों के बारे में बताया था। यहां आस-पास के इलाके में अश्वारोही सेना की कई टुकड़ियां जमा थीं और नोवी ओस्कोल के पास उनकी परेड होनेवाली थी (मोर्चे पर हर डिविजन की एक-एक ब्रिगेड लड़ रही थी)।

“चलेंगे देखने? धंटे भर बाद मेरी स्लेज तैयार होगी,” एड्जुटेंट ने कहा।

वातें करते हुए वह अधिकाधिक सत्कारशील होता जा रहा था। ग्रायद मेज के फंस्ट से वह सचमुच ही खीजा हुआ था। अब सब कुछ ठीक-ठाक हो रहा था, और वह सैनिकों को यह बता रहा था कि फर्नी-चर कैसे लगायें, गमले बाहर ले जा रहा था, तसवीरें एक जगह से हटाकर दूसरी जगह टांग रहा था—इस सब काम का वह आदी लगता था, सो अधिक मिलनसार हो रहा था।

“चले चलिये! हर हालत में कामरेड बोरोशीलोव ही आपकी नियुक्ति अनुमोदित करेंगे। और अपनी टुकड़ी के बारे में आपको रिपोर्ट भी उन्हें ही देनी है। सो, अभी बक्त है। आप देखेंगे कैसी हैं हमारी डिविजनें अब! बस देखते ही रह जायेंगे!”

वह कुछ सोच में पड़ गया।

“क्या स्याल है, लगी रहने दूँ? या हटा दूँ?”

उसने असमंजस के साथ सिर से दीवार की ओर इशारा किया, जहां प्राचीन रूसी वेश-भूषा पहने महिला का धुएं से काला पड़ गया चित्र टंगा हुआ था।

“क्यों क्या परेशानी है?”

“भई, यहां कमांडरों और कमिसारों को क्रांतिकारी सैनिक परिपद के सामने पेश किया जायेगा।”

“तो क्या हुआ? यह तो माकोब्स्की* का चित्र है।”

“शैतान जाने इस कला को! कभी कुछ कहा नहीं जा सकता।”

दोनों हँस पड़े—अपने-अपने मन की बात पर। उनमें वह आत्मीयता आ रही थी, जो मोर्चे पर इतनी आसानी से लोगों के सम्बन्धों में आ जाती है, और प्रायः इतनी ही जल्दी भुला भी दी जाती है, परन्तु कभी-कभी सैनिकों की जीवन भर की मित्रता बन जाती है।

किरील और एड्जुटेंट जब परेड देखने निकले, तब तक दोनों दोस्त बन चुके थे। स्लेज की पट्टियां हिम पर चलती लगातार एक सुर में चरमराती जा रही थीं, सड़क के गड्ढों में स्लेज सहज ही गोता लगाती और फिर धीरे-धीरे ऊपर उठ आती, इसके साथ ही सवार पहले आगे को

* माकोब्स्की—१६ वीं सदी का सुविश्वात चित्रकार।—सं०

गिरते और किर पीछे को, यों गिरते हुए उनकी वातचीत भी पहले तेज़ हो जाती और फिर धीमी पड़ जाती।

नगर के बाहर पहुंचते ही उन्हें असीम स्तेपी दिखाई दी, जिसमें कहीं-कहीं टीलों की शृंखलाएं थीं। स्तेपी के दूधिया विस्तार में बल खाते लंबे-लंबे हिम-सर्प तेज़ी से बढ़ रहे थे। जाड़े के दिन का यह सबसे उजला पहर था, लेकिन हिमानी बादलों की सीसे की चादर सारे आसमान पर नीची छाई हुई थी।

दूर से ही किरील को परेड के लिए खड़े अश्वारोही सैनिकों की कटी-कटी रेखाएं दिखने लगीं। उनकी टुकड़ियाँ रेल लाइन के स्लीपरों की भाँति विशाल क्षेत्र में फैली हुई थीं। कुछ पास को लोगों की काली लाइन दिख रही थी, उसके निकट पहुंचते हुए स्लेज गाड़ी अपने पीछे बहुत से लोगों को छोड़ती जा रही थी, जो देर हो जाने के डर से तेज़-तेज़ चल रहे थे।

भीड़ के पास पहुंचकर जब वे स्लेज से उतरे, तो पाया कि दर्शकों के उस बिचले भाग तक आगे घुस पाना मुमकिन नहीं है, जहां लाल झंडे लहरा रहे थे और उन लोगों के लिए जगह बनी हुई थी, जिन्हें सलामी लेनी थी। किरील और एड्जुटेंट फिर से स्लेज में बैठ गये और भीड़ की पीठ पीछे बढ़ते हुए ऐसी जगह ढूँढ़ने लगे, जहां कुछ कम लोग खड़े हों।

दूर से “हुर्रा” की गूंज आ रही थी, हवा के भाँके कभी-कभी संगीत के स्वरों को यहां तक ले आते, कभी वे बीच में ही खो जाते। निरीक्षण आरम्भ हो गया था – क्रांतिकारी सैनिक परिषदों के सदस्य डिविजनों का चक्कर लगाते हुए सैनिकों का अभिवादन कर रहे थे।

आखिर उन्हें उपयुक्त स्थान मिल गया। किरील भीड़ में घुसकर आगे पहुंच गया और वहां उसने स्तेपी पर नज़र दौड़ाई। उसके बिल्कुल सामने और दाईं ओर को स्तेपी क्षितिज तक चली गई थी, और वहां कोई धब्बा तक नहीं दिखाई दे रहा था, वस दूर कहीं पेंसिलों जितने ऊँचे तार के खंभे धरती पर बल खाते उड़ रहे हिम के पीछे से धुंधले से दिख रहे थे। वाई और रिसाला था, टकटकी लगाने पर वहां अगली कतार में घोड़ों की लाइन और उसके ऊपर छुड़सवारों की पतली सी रेखा तथा कहीं-कहीं हवा में प्रकट हो उठते ध्वज देखे जा सकते थे।

संगीत और जय-जयकार बंद हो गया, बाहों पर लाल क्रॉस की पट्टियां बांधे तथा कंधों पर भोले लटकाये अरदली प्रकट हुए, परेड मैदान में ड्यूटी के लिए नियुक्त सैनिक दौड़कर अपनी-अपनी जगह खड़े होने लगे। यह क्षणिक हलचल खत्म हो गई, तो किरील ने देखा कि वाई ओर से भीड़ के समानांतर कुछ घुड़सवार और उनके पीछे स्लेज गाड़ी भीड़ के केन्द्र की ओर आ रही है।

“आ रहे हैं, आ रहे हैं,” एड्जुटेंट ने किरील को बगल में टहोका देते हुए कहा।

परन्तु तभी घुड़सवारों का दल भीड़ की अगली पंक्ति के इतने पास आ गया कि उसमें घुल-मिल सा गया, और किरील को वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हालांकि वह अगली कतार से एक कदम आगे बढ़ गया था।

इसके तुरन्त बाद ही विगुलों के ताम्र स्वर गूंजे और दूर कहीं आदेश दिये जाने लगे, जो यहां प्रायः सुनाई नहीं दे रहे थे। लेकिन यह मत्र किरील के वाई ओर काफी दूर हो रहा था, और अब उसे यह व्यान आया कि वह घटनाओं के केन्द्र से कितनी दूर खड़ा है। उसे इस बात पर अफसोस हो रहा था कि वह यहां एक ओर को खड़ा है, जबकि उसका मन बीच में खड़े होने का था, किन्तु यह अफसोस उसके हप्पोल्लास को नहीं दबा सकता था, जो सैनिकों की अभेद्य दीवार को देखकर उसके मन में प्रतिपल बढ़ रहा था। इतनी दूर से यह स्पष्ट आभास होता था कि किसी भी क्षण चल पड़ने की तत्परता में अश्वारोही भी और अश्व भी एकदम तने खड़े हैं; असीम हिमाच्छादित विस्तार भी इसी तनाव से भरा लगता था।

आदेशों के स्वर आने वंद हो गये, स्तेपी की निस्तब्धता में हवा के धरती से टकराने की आवाज़ और उस पर बढ़ते हिमकणों की सरसर मुनाई पड़ रही थी।

और फिर पास ही कहीं बैंड बजने लगा। यह कैवेलरी की उत्साह-वर्द्धक मार्च-धून थी, जिसमें बीरता के साथ ज़िंदादिली का पुट था, और जिसकी ताल सधे घोड़े की इठलाती चाल पर आधारित थी। संगीत के इन स्वरों में गनै:-गनैः भूर्गम् से उठती दबी-दबी गड़गड़ाहट मिल रही थीः रिसाला चल दिया, परेड शुरू हो गई।

परन्तु यह एक विशिष्ट गति थी, जिसमें सैनिकों के मार्च के साथ उतनी ही कम समानता थी, जितनी कबूतरों की उड़ान और मनुष्य की चाल के बीच है।

डिविजनें नम्बरों के कम में आ रही थीं, और परेड का उद्घाटन चौथी डिवीजन कर रही थी। इसकी सबसे अगली स्कैड्रन दुलकी चाल से चली, पर तुरन्त ही धोड़ों को सरपट दौड़ाने लगी। सैनिकों ने तलवारें सिरों के ऊपर उठाईं। काठी पर भुका और लाल ध्वज की अंगति-जिह्वाओं में लिपटा ध्वजवान दंड को भाले की भाँति नीचे भुकाये बफ्फोली हवा को चीरता बढ़ रहा था और उसके पीछे विस्तार के खुले सिंहद्वार में स्कैड्रन उफनती आ रही थी।

भारी गड़गड़ाहट में ठंड से जकड़ी जमीन की टंकार भी मिल गई— नालें हिम आवरण को भेद रही थीं और धरती सहस्रों घंटियों सी टंकार कर रही थी। अश्वारोहियों ने जयनाद किया। धोड़े पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे। उनके सुमों तले से हिमकण उमड़-घुमड़ रहे थे और धार से दायें-दायें उड़ रहे थे।

तूफानी वेग से यह लहर उस स्थान तक बढ़ आई, जहां से पल भर पहले मार्च-धुन सुनाई दे रही थी। धरती की गड़गड़ाहट, सैनिकों के जयनाद तथा सैकड़ों धोड़ों की टाप में संगीत के स्वर पूरी तरह खो गये। इस उफान पर क्षण भर को अवाक रह गये दर्शकों ने भी हर्षनाद किया और सभी स्वर एक अनवरत गर्जन में मिल गये।

सरपट दौड़ती गई स्कैड्रन की कुछ भलके ही किरील की नज़रों में पड़ीं: एक दमकता ताम्रवर्णी चेहरा और उस पर चमकते दांत; लाल-पीली सी फ्र की टोपी; मुश्की धोड़े का ऊंचा उठा थूथना और दहाने को जोरों से चबाते जबड़े; और फिर भाँजी जा रही तलवारों की चमक; और सहसा एड़ लगाता विशाल काला वूट, और फिर सुरंग अयाल से सटा नौजवान का फक चेहरा। उमड़ते-घुमड़ते हिम में किरील ने ये सब भलके पाई ही थीं कि स्कैड्रन दाईं ओर को दूर निकल गई। बाईं ओर से नई स्कैड्रन हर्षनाद और हुंकार के साथ बढ़ती आ रही थी।

इस तरह एक के बाद दूसरी स्कैड्रनें उफनती नदी सी चली आ रही थीं। सैनिकों में कोई घुटनों तक लंबा भेड़ की खाल का कोट पहने था, कोई साधारण फौजी ओवरकोट, कोई कमर से सटे कज्जाक कोट,

कोई पतले नमदे का काकेशियाई कोट, कोई मजदूरों वाली मिरजई और कोई लड़ाई में हाथ लगी अंग्रेजी वर्दी। उनके कंधों पर बंदूकें थीं और सिरों पर कपड़े और फर की भाँति-भाँति की टोपियां। घोड़े भी अलग-अलग रंग और नस्ल के थे। बस सभी की तलवारें एक समान चमक रही थीं और उनके अच्छे रूसी फौलाद की खनक एक जैसी थी।

“छठी डिविजन आ रही है! छठी!” इज्वेकोव के नये साथी ने उसके कान में चिल्लाकर कहा।

किरील ने दंड के नुकीले सिरे से हवा को चीरते आ रहे ध्वजवान की ओर नजर धुमा ही ली थी, तभी चौथी डिवीजन की आखिरी स्क्वैड्न में से काला सा गोला गिरा और हिम-धूल में लोटने लगा।

“गिर गया! गिर गया!” लोग चिल्लाये। “कुचला जायेगा!” गिर पड़ा धुड़सवार भीड़ से कोई दस कदम दूर चित पड़ा हुआ था और उसमे थोड़ी दूर बगल से उठकर खड़े होने की कोशिश में घोड़ा टांगे फेंक रहा था।

किरील लपककर सैनिक के पास पहुंच गया, उसकी बांह पकड़कर उसे हिम पर धसीटने लगा। लेकिन सैनिक का दूसरा हाथ तेगवन्द में फँसा हुआ था, तलवार ज़मीन में गड़ गई थी और मानो अपने स्वामी को छोड़ना नहीं चाहती थी। किरील ने तलवार ज़मीन में से निकाली और फिर से सैनिक को धसीटने लगा। पास ही से ध्वजवान के गुज़रने की आवाज़ आई, छठी डिवीजन के हरावल दस्ते की टापों की गड़ग़ड़ाहट भी बढ़ती आ रही थी। तभी अरदली आ गया और वे दोनों मिलकर मैनिक को मैदान से निकाल ले गये। भयभीत घोड़ी खड़ी हो गई थी, ड्यूटी का मैनिक उसकी ओर लपका, लगाम खींचकर आखिरी क्षण में उसे परे ले गया, जब दस्ता बहां पहुंच ही गया था। दाईं कतार के घोड़े की छाती रास्ता पार करती घोड़ी के पुटे से इतनी ज़ोर से टकराई कि वह लोगों पर गिरने-गिरने को हुई।

इस सब में कुछ सेकंड लग गये, चूंकि किरील और अरदली परेड देखने को उतावले थे, इसलिए उन्होंने सैनिक को मैदान से हटाकर हिम पर रख दिया।

ज़मीन पर गिरते ही सैनिक होश में आ गया। उसके सिर पर धुंधरने मुनहरे वालों का प्रकृतिदत्त टोप था, और उनके ऊपर जो

शिरस्त्र उसने धारण कर रखा था , वह अब मैदान में घुड़सवार दस्तों द्वारा रौंदा जा रहा था । सैनिक ने सिर उठाकर लोगों पर नज़र डाली , अपनी तलवार की मूठ टटोली (किरील ने तलवार म्यान में डाल दी थी) , स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हो गया , अपनी लटों में हाथ डाले और गला फाड़कर चिल्लाया :

“माश्का ! कहां है माश्का , हरामजादी ? ! ”

तभी लोगों के कंधों के पीछे उसने अपनी घोड़ी देख ली , जो पेशानी पर अबलक सितारे वाला थूथना ज़ोर-ज़ोर से झटक रही थी । वह लपककर उसके पास गया और पूरी बांह घुमाकर उसकी आंखों के बीचोंबीच करारी चोट रसीद की । फिर बाग पकड़कर और उसे इधर-उधर झटकाते हुए चिल्लाने लगा :

“तेरा सत्यानास जाये , हरामजादी ! दगा दे गई ! काम तमाम कर दूंगा , मुई का ! ”

पर शीघ्र ही लोग परेड देखने में मर्ग हो गये और इस घटना को भूल गये ।

“ग्यारहवीं डिविजन ! ” बुद्योन्नी टोप पहने एक से एक बढ़कर दिलेर घुड़सवारों को आते देखकर एड्जुटेंट बड़े जोश से चिल्लाया । इस विलुल नई ही किस्म के शिरस्त्र और बर्दी की समानता से उनका तूफानी वेग और भी अधिक प्रचण्ड लगता था , उनका हुंकारा और भी अधिक जोरदार-वे मानो अपने प्राण हथेली पर लिये रणक्षेत्र को जा रहे थे ।

जिस क्षण से किरील घोड़े से गिर पड़े सैनिक की मदद को लपका था , उस क्षण से परेड के दर्शक का उसका उल्लास और उत्साह परेड में भाग लेनेवाले की तीव्र अनुभूति में परिवर्तित हो गया था । वह मानो हवा से बातें करते अश्वारोहियों को देख नहीं रहा था , बल्कि स्वयं भी अदृश्य घोड़े पर सवार हो उनके साथ उड़ा जा रहा था । अंतर केवल इतना ही था कि प्रत्येक सैनिक लोगों के सामने से अपने दस्ते के साथ केवल एक बार गुज़रता था , और किरील हर दस्ते , हर सैनिक के साथ गुज़र रहा था । उसका अंग-अंग फड़क रहा था ।

सारा मार्च देखते-देखते पूरा हो गया । प्रायः पंद्रह मिनट में ही प्रथम अश्वारोही सेना के लगभग दो-तिहाई सैनिक अपने कमांडरों के सामने से सलामी देते हुए गुज़रे ।

लोग तुरन्त ही सारी व्यवस्था भूल-भालकर सलामी मंच की ओर लपके। फिर से संगीत सुनाई देने लगा। भंडे फड़फड़ा रहे थे। अलग-अलग घुड़सवार भीड़ में इधर-उधर आने-जाने लगे।

“सामने देखिये,” किरील के साथी ने कहा, जो अभी तक उससे एक कदम भी दूर नहीं हटा था। “नुकरा घोड़ा देख रहे हैं? वो घुड़सवारों के बीच, हमारी ओर आ रहे हैं। देखा?”

भीड़ की बजह से किरील कुछ देख नहीं पा रहा था। एक भंडा सामने से ले जाया गया, फिर एक और।

“दायें देखिये, दायें! जल्दी से!”

किरील को कुछ घुड़सवार दिखे, जो ढुलकी चाल से उधर जा रहे थे, जिधर डिवीजनें गई थीं। वह उनकी शक्तें देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घुड़सवार पास-पास चल रहे थे और वह उनमें से किसी को भी अच्छी तरह नहीं देख पा रहा था। उसे लोगों की आवाजें सुनाई दीं:

“बुद्योन्नी! बुद्योन्नी!”

एड्जुटेंट ने किरील की बांह खीची।

“स्लेज देखी? स्तालिन है उसमें, स्तालिन!”

पल भर को किरील ने सैनिकों जैसा ओवरकोट तथा शिरस्त्र सा फ्र का कनटोप पहने व्यक्ति को स्पष्टतया देखा। कनटोप का कानों को ढकनेवाला हिस्सा नीचे लटका हुआ था, इसलिए चेहरा दिखाई नहीं दिया।

स्लेज गाड़ी जल्दी से मोड़ के पीछे ओरकल हो गई, किरील को बम उसकी मध्यमली पीठ ही दिखाई दी।

वह अभी गायब होती स्लेज की ओर देख ही रहा था कि एड्जुटेंट ने उससे कुछ कहा। लेकिन जब किरील ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, न एड्जुटेंट और न उसकी स्लेज गाड़ी – जितनी तत्परता से वह किरील को अपने साथ यहां लाया था, उससे भी अधिक आसानी से वह उसे छोड़कर चला गया था।

किरील हँस पड़ा और प्रसन्नवित्त चल दिया – भीड़ के पीछे-पीछे नगर की ओर।

उमंग के क्षणों में किरील के लिए चिंतन-मनन भी ऐंट्रिय अनुभव

हो जाता था। जीवन का ऐंट्रिय बोध मस्तिष्क में उठते विचारों और छापों के अनवरत क्रम के साथ एकाकार हो जाता था। स्तेपी का एकरूप दृश्य तथा समान गति से निर्वाध बढ़ते कदम इस समय उसके विचारों एवं भावनाओं के ऐकात्म्य को और भी अधिक सुदृढ़ कर रहे थे। चलने में उसे आनन्द आ रहा था।

किरील हृदय पर गहरी पड़ी छाप के अलग-अलग व्योरों पर विचार नहीं कर रहा था। वह इस समग्र छाप को ही हृदय में समेटे लिये जा रहा था।

स्तेपी में सहर्ष चलते हुए किरील के स्मृति-पटल पर कई बार वह अंतिम छाप सजीव हो उठी थी। यह छाप यों तो साधारण सी ही थी: मोड़ पर मखमली स्लेज की झलक, उसमें बैठा व्यक्ति, सैनिकों के ओवरकोट में उसके कंधे, फर का कनटोप।

किरील जब शहर पहुंचा, तो झुटपुटा हो चला था। उसे यह नहीं पता था कि रात कहां काटनी होगी। लेकिन इस चिंता से वह परेशान नहीं था। उसके मन में सैनिकों का यह विश्वास था कि वह सेना में है तो सब कुछ ठीक ही होगा।

चौराहे पर किसी ने जोर से उसे पुकारा। दौड़ता घोड़ा सड़क के बीचोंबीच रुका। छोटी सी स्लेज में एक दूसरे की गोद में चार कमांडर बैठे थे। उनमें से एक उछलकर नीचे उतरा। किरील एड्जुटेंट को पहचान गया। किरील की ओर दौड़ते हुए वह चिल्लाया:

“आप सीधे उस मकान को जाइये, जहां हम मिले थे। पर आपको वहां अंदर नहीं जाने देंगे। उसके आगे एक और छोटा मकान है... अभी मैं भी पहुंचता हूं वहीं!”

किरील तक आये विना ही वह वापस मुड़ गया। स्लेज चल ही पड़ी थी, जब वह उछलकर अपने कामरेड की गोद में बैठ गया।

शीघ्र ही किरील उस जाने-पहचाने मकान तक पहुंच गया। अंधेरा घिर आया था। तंग सी खिड़कियों में से पीली रोशनी आ रही थी। बाड़ से कुछ घोड़े बंधे खड़े थे, जिन पर साज़ कसे हुए थे। मकान के दरवाजे के पास किरील को दंड और ध्वज दिखे, ध्वज-शायद लाल था, लेकिन अंधेरे में काला ही लग रहा था। रिसाले का पुराना सैनिक तुरन्त समझ जाता कि यहां हेडक्वार्टर के दस्ते का पड़ाव है। दरवाजे पर दो संतरी खड़े थे। इधर-उधर लोग आ जा रहे थे, अंधेरे में सब

एक जैसे लग रहे थे और उनके पांवों तले हिम की चर्च-चर्च हो रही थी।

कोई पचास कदम आगे जाने पर किरील को छोटे मकान की खिड़ियों से आती रोशनी दिखाई दी। सैनिक जोर-जोर से बातें करते हुए बाहर निकल रहे थे। वह उनसे कुछ पूछने ही लगा था कि पीछे से स्लेज आ पहुंची।

“आप पहुंच भी गये? चलिये, कुछ खा-पी लें!” एड्जुटेंट ने स्लेज से कूदकर किरील की बांह पकड़ते हुए कहा।

बड़े कमरे में बहुत से कमांडर जमा थे। गोल मेज पर सारी डबलरोटी, उकाइनी चर्वी और भूना गोश्ट काटे जा रहे थे। नमकीन खीरे और बंदगोभी रखे हुए थे। एक गिलास वारी-वारी सवको दिया जा रहा था। बिना बटनों वाला भेड़ की खाल का कोट पहने चौड़े कंधों वाला मुच्छड़ ढाई लीटर की बोतल में से चासनी जैसी गाढ़ी, आलू-बुखारे के रंग की शराब गिलास में उंडेल रहा था।

“जरा जगह दो, कामरेडो! बोला वाले को भी दो धूंट भर लेने दो,” एड्जुटेंट ने कहा।

किरील को गिलास थमा दिया गया। खाने की गंध से उसे भूख का अहसास हुआ। किसी ने उसे शिकारियों का भारी सा चाकू पकड़ा दिया। उसने डबलरोटी का एक सिरा काटा। किसी ने पूछा वह कहां से आया है। किरील एक धूंट में सारा गिलास पी गया, फिर सांस लेकर उसने जबाब दिया। वातचीत शुरू हो गई।

खाना खाने के बाद किरील ने इस छोटे मकान के कमरों का चक्कर लगाया। एड्जुटेंट एक बार फिर गायब होने से पहले उसे कहता गया था कि वह रात यहीं काट सकता है, और सुबह ठीक तरह से इंतज़ाम हो जायेगा। लेकिन सारे मकान में सोने के लिए कोई जगह खाली नहीं थी।

किरील फिर से बड़े कमरे में लौट आया। यहां किसी स्टेशन की ही भाँति नये-नये लोग आकर खाना खाते और चले जाते। एक कोने में उसे आरामकुर्सी दिखी, जिसके स्प्रिंग ढीले पड़े हुए थे। किरील ओवरकोट के बटन खोलकर कुर्सी में बैठ गया। गर्माहट और थकावट के कारण जन्दी ही वह ऊंचने लगा।

आंखें मूँदते हुए किरील सोच रहा था कि आराम करके फ़ौरन ही पत्र लिखेगा। वह अपने विचारों और छापों में से उनको अलग कर रहा

था, जिन्हें वह अच्छी तरह याद रखना चाहता था और इसके लिए लिख लेना चाहता था, ताकि नये अनुभव इन पहली छापों पर हावी न हो जायें। सबसे पहले मन ही मन वह केवल आनोच्का को चिट्ठी लिखने लगा, फिर मां को भी। कई बार उसने चिट्ठी इन शब्दों से शुरू की कि उसे यहां बहुत अच्छा लग रहा है, कि वह यह बता भी नहीं सकता कि क्यों उसे इतना अच्छा लग रहा है। वह बस यही चाहता था कि वे उसकी बात पर विश्वास कर लें। परन्तु फिर भी वह मन में इसका कारण खोज रहा था कि क्यों उसे इतना अच्छा लग रहा है। उसने सोचा वह लिखेगा कि कैसे स्तेपी में अश्वारोही दस्तों की टापों से धरती के गर्भ से उठती गड़गड़ाहट पर वह स्तब्ध रह गया था और कैसे वह उसे अपने साथ वहां ले चली थी; कि यह गड़गड़ाहट सारे संसार में गूंज रही है; कि ये इतिहास के बढ़ते कदम हैं; कि इस बक्त उसका, किरील इज्वेकोव का हृदय इसीलिए उमंग से ओत-प्रोत है कि उसने इन गरजते कदमों में अपना छोटा सा, किन्तु दृढ़ कदम मिलाया है। जैसे ही उसने मन में इतिहास के कदमों की यह बात कही, वैसे ही वह समझ गया कि वह न आनोच्का को लिख रहा है, न मां को, बल्कि रागोज्जिन को लिख रहा है। तीनों पत्र उसके विचारों में मिलकर एक हो गये। परन्तु फिर भी उसने नींद से जूझते आदमी की भाँति जतन करके तीनों के नाम पत्रों में से आनोच्का के लिए पत्र अलग कर लिया। और तब उसने सोचा कि वह आनोच्का को वह पुरानी बातचीत याद दिलायेगा, जब वे मां के कमरे में पहली बार मिले थे। और उसके मन में वह दृश्य विल्कुल साफ़-साफ़ उभर आया – कैसे मां ने आनोच्का की विखरी लट ठीक की थी और मुस्कराई थी। किरील आनोच्का को कला पर हुई उनकी बातचीत याद दिलायेगा और यह लिखेगा कि उसे कला से अनुराग है। और वह यह भी लिखेगा कि उसे यहां बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि केवल यहां पर ही, जहां अब वह है, उसके लिए जीवन का संगीत पूरी तरह से ध्वनित हो रहा है, केवल यहां पर तथा इस क्षण ही – और कहीं भी नहीं। इसके बाद उसके विचार धूधले से पड़ने लगे, हालांकि वह इसी ख्याल में था कि वह एकाग्रचित्त होकर सोच रहा है और चिट्ठी लिख रहा है, उसे बस एक बात का ख्याल नहीं था: कि वह चित्त को शांत करनेवाली गहरी नींद में सो गया है।

गायद सन्नाटे के कारण ही उसकी आंख खुली। मेज के पास एक मैनिक वैठा इतमीनान से कुछ खा रहा था। दूसरा सैनिक फ़र्श पर अपनी लवी फैली बांह पर सिर रखे सो रहा था। लैम्प की बत्ती बुझने से पहले तड़तड़ कर रही थी।

ओवरकोट के बटन बंद करके किरील बाहर निकल आया। हवा अब नहीं चल रही थी, ठंड काफी बढ़ गई थी, आकाश निरभ्र था, शुक्ल पक्ष का अर्द्ध चन्द्र निकला हुआ था। धरती पर वरसती ज्यो-त्मना में हिम झिलमिला रहा था और हिमाच्छादित रास्ता ऊपर ही ऊपर जाता हुआ उस पर बढ़ते जाने का आँखान करता लगता था।

और दो-तीन लोग भी बाहर निकल आये थे, तथा किरील की ही भाँति शीतकालीन रात्रि के सौंदर्य का रसपान कर रहे थे। पूर्ण नीरबता थी। वस कभी-कभार ही कहीं सोते-सोते कोई घोड़ा फुफकार उठता।

जिस मकान पर संतरी पहरा दे रहे थे, उसमें से एक सैनिक बाहर आया और दौड़ चला। उसके नमदे के बूटों तले हिम की चरमराहट हो रही थी। वह छोटे मकान में चला गया और फिर तुरन्त ही बाहर निकल आया।

“अरे भई, कामरेडो! ” वह जोर से पुकारने लगा। “इज्वेकोव नाम का है कोई यहां? ”

किरील ने जवाब दिया।

“मेरे साथ चलिये, आपका बुलावा है! ”

वह किरील को अंदर ले गया।

उस बड़े कमरे में, जहां किरील दिन को एड्जुटेंट के साथ आया था, काफी भीड़ थी। कमांडर और कमिसार दीवारों के पास बड़े थे, बिड़कियों के दामों पर और मेज के पास बैठे थे। किरील दरवाजे में बढ़ा हो गया। भाँति-भाँति के कुछ लैम्प इस दृश्य पर रोशनी डाल रहे थे। मेज के पीछे दीवार पर टंगे दक्षिणी रूस के बड़े से नकशे की ओर किरील का ध्यान गया। नकशे पर पिनों से लगी छोटी-छोटी झंडियां तथा लाल और नीली पेंसिलों से बने तीर, कोष्ठक आदि स्पष्ट-तया यह इंगित करते थे कि नक्शा कैसा है। मेज पर समोवार रखा हुआ था, और खाने-पीने की बे ही साधारण चीजें जो बगल के छोटे

मकान में किरील ने देखी थीं। रंग-विरंगी बोतलें खाली हो चुकी थीं। तश्तरियां बगैरह मेज के एक सिरे पर हटा दी गई थीं। खाना खत्म हो चुका था।

खिड़कियों और दीवारों के पास जमा लोग दबी-दबी आवाजों में बातें कर रहे थे, और मेज के पास बैठे लोग उन थोड़े से लोगों की हौले-हौले हो रही बातचीत सुन रहे थे, जिन्हें किरील लैम्प के कारण देख नहीं पा रहा था। धुएं के वादल उमड़-घुमड़ रहे थे। किरील दरवाजे से आगे बढ़ा, ताकि मेज के पास बातें कर रहे लोगों को देख सके। तभी सहसा एड्जुटेंट उसके पास आ पहुंचा और काफ़ी ऊँची आवाज में बोलते हुए, पर न जाने क्यों किरील के कान में उसने कहा:

“चलिये, मिलवाता हूँ।”

मेज के पास पहुंचते ही उसने किरील की बांह खींची और उनकी ओर पीठ किये खड़े व्यक्ति को संबोधित किया:

“कामरेड वोरोशीलोव, वह सरातोव वाला आ गया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था।”

“वोरोशीलोव मुड़ा, जल्दी से इज्वेकोव को निहारा और कहा:

“नमस्ते, कामरेड कमिसार।”

“कामरेड वोरोशीलोव, मैं कमिसार नहीं,” किरील ने कहा।

“कमिसार कैसे नहीं? मुझे आपके बारे में ऐसी-ऐसी बातें बताई गई हैं कि आपको बस अभी पूरी त्रिगेड सौंपी जा सकती है।”

किरील चुप रहा। अभिवादन का उत्तर देते हुए उसने जोर से एड़ियां बजाई थीं, पर यह भूल गया था कि वह चमड़े के नहीं, नमदे के बूट पहने हैं, सो पांवों की गति भोंडी सी रही और किरील सकपका गया

“कभी काठी में तो बैठे हैं?” वोरोशीलोव ने पूछा।

“जी हां।”

“कैसा रहा था? टिके रहे थे?”

“जी हां, टिका रहा था।”

वोरोशीलोव ने मुस्कराते हुए सिर हिलाया।

“अच्छा, चलिये।”

वे मेज के परले सिरे पर उन लोगों के पास गये, जो बातचीत रहे थे। यहां कमांडर एक दूसरे से सटे खड़े थे और एक फौजी

धीरे कुछ सुना रहा था। वोरोशीलोव खड़े लोगों का घेरा तोड़कर अंदर घूमा, किरील भी उसके पीछे बढ़ा।

घेरे के बीच में स्तालिन और बुद्योन्नी बैठे थे। सुनानेवाला उनकी ओर भुका घटनों पर कोहनियां टिकाये बैठा था और हाथ हिलाये-डुलाये बिना इतमीनान से कुछ सुना रहा था, प्रत्यक्षतया वह इस बात का आदी था कि लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं।

स्तालिन घनी मूँछों तले से धुआं छोड़ते हुए बीच-बीच में अपनी पैनी नज़र उस पर डाल रहा था।

फौजी कह रहा था: “वोरोनेज के फ़ौरन बाद मैंने मिरोनेन्को को सफेद गार्डों के पीछे भेजा। वह पुरानी फौज में हवलदार था। दोनवास का ब्यनिक है। मैंने उसे हुक्म दिया कि वह अपनी व्हिगेड के साथ हमला करते हुए यह टोह ले कि सफेद गार्ड किन-किन गांवों में हैं, कितने दिनों से ठहरे हुए हैं, किस तरह की उनकी फौजें हैं, वगैरा-वगैरा। काम पूरा होते ही उसे फ़ौरन रपट देने को कहा। सो मैं इंतजार करने लगा—घंटा बीता, दो घंटे, तीन घंटे। आधी रात हो गई। कोई खबर नहीं। आखिर वहूत रात गये हरकारा लिफ़ाफ़ा लाया। लिफ़ाफ़ा खोला, देखा—वस दो पंक्तियां लिखी हैं: ‘दुश्मन सिर पर पैर रखके भाग रहा है—रोस्तोव नगर की ओर’। और रोस्तोव था पूरे पांच सौ मील दूर! ”

स्तालिन हँसा। एक सिगरेट से दूसरी सिगरेट जलाते हुए उसने हर्षमय स्वर में कहा:

“जब सोते-जागते रोस्तोव दिखता हो, तो फिर टोह क्या ली जायेगी! ”

कुछ और लोग बातचीत में शामिल हुए। एक बोला:

“फौजी नियमों का पालन करना मुश्किल हो रहा। अभी उस दिन मैंने नियम के अनुसार सैनिकों को पड़ाव डालकर आराम करने का आदेश दिया। तभी रपट मिली: सिपाही नाराज हो रहे हैं, कहते हैं आराम करने में वक्त बेकार जाता है, आगे बढ़ना चाहिए, दुश्मन को खदेड़ना चाहिए। ”

दूसरे ने कहा:

“बर पहुंचने की जल्दी में हैं। ”

“धर?” स्तालिन ने सहज भाव से पूछा।

“मेरी यूनिट में ज्यादातर सैनिक दोन और कुवान इलाके के हैं। जल्दी-जल्दी वहां पहुँचना चाहते हैं।”

स्तालिन ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ धीरे-धीरे आस-पास जमा लोगों पर नज़र डाली।

“वैसे तो नियमों का पालन होना चाहिए। पर सच पूछें तो मैं इस बात के खिलाफ़ हूँ कि पड़ाव ज्यादा लंबे हों। लगता है, कामरेडों, हमारी बातचीत कुछ ज्यादा ही खिंच गई।”

वह उठ खड़ा हुआ। जो लोग वैठे हुए थे, वे सब उठने लगे, अपनी जेबों से घड़ियां निकालने लगे। स्तालिन ने एक बार फिर से, पर अब गम्भीरतापूर्वक ईर्द-गिर्द खड़े लोगों पर नज़र डाली और पहले की ही भाँति मंद स्वर में बोला:

“मैं दुबारा कहता हूँ: हमें जल्दी करनी चाहिए। अच्छा, कामरेड कमिसारों और कमांडरों, एक बार फिर आपकी सफलता की कामना करता हूँ। उस सफलता की, जो देनीकिन की फौजों का नामोनिशान मिटा देगी। आज बुद्धोन्नी का जो रिसाला हमने देखा है, उससे इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती।”

स्तालिन ने बुद्धोन्नी से हाथ मिलाया और जाने के लिए मुड़ा। वोरोशीलोव ने उसकी ओर कदम बढ़ाया।

“कामरेड स्तालिन, यह सरातोव से कामरेड आये हैं। हमारी नई टुकड़ियों के लिए घुड़सवार दस्ता लाये हैं।”

स्तालिन ने किरील से हाथ मिलाया और सहसा सवालों की झड़ी लगा दी: दस्ता कितना बड़ा है, कैसे लोग हैं उसमें, उन्हें अच्छा प्रशिक्षण मिला है कि नहीं, सफर कितने दिन का था, कहां गाड़ी से उतरे, और फिर यह कि किरील का पूरा नाम क्या है, जारशाही फौज में था कि नहीं, कहां काम किया था, सरातोव में लोगों का हौसला कैसा है।

“कैवेलरी में वालंटियरों की भरती जारी है, लोग खुशी-खुशी भरती हो रहे हैं,” छावनी में हुई सभा याद करते हुए किरील ने कहा।

“बड़ी अच्छी बात है। बोला वाले जोशीले होते हैं, और रिसाले में जोशीलों की कद्र होती है,” स्तालिन ने कहा। “मैं सोचता हूँ

अगर सरातोव वाले दोनबास में देनीकिन का सफाया करने में मदद देंगे, तो इस तरह वे अपनी बोल्ना से भी खतरा टाल सकेंगे।”

उसने बोरोशीलोव की ओर देखा।

“अच्छा, तो अब कामरेड को बुद्धोन्नी के रिसाले में जगह देनी चाहिए।”

“मैं इन्हें ब्रिगेड सौंपने की सोच रहा हूँ,” बोरोशीलोव ने कहा।

“ब्रिगेड काफ़ी होगी? कामरेड देखने में तो नौजवान है, पर मुझे लगता है तपा-मंजा है।”

स्तालिन ने मुस्कराते हुए किरील की ओर हाथ बढ़ाया।

सब लोग दरवाजे की ओर बढ़े। मानव-कठों का गुंजन अधिक जोरदार हो गया। ड्योडी के फ़र्श के पुराने पटरे लोगों के भारी कदमों तले चरमराने लगे।

बोरोशीलोव ने पीछे मुड़कर देखा, दीवार पर टंगे लैम्प की टिमटिमाती रोशनी में किरील का चेहरा देखकर बोला:

“अच्छा तो तुम सुवह मेरे पास आना। तड़के हो!”

सहसा यह ‘तुम’ का संवोधन सुनकर किरील रोमांचित हो उठा, और उसे मन की वह विचित्र स्थिति याद हो आई, जब किशोरावस्था में सरातोव के टीलों पर एक बूढ़े मज़दूर ने जीवन में पहली बार उसे ‘कामरेड’ कहा था और वह अपने मन के आवेग को दवाने के लिए टीलों पर दौड़ चला था।

दरवाजे में से निकलते और ठंड में बिलीन होते भाप के बादल के माथ किरील बाहर आया। अपने नये कामरेडों के साथ वह सैनिकों के रैनवसेरे को चल दिया, वहां आराम करके नये प्रभात का स्वागत करने। उसके सामने सीधा हिमाच्छादित रास्ता था, जो ऊपर ही ऊपर जाता प्रतीत होता था।

पाठकों से

प्रगति प्रकाशन को इस पुस्तक के अनुवाद
और डिज़ाइन के संबंध में आपकी राय
जानकर और आपके अन्य सुझाव प्राप्त
कर वडी प्रसन्नता होगी। अपने सुझाव हमें
इस पते पर भेजें:

प्रगति प्रकाशन,
१७, जूबोक्टी बुलवार,
मास्को, सोवियत संघ।



۸۱

सोवियत संघ में कोन्स्तान्टिन फ़ेदिन की
रचनाएं पंद्रह भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं,
इनकी कुल प्रति-संख्या लगभग ७०,००,०००
है। यूरोप, एशिया और अफ़्रीका में तीस
भाषाओं में फ़ेदिन की पुस्तकें अनूदित हुईं
तथा १३७ बार प्रकाशित हुई हैं।